


— सरल साज़-सामान से वैज्ञानिक प्रयोग

विज्ञान-शिक्षण के लिए
यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पीथे
प्राणी
शिला, मिट्टी और खनिज
ज्योतिष
वायु और वायुदाब
मौसम
पानी
यन्त्र
बल और जड़ता
ध्वनि
उष्मा
चुंबकत्व
विद्युत
प्रकाश
तथा मानव-शरीर
के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए
सरल और सस्ता साज़-सामान
बनाने की विधि



प्रकाशन विभाग

सरल साज़-सामान से वैज्ञानिक प्रयोग

विज्ञान-शिक्षण के लिए
यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

अनुबादक
डॉ गोरख नाथ डी० एस-सी० (एडिट)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

प्रथम संस्करण : अग्रहायण 1885 (दिसंबर 1963)
द्वितीय संस्करण : माद्र 1892 (अगस्त 1970)
तृतीय संस्करण : आषाढ़ 1903 (जून 1981)

मूल्य : 21.00

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रय केन्द्र ● प्रकाशन विभाग

- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
- कामस हाउस, करीमभाई रोड, बालाड पायर, बम्बई-400038
- 8, एस्प्लेनेड इंस्ट, कलकत्ता-700001
- एल० एल० आडीटोरियम, 736 अन्नासलै, मद्रास-600002
- विहार राज्य सहकारी बैंक विल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम-695001
- 10 बी. स्टेशन रोड, लखनऊ-226004

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी फॉर डी डेफ
नई दिल्ली-110067 द्वारा मुद्रित

हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में

यह पुस्तक यूनेस्को द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित 'यूनेस्को सोसं बुक फार सायंस टीर्चिंग' का हिन्दी रूपान्तर है। अनुवाद की भाषा सरल रखी गई है। पारिभाषिक शब्द यथासम्भव बे ही रखे गए हैं जो केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित अथवा स्वीकृत किए गए हैं। मूल पुस्तक में कई स्थानों पर ऐसी सामग्री का उल्लेख है जो भारत में दुष्प्राप्य है। जहाँ सम्भव हो सका है, वहाँ भारतीय सामग्री का उल्लेख कर दिया गया है। कोष्ठकों में अनुवादक के निजी सुझाव रख दिए गए हैं। पुस्तक में जो आठ-दस त्रुटियां मिली हैं, उनका सुधार कर दिया गया है।

—अनुवादक

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रावक्तव्य	5
अध्याय 1. प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान-शिक्षण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव	19
अध्याय 2. सामान्य उपकरण बनाना	39
अध्याय 3. पीढ़ों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री	50
अध्याय 4. प्राणियों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री	69
अध्याय 5. शिलाओं, मिट्टियों, खनिजों और जीवाश्मों के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	79
अध्याय 6. ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री	88
अध्याय 7. वायु और वायुदाब के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	99
अध्याय 8. भौसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	119
अध्याय 9. पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	132
अध्याय 10. घन्तों के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	151
अध्याय 11. बल और जड़ता के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	160
अध्याय 12. ध्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	169
अध्याय 13. उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	182
अध्याय 14. चुंबकत्व के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	201
अध्याय 15. विद्युत के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	211
अध्याय 16. प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	246
अध्याय 17. मानव-शरीर के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	264
अध्याय 18. शिक्षकों के लिए कुछ उपयोगी टिप्पणियाँ	271
परिशिष्ट-क तौल और माप	285
परिशिष्ट-ख तारे और ग्रह	288
परिशिष्ट-ग तत्वों की सारणी	292
परिशिष्ट-घ शिलाएं और खनिज	294
परिशिष्ट-ड घनत्व-सारणी	297
परिशिष्ट-च उष्मा सम्बन्धी स्थिरांक	298
परिशिष्ट-छ आपेक्षिक शार्दूलता	300
परिशिष्ट-ज ग्रीक वर्णमाला	302

प्रावक्यन

संसार भर की पाठशालाओं में पाठ्य-विषय के रूप में विज्ञान का अपना अलग ही स्थान है। कारण यह है कि विज्ञान का शिक्षण सफलतापूर्वक करने के लिए हमें विविध सामग्री और प्रयोगों की आवश्यकता पड़ती है। यदि पेसिल, कागज, श्यामपट्ट, पाठ्य-पुस्तकों और कुछ अनुभूति साधन आदि उपलब्ध हों, तो अधिकांश अन्य विषय सिखाए जा सकते हैं। विज्ञान के शिक्षण के लिए भी ये साधन आवश्यक हैं, परन्तु यदि केवल इतने ही साधन प्राप्त हों तो विज्ञान एक नीरस और अरोचक विषय हो जाता है।

यदि विज्ञान को सफलतापूर्वक सीखना है तो इसका अनुभव करना आवश्यक होगा। विज्ञान को सीखना आवश्यक है न कि विज्ञान के बारे में जानना। विज्ञान प्रत्येक बालक के इतना निकट है कि इसके अध्ययन को पाठ्य-पुस्तकों के पढ़ने और व्याख्यान सुनने तक ही सीमित रखना उपयुक्त न होगा। संसार में हम जहाँ भी जाएं, हम देखेंगे कि विज्ञान पर्यावरण का अर्थात् जीवित प्राणियों, पृथ्वी तथा आकाश, वायु तथा जल, उष्मा तथा प्रकाश, और अन्य शक्तियों यथा गुरुत्व बल का अभिन्न अंग है। कोई कारण नहीं कि कोई भी शिक्षक विज्ञान के अध्ययन से सम्बन्धित नूतन सामग्री से वचित रहे।

विज्ञान को उत्तम रीति से पढ़ाने के लिए प्रेक्षण और प्रयोगों का सहारा लेना आवश्यक है। इनके बहसे किसी अन्य रीति से काम नहीं चल सकता। परन्तु प्रयोग करने और सूक्ष्म प्रेक्षण सीखने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, और संसार के कई भागों में, विशेषकर प्रारम्भिक और आद्य माध्यमिक स्कूलों में, ये प्राप्त नहीं होतीं। परिणाम यह होता है कि इन स्थानों में विज्ञान-शिक्षण को बड़ी विषय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर लोगों की यह व्यारणा है—यद्यपि यह असत्य है—कि प्रयोग-शालाओं की सहायता से शिक्षण देने में, चाहे यह प्रारम्भिक स्तर पर ही क्यों न हो, व्यावसाधिक निर्माताओं द्वारा बनाए गए जटिल उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की सामग्री अविकांश प्रारम्भिक और आद्य माध्यमिक स्तर के शिक्षण के लिए इतनी महंगी पड़ती है कि उनकी चर्चा ही व्यर्थ है, और संसार के कई भागों में ऐसी सामग्री एकदम अप्राप्य है, क्योंकि न तो वह वहाँ बनती ही है और न अधिक मूल्य के कारण बाहर से मंगाई ही जा सकती है।

द्वितीय महायुद्ध के अन्त में बद्रुत-से देशों में अनेकों पाठशालाएं नष्ट हो चुकी थीं। जब ये पाठशालाएं फिर से पनपने लगीं तो उन्हें वैज्ञानिक साज़-सामान की बड़ी आवश्यकता पड़ी। कारण यह था कि इन देशों में प्रेक्षण और प्रयोगों के आधार पर विज्ञान की शिक्षा देने की परम्परा थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यूनेस्को ने एक छोटी-सी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया। इसका शीर्षक था : सज्जेशास्स फार सायंस ट्रीबर्ज इन डिबैंस्टेटिड कण्ट्रोज़ (उजड़े देशों में विज्ञान-शिक्षण के लिए सुझाव)। इस पुस्तक के लेखक थे श्री जे० पी० स्टीफेनसन (विज्ञान-शिक्षक, सिटी ऑफ़ लण्डन स्कूल, यूनाइटेड किंगडम)। उजड़े देशों के लिए तो यह अस्त्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई ही, परन्तु साथ ही उन क्षेत्रों में भी इसे आश्चर्यजनक सफलता मिली जहाँ पहले साज़-सामान कम अथवा कुछ भी नहीं थे। इस पुस्तक में सरल सामग्री से साज़-सामान बनाने और उनके उपयोग पर बल दिया गया है, इसलिए इस पुस्तक ने उन देशों में एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की है जहाँ शिक्षक यह अनुभव करने लगे हैं कि छोटी-से-छोटी कक्षाओं में भी वैज्ञानिक प्रयोगों को स्वयं करना आवश्यक है। पुस्तक के कई संस्करण निकल चुके हैं, और इसका अनुवाद फ्रेंच, स्पैनिश, चीनी, थाई और अरबी भाषाओं में हो चुका है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पिछले कुछ वर्षों में, यूनेस्को ने उन क्षेत्रों में, जहां सरल साज़-सामान के निर्माण और उपयोग की अधिक आवश्यकता है, कई विज्ञान-शिक्षण विशेषज्ञों को सहायतार्थ भेजा है। इन विशेषज्ञों को स्टीफेनसन की पुस्तक में सुझाए गए प्रयोगों को और सामग्री को बनाने और उनका परीक्षण करने का अवसर मिला है। उनको ऐसी अन्य सामग्री का पता लगाने तथा ऐसे अन्य प्रयोगों की युक्ति जानने का भी अवसर मिला है, जो उष्ण देशों के लिए अधिक उपयुक्त है। स्टीफेनसन की पुस्तक ऐसे देशों के लिए नहीं लिखी गई थी। इन क्षेत्र-विशेषज्ञों के काम और साथ ही स्टीफेनसन की पुस्तक के कारण सरल उपकरणों और वैज्ञानिक प्रयोगों के सम्बन्ध में एक विशाल जानकारी (ज्ञान-राशि) सम्मुख आई, जिसे एक पुस्तक में संकलित करके बर्णन करना आवश्यक हो गया। इसी आवश्यकता के फलस्वरूप 'यूनेस्को सोर्स बुक फार सायंस टीचिंग' (विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ) की रचना के लिए प्रेरणा मिली है।

इस पुस्तक में संकलित सामग्री के प्राप्ति सूत्रों की यथोचित अभिस्वीकृति पृष्ठ 7 पर है।

यह मान कर कि किसी भी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में विज्ञान और समस्या-समाधान की वैज्ञानिक रीति को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, और इस आशा से कि यह पुस्तक सभी जगहों के विज्ञान-शिक्षकों को अपने महत्वपूर्ण कार्य में सहायता पहुंचाएगी, यूनेस्को इसे प्रस्तुत कर रहा है। यहां यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि विज्ञान पूरी सफलता के साथ तभी सिखाया और सीखा जा सकता है, जब शिक्षक और छात्र, दोनों सामूहिक तथा व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा समस्या-समाधान करने का अभ्यास करें। प्रयोग करने और उनके लिए सरल उपकरणों में और भी सुधार करने के काम को अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग समझा जाना चाहिए। इस प्रकार इस पुस्तक में प्रायः सभी देशों में साधारणतः पाई जाने वाली सामग्री से अनेक छोटे-मोटे उपकरण बनाने की विधि बताई गई है। इसमें विज्ञान के सैकड़ों प्रकार के प्रयोग हैं, जिनमें से शिक्षक उन प्रयोगों को चुन सकता है जो प्रेक्षण के द्वारा बालकों को सफल ज्ञान देने में सहाय अधिक उपयुक्त हों।

स्वयं बनाए गए इन उपकरणों को कभी कामचलाऊ-मात्र नहीं समझना चाहिए। यहां प्रयोग करने और उपकरण बनाने के जो अभ्यास दिए गए हैं, वे विज्ञान-शिक्षण की सर्वोत्तम परम्परा में हैं। विज्ञान के महान् आचार्यों में से अनेक ने इस प्रकार के स्वयं बनाए गए उपकरणों का उपयोग किया है और बड़े आविष्कारों में से अनेक इसी प्रकार के यन्त्रों से हुए हैं।

इस पुस्तक के लिए पूर्णता का कोई दावा नहीं किया जा सकता। उपलब्ध सामग्री की प्रचुरता के कारण यह निर्णय करना कठिन हो गया कि क्या चुना जाए और क्या छोड़ा दिया जाए। परन्तु आशा की जाती है कि प्रस्तुत पुस्तक पथ-प्रदर्शक का काम करेगी और शिक्षक तथा छात्रों को प्रेरणा देगी कि वे अपनी विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं को स्वयं चुनें और तब अपन-अपन स्थान पर उपलब्ध सामग्री से प्रयोगों के लिए आवश्यक उपकरण बनाएं।

कृतज्ञता-प्रकाशन

विज्ञान विश्वव्यापी है और यह सीमाओं में बंधना नहीं जानता। कई देशों के कार्यकर्ताओं ने मानव-विमुख जगत से मानव-ज्ञान के इस विस्तृत भण्डार को एकत्र किया है। यह बहुत ही उचित और उपयुक्त है कि इस पुस्तक—‘विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ’—में अनेक देशों के अनुभवी विज्ञान-शिक्षकों के कार्यों का संग्रह किया गया है। मिल-जूल कर अनुभवों का लाभ उठाने से ही विज्ञान-शिक्षण की उन्नति हो सकती है और उसमें आगे बढ़ने की शक्ति आ सकती है।

जिन लोगों ने इसके निर्माण में योग दिया है, उन सबका उल्लेख करना एकदम असम्भव है। इसमें लोगई अधिकांश सामग्री का स्रोत भूतकाल के गम्भीर में और सभी जगहों के विज्ञान-शिक्षकों के सम्मिलित दाय का एक अंग बन गया है। उन लोगों में से, जिनके लेखों से प्रत्यक्ष रूप से यह ग्रन्थ सम्भव हो सका है, लण्डन स्कूल के प्रोफेसर जे० पी० स्टीफेनसन का सर्वप्रथम उल्लेख करना चाहिए। उनके और उनके सहयोगियों के हम झट्टी हैं; हमने उनके लिखे और यूनेस्को द्वारा पूर्व प्रकाशित ‘सजेशन्स फार सायंस टीचर्स इन डिवैस्टेटिड कण्टीज़’ से बहुत-सी सामग्री ली है। विज्ञान-शिक्षण पर इस छोटी पुस्तक का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है और विज्ञान-शिक्षण सम्बन्धी साहित्य में वह एक उच्चकोटि की पुस्तक मानी गई है।

निम्नलिखित सज्जन भी धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र हैं :

मेरीसैण्ड यूनिवर्सिटी के डाक्टर ग्लेन ब्लाउ और यूनाइटेड स्टेट्स शिक्षा कार्यालय, वार्षियटन, श्री० सी०, के डाक्टर पाल ब्लैकबृड, जिन्होंने प्राथमिक विज्ञान-शिक्षण पर संयुक्त रूप से लिखी गई अपनी दो पुस्तिकाओं से कुछ अंश लेने की अनुमति प्रदान की; नेशनल सायंस टीचर्स एसोसिएशन, उसके मन्त्री श्री रावर्ट कार्लिंटन और उनके द्वारा नेवाक टीचर्स कालेज के श्री गाई ब्रूस, जिन्होंने अपनी लेख-भाला ‘सायंस टीचिंग टूडे’ (आज का विज्ञान-शिक्षण) से सामग्री लेने की उदारतापूर्वक अनुमति दी; और न्यूयार्क के प्रान्तीय शिक्षा विभाग को, जिसने अपन प्रकाशन ‘द जनरल सायंस हैण्डबुक (सामान्य विज्ञान की लघु पुस्तिका), खण्ड 1 और 2, दोनों से सामग्री लेने की अनुमति दी।

दिसम्बर, 1956 में ‘यूनेस्को सोसेर्व बुक फार सायंस टीचिंग’ पहली बार प्रकाशित हुई थी। तब से अनेक बहुमूल्य टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं, और संसार के सभी भागों में पत्र-पत्रिकाओं में इसकी समालोचनाएं छपी हैं। इनके परिणामस्वरूप प्रत्येक पुनर्मुद्रण में छोटे-मोटे परिवर्तन किए गए हैं। अंग्रेजी में यह चतुर्थ सुदृष्टि है, फैच संस्करण दूसरी बार छप रहा है और अन्य भाषाओं में शीघ्र ही अनुवाद छपने वाले हैं।

निम्नलिखित व्यक्तियों ने उपयोगी सुझाव भेजे हैं :

शिक्षा विभाग, क्रीन्सलैण्ड यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया, के डाक्टर एफ० ज० ओलसेन, जो आस्ट्रेलियन सायंस टीचर्स एसोसिएशन के भूतपूर्व सभापति भी है, लण्डन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट आव एजुकेशन के डाक्टर इल्यू० लोवार्च और फिलीपीन में विज्ञान-शिक्षण की एक भूतपूर्व यूनेस्को विशेषज्ञ डाक्टर वीडा रिसबर्ग।

इस पुस्तक का उद्देश्य

संसार में ऐसे अनंत स्थान हैं जहाँ विज्ञान सिखाने के लिए सुविधा और उपकरण, दोनों ही की कमी है। ऐसे स्थान उन क्षेत्रों में भी हैं जहाँ विज्ञान का उपयोग अधिक विकसित है, तथा अन्य क्षेत्रों में भी। यह ग्रन्थ इसलिए लिखा गया है कि प्रेक्षण और प्रयोग का अधिकाधिक आश्रय लेकर पाठशालाओं और शिक्षण-संस्थाओं में सर्वत्र विज्ञान के विकास की उन्नति करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाए।

मूल उद्देश्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

1. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में विज्ञान सिखाने की रीतियों के लिए एक आधार प्रस्तुत करना ताकि शिक्षण-कार्य अधिक उन्नत हो सके।
2. प्रारम्भिक और माध्यमिक पाठशालाओं के विज्ञान-शिक्षकों के लिए विद्यार्जन सम्बन्धी अनुभवों और सामग्री को लेकर एक उपयोगी आकर ग्रन्थ बनाना।
3. अध्यापन में लगे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली कर्मशालाओं (वर्कशाप्स) तथा पाठ्यक्रमों को ध्यान में रख कर एक ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत करना, जिसको विज्ञान-शिक्षण की रीतियां सिखाने के लिए थोड़ा-बहुत आधार बनाया जा सके।
4. शिक्षण-सामग्री का ऐसा समूह एकत्र करने के लिए आधार प्रस्तुत करना जो अन्य संस्थाओं को मंगनी दिया जा सके और जिसमें विज्ञान सम्बन्धी सरल उपकरण हों।
5. सायंस क्लबों तथा विज्ञान सम्बन्धी अन्य अव्यवसायी कार्यों के लिए कुछ मार्गदर्शी सामग्री उपस्थित करना।
6. एक माडल या ढांचा उपस्थित करना, जिसका आयोजन और विकास इस प्रकार हुआ हो कि वह अनेक देशों में वहाँ की विज्ञान-शिक्षण की परिस्थितियों के अनुसार सुगमता से अपनाया जा सके और वहाँ की राष्ट्रभाषा में अनुदित हो सके।

इस पुस्तक के उपयोग के लिए कुछ सुझाव

शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में

प्रशिक्षण पाने वाले तरुण शिक्षक, विज्ञान को सफलतापूर्वक सिखाने की पद्धति कालेजों में व्याख्यान सुनने से ही नहीं सीखते, आगे चल कर कक्षा में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान करना उन्हें अपने शिक्षण-काल में ही थोड़ा-बहुत सीखना चाहिए। सामान्य रीति के शिक्षण-क्रम की अपेक्षा विज्ञान-शिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए—कारण यह है कि स्कूलों की पाठ्यचर्या में विज्ञान एक अपूर्व विषय है, क्योंकि इसमें विशेष सामग्री, उपकरण और कार्य-प्रणाली का उपयोग होता है। यदि विज्ञान-शिक्षण का स्तर ऊँचा करना है, तो विज्ञान-शिक्षण की तकनीक का प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षण कालेज की पाठ्यचर्या में एक विशेष पाठ्यक्रम रहना चाहिए।

विज्ञान-शिक्षण की विधियों के पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्य अधिक होना चाहिए, जिसमें तरुण शिक्षकों को यह सिखाया जाए कि जहाँ वे पढ़ाएंगे, उस स्थान में उपलब्ध सामग्री से वे कैसे प्रयोगशाला के लिए सरल उपकरण बनाएंगे तथा उनकी प्रकल्पना, डिजाइन और उनका निर्माण कैसे करेंगे। केवल इसी तरह के शिक्षण से वे प्रेक्षण और प्रयोग द्वारा शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

इस प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम में तहरण शिक्षक को अपने प्रथम अध्यापन-कार्य की पूर्ति के लिए कई-एक उपकरण बनाने का अवसर मिलना चाहिए। उसे शिक्षण-उपकरण-सम्भारों (किट) के प्रधान अंगों का संघटन करना सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करता चाहिए।

विज्ञान-शिक्षकों के लिए आकर ग्रन्थ

अनेक शिक्षक, जिन्हें कभी विज्ञान के अध्ययन का अवसर नहीं मिला है, विज्ञान पढ़ाने से डरते हैं। इस हिचक का कारण बहुधा यह होता है कि वे या तो उपकरण संचित करना नहीं जानते या फिर उनके पास इसके विशिष्ट अध्ययन का अनुभव नहीं रहता। ऐसे शिक्षक इस पुस्तक को आवश्यक सरल उपकरण बनाने की विधियों का ज्ञान-स्रोत और साथ ही विज्ञान की पाठ्यबर्या का प्रायः कोई भी अंश पढ़ाने के लिए विविध अध्यापन-अनुभवों का भण्डार भी समझ सकते हैं। इस प्रकार उनकी पढ़ाई अधिक सफल और उन्नति-शील हो जाएगी।

यह पुस्तक विज्ञान के लिए छात्रों की रुचि का स्तर ऊंचा करने और उसे बनाए रखने में भी सहायता दे सकेगी। बालक स्वभाव से ही प्रयोगात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। वे जानना चाहते हैं कि घटनाएँ क्यों होती हैं और अपनी कल्पनाओं को वे कार्य-रूप में ढालना चाहते हैं। पाठशाला के बाहर भी बच्चे बराबर प्रयोग करते रहते हैं। अनेक बच्चे उपकरण बनाने में सहायता, और कक्षा में प्राप्त अनुभवों का परीक्षण करना चाहेंगे।

जिन उपकरणों के बारे में यहां सुझाव दिए गए हैं, उनकी रचना में तथा भावी प्रयोगों के लिए उपयोगी उपकरण सम्भार (किट) बनाने में छात्र-समितियों की सहायता ली जा सकती है। यदि पाठशाला में कोई कर्मशाला है तो शिक्षक छात्रों को वैज्ञानिक उपकरण-निर्माण के लिए कोई विशेष प्रायोजना सौंप कर उनकी सहायता कर सकता है।

कर्मशाला अध्ययन-सम्मेलन के लिए विज्ञान-शिक्षण के आधार के रूप में


नौकरी में लगे शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कर्मशाला अध्ययन-सम्मेलन अब एक प्रतिष्ठित और विस्तृत रूप से प्रयुक्त संस्था है। इस प्रकार के सम्मेलन विज्ञान-शिक्षकों के लिए संसार के कई भागों में हुए हैं। वे शिक्षक, जो इन दिनों पढ़ा रहा हैं, केवल ऐसे ही सम्मेलनों के कारण अपनी शिक्षण-पद्धतियों में उन्नति करने और अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किए जा सकते हैं।

विज्ञान-शिक्षण की रीतियां बताने और उन प्रयोगशालाओं के काम के लिए, जहां शिक्षकों को मामूली कामचलाऊ उपकरण बनाने की शिक्षा दी जाए, यह पुस्तक एक उपयोगी आधार का काम दे सकती है। अपने दूलाके के अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

विज्ञान-शिक्षण के सरल उपकरण सम्भार का बन्धक संग्रह (लोन लाइब्रेरी) बनाने के लिए आधार भूमि उपस्थित करना

सबसे अच्छा तो यह होगा कि प्रत्येक पाठशाला में ही विज्ञान के विविध अंगों को पढ़ाने के लिए आवश्यक सब सरल उपकरण बना लिए जाएं। परन्तु समय अथवा धन के अभाव के कारण कदाचित् ऐसा सम्भव न हो सके तो दूसरा मार्ग यह है कि प्रयोगों के लिए सरल उपकरणों के सम्भारों को कहीं-कहीं संचित कर लिया जाए, जो औरों को मंगनी दिया जा सके। प्रत्येक सम्भार को एक मजबूत पेटी में एकत्र करना चाहिए, जिसमें कब्जेदार ढक्कन हो, और ठीक बन्द किया जा सके; तब इन सम्भारों को किसी केन्द्रीय पाठशाला में रखा जाता है और पड़ोस की पाठशालाओं के शिक्षकों को मंगनी दिया जाता है—बहुत-कुछ उसी तरह जिस तरह, पुस्तकालय से पुस्तकों मंगनी दी जाती है। प्रत्येक सम्भार में पेटी के भीतर की सामग्री की सूची रहती है, और प्रयोग करने की विधियों की भी।

कार्य-प्रणाली इस प्रकार है। मान लीजिए कि सम्भार एकत्र करके केन्द्र में स्थित किसी पाठशाला में रखे गए हैं। सम्भवतः वहाँ के शिक्षक इस बात का उत्तरदायित्व ले लेंगे कि ये उपकरण-सम्भार अच्छी दशा में बने रहें और उनके लेन-देन के आवश्यक लेखे रखे जाएं। प्रत्येक उपकरण-सम्भार के लिए एक कार्ड बना लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि अभुक पाठशाला का एक शिक्षक आगामी सप्ताह में अपनी कक्षा को चुंबकत्व सिखाने की योजना बनाता है। वह उस पाठशाला में जाएगा, जहाँ उपकरण-सम्भार रखे हैं। वह एक कार्ड पर लिखेगा कि उसे चुंबकत्व सम्बन्धी सम्भार की आवश्यकता कब पड़ेगी और वह उसे कब लौटाएगा। वह सम्भार जिस शिक्षक के पास है, वह इस शिक्षक के कार्ड को लेकर उपकरण-सम्भार बाले कार्ड पर उसका नाम, पाठशाला और तारीख लिख देगा और उसे वह सम्भार दे देगा। तब सम्भार लेने वाला शिक्षक अपनी कक्षा में उपकरण-सम्भार का उपयोग करेगा। काम पूरा होने के बाद सूची से मिला कर सावधानी से सामग्री की जांच की जाती है और अगर कोई चौजा टूट-कूट गई हो, तो उसे लिख लिया जाता है। तब उपकरण-सम्भार को संग्रहालय में लौटा दिया जाता है।



सरल उपकरण-सम्भारों का संग्रहालय बनाने की प्रायोजना कई विधियों से बनाई जा सकती है। एक विधि यह होगी कि ऊपर बताए गए नमूने के अनुसार बढ़ी-गरीबी की पाठशाला के लड़कों से पेटियों ली जाएं या किसी केन्द्रीय स्थान में उपकरण-सम्भार बनाए जाएं या सहकारी रीति से प्रत्येक शिक्षक अपने छात्रों सहित एक उपकरण-सम्भार बनाने तथा उसके लिए सामग्री को संघटित करने का उत्तरदायित्व ले।

दूसरी योजना यह होगी कि किसी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था के विद्यार्थियों को पड़ोस की पाठशालाओं के लिए यन्त्र-सम्भार बनाने का कार्य सौंपा जाए।

विज्ञान क्लब के कार्यकलापों के लिए आकर ग्रन्थ

विज्ञान क्लबों के संचालकों के सामने बहुधा यह समस्या खड़ी हो जाती है कि अपने सदस्यों के लिए कौन-सी प्रायोजना और कार्यकलाप निर्धारित करें, जो सचमुच करने-योग्य हों। इस पुस्तक में सुझाई अनेक प्रायोजनाएं और प्रयोग सभी विज्ञान क्लबों की प्रायोजनाओं के लिए उपयुक्त हैं। इनका उपयोग हर आयु के तरुण और अल्पवयस्क कर सकते हैं।

अनेक वेशों के लिए वैज्ञानिक सामग्री और कार्यों का आदर्श ढंग उपस्थित करना

इस पुस्तक का ग्राहक-प्रकार ऐसा रखा गया है और सामग्री इस प्रकार चुनी गई है कि यह प्रायः किसी भी स्थानीय परिस्थिति के लिए उपयुक्त मात्री जा सकती है। इसकी पाठ्य-सामग्री और इसके सरल रेखा-चित्र सुगमता से पुनः प्रकाशित किए जा सकते हैं।

सरल उपकरण बनाने के लिए आवश्यक औजार

प्रत्येक पाठशाला में, जहाँ प्रारम्भिक अश्वास सामान्य विज्ञान सिखाया जाता है, किसी-न-किसी प्रकार का कार्य-भंज (बर्क-बेच) होना चाहिए जहाँ सरल उपकरण बनाए जा सकें। इस काम के लिए किसी भी पुरानी मेज का उपयोग किया जा सकता है। यदि कार्य-भंज के लिए स्थान न हो तो कुछ मामूली तस्तों को आवश्यक नाप का काट कर स्कूल की किसी मेज पर रखा जा सकता है। मेज को धृति पहुँचने से बचाने के लिए इन तस्तों के नीचे कपड़े (या समाचारपत्रों) की गही लगाई जा सकती है। कार्य-भंज से ऐसा स्थान मिल जाएगा, जहाँ आरी और हथौड़ा लगाया जा सके (भारत में तो बहुत-सा काम भूमि पर बैठ कर ही किया जा सकता है)। पर्याप्त मात्रा में पुराने समाचारपत्र प्राप्त होने पर उनका उपयोग फर्श पर बिछा कर किया जा सकता है, विशेषकर जब वस्तुओं की रंगाई करनी हो। नीचे उन सरल औजारों की सूची दी जा रही है, जिनकी आवश्यकता सरल उपकरण बनाने में पड़ती है:—

हथौड़े

- छोटे-बड़े पेचकस
- प्लास,
- लकड़ी काटने की छोटी आरी
- लोहा-आरी (हैक)
- छोटा रुदा
- लकड़ी वाली रुखानी या छेनी
- हाय बर्मा (ब्रेस) और कल (बिट्स)
- बर्मा
- टीन काटने की कतरनी
- गोल रेती
- तिकोनी रेती
- चपटी रेती
- कलम बनाने की लुरी

मीटर माप

- कांच काटने की कलम
- संकरी आरी (बक काटने की)
- डिब्बा खोलने का यन्त्र (टिन-ओपनर)
- कपड़ा काटने की कैची
- छोटा बांक (बाइस) जो मेज पर लग सके
- निहाई (या लोहे का कोई भारी टुकड़ा)
- रेग्याल
- बड़ी छुरी
- इस्पात का घूआ (स्टील बूल)
- चमड़े में छेद करने की सुम्मी (पंच)
- कहिया और टांका
- छोटे-बड़े रेच।

सामान और सामग्री

सरल उपकरण बनाने के लिए आवश्यक सामग्री तो स्थान तथा कक्षा के अनुसार बदलती रहेगी, परन्तु कुछ आधारभूत सामग्री तथा उनके प्राप्ति स्थानों का उल्लेख किया जा सकता है।

धर से

- विविध नापों के पुराने बरतन (तस्ले)
- थाली और परात, (तामचीनी की)
- बड़े चम्मच
- चाय के चम्मच
- प्यालियो और तश्तरियों
- बड़ी तश्तरियों (डिनर प्लेट्स)
- गहरी तश्तरियों (सूप प्लेट्स)

बोतलें और शीशियां (विविध आकार तथा नाप की)

- विविध नापों के टीन के डिब्बे (ढक्कनदार और बिना ढक्कन के)
- कांच के अमृतबान (विविध आकार और नाप के)
- बागबानी के औजार
- दस्ती औजार
- स्थाही की शीशियां

कांच के गिलास	विविध नापों के स्टेपल
कंधियां	छोटी कीले
नमकदानियां, जो नमक छिड़कने के लिए होती हैं	छोटे सिर वाली छोटी कीले
साबुन	तागा और टुग्राइन
पुराने विजली के बल्ब	रस्सी—पतली
स्थाही	दर्पण
तार के कोट-टांगने वाले हैंगर	विविध नापों के कांच के अमृतबान
फल रखने के अमृतबान	छिड़की में लगाया जाने वाला कांच
गमले (फूलों के लिए)	बाशर
कपड़े टांगने के किलाप	विविध नाप के हुँक
पुराने जूतों का नरम चमड़ा	टार्च की बैटरिया
दूध की बोतलें	धातु के बल्ब
धार्म वाली लकड़ी की रीतें (खाली)	धातु की चादरें
पुरानी दीवार-घड़ियां	धातु की छड़े
रेझर ब्लेड	तापमापी (थर्ममीटर)
पुराने विद्युत-यन्त्र	अण्डा फेंठने की फिरकी
वाल्य-यन्त्र	भोमबत्सियां
विविध प्रकार के कपड़े	बड़ी बाल्टी
ऊर्णाजिन (फर)	पर्दा टांगने की छड़े
समाचारपत्र	दिक्षुचक—चुबकीय
कागज के थैले	मिट्टी के तेल वाले लैम्प
दांत के पुराने छुशा,	लैम्प की चिमनियां
काग की चटाइयां (जो चायदानी आदि के नीचे रखी जाती हैं)	तार की जाली
प्लास्टिक के गिलास या प्लास्टिक	विविध नाप के काग
अल्मीनियम तथा प्लास्टिक की नलिकाएं (पुरानी पंखयुक्त कलमों से)	धातु और प्लास्टिक की कीपें
दूध की बोतलों के अल्मीनियम के बने उक्कत	रबड़-नलिका
लोहे का तथा अन्य साधारण बेचने वालों से	धातु-नलिका
विविध नापों की काले	महीन सूडियां
विविध नापों के काटे	श्रोटी सूडियां
विविध नापों के पेच	बुनने की सलाइयां
विविध नापों के काढ़ने (बोल्ट) और डिबरियां	तल नापने का यन्त्र (लेवल)
स्कू आइज़ (लोहे के छोटे छल्ले, जिनमें पेच जुड़ा रहता है)	रेगमाल
कमानियां	चिरनियां
नापने का फीता	तार तानने के पेच (टर्न बकल्स)
डोर (मजबूत और चिकनी)	इस्पात का धूआ
	सरेस तथा चिपकाने का अन्य घरेलू सीमेंट
	पीतल, तांबा और लोहे के तार
	ओजार
	रबड़ की डाटें

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

रंगलेप (पेट)	फ्युअल पम्प
बार्निश	विद्युत् मोटर
टार्च (फ्लैश लाइट)	विद्युत् जनित्र
लोहा-आरी के फल (हैक-सा ब्लेड)	गियर
कैची	गोली लाम (बाल बेर्यरिंग)
टीन काटने की कतरनी	गढ़ी की कमानियाँ
धातु की गेंद	स्पीडोमीटर का चुंबक
लकड़ी की गेंदें	सामने की बत्तियों के लैन्स
थाली	सामने की बत्तियों के बल्ब
तेल के डिब्बे	ओजार
तेल	धातु की नलिका
टीन की प्याली	पुरानी (बेकार) कुण्डलियों (काइल्स) के तार
अल्मीनियम की प्याली	इंजिन
पाइरेक्स (अग्नि-सह कांच) की तश्तरियाँ	पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण
पाइरेक्स (अग्नि-सह कांच) की बोतलें तथा शीशियाँ	प्रतिरक्ष शीशा (गाड़ियों के पीछे लगा हुआ शीशा)
छोटी चिमटी	इस्तेमाल किया हुआ तेल
कील उखाड़ने का ओजार	रेडियो मरम्मत की दुकान से
छलनी	रेडियो सेट
स्पिरिट लैम्प की बत्ती	पुरानी कुण्डलियों के तार
ऐस्बेस्टस की चादरें	परिणामित्र (ट्रांसफार्मर)
बैटरी पात्र	पुराने रेडियो ट्यूब
पिने (आलपिने)	विद्युत् से सम्बन्धित ओजार
इष्टिका और ढोर (ब्लाक एंड टैकल)	कुण्डलियाँ
जैक पेच	परिणामित्रों के क्रोड़
थरमस बोतलें	संघनित्र (कंडेसर)
मोटरकार-मरम्मत की दुकान से	
पुराने रबड़ टायर	धारा-नियन्त्रक (रिपोस्टैट)
पुराने भीतरी ट्यूब (रबड़ के)	टांका
भीतरी ट्यूब के बाल्ब	धातु प्लेटें (धातु की मोटी चाकरें)
पुरानी संचायक बैटरियाँ (मोटर की)	पुरानी रेडियो कैबिनटों का प्लास्टिक
बैटरी में डालने का अन्न	खाद्य पदार्थ बेचने वाले की दुकान से
पुरानी मोटरकारों का सुरक्षा-कांच (सेफ्टी ग्लास)	अमोनिया
स्कुलिंग प्लग (स्पार्क प्लग)	पाक चूर्ण (बेकिंग पाउडर)
ऐम्पायी (ऐमीटर)	पाक सोडा (बेकिंग सोडा)
कार्बूरेटर	विरंजन चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर)
संगलक (फ्यूज)	नील
सामने की बत्तियों (हेड लाइट) के बक्स परावर्तक	शीरा (कार्न सिरप नमक)
(रिफ्लेक्टर)	एप्सम

दियासलाई
खनिज तेल (मिनरल आयल)
पेराफिन
मधुमक्खी का भोम
मुहर को लाख
स्टार्च
डोरी
चीनी
कागज के थैले
स्वच्छ नमक
तारणीन
सिरका
बक्सों के तस्ते
गते के बक्से
लकड़ी के बक्से
टीन के डिब्बे
जिलैटिन
खाने का तेल
सुअर की चर्बी
बीज

मकान बनाने का सामान बेचने वाले को इकान से
एस्बेस्टस चादरें
तस्ते
कील-कांटा आदि (हार्डवेअर)
विसंवाही सामग्री
पर्टी लकड़ी (प्लाईवुड)
प्रस बोर्ड
रस्सी
रंगलेप
वार्निश
तार की जाली
लकड़ी का बुरादा
चूना
सीमेंट
ईंट
नालियों के टूटे पाइप
गोल (गुज्जी) छड़
लकड़ी की इष्टिकाएं (ब्लाक),

लकड़ी के प्रिज्म

यन्त्रशालाओं से
गोली लाम (बाल ब्रेयरिंग)
गियर
लोहे की चादर
पीतल की चादर
तांबे की चादर
पीतल की छड़
लोहे की छड़
लोहे का बुरादा
धातु के रही टुकड़े या कतरने

दवाखानों से

आगर
तूतिया
खनिज तेल (मिनरल आयल)
सैकरीन
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
नाइट्रिक अम्ल
सोडियम हाइड्रोक्साइड
सिल्वर नाइट्रेट
प्राथमिक चिकित्सा की सब सामग्री
सेलोफेन
बीफ एक्सट्रैक्ट
छोटी शीशियां
रबड़ की चादर
पिसा हुआ गन्धक
बोरिक अम्ल
मैग्नीज डाइ-आक्साइड
निपकाऊ पट्टी
लकड़ी के जीभ-दाब (टंग डिप्रेसर्स)
तापमापी (थर्ममीटर)
रंग
स्याही
आयोडिन
सुंगमरमर के कतले
दवा टपकाने की नलिका
हजामत बनाने का दर्पण
कांच की नलिकाएं

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

शीशियां	छोटा छकड़ा (वैगन)
खोटी शीशियां	पिण्यांग की गेंदें
पेटोन	चाबीदार या यान्त्रिक खिलौने
स्पंज	रंगीन खड़िया
परीक्षण-नलिकाएं	बाष्प इंजिन
लिटमस कागज	बाष्प टरबाइन
पोटैसियम क्लोरेट	बैद्युत खिलौने
पेरिम प्लास्टर (प्लास्टर आक पेरिम)	रबड़ के गुब्बारे
चश्मों आदि की दुकान से	बच्चों के वाद्य-यन्त्र (खिलौने)
पुराने कैमरे	रबड़ की गेंदें
लैन्स	प्लास्टिक के खिलौने
आवर्धक लैन्स (रीडिंग म्लास लैन्सेज)	फुटबाल पम्प अनुकूलक
चश्मे के पुराने लैन्स (गुदड़ी बाजार से)	साइकिल मरम्मत की दुकान से
नलकार और टीन बालों से	साइकिल के पुराने पहिए
लोहे का रही पाइप	परियों की तीलियां (स्पोक्स)
सीसा धातु का रही पाइप	भीतर की द्यूब
धातु की चादर	टायर के बाल्ब
रबड़ की चूषण प्यालियां (सक्षान कप)	दन्तिचक (स्प्रोकट ब्हील)
पुरानी टोटियां	साइकिल पम्प
बिजली की दुकान से	हैंडल के रबड़ के हत्थे
बैटरी (शुष्क सैल)	साइकिल की बत्ती
बिजली के बल्ब	कपड़े आदि की दुकानों से
विसंवाहित तार	रेशमी कपड़ा
स्विच	सूती कपड़ा
लैम्प साकेट	ऊनी कपड़ा
विसंवाही फीता	कृत्रिम रेशम का कपड़ा
बिजली के भीटर	लिनेन का कपड़ा
पुराने विद्युत् साधन	सूती धागा
छोटे बल्बों के साकेट	रेशमी धागा
विद्युत् घण्टी	लिनेन का धागा
विद्युत् गुंजक (बजार)	पाठशाला से
दाब बटन (पुश बटन)	गत्ता
तापन अवयव (हीटिंग एलिमेंट)	सोस्ता
चुंबकीय दिक्षूचक	स्याही
खिलौनों की दुकान से	रंगीन खड़िया
घूर्णदर्शी (जाइरोस्कोप)	रबड़
संगमरमर की गोलियां	जले बिजली के बल्ब
	कागज

इस पुस्तक का उद्देश्य

तेल	सिगरेट के टीन वाले डिब्बे
खड़िया	रांगे और अल्मीनियम की पत्ती (फायल)
संगलक (फूज)	पुराने रोलर स्केट
पतला कागज (पेपर टावल)	पत्थर का कोयला और लकड़ी का कोयला
पेसिले	टेलीफोन के ट्रांसमिटर
खड़िया के डिब्बे	टेलीफोन के रिसीवर
गोंद लगी चिरचियां (लेबल)	टेलीफोन के विद्युत-उत्पादक (मैग्नेटोस)
रुले	चुबकीय कच्चा लोहा (दिक्षूचक पत्थर)
म्लोब	टेनिस की गेंद
नक्शे	
रबड़ के छल्ले	

विविध सामग्री

गते की नलिकाएं (जो डाक द्वारा नक्शे आदि भेजने के काम आती हैं)	आसपास से विविध संपर्ह
गता,	बीज और फल
सोस्ता	पत्तियां
पुरानी जेबी या कलाई घड़ियों की कमानियां	पौधे
पुरानी दीवार घड़ियों की कमानियां	चिड़ियों के घोंसले
सिगारों के डिब्बे	शिलाएं और खनिज
	मिट्टी के भिन्न प्रकार के नमूने
	जीवाश्म (फासिल)
	कमि (कीड़े-मकोड़े)

प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान-शिक्षण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव^१

प्रारम्भिक विज्ञान

प्रारम्भिक विज्ञान क्या है ?

प्राथमिक पाठ्याला में बच्चे अपने प्रश्नों का सरल उत्तर चाहते रहते हैं। ये प्रश्न साधारणतः यों प्रारम्भ होते हैं कि 'यह क्या है ?' पहली बात तो यह कि विज्ञान वह सब कुछ भी नहीं है जो इसे पहले माना जाता था; अवश्य ही ग्रेनाइट का एक टुकड़ा, भिड़ों का पुराना छत्ता, और (बलूत) का फल, या दृश्यलिप का फूल—इन सब पर एक वस्तुनिष्ठ पाठ्याला बनाना विज्ञान नहीं है। विज्ञान 'लगे तो तीर नहीं तुक्का' जैसी कोई वस्तु नहीं है, किसी टिक्की अथवा फूल के विविध अंगों का नाम रटना भी विज्ञान नहीं है, और न ही 20 पेड़ों, 20 कीड़ों, 20 फूलों या 20 अन्य वस्तुओं की पहचान सीख लेना विज्ञान है।

तब फिर विज्ञान क्या है ? यह उन समस्याओं का अध्ययन है जो वहां, जहां बच्चे रहते हैं, पाई जाती हैं। अधिक लौकिक रीति से कहा जा सकता है कि यह प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन है—रसायन और भौतिकी और जीव-विज्ञान और ज्योतिष और भूगर्भ-विज्ञान के कुछ चुने हुए अंशों का ही अध्ययन-मात्र नहीं। विज्ञान अवश्य ही इन विषयों से सम्बद्ध है, परन्तु वस्तुतः यह उन समस्याओं का अध्ययन है जो जिजासु बालक के मस्तिष्क में, जिस प्रकार वे रहते हैं और दिन-प्रति-दिन बढ़ते रहते हैं, अचानक

उठा करती हैं। उदाहरण के लिए : हवा क्यों चलती है ? बादल किस चीज़ के बने हैं ? पत्थर किन पदार्थों से बनता है ? जब घण्टा बजता है तो बजते समय घण्टे में से ध्वनि क्यों और कैसे निकलती है ? बीज बढ़ कर पेड़ कैसे हो जाता है ? इन्द्रियनुष क्यों दिखाई पड़ता है ? यदि किसी ने कभी प्रारम्भिक पाठ्यालाओं के लड़के-लड़कियों के साथ काम किया हो तो वह जानता होगा कि अधिकांश बच्चों के मस्तिष्क में इसी प्रकार के प्रश्न भरे रहते हैं और वे इन सब का उत्तर जानना चाहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोज निकालना ही विज्ञान है।

और यह आवश्यक नहीं है कि यह बहुत जटिल हो। दस वर्ष का बालक किसी वस्तु की पूरी व्याख्या नहीं जानना चाहता, वह इतना समझ भी नहीं सकता। वह आसपास की प्रति-दिन की घटनाओं के बारे में क्यों, कब, कहाँ और क्या—इन प्रश्नों का सरल भाषा में उत्तर चाहता है। यही उसका विज्ञान है। उसे पारिभाषिक शब्दों, सूत्रों और व्यौरेवार कारणों को जानने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बाद में आएंगे, परन्तु जिस समय वह 10 वर्ष का रहता है तब वह अपनी जिजासा की तृप्ति ही चाहता है। आवश्यकता यह है कि उसकी जिजासा को और भी विस्तृत किया जाए, उसकी रुचियों को पनपने

^१ इस अध्याय की सामग्री दो पुस्तिकाओं से, लेखकों और प्रकाशकों से पूर्ण अनुमति लेकर, संकलित की गई है। इन पुस्तिकाओं के नाम हैं : 'टीचिंग एलिमेण्टरी सायंस, बुलेटिन 1948, नम्बर 4' और 'सायंस टीचिंग इन रूरल एण्ड स्माल टाउन स्कूल्स, बुलेटिन 1949, नम्बर 5'। प्रकाशक है—फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी, शिक्षा कार्यालय, वार्षिंगटन, डी० सी०। इनके लेखक डा० ग्लेन ओ० ब्लाउ और डा० पाल ब्लैकवृड हैं।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर गम्भीर

दिया जाए, और उसके उत्साह को बढ़ाया जाए। इस प्रकार का विज्ञान ही उसके लिए उपयुक्त है और इसी विज्ञान को वह समझ भी सकता है।

विज्ञान कहाँ है?

प्रारम्भिक पाठ्याला में विज्ञान किस वस्तु में रहता है? जहाँ कहीं भी स्कूल के बच्चे रहते हैं, वहीं विज्ञान रहता है: विज्ञान उस हवा में है जिसमें बच्चे सांस लेते हैं, उस जल में है जिसे वे पीते हैं, उस आहार में है जिसे वे खाते हैं। जैसे 'आकस्मिन क्या है?', 'पानी में खनिज कैसे पहुंचते हैं?', 'विटामिन क्या है?', इत्यादि।

विज्ञान उन वस्तुओं में है जिन्हें बच्चे पाठ्याला आते समय देखते हैं: जैसे 'बिजली से द्राम गाड़ी कैसे चलती है?', 'जब मेरा कुत्ता गरमी में हांपता है तो वह जीभ क्यों निकाल देता है?', 'आकाश नीला क्यों है?', इत्यादि।

विज्ञान उनके घरों में है: जैसे 'दरवाजे की छट्टी कैसे बजती है?', 'नीबू खट्टा क्यों लगता है?', 'हमारी भट्टी से घर गरम कैसे होता है?', इत्यादि।

विज्ञान पाठ्याला में है: जैसे 'आग बुझाने वाला यन्त्र आग कैसे बुझा सकता है?', 'लोहे के नल में ज़ंग क्यों लग गया?', 'हम सब को टीका क्यों लगवाना पड़ा?', इत्यादि।

तो किर विज्ञान हमारे छात्रों और छात्राओं के जारीं थोर है। प्रत्येक अवस्था में वे उसे देखेंगे हैं। थोड़ी सहायता कर देने से वे उसे अधिक अच्छी तरह देख सकेंगे। थोड़ा प्रोत्साहन देने से विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ेगी। वे विज्ञान के बारे में ऐसे शिक्षक से अधिक सीख सकेंगे जो इस बात का ध्यान रखता है कि इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जा सकता है और अपनी शिक्षण क्षमता द्वारा बालकों को अपने परिवर्तन के बारे में सोचने में सहायता देता है।

विज्ञान बढ़ा कर सकता है?

बहुधा यह ठीक कहा जाता है कि जो व्यक्ति

पूर्ण जानकार होता है, उसका व्यक्तित्व रोचक होता है, और जानकार बनने के लिए जिन चीजों की अवश्यकता होती है उनमें से अपने पर्यावरण के बारे में यथोचित जानकारी प्राप्त करना भी एक है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपने छात्रों के मस्तिष्क में ऐसी जानकारी ठूस-ठूस कर भरने की अभिलाषा करें जिसका उपयोग वे बातचीत का सिलसिला बनाए रखने के लिए कर सकें। तात्पर्य तो यह है कि आप यह चाहें कि आप ऐसे व्यापक नियमों या अर्थों को समझाने में उनकी सहायता करें जिनका उपयोग वे अपने परिवर्तन की समस्याओं को समझते समय कर सकें।

एक उदाहरण देते हैं: लिली परिवार के फूलों में तीन बाह्य दल (सैपल), तीन पंखुड़ियाँ, जो साधारणतः एक ही प्रकार से रंगी रहती हैं, और पुकेसर (स्टैमेन), एक स्त्रीकेसर (पिस्टल), इत्यादि होते हैं। 10 वर्ष की आयु का बालक यह सब याद किए बिना भी भली-भांति जीवन अवश्य बिता सकता है। परन्तु मान लीजिए कि अनेक पीछों और अनेक प्राणियों की जांच से वह सीखता है कि 'पीछे और प्राणी कुछ लक्षणों के अनुसार समूहों में रखे जाते हैं, और इन लक्षणों का जानना उस बड़े समूह को जानने में सहायता होता है जिसका कोई पीछा या प्राणी होता है'। यह व्यापक नियम तब उस बच्चे के लिए उन जानवरों और पीछों की पहचान में सहायता हो सकता है जिन्हें वह देखता है, और इससे उसके लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह उनकी आदतों का अध्ययन करे, पता लगाए कि वे उपयोगी हैं या हानिकारक, इत्यादि। उसे इस व्यापक नियम का पता चित लगा कर अध्ययन और प्रेक्षण करने से और कई छोटी कल्पनाओं को गूंथ कर एक बड़ी शृंखला बनाने से चलता है। इस प्रकार विज्ञान का एक उद्देश्य यह है कि ऐसे व्यापक नियम सिखाए जाएं जिनसे छात्र अपने दैनिक जीवन में उठने वाली समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकें। बालक और बालिकाओं के जीवन में परिवर्तन लाने वाली समस्याओं का हम जितना

सभीप से अध्ययन करेंगे, विज्ञान-विद्याएँ की हमारी बोक्सना उतनी ही अधिक सफल होगी।

आप यह कहीं नहीं चाहेंगे कि आपके बालक और बालिकाओं की विचार-पद्धति कमहीन हो। जिस रीति से विज्ञान के व्यापक नियमों का पहले-पहल आविष्कार हुआ, ठीक उसी तरह की विचार-व्यक्ति छात्रों को दे सकें, यही हमारी अभिलाक्षा होनी चाहिए। हम इसे वयार्थ उत्तर पाने की वैज्ञानिक रीति कह सकते हैं। यह विचार कोई एकदम नया नहीं है। सम्भवतः आप यही रीति अंकित तथा अन्य विषयों में वर्षों से अपनाते रहे हों समस्या का स्तर्क्य बताना, कई-एक परिकल्पनाएँ सुझाना, साक्ष्य इकट्ठा करना, परिणाम निकालना और परिणामों की परीक्षा करना। परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जब कभी कोई समस्या आए तब आप इन सब क्रमों की एक सीढ़ी-सी लड़ी कर दें और छात्रों को उस पर जबरदस्ती बढ़ाएं।

बस्तुतः समस्याओं को हल करने की इस वैज्ञानिक रीति में पूर्वोक्त सब क्रमों का रहना आवश्यक नहीं है। उदाहरणतः, बच्चे जानना चाहते हैं कि दिक्षुचक की सूई उत्तर-दक्षिण दिशा में क्यों रहती है। इस बात का पूरा व्यान रखना चाहिए कि बच्चे समस्या को पूरी सावधानी से स्पष्ट करें ताकि प्रश्न उतना ही रह जाए जितना वे जानना चाहते हैं। तब छात्र स्वयं बताएं कि उनके विचार में सूई उत्तर-दक्षिण दिशा में क्यों रहती है। जो व्याख्याएँ वे देंगे उनमें से कुछ युक्तिसंगत होंगी और कुछ निरर्थक।

आप पूछेंगे — ‘हम कौसे पता लगा सकते हैं कि किसकी बात ठीक है?’ बच्चे उत्तर देंगे — ‘हमारी विज्ञान पुस्तक में देखा जाए’, ‘हमारे भौतिक विज्ञान के शिक्षक श्री जैकसन से पूछा जाए’ या ‘प्रयोग करके देखा जाए’। तब बच्चे अपने-अपने सुझाव के अनुसार काम करके देखते हैं। कारण का पता लगते हैं। किसी प्रमाणिक सूत्र द्वारा यथासम्भव सावधानी से वे उसकी सत्यता की जांच करते हैं। और तब कहा जा

सकता है कि उन्होंने अपनी समस्या को हल कर लिया है और वे अपने ज्ञान का उपयोग भी कर सकते हैं। अवश्य ही यह कार्यक्रम सरल है, यह काम भी सरल है, और समस्याओं का हल करने के लिए जिस पद्धति का ठीक उपयोग करके छात्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसका यह परिचय और आरम्भ है। यदि छात्रों का पथ-प्रदर्शन बुद्धिमत्ता से किया जाए तो ऐसी समस्याओं को इस रीति से हल करने में वे काफी उन्नति कर सकते हैं। समस्या-समाधान की इस रीति को बालक पाठ्याला में तत्काल ही नहीं सीख लेते हैं। उहले समस्याओं को ठीक ढंग से हल करने की शक्ति बहुत समय में आती है।

आप चाहते होंगे कि काम करने के साथ-ही-साथ बालक और बालिकाओं ने वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की आदत भी आ जाए। उदाहरणार्थ, घटनाएँ यों ही नहीं घटतीं, वे प्राकृतिक कारणों से घटती हैं, इसलिए अन्धविश्वासी न बनें। दूसरों के विचारों के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखें। जब तक कोई पक्का प्रमाण न मिल जाए तब तक अपने विचारों को केवल परीक्षार्थ समझें। ऐसा साक्ष्य एकत्र करें जिस पर लोग विश्वास कर सकें। यदि यह मालूम हो कि आपका भत ठीक नहीं था तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। कूद कर परिणामों पर न पहुंचें। घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहें और अस्पष्ट व्याख्या से सन्तुष्ट न हों। ये वैज्ञानिक विचार-धारा के कुछ रक्षक-स्तम्भ हैं। अगर सोच-समझ कर निर्भारित किए हुए ढंग से छात्रों को विज्ञान पढ़ाया जाए तो वे इन धारणाओं को अपना सकते हैं। फिर, इस प्रकार की विचार-शैली से छात्र जितने ही पहले परिचित हों, उतना ही अच्छा होगा।

फिर आप चाहेंगे कि बालकों और बालिकाओं की रुचि को विस्तृत किया जाए। वे अपने चारों ओर की बस्तुओं में से अनेक के बारे में जानने को स्वभावतः उत्सुक जान पड़ते हैं, परन्तु फिर भी दुनिया की आधी चीजों के बारे में वे कुछ नहीं जानते और इसलिए उन वस्तुओं के

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्कों का आकर ग्रन्थ

बारे में वे जिज्ञासु हो ही नहीं सकते। छोटी कक्षाओं में तारों का अध्ययन छात्रों की रुचि का एक नया विषय बन सकता है और कुछ के लिए रुचि चिरस्थायी बन सकती है। इस बात का अध्ययन कि पौधे कैसे उगते और बढ़ते हैं, पौधों की खेती में ऐसी रुचि उत्पन्न कर सकता है जो अन्यथा सदा सोई रहती। बच्चों की रुचि के अध्ययन से ऐसा जान पड़ता है कि बच्चों को अपने पर्यावरण के हर पहलू में अनुराग रहता है, केवल जानवरों और पौधों में ही नहीं, जैसा पहले कभी समझा जाता था। तो भी, अनेक छात्रों की रुचि बहुत कुछ सीमित रहती है और अन्य सम्भव रोचक विषयों की ज्ञालक पाने में उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। बहुधा किसी विषय में आजीवन रुचि स्कूल में ही पैदा होती है। वैज्ञानिक बहुधा बताते हैं कि विज्ञान में उनका अनुराग तभी उत्पन्न हुआ था जब वे बहुत छोटे थे। प्रारम्भिक पाठशालाओं में विज्ञान की अधिक अच्छी पढ़ाई होने पर इस प्रकार के परिणामों की अधिक सम्भावना रहेगी।

आप भी चाहेंगे कि आपके छात्र अपने चारों ओर की वस्तुओं के सौन्दर्य का अनुभव कर सकें। अल्पवयस्क बच्चे किस प्रकार वस्तुओं का सौन्दर्य अनुभव करते हैं? प्रकृति के सौन्दर्य-ज्ञान के लिए छोटे-छोटे व्याख्यानों से सहायता नहीं मिलती। सुन्दर तितलियां, मधुमक्खियां और फूलों के ज्ञान के लिए भी ऊपरी व्याख्यानों से अधिक सहायता नहीं मिल सकती। जब हम छात्रों के सौन्दर्य-अनुभव की बढ़ियां करने की नई रीतियां सीख रहे हैं तो हमें यह सिखाने की चेष्टा करनी चाहिए कि वे स्वयं देखें, सूक्ष्म प्रेक्षण करें, सावधानी से परीक्षा करें और स्वयं ढूँढ़ निकालें कि चारों ओर के संसार में कैसे आवश्य भरे पड़े हैं। साधारण हरी पत्ती में भी एक निर्माण-प्रक्रिया चलती रहती है, जिसकी नकल मनुष्य अभी तक भी नहीं कर पाया है। उसने इतना अवश्य सीख लिया है कि इस प्रक्रिया में पानी और कार्बन डाइ-आक्साइड जीवन-तत्व का काम करते हैं, और हरे रंग का जो पदार्थ पत्तियों में रहता है,

वह इस प्रक्रिया के लिए नितान्त आवश्यक है, और यह भी कि यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के अभाव में पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य किसी भी प्रक्रिया के परिणाम का विश्लेषण अन्तिम अणु तक कर सकता है, परन्तु वह स्वयं उस प्रक्रिया को नहीं कर पाता और न उसे पूरा-पूरा समझ ही पाता है। फिर, इस प्रक्रिया के बिना स्वयं जीवन भी टिक नहीं सकता। जब बच्चा इन सब तथ्यों को सीखता है और जब शिक्षक से सहायता पाकर इनके महत्व को समझता है, तो उसकी सौन्दर्य अनुभव करने की शक्ति बढ़ती है—विशेषकर यदि वह किसी उत्साही, बुद्धिमान और गुणग्राही शिक्षक के साथ काम कर रहा हो।

हमारी पाठशालाओं में बच्चों के लिए विज्ञान जो कुछ कर सकता है, उसमें से खोड़ी-सी बातें यहां बताई गई हैं। यदि विज्ञान के शिक्षक पूर्ण रूप से जानें कि उद्देश्य क्या है, और इस बात पर तुले रहें कि विज्ञान की पढ़ाई इन उद्देश्यों की पूर्ति को दृष्टि में रख कर की जाए, तभी बच्चे विज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। वे उद्देश्य, जो शिक्षकों की निर्देश-पुस्तकों में दबे पड़े रहते हैं और उपयोग में नहीं लाए जाते, बच्चों के किसी भी काम नहीं आ सकते। परन्तु वे उद्देश्य बच्चों को सहायता अवश्य कर सकते हैं जो शिक्षकों के मस्तिष्क में रहते हैं और बच्चों के मस्तिष्क में भी हैं। ऐसे उद्देश्य विषयों के चुनाव को, उनकी शिक्षण-पद्धति को, उनके लिए किए जाने वाले कार्यों को, उनकी मूल्यांकन-प्रणाली को और वस्तुतः कक्षा में किए गए सभी कामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो बात सभी विज्ञान-शिक्षकों को समरण रखनी चाहिए, वह यह है कि वे यह निर्धारित कर लें कि विज्ञान-शिक्षण से वे जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, उसे सदा स्पर्श रखें, बार-बार जाँच करते रहें कि वे ठीक मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, और मूल्यांकन करते रहें कि वे अपने लक्ष्य के कितना निकट पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि वे अपने उद्देश्य को बच्चों के उद्देश्यों के यथा-सम्भव निकट रखें और इन उद्देश्यों की पूर्ति

में यदि बच्चे किसी प्रकार सहायता करना चाहें तो उन्हें वैसा करने दें।

प्रारम्भिक विज्ञान और प्रकृति-अध्ययन

यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है, और अब भी है, कि प्रारम्भिक पाठशालाओं में विज्ञान का जो शिक्षण होता है उसे प्रारम्भिक विज्ञान कहा जाए अथवा प्रकृति-अध्ययन (नेचर स्टडी)। कुछ पाठशालाओं की प्रकृति-अध्ययन सम्बन्धी पाठ्योजना उच्चकोटि की होती है। वहां के शिक्षक विस्तृतम अर्थ में विज्ञान पढ़ाते हैं और उनकी विषयनिष्ठता आधुनिकतम रहती है, यद्यपि वे अपनी पाठ्योजना को अभी तक प्रकृति-अध्ययन ही कहते हैं। कुछ अन्य पाठशालाओं में यह प्रारम्भिक विज्ञान ही कहलाता है, परन्तु वह जिन सिद्धान्तों के अनुसार पढ़ाया जाता है वे बहुत पुराने हैं और प्रकृति-अध्ययन का यह अति संकुचित दृष्टिकोण उसी रूढ़ि से प्रभावित है। इससे प्रत्यक्ष है कि नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना पढ़ाने का ढंग और विस्तार। विज्ञान की वे पाठ्योजनाएं, जिनमें प्रकृति-अध्ययन के विषय के सर्वोत्तम अंगों का अध्ययन और उस पर आधुनिक समय में सीखे गए सर्वोत्तम ढंग से निर्माण किया जाता है, आज सबसे अधिक उपयोगी हैं। यद्यपि नाम से अधिक अन्तर नहीं पड़ता, तो भी प्रकृति-अध्ययन कहलाने वाली पाठ्योजनाओं की अपेक्षा प्रारम्भिक विज्ञान की पाठ्योजनाओं में अधिक विस्तृत दृष्टिकोण रहने से उसके आधुनिक आवश्यकताओं के अधिक निकट होने की सम्भावना अधिक है।

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी। प्रकृति-अध्ययन की विषयवस्तु के अनुसार एक विशेष वस्तु का, जैसे किसी शिला या वृक्ष का, अध्ययन किया जाता है, न कि शिला-निर्माण अथवा वन सम्बन्धी किसी विस्तृत प्रश्न का। प्रकृति-अध्ययन में सम्भवतः वल इस बात पर दिया जाएगा कि शिलाओं की अथवा वृक्षों की पहचान कैसे हो, इस बात पर नहीं कि इन सब व्योंगों

से किसी उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाएगी। यह अधिक सम्भव नहीं है कि प्रकृति-अध्ययन में उन समस्याओं का, जो बच्चों के जीवन से वास्तविक सम्बन्ध रखती हैं, या विज्ञान के समूचे क्षेत्र का अध्ययन किया जाए। उसमें तो बस पौधों और जानवरों का ही अध्ययन होता है। बच्चों के साथ काम करने से पता चलता है कि उन्हें अपने पर्यावरण के सब अंगों से अनुराग होता है। प्रकृति-अध्ययन सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण से, जो यहाँ दिया गया है, जान पड़ता है कि प्रकृति-अध्ययन की पुरानी मान्यताओं के बदले अब ऐसी पाठ्योजना को अपनाया जा रहा है जो आधुनिक बच्चों की आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त है। अर्धांचीन वर्षों में वह दुनिया, जिसमें ये लड़के और लड़कियां रहती हैं, बहुत बदल गई है, इसलिए उनके अध्ययन का कार्यक्रम भी उसी के अनुसार बदलना चाहिए।

तो भी, प्रकृति-अध्ययन की धारणा के अनुसार हम देखते हैं कि निजी प्रत्युभव प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है, केवल उसके सम्बन्ध में पढ़ना या सुनना ही पर्याप्त नहीं होता। प्रकृति चिह्न, जो कि वे विविध प्रकार के पौधों और प्राणियों के बारे में हमें बताते हैं, जानवरों के निवास-स्थानों को दिखाते हैं, जीवों के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करते हैं, जीवों और उनके वातावरण का सम्बन्ध तथा वातावरण के अनुकूल उनमें विशेष परिवर्तन प्रकट करते हैं, शिक्षा के उपयोगी प्रयोग हैं। इसलिए प्रकृति की खोज का उपयोग, चाहे इसका आरम्भ प्रकृति-अध्ययन से ही क्यों न हुआ हो, यदि ठीक से किया जाए तो आधुनिक वैज्ञानिक कार्यक्रम में बहुत योग दे सकता है। वे पाठशालाएं, जो किसी बन या बड़े उद्यान के पास, या देहात में हैं, यदि प्रकृति की इस प्रकार की खोज करके लाभ उठाती हैं या किसी अन्य सुव्यवस्थित रीति से इस देन का उपयोग करती हैं तो कहा जाएगा कि वे बड़ी भाग्यशालिनी हैं।

शिविर-जीवन निजी ज्ञान और गुण-ग्रहण का एक अन्य उद्गम है, जिससे स्वयं ज्ञान प्राप्त

विज्ञान-शिक्षण के लिए यनेस्को का आकर ग्रन्थ

करने और गुण-विवेचन का अनुभव मिलता है। प्रारम्भिक विज्ञान की आधुनिक पाठ्योजना में इसे स्थान मिले तो बहुत उत्तम है। शिविर-अभिन जलाने, सोने का स्थान ठीक करने, विशुद्ध जल प्राप्त करने के अनुभवों का, भोजन सामग्री प्राप्त करने तथा पकाने का और अन्य अनेक कार्यों का विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु बच्चे कितना विज्ञान और किस प्रकार का विज्ञान सीखते हैं, यह इस पर निर्भर है कि व्यवस्थापक का दृष्टिकोण क्या है।

इस बात का निर्णय करने में कि आपका दृष्टिकोण छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार है या नहीं, उसे उन उद्देश्यों की मापनी से नापना चाहिए जिसका विवेचन इस खण्ड के आरम्भ में किया गया था। वे तथा प्रारम्भिक विज्ञान के उद्देश्य ठीक मार्ग के प्रदर्शक हैं। यह नहीं कि अगर आपने गरी के गोलों को रांगे की पन्नी से मढ़ कर कुछ जन्माष्टमी की झांकी सजाने में, पत्तियों को दबा कर सजोने में, चिड़ियों के चित्र रंगने में या कागज की झण्डियां और मालाएं बनाने में आधा समय बिता दिया तो विज्ञान की आधुनिक पाठ्योजना पूरी हो गई। ऐसे कार्य तो विज्ञान के सरलतम कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं करते।

विज्ञान और प्रारम्भिक पाठ्यालालाओं की पाठ्योजना

प्रारम्भिक विज्ञान की वह पाठ्योजना, जो प्रारम्भिक पाठ्यालालाओं की शेष पाठ्योजनाओं पर ध्यान दिए बिना ही बना दी जाती है, अवश्य ही निष्पत्त होगी। विज्ञान प्रारम्भिक शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की कितनी पूर्ति करता है, इस प्रश्न के उत्तर पर विज्ञान के अलग विषय बने रहने का दावा निर्भर है।

प्रारम्भिक पाठ्यालालाओं के सामान्य उद्देश्य विविध रूपों में बताए गए हैं। सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक विचार, समझ और कार्यदक्षता प्राप्त करने में बच्चों की सहायता की जाए।

इसके लिए उन्हें पढ़ने, लिखने और हिसाब करने की आधारभूत चीजें सिखाना आवश्यक है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के मौलिक साधन ये ही हैं। इनके अतिरिक्त, इस बात की भी आवश्यकता है कि उनको सामाजिक रीमिटिंग्स और समस्याओं को समझने और पहचानने का अवसर दिया जाए, उनके हल सुझाने और अपने सुझावों पर काम करने का अवसर दिया जाए, उन्हें व्यक्तिगत और समूहगत आवश्यकताओं के अनुसार अपने सामाजिक प्राचरण को विकसित करने दिया जाए। पाठ्यालालाओं में अध्ययन आदि ऐसे ढंग से होना चाहिए कि बालक मानवों के पारस्परिक व्यवहार से सम्बन्धित गुणों को पहचानें और उन पर अमल करें—उदाहरणार्थ परस्पर सहयोग, नेता का चुनाव और सामूहिक योजनाएं बनाना, आदि। और बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में रखना चाहिए, जिनमें उनका मानसिक और जारीरिक स्वास्थ्य बढ़े और उनमें ऐसा ज्ञान और कार्यदक्षता उत्पन्न करनी चाहिए कि ये गुण उनमें स्वयं विकसित हों। अवकाश के समय में भी इनमें स्वस्थ रुचि लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। अच्छी प्रारम्भिक पाठ्यालालाओं की पाठ्योजना के ये सामान्य उद्देश्य हैं, और इन्हें ध्यान में रखे बिना विज्ञान की कोई भी पाठ्योजना सफल नहीं हो सकती।

प्रारम्भिक पाठ्यालालाओं के उद्देश्य से सम्बन्धित इन विशद् सिद्धान्तों के अनुसार ही प्रारम्भिक विज्ञान-शिक्षण की विषयवस्तु को ढाल लेना चाहिए। हम विज्ञान कैसे पढ़ाएं, बच्चों के लिए क्या कार्य सबसे अधिक उपयोगी होंगे, योजना बनाने और मूल्यांकन में हम उन्हें कैसे सहायता दें, इन सबको पूर्वोक्त उद्देश्यों के अनुसार ही रूप देना चाहिए।

उदाहरणार्थ, हम बच्चों को विज्ञान किस प्रकार सिखाएं कि वह उन्हें अधिक अच्छे नागरिक बनने में सहायता हो ? यदि शिक्षक पाठ्य विषयों को स्वयं ही चुनता है, उनकी कार्य-व्यवस्था करता है, अध्ययन-पद्धति निर्धारित करता है और अन्य सब बातों का भी निर्णय

स्वयं ही करता है, तो बच्चे प्रबन्ध करने, योजना बनाने और मिल-जुल कर काम करने में कैसे आगे बढ़ेंगे? यदि हम इस बात को जानते हैं कि योजना बना सकना और मिल-जुल कर काम कर सकना अच्छे नागरिक का एक लक्षण है तो हमें बच्चों को योजना बनाने और मिल-जुल कर काम करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षक के नाते बच्चों के नेता होने और मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठ कर आज्ञा देने में स्पष्ट अन्तर है। नेता के रूप में शिक्षक विषय-रचि उत्पन्न करने के लिए प्रारम्भिक कार्य कर सकता है, कार्य-विधि के सम्बन्ध मार्गों का स्पष्टीकरण कर सकता है, और इस प्रकार उनका सहायक बन सकता है। अपने अनुभव के कारण वह योड़ा-बहुत मार्गप्रदर्शक का काम कर सकता है, परन्तु वास्तव में प्रशंसनीय तो वही शिक्षक है जो उचित समय पर चुप होना जानता है। चाहे विज्ञान हो या पाठशाला सम्बन्धी कोई काम हो, बच्चों में उत्तरदायी नागरिकता की भावना तब ही आती है जब शिक्षक उचित समय स्वयं चुप हो जाए और बच्चों को काम करने दे। पाठ्य विषय का अधिकतर यही काम होता है कि बालकों को इस शक्ति को विकसित

करे। इसलिए, विज्ञान सिखाने के सभी बच्चों को अवसर देना चाहिए कि वे मिल कर योजना बनाएं, निर्णय करें, भूलें करें, भूलों का सुधार करने के तरीके सोचें, अपनी सफलता को जानें, नई कार्य-विधियों निकालें और परिणामों का मूल्यांकन करें।

उन प्रश्नों में से सबके उत्तर मत बताइए जो बच्चे आपसे पूछें और बराबर यह न कहिए कि उत्तर पुस्तक में पढ़ लो। हम विज्ञान से ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? प्रथमों से, प्रेक्षण से, विषय को जानने वाले लोगों से पूछने से, पढ़ने से, सिनेमा देखने से और अन्य रीतियों से। तो फिर छात्र कैसे सीखते हैं कि इन रीतियों का उपयोग कब किया जाए और कब उनके परिणामों पर भरोसा किया जाए? वे निर्णय करने के अभ्यास से सीखते हैं, तब अपनी प्रस्तावित योजनाओं को कर के देखने से और अपनी चेष्टाओं की सफलता देखने से। अभ्यास से छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने के साधनों का उपयोग कर सकने की शक्ति बढ़ती है, परन्तु यह तभी होता है जब हम उनकी सहायता करते रहें। प्रत्येक पाठ्य विषय इस बात में निश्चित रूप से सहायक हो सकता है, परन्तु केवल तभी, जब हम उसे यह प्रवसर दें।

विज्ञान-शिक्षक

यदि हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सभी प्रारम्भिक पाठशालाओं के शिक्षक विज्ञान पढ़ाने के लिए अपने को पूर्णतया सुसज्जित न समझें, तो हम कभी आरम्भ ही न कर सकेंगे। प्रारम्भिक पाठशालाओं के सबसे अधिक सफल शिक्षकों ने अपने लिए कहा है, “अपने काम में कुछ विज्ञान भी सम्मिलित करने का महत्व मैं समझता हूँ। मेरा विश्वास है कि बिना विज्ञान के मेरा कार्य-क्रम अधूरा है। मैं विज्ञान के बारे में अधिक नहीं जानता, परन्तु यह मैं जानता हूँ कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने पर मुझे बुरा नहीं लगता जिनका उत्तर मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि किस प्रकार बच्चों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे स्वयं उनका उत्तर निकाल लें।”

इन शिक्षकों के सम्मुख कई समस्याएं हैं। उन्हें अपने लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि ठैथार करनी पड़ती है, यह सीखना पड़ता है कि विज्ञान कैसे सिखाएं, आवश्यक उपकरण और सामग्री कहां से लाएं। परन्तु उनके पास दो अत्यावश्यक उपकरण पहले से विद्यमान रहते हैं: वे विज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के महत्व का अनुभव करते हैं और वे जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं।

ऐसे अनेक शिक्षकों ने निम्नलिखित सुझावों को उपयोगी पाया है:

1. विज्ञान की पढ़ाई विश्वास के साथ आरम्भ करिए, न कि भय के साथ। डरना ही हो, तो मंगल प्रहु से आए विकराल मनुष्यों के प्रथम

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर भव्य

दर्शन से शोक से अर्थि। विज्ञान उतना असाधारण नहीं है, जितना आप समझते हैं। समाज-विज्ञान, भाषाएं, कलाएं अथवा अंकगणित पढ़ाने से, जिन्हें अधिकांश विद्यक सुविधापूर्वक पढ़ाते हैं, विज्ञान का पढ़ाना अधिक भिन्न नहीं है। उनकी अपेक्षा विज्ञान का पढ़ाना अधिक कठिन भी नहीं है, कुछ बातों में तो यह अधिक सरल है, क्योंकि यह मूर्त वस्तुओं से सम्बद्ध है और अनेक बच्चों की रुचि का विषय है।

2. यह आशा भर करिए कि बच्चे जितने भी प्रश्न पूछेंगे, आप उन सबका उत्तर दे सकेंगे। यदि आप तब तक के लिए रुके रहें जब तक आप इसमें समर्थ न हो जाएं, तो आप विज्ञान पढ़ाना कभी आरम्भ ही न कर सकेंगे। विद्यक हर दशा में बच्चों की आवश्यकता से अधिक ही बताते रहते हैं। यदि आप बच्चों को जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि बच्चों को सीखने में कैसे सहायता दी जाए, तो शिक्षण-समर को आपने आधा जीत लिया है। बच्चों के साथ-साथ स्वयं भी सीखने में संकोच न करें। आपनी समस्याओं के उत्तर पाने के लिए उन्हें योजनाएं बनाने दें और तब आप उनका पथप्रदाशक बन कर उनके साथ ही सीखें। अवश्य ही, आपको विषय का थोड़ा-बहुत जान तो होना ही चाहिए, परन्तु आपके विज्ञान के विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो दो-चार सुझाव दिए गए हैं, उनसे आपको अपने लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार कर लेने में सहायता मिलेगी।

3. जब विज्ञान का कोई एक विषय या क्षेत्र अध्ययन के लिए चुन लिया जाए तो आधार-भूत विज्ञान की कुछ पुस्तकें पढ़ें, जो आपके छात्रों के द्वार के लिए लिखी गई हों। तब सामान्य विज्ञान या जीव-विज्ञान की कुछ अच्छी पुस्तकें ले, जिनका स्तर माध्यमिक पाठशालाओं की वाद्य-पुस्तकों के समान हो और उन्हें पढ़ें। यहां आपको विज्ञान सम्बन्धी विषयों की वह पृष्ठभूमि मिलेगी जो अल्पवयस्क बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक है।

4. इन पुस्तकों में सुझाए गए कुछ प्रयोग करें, जिससे आपको सामग्री से सम्बन्धित अनुभव हो जाए। प्रारम्भिक विज्ञान के में प्रयोग उसके आधे अटिल नहीं होते जितना आप समझते हैं।

5. पुस्तकों में जिन बातों को स्वयं करके देखने का आदेश रहता है उन पर आचरण करें, जैसे बाहर जाना, प्रेक्षण करना, प्रयोग करना और सामग्री एकत्र करना। ऐसा करने से विश्वास और अनुभव दोनों ही प्राप्त होते हैं, और यदि आप पहले जान लेंगे कि नगर के लिए पानी साफ करने वाला संयन्त्र किस दर्शनीय ढंग से काम करता है तो आप अपने छात्रों में उसके प्रति अधिक सुगमता से रुचि और उत्साह उत्पन्न कर सकेंगे।

6. पास की माध्यमिक पाठशाला के किसी विज्ञान-शिक्षक से बात करें और उससे सहायता लें। माध्यमिक पाठशाला के विज्ञान-शिक्षक बहुधा आपको विज्ञान विषयक नए विचार देंगे, प्रयोग सुझाएंगे और सामग्री तथा पुस्तकें प्राप्त करने में सहायता देंगे। विज्ञान उनका विशेष क्षेत्र है और साधारणतः उनका मस्तिष्क लाभप्रद विचारों से भरा रहता है।

समरण रहे कि अपरिचित वस्तुएं ही आपको विचित्र स्थिति में डालती हैं। इसलिए विज्ञान की सामग्री का, जहां तक हो सके, अधिक निजी अनुभव प्राप्त करें। ऊपर बताए गए सुझावों के अनुसरण से विज्ञान के किसी भी नए अंग को पढ़ाने के लिए प्रायः अवश्य ही आपको आरम्भ-निर्भरता मिलेगी।

7. इस बात से न घबराएं कि आपके पास सामग्री नहीं है। बच्चे अपने घर से प्रायः वह सब ला सकते हैं, जिसकी आपको वास्तविक आवश्यकता पड़ेगी। जो-कुछ वे नहीं ला सकते, उसे आप बाजार या लोहे-लकड़ी की दुकान से मोल ले सकते हैं, या माध्यमिक पाठशाला के विज्ञान विभाग से मंगनी मांग सकते हैं, पाठशाला में पा सकते हैं, पाठशाला के गोदाम

से ले सकते हैं, या लड़कों को स्वयं बनाने को कह सकते हैं। प्रारम्भिक विज्ञान की कक्षाओं के लिए बहुमूल्य तथा जटिल उपकरण बेकार ही नहीं, हानिकारक भी हैं। वे भ्रमोत्पादक हो सकते हैं और बच्चों का ध्यान विवेचनीय विषय से हटा कर अपनी और सीधे सकते हैं।

8. छात्रों को प्रयोग करने वें। बच्चों के लिए सीखने की यह एक अच्छी रीति है, और वे इसे बहुत पसंद भी करते हैं। अपनी कक्षा के अधिक चतुर छात्रों को सामग्री एकत्र करने और यन्त्र बनाने का काम दें।

9. अपना विज्ञान-शिक्षण उस विषय से आरम्भ कीजिए जिससे आप सबसे अधिक परिचित हैं। यह कुछ लोगों के इस विश्वास के प्रतिकूल है कि बच्चों को ही अध्ययन की सब समस्याओं का आरम्भ करना चाहिए। ताहे कुछ हो, यह सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है। कालेज में वैज्ञानिक शिक्षण के कारण, अथवा निजी शैक्षणिक (हॉम्बी) के कारण, अथवा निजी स्तरी का उपयोग करके अपना विषय चुन कर आप अपने विज्ञान-शिक्षण का अच्छा आरम्भ कर सकते हैं। बाद में बच्चे जिस विषय में आगे बढ़ जाएं, उसके अनुसार काम करना आपके लिए अधिक सरल हो जाएगा।

यदि शिक्षक के नाते पहला सुझाव आप ही

दें तो क्या हजेर है? तब भी तो बच्चे उसके सम्बन्ध में योजना बनाने में प्रदृढ़ हो ही सकते हैं।

10. विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक के साथ जो 'शिक्षकों के लिए निर्देश प्रन्थ' मिलता है, उसका खूब उपयोग करिए। उसमें शिक्षण के बारे में ऐसे विचार भरे रहते हैं जिनका परीक्षण हो चुका है और जो उपयोगी पाए गए हैं। यदि आप उस पाठ्य-पुस्तक का उपयोग न कर रहे हों जिसको ग्राधार बना कर ये निर्देश प्रन्थ लिखे गए हैं तो भी ये बहुधा लाभदायक होते हैं।

11. अपनी विज्ञान-सम्बन्धी सामग्री, विज्ञान पढ़ाने की टिप्पणियाँ और अपनी योजनाओं इत्यादि का लेखा रखिए, जिससे भविष्य में आप उनका उपयोग कर सकें और दूसरे शिक्षक आपसे उन्हें संगती मांग सकें। दूसरी बात विशेष-कर यदि आप उस सामग्री को देख सकें जिसका आपने पहली बार उपयोग किया था तो वह विषय अधिक सरल हो जाता है।

12. अन्य शिक्षकों से मालूम करिए कि उनको किन वस्तुओं से सफलता मिली है और उनको अपना अनुभव बताने के लिए तैयार रहिए। इस प्रकार का विचार-विनियम बहुधा बहुत उपयोगी होता है।

बच्चे विज्ञान कैसे सीखते हैं

बच्चे विज्ञान कई रीतियों से सीखते हैं— ठीक वैसे ही जैसे वे अन्य बातें सीखते हैं। वे उसे अधिक शीघ्र तब सीखते हैं जब विषय में उनका मन लगता है और जब वे देखते हैं कि किसी विषय से उनकी जानकारी बढ़ती है, विषय का वर्णन चित्रमय है, उसके लिए उन्हें स्वयं कुछ-न-कुछ काम करना भी कठिन नहीं होता। परन्तु अवश्य होता है कि उन्हें कुछ सोचना पड़े और उन्हें यह सन्तोष होता है कि वे जो जानना चाहते थे, जान रहे हैं। यह विज्ञान की ही विशेषता नहीं है। श्रकागणित, भाषाओं, कलाओं, तथा अन्य सभी विषयों के लिए भी यही सत्य है। बच्चों द्वारा चुने गए और बच्चों के लिए चुने गए

कामों में इन सब बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रख कर हम उन रीतियों में से कुछ की जांच करेंगे, जिनसे बच्चे विज्ञान सीखते हैं।

प्रयोग करना

प्रयोग करना विज्ञान के सिद्धान्त और व्यापक नियम सीखने की प्रधान रीतियों में गिना जाता है। प्रयोग सरल होने चाहिए। जो सामग्री साधारण होती है, वह अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है और अधिकांशतः उसी का उपयोग करना चाहिए। छात्रों में इतनी योग्यता होती है कि वे अपने लिए नए प्रयोग सोच निकालें,

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

वे उसके लिए बहुधा आवश्यक सामग्री अपने घर से लाते हैं और उन प्रयोगों को करने के लिए उनमें बहुधा बहुत अधिक उत्साह रहता है।

कुछ बातों को स्मरण रखना चाहिए :

1. प्रयोग इस प्रकार करने चाहिए कि छात्रों को भी सोचना पड़े। स्पष्ट है कि ऐसे प्रयोगों से, जिनमें शिक्षक स्वयं ही सब बातें छात्रों को बताता है, बच्चों के मस्तिष्क की वृद्धि के लिए कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलती।

2. बच्चों को प्रयोग का उद्देश्य जानना चाहिए। बहुधा यह बांधनीय होता है कि प्रयोग का उद्देश्य सरल और स्पष्ट रूप में श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए। जब छात्रों की ही उठाई गई किसी समस्या के हल के लिए कोई प्रयोग किया जाता है तब तो यह सरल हो जाता है। उदाहरण-तथा बच्चे जाड़े में एक ऐसे दिन पाठशाला आते हैं जब बर्फ पड़ने से मार्ग में फिसलन रहती है। चपरासी वे बर्फ हटाने के लिए पाठशाला को सीढ़ियों पर नमक छिक्क दिया है। बच्चे जानना चाहते हैं कि नमक से बर्फ का क्या हो जाता है और ऐसा क्यों होता है। वे तय करते हैं कि कारण का पता लगाने के लिए एक प्रयोग करना चाहिए। वे अच्छी तरह समझ जाते हैं कि वे प्रयोग करें रहे हैं और इसलिए सन्तोष-जनक रीति से अन्त तक प्रयोग करने की सम्भावना अधिक हो जाती है। अन्य प्रयोग पाठ्य-पुस्तक से लिए जा सकते हैं, परन्तु काम की योजना व्यासम्भव लड़कों को ही बनानी चाहिए।

3. सफल प्रयोग के लिए सावधानी से योजना बनाना आवश्यक है। उपयुक्त सामग्री एकत्र करनी चाहिए—हो सके तो यह काम स्वयं बच्चे ही करें। कार्य-विधि की योजना बना लेनी चाहिए। तब उस योजना का पालन सचाई से करना चाहिए ताकि परिणाम पूरा विश्वासप्रद निकल सके।

4. जहाँ तक हो सके, स्वयं बच्चों को ही प्रयोग करना चाहिए। वे अलग-अलग या समूहों में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर है कि

प्रयोग क्या है और कितनी सामग्री उपलब्ध है। ऐसे प्रयोगों को, जिनसे आग लगने का डर हो या जो बहुत जटिल हों, या तो किया न जाए या उन्हें शिक्षक स्वयं करें।

5. बहुधा बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए स्वयं उचित प्रयोग सोच सकते हैं। ये प्रत्येक दृष्टिकोण से सबसे अधिक सन्तोषप्रद होते हैं। प्रयोगों का सदा जटिल होना आवश्यक नहीं है हालांकि कुछ शिक्षक यहो भानते हैं। यह भी अवश्यक नहीं है कि उनका वर्णन किसी पुस्तक में मिले—कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता।

6. प्रयोगों को सावधानी से और ठोक निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए—चाहे वे पुस्तकों में मिलें, चाहे कक्षा में विवेचन करने से।

7. छात्रों को बड़ी सावधानी से देखना चाहिए कि जब वे प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, ताकि उनके परिणाम अधिक विश्वनीय हों। उदाहरणतः मान लीजिए, वे यह जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि पौधों की पत्तियों से पानी निकलता है अथवा नहीं। वे पौधे को कांच के बरतन से ढकने का और बरतन के भीतर की हवा से भूमि का सम्पर्क काटने का साधारण प्रयोग करने के लिए उपकरण संघटित करते हैं। दूसरे दिन बरतन में पानी की बूंदें कांच के भीतर दिखाई पड़ती हैं। बच्चे तुरन्त निर्णय करते हैं कि उनको अपनी समस्या का उत्तर मिल गया। परन्तु इस बात का निश्चय कैसे किया जाए कि यह पानी बरतन के भीतर की हवा से नहीं निकला है? इसका निश्चय वे तभी कर सकते। परन्तु मान लीजिए, वे ठोक ऐसा ही एक दूसरा उपकरण भी संघटित करते हैं जिसमें पौधे का गमला, कांच का बरतन, मिट्टी इत्यादि होते हैं, परन्तु उसमें पौधा नहीं रहता। दोनों उपकरणों को अगल-बगल रख लिया जाता है और परिणाम देखा जाता है। इस बार यदि पौधे बाले बरतन की भोतरी सतह पर पानी इकट्ठा होता है और बिना पौधे बाले बरतन में पानी इकट्ठा नहीं होता तो पानी पौधे की पत्तियों से आया होगा। इस प्रकार के सुव्यवस्थित प्रयोगों

द्वारा ही बच्चों को प्रयोगों का पूर्ण अर्थ ज्ञात होगा। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि परिणाम निकालने के पहले प्रयोग को एक से अधिक बार किया जाए। (संख्या 9 भी देखिए)।

8. प्रारम्भिक पाठशालाओं के प्रयोगों के लिए जटिल उपकरणों की अपेक्षा सरल उपकरण अधिक उपयुक्त होते हैं। जैसा पहले बताया गया है, हर्ड स्कूल की प्रयोगशालाओं से मंगनी आंग कर लाए गए जटिल उपकरण बहुधा प्रयोग के वास्तविक उद्देश्य की ओर से ध्यान हटा देते हैं।

9. प्रयोग से परिणाम निकालते समय छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। केवल एक बार प्रयोग करने से वे कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। अपने परिणाम को उन्हें तब तक केवल परीक्षणार्थ समझना चाहिए जब तक वे अधिक साक्ष्य से—या तो अतिरिक्त प्रयोगों से या प्रामाणिक पुस्तकों से—अपने परिणाम का समर्थन नहीं पा जाते। परिणामों को, तथ्य के अनुसार, सही-सही और पूरे रूप में लिखना चाहिए।

10. प्रत्येक प्रयोग के बारे में यह यथासम्भव पूरा-पूरा ज्ञान लेना चाहिए कि वह दैनिक जीवन की परिस्थितियों पर किस हद तक और कहां-कहां लागू होता है। यह काम कठिन है, परन्तु विज्ञान के अध्ययन का यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जब कोई प्रयोग पूरा हो जाता है तो उसका उपयोग करने के लिए वह पहला ही कदम होता है। उदाहरणार्थ, जब छात्र लोहे के मुरचा खाने के बारे में प्रयोग कर चुकेंगे तो वे सम्भवतः यह देखना चाहेंगे कि चीजों को मुरचा खाने से कैसे बचाया जाए। तब एक गोली, बिना रंगी कील और एक उसी तरह की, परन्तु तेल-रंग से अच्छी तरह रंगी कील से प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने वाले देखते हैं कि बिना रंगी कील में मुरचा लग जाता है, परन्तु दूसरे में नहीं लगता। अब वास्तविक जीवन में यह सिद्धान्त कैसे प्रयुक्त होता है? पाठशाला में? घर पर? पाठशाला आने के मार्ग में और अन्यत्र? प्रयोग इसलिए

किया गया था कि मुरचा सम्बन्धी ज्ञानकारी प्रत्यक्ष देखी जाए। उसके उपयोगों से देखा जा सकता है कि यह ज्ञानकारी कितनी महत्वपूर्ण है।

बच्चों को स्वयं अपने किए हुए प्रयोगों द्वारा तथ्य सीखने के लिए प्रेरित करना कठिन काम नहीं है। छात्रों को अनुभव करना चाहिए कि वे प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे कि वे वैज्ञानिकों के समान किसी ज्ञान का पहली बार आविष्कार करें बल्कि केवल इसलिए कर रहे हैं कि वे वैज्ञानिक बातों को अच्छी तरह समझ लें।

पढ़ना

उन रीतियों की सूची में, जिनसे बच्चे विज्ञान सीखते हैं, पढ़ने का स्थान बहुत ऊपर है। दुर्भाग्य-बश, विज्ञान के कुछ पाठ्यक्रम तो घट-घटा कर केवल पढ़ने तक ही सीमित रह जाते हैं, और उनके साथ अन्य कोई कार्य नहीं किया जाता। तो भी, विज्ञान सीखने की एक रीत यह अवश्य है कि पढ़ा जाए, और इसे फलप्रद साधन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पढ़ने की योजना सावधानी से बनाई जाए। विविध कक्षाओं के छात्रों के स्तर के अनुसार उपयुक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए और छात्रों को उनके पढ़ने में सहायता मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं

1. पढ़ाई में तथ्य और कल्पना में भेद करना सीखने के लिए विज्ञान को कक्षा बच्चों के लिए सबसे अच्छी वस्तु है, अर्थात् उन्हें यह ज्ञान लेना चाहिए कि कुछ पुस्तकें विशुद्ध मनोरंजन के लिए लिखी जाती हैं और अन्य पुस्तकें ज्ञान के प्रसार के लिए। जो कुछ वे पढ़ते हैं, उसे सत्यता को कसीटी पर कसना उन्हें सीखना चाहिए। पुस्तकों की सामग्री से परिणाम निकालने में उन्हें सावधानी से काम लेना सीखना चाहिए, उदाहरणार्थ प्रामाणिक उद्गम से तुलना। किसी प्रसंग में अगर किसी तथ्य की जांच किसी प्रामाणिक आकर ग्रन्थ में करें और उसे सही पाएं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मान लिया जाए कि पुस्तक

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

सर्वत्र अवश्य ही शुद्ध है। छपे पृष्ठों पर अशुद्धि पा जाना ज्ञानवर्चक अनुभव हो सकता है। उससे छात्र यह बहुमूल्य पाठ सीख सकता है कि केवल छपे जाने से ही कोई बात सत्य नहीं हो जाती।

2. मन में एक निश्चित उद्देश्य रख कर पढ़ना चाहिए। उदाहरणार्थ छात्र के निजी अनुभाव की सत्यता की जांच करना, सूचना अथवा ज्ञान की प्राप्ति करना, यह पता लगाना कि कोई प्रयोग कैसे किया जाए, किसी प्रश्न का उत्तर ढूढ़ना या किसी समस्या का हल ढूढ़ना।

3. किसी विशेष विषय पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए विविध पुस्तकों का देखना बांधनीय होता है। इस प्रकार अधिक जानकारी मिलती है। और इससे विविध दृष्टिकोणों का पता चलता है।

4. छात्रों के लिए बहुधा यह आवश्यक होता है कि सरल 'अनुसन्धान' के रूप में वे अपनी निजी पढ़ाई करें। ऐसा होने पर सावधानी से टिप्पणियाँ लिख लेना आवश्यक है ताकि कक्षा को यथार्थ विवरण दिया जा सके।

5. पढ़ने की सामग्री उपयुक्त होनी चाहिए। यह अधिकतर शिक्षक का उत्तरदायित्व है, परन्तु बच्चों की सहायता भी बांधनीय है। बहुत कठिन अथवा बहुत सरल, अथवा अनुपयुक्त सामग्री से, जो बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे पाने में असमर्थ हो, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। मन्द-बृद्धि छात्रों या उन छात्रों के लिए, जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, पठन सामग्री चुनने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है।

पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने और विषय सीखने के काम विज्ञान में साथ-साथ चल सकते हैं। परन्तु पढ़ना विज्ञान सीखने की केवल एक रीति है। उस पर बहुत बल देना विज्ञान सिखाने के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों की अवहेलना है।

इसके पहले कि विज्ञान सीखा जाए, उससे ग्रान्ड मिले और वह बालकों और बालिकाओं के जीवन में काम आ सके, उसे पुस्तक के पृष्ठों को

छोड़ कर उसके वैनिक अनुभव में स्पष्ट रीति से प्रवेश चाहिए। पाठ्य-पुस्तकों के बाल अच्छे पढ़-प्रदर्शक का काम दे सकती है। पहले, छात्र और शिक्षक मिल कर समस्याएं एकत्रित करें। समस्या को हल करने की रीतियाँ पूरे समूह द्वारा निश्चित की जाएं। तभी पढ़ना एक अत्यन्त उपयोगी विधि के रूप में माना जा सकता है और प्रायः सदा होता भी है। पाठ्य-पुस्तक से अधिकतर आवश्यक जानकारी या ज्ञान प्राप्त होगा, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है: 'अपनी पुस्तक को पृष्ठ 18 पर खोलें और 24 तक पढ़ें, और तब जो कुछ पढ़े उसी पर बात करें।'

प्रेक्षण

सारे विज्ञान-शिक्षण में प्रेक्षण (अर्थात् ध्यान से देखना) एक अन्य अत्यावश्यक क्रिया है। हम अपनी इन्द्रियों के उपयोग से कई बातों का अनुभव करते हैं। सामग्री की बाह्य रचना को अंगूलियों से टटोलना अथवा शुष्क सैल से सम्बद्ध तार को छूकर उसकी उभया का अनुभव करना, बादलों के विभिन्न रूप देखना, परद्धाइयों की लम्बाई के परिवर्तनों को देखना, चिकियों की बोली सुनना तथा इसी प्रकार की अन्य अनेक क्रियाएं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। वे सीखने की क्रिया को अधिक प्रभावपूर्ण कर देती हैं।

वस्तुओं के लक्षणों का पता लगाने के लिए, बढ़ती हुई वस्तुओं में परिवर्तन देखने के लिए, जानवरों का रहन-सहन तथा आदतें जानने के लिए, और प्रयोगों का परिणाम देखने के लिए बच्चे प्रेक्षण करते हैं। परन्तु बच्चों को उत्तरोत्तर अधिक यथार्थता से प्रेक्षण करना सीखना चाहिए और अपने प्रेक्षणों का विवरण सावधानी से लिखना चाहिए।

यथार्थता से प्रेक्षण करने और प्रेक्षणों का यथार्थ विवरण देने की योग्यता होना परमावश्यक है। इसके बिना सब प्रयोग बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, इसके बिना क्षेत्र-अभ्यास (फील्ड ट्रिप्स) और दृश्य सावन भी फलप्रद नहीं हो सकते। यदि हम अधिक सावधानी से प्रेक्षण करने की आदत

डाल ल तो हम दैनिक पर्यावरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे आत्र, जो अपने स्कूल के अनुभव में इस रीति से सीखने की आदत बहुत पहले डाल लेते हैं, अपने उन सहपाठियों से, जो इस रीति को नहीं जानते, बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

क्षेत्र-भ्रमण

अपनी समस्याओं को हल करने, जानकारी प्राप्त करने और लघ्यों का पता लगाने की दृष्टि से प्रारम्भिक विज्ञान में क्षेत्र-भ्रमण का बड़ा महत्व है। बड़े उच्चान, चिड़ियाघर, टेलीफोन एक्स्चेंज, लकड़ी चीरने का कारखाना, हवाई अड्डा, जल साफ करने का संयन्त्र, चावल का खेत और पाठशाला के पास के अन्य इसी प्रकार के स्थानों पर शिक्षक और आत्र बहुधा जाते हैं। यदि भ्रमण की योजना अच्छी तरह और सही उद्देश्य से न बनाई जाए तो वह शिक्षक के लिए सरदर्द, बच्चों के लिए छुट्टी-मात्र और पाठशाला के लिए जनता में बदनामी उत्पन्न कर सकती है।

बच्चों को चाहिए कि किसी निश्चित उद्देश्य को मन में रख कर ही भ्रमण करें—उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जिनके उत्तर साधारणतः क्षेत्र-भ्रमण में ही निजी प्रेक्षण द्वारा सही-सही पाए जा सकते हैं। बालकों को भ्रमण का उद्देश्य 'जानना' चाहिए और उस व्यक्ति को, जो क्षेत्र में पथप्रदर्शक का काम करे, यह जानना चाहिए कि बच्चे क्या देखना और क्या सीखना चाहते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह पहले उस स्थान को स्वयं देख आए और पथप्रदर्शक से बात कर ले। बच्चों को एक साथ रखने में उसे पथ-प्रदर्शक की सहायता करनी चाहिए और इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को देखने और प्रश्न पूछने का पूरा-पूरा अवसर मिले।

भ्रमणों को पाठ्य विषय का आवश्यक अंग मानना चाहिए, न कि एक साधारण किया-मात्र। विज्ञान की पाठ्योजना में क्षेत्र-भ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण भी सिद्ध हो सकते हैं और केवल समय बरबाद करन वाले भी। सम्भवतः यह कहना

निरापद होगा कि क्षेत्र-भ्रमण की तैयारी में और उससे परिणाम निकालने में केवल भ्रमण में लगाए गए समय से अधिक समय लगना चाहिए।

बृह्य शाखा

एक अन्य रीति, जिससे आवश्यक विज्ञान सीखते हैं, यह है कि वे उसे चित्रों में दें, चाहे चलचित्रों में या फिर स्थिर चित्रों में। प्रारम्भिक पाठशालाओं की विज्ञान के सम्बन्ध में दृश्य साधनों का गुणगान अनेक लोगों ने किया है। आजकल जो साधन उपलब्ध हैं, उनमें कुछ का उपयोग किए बिना विज्ञान का पाठ्यक्रम अधूरा ही रह जाता है, परन्तु यह बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि इस साधन का उपयोग कैसे किया जाता है। चलचित्र और प्रक्षेपी(प्रोजैक्शन लैण्टर्न) द्वारा दिखाए गए स्थिर चित्र अनेक उपयोगी साधनों में से हैं। अन्य साधन भी इन्हें ही महत्वपूर्ण हैं।

यादें चलचित्रों या प्रक्षेपी का उपयोग करना हो तो नीचे दी गई कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए :

1. फिल्म का चुनना, चाहे वह चल हो अथवा स्थिर, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुस्तक का चुनना। वे फिल्में, जो उच्च स्तर के लिए बनाई जाती हैं, प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्रों के लिए बेकार रहती हैं। फिल्में ऐसी चुननी चाहिए जिनका प्रस्तुत समस्या से सीधा सम्बन्ध हो और जो विशेष रूप से उसी स्तर के लिए बनाई गई हों, जिनके लिए उनका उपयोग किया जाएगा।

2. फिल्मों को शिक्षक और छात्रों की एक समिति, पहले से देख ले, जिससे पता चल जाए कि वे दिखाने योग्य हैं या नहीं, और तब उन्हें देखने के लिए छात्रों को आवश्यक जानकारी आदि देकर तैयार किया जा सके। फिल्म को पहले से देख लेने में इस बात को निश्चित करने में सहायता मिलती है कि फिल्म का उद्देश्य क्या है और क्या वह उसे युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट कर सकती है; और उसे कब दिखाना

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

चाहिए—विषय के अध्ययन-क्रम के आरम्भ में, बीच में अथवा अन्त में, अथवा एक से अधिक बार अथवा किसी भी समय ?

3. फ़िल्म दिखाने के पहले कक्षा को तैयार कर लेना चाहिए। छात्रों को जानना चाहिए कि फ़िल्म में क्या विशेष बात देखनी चाहिए और वे फ़िल्म को क्यों देख रहे हैं ?

4. फ़िल्म के बाद विचार-विमर्श परमावश्यक है। इस विचार-विनियम में प्रश्न पूछे जाते हैं, विचार स्पष्ट किए जाते हैं और बातें समझाई जाती हैं।

5. यह चेष्टा करनी चाहिए कि छात्र यह अनुभव करें कि फ़िल्म भनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा के लिए दिखाई जा रही है।

चलचित्र और स्लाइड फ़िल्मों द्वारा दिखाई जाने वाली फ़िल्में उन दृश्य साधनों में से केवल एक हैं जो प्रारम्भिक पाठशाला के विज्ञान में उपयोगी होते हैं। बहुधा लोग भूल जाते हैं कि पर्याक्रियाओं और उसी प्रकार की पुस्तक-पुस्तिकाओं से लिए गए चित्रों का भी उपयोग किया जा सकता है। कई पाठशालाओं में शिक्षक, छात्र और उनके माता-पिता ने मिल कर शिक्षण सम्बन्धी चित्रों का बहुत अच्छा संग्रह एकत्र किया है। ऐसे चित्रों के उदाहरण ये हैं : वे चित्र जो यह दिखाते हैं कि जन्तु कैसे बढ़ते हैं, वे स्वर्ण को अपने वाकावरण के अनुकूल कैसे बना लेते हैं, वे कहां रहते हैं, और क्या खाते हैं; वे चित्र जो यह दिखाते हैं कि हम बिजली, मशीनों, लैन्सों तथा विविध प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी हैं। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि इन संग्रहों को कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं को स्पष्ट करने के लिए एकत्र करना चाहिए, न कि केवल चित्र इकट्ठे करने की धुन के लिए।

प्रतिकृतियां (माडल) कल्पनाओं को स्पष्ट

करने में बहुधा उपयोगी होती हैं और उन्हें प्रमुखतः इसी काम के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। प्रारम्भिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रतिकृतियां बनाने के कई दृष्टान्त हैं, जिनमें लगा समय लगभग पूर्णतया नष्ट ही जाता है। उदाहरणार्थ प्रारम्भिक पाठशाला के स्तर पर भौम से फूल के अवयवों की प्रतिकृति बनाना बहुत उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इस स्तर पर फूल की व्यौरेवार संरचना का ज्ञान आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर, सौर-परिवार के बारे में पर्याप्त कठिन कल्पनाएं किसी प्रतिकृति की सहायता से अधिक सुगमता से समझ में आ जाती हैं। ऐसी प्रतिकृति से छात्रों को आपेक्षिक नार्पों और सौर-परिवार के विविध सदस्यों के बीच की दूरियों का अनुमान मिलता है और उन्हें उनके आकारों और उनके बीच की दूरी की धारणाओं का, जिन्हें समझना वे अब आरम्भ कर सकते हैं, अधिक अच्छा बोध प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जिस प्रकार अन्य विज्ञान-साधनों के उद्देश्यों को हमेशा व्यान में रखा जाता है, उसी तरह प्रतिकृति बनाने के उद्देश्य पर भी भली-भांति विचार कर लेना चाहिए। त्रितु सम्बन्धी उपकरणों की प्रतिकृतियां और सन्तुलन-खिलौनों का बनाना निर्माण से सम्बन्धित काम है, जिनसे बच्चों की जानकारी बढ़ती है।

इस तरह कई प्रकार के कार्यकलाप हैं, जिनसे छात्र विज्ञान सीखते हैं। किसी कार्य का चुनना इस पर निर्भर है कि उससे क्या प्राप्त करना है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि समझ, हृति, वस्तु-तथ्यों को जानकारी बढ़े, न कि केवल दिखाने के लिए ही काम किया जाए। कार्यकलाप ऐसे होने चाहिए कि उनसे वैज्ञानिक सिद्धान्त अथवा कल्पना प्रविक सजीव, अधिक रोचक हो जाए और छात्रों को अपने मस्तिष्क और हाथों से भी उनमें भाग लेने का अवसर मिले।

विज्ञान सिखाने के साधन

लोग बराबर कहा करते हैं कि बालकों और बालिकाओं की पाठ्यचर्चा को अधिक सजीव और साभिप्राय बनाने के लिए हमें पास के साधनों

का उपयोग करना चाहिए। बहुधा विषय-वस्तु तथा शिक्षा की विधियां ऐसी होती हैं कि पास की वस्तुएं बेकार और विषय से दूर जान पड़ती हैं,

क्योंकि पढ़ाई को बच्चों के अनुभव से सम्बद्ध किए बिना ही हम पढ़ाने की चेष्टा करने लगते हैं। देहाती क्षेत्रों में अधिगति साधन प्राप्त हो सकते हैं और किन्तु भी दो क्षेत्रों की साधन-सम्पदा समान नहीं होगी।

यहाँ जिस प्रकार के साधन बताए गए हैं, वे कम-से-कम तीन रीतियों से उपयोगी हैं : प्रेक्षण करने वाले छात्रों को अधिक प्रश्न पूछने की प्रेरणा मिलती है, प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वे उत्तर-पुस्तिकों का काम देते हैं और वे विज्ञान की धाराओं को अधिक मूर्त बनाते हैं।

साधन

आगामी पृष्ठों में स्थानीय साधनों के कुछ उदाहरण नमूने के रूप में दिए गए हैं। उनके उपयोग के बारे में सुझाव भी दिए गए हैं।

1. कंडड अथवा पत्थर की खाल निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकती है :

यह सीखना कि पृथ्वी का तल अनेक वर्षों में किस प्रकार बदल गया है; इस बात का उदाहरण देखना कि पृथ्वी से निकले पदार्थ का उपयोग मनुष्य कैसे करता है; यह सीखना कि भू-वैज्ञानिक सामग्री के प्रेक्षण से पृथ्वी की आयु और ऋतु-परिवर्तन सम्बन्धी अनेक बातें जानने में वैज्ञानिकों को कैसे सहायता मिलती है; यह देखना कि मशीनों को किस प्रकार उपयुक्त ढंग का बनाया जा सकता है, और उन्हें किस प्रकार मनुष्य की सेवा में प्रयुक्त किया जा सकता है; भूतकाल के जन्तुओं के अध्ययन के लिए जीवाश्म (फासिल) प्राप्त करना।

सम्भव उपयोग : प्रेक्षण तथा सामग्री एकत्र करने के लिए क्षेत्र-अभ्यास करिए, उस स्थान के बारे में मातिक की बारी सुनिए, वह भी सुनिए कि बाजार में माल किस तरह भेजा जाता है, सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां बरती जाती हैं, इत्यादि।

2. पाठ्यशास्त्र के पात्र का बन निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

उन पाठ्यवर्तनों का पता लगाना जो जन्तुओं और पौधों में ऋतु के अनुसार होते हैं; पौधों और

जन्तुओं के रहन-सहन का अध्ययन; पता लगाना कि जन्तु कहाँ रहते हैं; देखना कि जन्तुओं की दुनिया और ऐड-पौधों की दुनिया किस प्रकार एक-दूसरे पर आश्रित हैं; यह देखना कि भौतिक परिस्थितियां, उदाहरणतः नमी, ताप और धूप की मात्रा किस प्रकार जीवित प्राणियों पर प्रभाव डालती हैं; उपयोगी और हानिकारक प्राणियों और पौधों के उदाहरण प्राप्त करना; प्रकृति के आश्वर्यों के बारे में जानना; वन-परिरक्षण सम्बन्धी विविध अवस्था-क्रमों का अध्ययन।

सम्भव उपयोग : प्रेक्षण सामग्री एकत्र करने के लिए क्षेत्र-अभ्यास करें, चुनी सामग्री को कक्षा में लाइए।

3. जला दृश्य क्षेत्र (सड़क का किनारा, खेत या बन) निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

पता लगाना कि पौधों और प्राणियों पर जलने का क्या प्रभाव पड़ता है; आग लगने के कारण का अध्ययन; यदि आग का लगना हानिकारक है तो ऐसी आग न लगने देने की रीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना; ऐसी आग को रोकने की रीतियां सीखना; यह देखना कि जले क्षेत्रों में जीवन फिर कैसे आरम्भ होता है; पर्याप्त समय तक निरीक्षण करके यह देखना कि स्थान के फिर चलने में कितना समय लगता है; देखना कि उस क्षेत्र के अपकरण (अर्थात् मिट्टी के कट कर बह जाने) पर क्या प्रभाव पड़ता है।

सम्भव उपयोग : आग के परिणाम की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर जाइए, अग्नि से अतिक्रम हुई सामग्री एकत्र करिए और उसकी जांच करिए।

4. घास का कोई खेत निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

अपकरण के चिह्न देखना, जिससे पता चले कि इसका प्रारम्भ कैसे होता है और इसकी रोक-थाम कैसे हो सकती है; यह देखना कि पौधे स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल किस प्रकार

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ

बनाते हैं, उदाहरणार्थ पत्तियों की स्थिति, जड़ों की लम्बाई तथा स्थिति और पत्तियों की संरचना; विविध प्रकार के कीड़ों का प्रेक्षण, यह देखने के लिए कि वे कहाँ तक पर्यावरण के अनुकूल हैं; लाभदायक या हानिकारक कीड़ों को कैसे मारा जाता है; यह देखना (यदि खेतों में फसल उगाई जा रही है) कि आदिता देने के लिए पौधों की देखभाल कैसे की जाती है; खेत के ऊपर और नीचे भागों में नमी की विविध मात्राएं देखना; यह देखना कि जहाँ प्रथिक आदिता रहती है वहाँ के पौधे आदि किस प्रकार भिन्न होते हैं।

सम्भव उपयोग : पौधों का प्रेक्षण करने के लिए खेतों में जाइए, विशेष अध्ययन के लिए कुछ पौधों को खोद कर साथ लाइए, अधिक अध्ययन के लिए कीड़े एकत्र करिए, विषय को जानने वाले किसी व्यक्ति से कहिए कि वह खरपात (वीड) और कीड़ों के नियन्त्रण की समस्याओं पर कक्षा में अपने विचार बतलाए।

5. निर्माण-शब्दोंन भवन निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

यह देखना कि विजली का तार कैसे लगाया जाता है; यह देखना कि मकान को कैसे इंसुलेट किया जाता है, जिससे बाहर की ठण्डक या गरमी भीतर न घुसे*; यह देखना कि कौन-कौन से विभिन्न पदार्थों का उपयोग हो रहा है; नींव खोद कर निकाली गई मिट्टी के नमनों की परीक्षा और उद्यान की मिट्टी से उसकी तुलना; यह सीखना कि मल और गन्दे पानी की निकासी कैसे की जाएगी।

सम्भव उपयोग : अध्ययन के लिए भवन-निर्माण सामग्री के नमूने एकत्र करिए, जैसे विजली के तार, जिन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के विस्वाही (इंसुलेटिंग) पदार्थ हों; राकबूल (ऐस्वेसट्स) तथा उष्मा से इंसुलेट करने वाले अन्य पदार्थ, मिट्टियों के नमूने, इत्यादि। उन कारीगरों से बात कीजिए, जो घर में तार अथवा पाइप

लगा रहे हैं या इसी प्रकार के अन्य काम कर रहे हैं। यदि कोई कुछां हो तो देखिए कि उसके लिए स्थान कैसे चुना गया और उसकी खोदाई कैसे की जाती है। यदि घर के भीतर ही मल-त्याग का प्रबन्ध है तो देखिए पाइप, मलकूप आदि कहाँ और कैसे लगे हैं, यदि बाहर है तो देखिए जिस स्थान पर कूप बनाया गया है वहाँ उसकी और पानी के आने-जाने के मार्ग की दूरी या निकटता क्या है और वही स्थान क्यों चुना गया है ?

6. लकड़ी चीरने का कारखाना निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

यह सीखना कि काटने के लिए पेड़ कैसे लगे जाते हैं; पता लगाना कि कम आयु वाले वृक्षों की रक्षा कैसे की जाती है; यह सीखना कि किस प्रकार की लकड़ियां बहुमूल्य समझी जाती हैं और क्यों; मशीनों का उपयोग देखना; देखना कि अनगढ़ इमारती लकड़ी कैसे तैयार की जाती है और कैसे सुखाई जाती है; प्राणियों और पौधों के जीवन में जंगल कट जाने पर होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण।

सम्भव उपयोग : लकड़ी चीरने के कारखाने में जाइए और वहाँ के कार्यक्रम को ध्यान से देखिए। लकड़ी के नमूने लाइए, जिनसे वार्षिक बलय देखे जा सके, जंगल में जाकर देखिए कि पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं, इस बात को देखिए कि विविध मशीनें कार्मिकों की सहायता किस प्रकार कर रही हैं।

7. फार्म निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

खाद्यान्नों का परिषेक्षण तथा उनका संग्रह करने की विविध रीतियों का, पशुओं की देखभाल का और तरकारियों तथा फूलों की खेती का प्रेक्षण करना; घर, खेत, खलिहान, उद्यान तथा फल-उद्यान में मशीनों का उपयोग देखना; यह देखना कि मकान तथा खेत में आग लगने से बचने के लिए क्या प्रबन्ध है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं ?

*भारत में इंसुलेटिंग की प्रथा नहीं है—अनुवादक

सम्भव उपयोग : कार्म पर विज्ञान का क्रियात्मक उपयोग देखने जाइए; विद्यार्थी अपने घर में देखे हुए वैज्ञानिक तथ्यों और उपयोगों का विवरण दें।

8. तरकारियों और फलों का खेत निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

यह देखना कि पौधे पर्याप्त प्रकाश, नमी और बढ़ने के लिए अन्य आवश्यकताएं कैसे पूरी करते हैं; यह सीखना कि बोने के लिए भूमि कैसे तैयार की जाती है, पौधे कैसे बोए और रोपे जाते हैं और बीज कैसे विचरते हैं; यह अध्ययन करना कि पौधे कैसे स्वयं परापृष्ठ (सेल्फ पालिनेटेड) अथवा पर-परापृष्ठ (क्रास पालिनेटेड) होते हैं और बीज कैसे अंकुरित होते हैं तथा पौधे कैसे बढ़ते हैं; यह सीखना कि विविध प्रकार के पौधों के लिए किस प्रकार की मिट्टियाँ उपयुक्त होती हैं और मिट्टी की जांच कैसे की जाती है; यह प्रेक्षण करना कि पौधे आहार कैसे संचित करते हैं, और क्रृतु के अनुसार पौधों में क्या परिवर्तन होते हैं।

सम्भव उपयोग : पौधों और उनके बढ़ने की रीतियों का प्रेक्षण करने के लिए उद्यानों को देखिए; उन बीजों और फलों का संचय करिए जिनसे विकीर्णन (विसरने) की रीतियाँ दिखाई दें सकती हैं; कक्ष में बीज अंकुरित करिए, जिससे पौधों के उगने और बढ़ने पर अधिक बातें सीखी जा सकें; पौधों के बढ़ने पर, प्रकाश, ताप, और नमी का प्रभाव देखने के लिए प्रयोग कीजिए; यदि हो सके तो पाठशाला में एक उद्यान लगाइए जिससे पौधों के उगने और बढ़ने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके।

9. मधुमक्खी-पालन उद्यान निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :-

यह देखना कि मधुमक्खियों की देखभाल कैसे होती है; यह देखना कि छते (हाइब) किस प्रकार बनाए जाते हैं और जाइके के लिए उनमें क्या व्यवस्था की जाती है; यह देखना कि जब मधुमक्खियाँ झुण्ड बनाती हैं (या एक झुण्ड में

उड़ती हैं) तो क्या होता है तथा उनकी देखभाल किस प्रकार की जाए कि वे किसी को काटें नहीं और मधुमक्खियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी होती हैं; मधुमक्खियों को काम करते हुए देखना, और यह देखना कि छते के भीतर उनका जीवन कैसे चलता रहता है; एक ऐसे कीट-बर्ग का अध्ययन करना, जो समाज-प्रिय हो और जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो।

सम्भव उपयोग : मधुमक्खी-पालन उद्यान में जो विविध काम किए जाते हैं उन्हें वहाँ जाकर ध्यान से देखिए। मधुमक्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और यह सीखने के लिए कि वे किस प्रकार रहती हैं मधुमक्खी-पालक से बात कीजिए; मरी मधुमक्खियों को प्रवर्धक लैन्स अथवा सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख कर ध्यान से देखिए।

10. पाठशाला की भूमि पर लगा हुआ कोई वृक्ष निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

क्रृतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों, पत्तियों के विवास, कलिकाशों के बनने और बढ़ने का प्रेक्षण करना; पत्तियों का रहन-सहन और उनके धोसले देखना और उनकी उपयोगिता जानना।

सम्भव उपयोग : वृक्ष को समय-समय पर देखिए और प्राप्त तथ्यों पर विचार-विनिमय कीजिए; छोटी शाखाएं काटिए और उनका अधिक ब्यौरेवार अध्ययन करिए।

11. फलों का उद्यान निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है :

यह सीखना कि पौधे दूसरी जगह कैसे रोपे जाते हैं; उन पर छिड़काव कैसे किया जाता है और वे किस प्रकार छाटे जाते हैं; पौधों और उपयोगी कीटों (मधुमक्खियाँ), हानिकारक कीटों (स्केल अथवा शल्क, ऐफिड अथवा रस चूसने वाले कीड़े) तथा अन्य कीटों का सम्बन्ध देखना; एक उदाहरण देखना कि मनुष्य पौधों से अपना आहार पकने की क्या उपाय करता है; ताप में होने वाले अचानक परिवर्तनों अथवा अन्य क्रृतु

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

सम्बन्धी घटनाओं का पौधे की वृद्धि पर प्रभाव देखना।

सम्भव उपयोग : वर्ष के विविध समयों पर फल-उद्यान में जाइए और वृक्षों को देखिए; विशेष फलों को ध्यान में रखिए और देखिए कि जैसे-जैसे अहतु बदलती है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है; कीटों और कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त फलों को एकत्र कीजिए और उनका अध्ययन कीजिए।

12. नाशा या पोखर निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है:

विविध प्रकार के पौधों का जीवन देखना और यह देखना कि तने, जड़ें, पत्तियां, फूल और फल स्वयं को नमी वाले पर्यावरण के अनुकूल कैसे बना लेते हैं। यह देखना कि जल में या जल के निकट रहने के लिए जन्तु किस प्रकार उसके अनुकूल हैं और भूमि के जन्तुओं से उनकी तुलना; देखना कि ये जन्तु और पौधे अहतुओं के बदलने पर किस प्रकार बदलते हैं; आहार-प्राप्ति और निवास-निर्माण सम्बन्धी उनका आचरण देखना।

सम्भव उपयोग : ऊपर बताए गए विज्ञान के उपयोगों को देखने के लिए उन इलाकों में जाइए, अधिक अध्ययन के लिए पौधों और प्राणियों के नमूने इकट्ठे कीजिए।

13. सड़कों के आसपास के स्थल निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकते हैं:

प्राणियों के निवास देखना, और आहार-प्राप्ति की उनकी रीतियां तथा बच्चों का पालन देखना; विविध प्रकार के वानस्पतिक जीवन का प्रेक्षण यह देखने के लिए कि पर्यावरण के अनुसार उनमें क्या अनुकूल परिवर्तन हो सकते हैं—उदाहरणार्थ बीज-विकीर्णन की रीतियां और सूखे अथवा अधिक नमी की परिस्थितियों में उनमें विभिन्नता; पौधों और प्राणियों का परस्पर सम्बन्ध (उदाहरणार्थ पौधों और कीटों का सम्बन्ध); अपक्षरण अर्थात् मिट्टी के कट कर बह जाने के उदाहरणों का तथा उसे रोकने के उपायों का अध्ययन। यदि सड़क किसी पहाड़ी को काटती हुई जाती है तो छात्र ऊपर की मिट्टी

और नीचे की मिट्टी का अन्तर देख सकते हैं; ऊपरी मिट्टी की गहराई देख सकते हैं और तब अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसे वह जाने से बचाना कितना अधिक भवित्वपूर्ण है।

सम्भव उपयोग : ऊपर बताए गए उदाहरणों के प्रेक्षण के लिए क्षेत्र पर जाइए, ऊपरी और नीचे की मिट्टियों के नमूने लाइए, प्रत्येक में पौधे उगाने की चेष्टा करिए और परिणामों का अध्ययन कीजिए; अलग-अलग तरीके से विकीर्ण होने वाले बीजों के नमूने एकत्र करिए।

14. समाज के विभिन्न वर्गों के लोग:

समाज में ऐसे लोग होते हैं जो हमें सहायता दे सकते हैं। उदाहरणतः अनेक माता-पिता बहुत दूर-दूर तक यात्रा करने का अनुभव रखते हैं; कुछ पशु-पालन विशेषज्ञ होते हैं; कुछ अच्छे गृहस्थ होते हैं; कुछ शिकार, जानवर फंसाने और मछली मारने के बारे में अपना अनुभव बता सकते हैं। समाज के प्रायः सभी वर्गों में मिस्त्री और मकानिक होते हैं। ऐसे लोग स्कूल के बच्चों की समस्याओं को हल करने में सहायता देने के लिए बुलाने पर प्रसन्नता से आते हैं। समाज के ऐसे वयस्क लोगों को छात्रों की सहायता के लिए नियमित रूप से बुलाना सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए लाभदायक हो सकता है।

इन साधनों का उपयोग करना

इन सब साधनों का महत्व इस पर निर्भर है कि उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। प्रत्येक का उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। उदाहरणतः किसी समस्या को हल करने में सहायता पाने के लिए, किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए, या विज्ञान की उपयोगिता और महानता को अधिक हृदयांगम करने के लिए। क्षेत्र-अमरण की तैयारी करते समय शिक्षक और बच्चों के मन में स्पष्ट रूप से एक उल्लिखित समस्या या समस्याएं होनी चाहिए। शिक्षक, और हो सके तो छात्रों की एक छोटी समिति को उस स्थल में पहले ही हो आना चाहिए जहां कक्षा को

ले जाना है ताकि उस स्थान की उपयुक्तता और सुगम्यता का पता चल जाए।

जब कभी छात्र समाज के किसी व्यक्ति से कुछ सूचना पाने की योजना बनाए तो ऐसा उपाय करिए कि वह व्यक्ति पाठशाला में आने का उद्देश्य समझ ले और वार्ता को इतना सरल रखिए कि बच्चे उसे समझ सकें।

सामग्री के पूर्ण उपयोग के लिए ध्येत्र-भ्रमण के बाद किए जाने वाले विचार-विनिमय की योजना बड़ी साधारणी से बनानी चाहिए। समस्या के हल में तर्कोचित आधार-सामग्री का उपयोग करना चाहिए, और अगर किसी वस्तु के बारे में यह विचार हो कि इन परिणामों के

विवरण को लिखित रूप में रख लेना बालकों के लिए लाभप्रद रहेगा तो ऐसे विवरण लिख कर रख लिए जाएं।

अधिकांश पाठशालाएं अभी समाज के व्यक्ति-साधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रही हैं। यद्यपि हम कहते हैं कि 'विज्ञान पर्यावरण का अध्ययन है', तो भी हम अपने चारों ओर की अनेक साधारण वस्तुओं को भूल जाते हैं। हमारी उन देहाती पाठशालाओं में पढ़ाई अवश्यमेव बहुत अच्छी नहीं है जहाँ बहुत कीमती साधन रखे गए हैं। अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है जहाँ बच्चे और शिक्षक अनुभव करते हैं कि वे विज्ञान की दुनिया में रहते हैं और उसके अध्ययन के लिए सामग्री पास में ही है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए सुविधाएं

बहुत थोड़े ही स्कूल, चाहे वे शहर में हों या देहात में, इतने सीधार्यशाली होते हैं कि विज्ञान की शिक्षा के लिए उनमें एक अलग कमरे की व्यवस्था हो। जहाँ प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम के अंग के रूप में रहता है, वहाँ भी साधारणतः विज्ञान की पढ़ाई उसी कमरे में होती है जिसमें अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। परन्तु विज्ञान लगभग सभी अन्य विषयों से इस बात में भिन्न है कि स्वयं अनुभव और प्रयोग किए बिना इसे ठीक से सीखा नहीं जा सकता। विज्ञान के बारे में केवल सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं होता। यदि विज्ञान की शिक्षा चिरस्थायी करनी है तो बच्चों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रेक्षण और प्रयोग करें।

परन्तु यदि बच्चों को अपनी साधारण कक्षा में प्रयोग और प्रेक्षण करना पड़े तो कुछ कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं, जिनको दूर करना आवश्यक है। इस खण्ड में कुछ ऐसे सुझाव दिए जाएंगे, जिनसे व्यस्त शिक्षक अपनी कक्षा में ही कुछ सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेंगा ताकि विज्ञान का शिक्षण अधिक सहित हो जाए।

कक्षा में विज्ञान-मंच बनाना

कक्षा के एक कोने को अलग कर लीजिए और

इसका नाम 'विज्ञान-मंच' (सायंस कार्नर) रखिए। हो सके तो एक या दो मेजें लीजिए, जिनका उपयोग प्रयोग तथा प्रदर्शन के लिए किया जा सके। सम्भवतः पाठशाला का अभिरक्षक मेज के नीचे सामग्री, उपकरण आदि रखने के लिए, जिनके बारे में आगामी अव्ययों में बताया गया है, टांड (शेल्क्ज) लगाने की व्यवस्था कर देंगा। विज्ञान-मंच में प्रदर्शित करने के लिए सामग्री लाने के प्रति छात्रों को उत्साहित कीजिए। कुछ शिक्षक प्रति सप्ताह एक प्रतियोगिता यह देखने के लिए लगा रखते हैं कि कौन-सा छात्र उस वस्तु को लाएगा जो 'इस सप्ताह की विज्ञान वस्तु' चुनी जाएगी।

विज्ञान-मंच कियाशीलता और उत्साह का स्थान होना चाहिए। बच्चों द्वारा लाई गई सामग्री को मेज पर इतने समय तक न पढ़ा रहने दिया जाए कि उसका आकर्षण ही मिट जाए।

मत्स्यकुण्डों का प्रबन्ध

मत्स्यकुण्ड चिरस्थायी रोचकता की वस्तु है और उसमें विज्ञान की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं का प्रेक्षण किया जा सकता है। मत्स्यकुण्ड बनाने

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

और उसकी देख-रेख करने के लिए निर्देश पृष्ठ 75-76 पर दिए गए हैं।

जन्तुओं के पिंजड़े

कक्षा में कई प्रकार के जन्तु प्रेक्षण के लिए रखे जा सकते हैं। कुछ जन्तु पिंजड़े में बन्द होने पर उतने व्यग्र नहीं होते जितने अन्य जन्तु। बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे अपने पालतू जन्तुओं को प्रेक्षण तथा अध्ययन के लिए कुछ समय तक पाठशाला में रखें। जन्तुओं के लिए पिंजड़े बनाने के सम्बन्ध में सुझाव पृष्ठ 69-70 पर दिए गए हैं।

इतु-शाला (बैंदर स्टेशन) की स्थापना करना

अध्याय 8 में इतु सम्बन्धी कुछ सरल उपकरणों का वर्णन है। ये ऐसी सामग्री से बनाए जा सकते हैं जो प्रायः सभी जगह मिलती है। इतु-परिवर्तनों को हर रोज देखना एक रुचिकर काम है और उससे विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी आधार-सामग्री भी मिल सकती है।

विज्ञान बुलेटिन

यदि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए तो वे बराबर ऐसी रोचक पठन सामग्री लाते रहेंगे जिसे उन्होंने किसी समाचारपत्र या पत्रिका से कितारा है। विज्ञान बुलेटिन पट्ट वह स्थान है जहां ऐसी पठन सामग्री प्रदर्शित की जा सकती है। उस पर विज्ञान कक्षाओं में तैयार किए गए

चित्र तथा अन्य वस्तुएं भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। विज्ञान बुलेटिन पट्ट को विज्ञान-मंच के ऊपर की दीवार पर सुगमता से लटकाया जा सकता है। बुलेटिन पट्ट नरम लकड़ी या प्लास्टर बोर्ड से बनाया जा सकता है।

उगती हुई बनस्पतियाँ

यदि बिड़िकियों की चोखटों पर छोटे-छोटे गमले रख दिए जाएं, जहां उन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सके, तो बीज तथा छोटे पौधे उगाने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाएगा। यदि कुछ प्रयोगों के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता हो तो फलों की पुरानी पेटियों से लकड़ी के कम गहरे बक्स बनाए या बनवाए जा सकते हैं या पाठशाला की भूमि का एक अंश इस काम में लिया जा सकता है।

संग्रह अलमारी

एक बार यदि बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाए तो वे सदैव अपनी इच्छा से ही नमूने एकत्र करते रहते हैं। जो कुछ वे एकत्र करते हैं, उनमें से कुछ वस्तुएं अवश्य ही पाठशाला में रख ली जाती हैं। ऐसे कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा करने की एक रीत यह है कि एक अलमारी का प्रबन्ध कर दिया जाए जहां विज्ञान की वस्तुएं संग्रह के रूप में अथवा अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकें।

अध्याय—२

सामान्य उपकरण बनाना


जहां कहीं भी विज्ञान का शिक्षण, प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है, वहां कुछ उपकरण ऐसे रहते हैं जिनका उपयोग बार-बार करना पड़ता है, जैसे—ज्वालक (बर्नर), तिपाई (ट्रिपाड), फ्लास्क, मत्स्यकुण्ड (अक्वेस्ट्रिया), [छोटे जाल (डिप नेट्स)], इत्यादि। शिक्षण के लिए ये प्रायः अनिवार्य हैं। इस अध्याय में ऐसे उपकरणों के बनाने के विषय में सुझाव दिए जाएंगे जिनसे बार-बार काम लेना पड़ेगा।

क. तोलने के उपकरण

1. सरल 'कमानी' तुला

टीन के पुराने ढक्कन में कील से ठोंक कर चार छेद कीजिए। ये छेद परिधि के निकट और बराबर-बराबर दूरियों पर हों। इन छेदों में डोर डालिए और उनके सिरों को इकट्ठा करके गांठ लगा दीजिए। अब इस पलड़े को रबड़ के छल्ले (रवर वैण्ड) से बांध दीजिए और दूसरे सिरे को एक खूंटी से लटका दीजिए।


यदि बाट उपलब्ध न हों तो भी इस तुला का अंशांकन मापक जार से पानी के ज्ञात आयतनों को उड़ेल कर और तब खड़े आधार-दण्ड पर पलड़े के सामने चिह्न लगा कर किया जा सकता है। तब पथर के ऐसे टुकड़े खोजे जा सकते हैं जो



रबड़ को उतनी ही दूरी तक तानें। इन पथरों पर उनकी तौल लिख लेनी चाहिए, जिससे वे भविष्य में बाटों का काम दे सकें। यह काम सिक्कों से कहां तक चल सकता है, इसकी भी जांच करनी चाहिए।

2. भारी बोझों के लिए कमानी तुला

कुर्सी अथवा मोटरकार की गद्दी की कमानी को लकड़ी के पटरे पर जड़ दीजिए। यह लकड़ी इस यन्त्र का आधार (पैंडी) होगी। पलड़ा बनाने के लिए टीन के बड़े ढक्कन का या थाली का उपयोग कीजिए। उसे कमानी के ऊपरी सिरे पर जड़ दीजिए। यदि टांके से कमानी झाली (जोड़ी) न जा सके तो पलड़े में सुविधाजनक स्थानों में दोहरे छेद करके और उनमें पतला तार डाल कर पलड़ा बांधा जा सकता है।




आधार-पट्टे में दो खड़ी पटरियां जड़िए। इनका काम तुला के पलड़े के अनुसार भाप दिखाना है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पलड़े में $\frac{1}{2}$, 1, 2, इत्यादि किलोग्राम रख कर खड़ी पटरियों पर अंशांकन कीजिए। छोटी-बड़ी बोतलों में पानी भरने से लिटर तथा उसके भागों के सुविधाजनक साप-मान बन सकते हैं और अवश्य ही, किसी बोतल में जितने लिटर पानी होगा उतने ही किलोग्राम उस पानी की तौल होगी।

3. विषम-भुज तुलाएं

डण्डी लकड़ी अथवा धातु की बन सकती है। यदि डण्डी धातु की हो तो डण्डी की नीचे वाली सतह पर खांचे (नॉचेज) रेते जा सकते हैं, जिनसे विविध भारों के सन्तुलन-बिन्दु का पता चल सकेगा।



4. प्रयोगशाला के लिए विषम-भुज तुला


ऐसी विषम-भुज तुला बनाने के लिए, जो 500 ग्राम तक तोल सके, एक मीटर लम्बी लकड़ी की पटरी लेनी चाहिए। इसमें ऊपरी किनारे से 3 मिलीमीटर हट कर और एक सिरे से 12 सेंटीमीटर पर भोटा सूजा (या मोटी सूई) ठोकना चाहिए। तुला इसी सूजे पर सन्तुलित होगी। सीसे के गोल टुकड़ों, या अन्य किसी पर्याप्त भारी वस्तु को सम-बाटों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है; यदि सीसें का उपयोग किया जाए तो टीन के ढक्कन में पिघला सीसा ढाल कर सम-बाट बनाया जा सकता है।

तार का रकाब (स्टिरप) बना कर और उससे बूट पालिश की डिब्बी का ढक्कन लटका कर

पलड़े का काम चलाया जा सकता है। इसे अक्ष से 6 सेंटीमीटर पर लटकाना चाहिए।

U अक्षर के आकार की धातु की पट्टी (प्लेट) अथवा दर्पण जड़ने की पीतल की दो पट्टिकाएं (प्लेटें) लकड़ी की इष्टिका (ब्लाक) के दोनों ओर जड़ दी जानी चाहिए।

दो खिसकने वाले बाटों की आवश्यकता पड़ेगी। इनमें से एक 50 ग्राम का हो। यह सीसे के टुकड़े को तांबे के तार से लटका कर बनाया जा सकता है। दूसरा 1 ग्राम का हो। इसकी आकृति U अक्षर के समान हो और डण्डी पर इसको (उलट कर) रख दिया जाए। डण्डी के ऊपरी किनारे को 6 सेंटीमीटर के भागों में निशान लगाए जा सकते हैं।




इस यन्त्र का उपयोग करते समय 50 ग्राम के भार को खिसका कर सबसे पास के सन्तुलन-बिन्दु का पता लगाना चाहिए और तब 1 ग्राम वाले आरोही (राइडर) की सहायता से अन्तिम सम्भजन करना चाहिए। इसके लिए पटरी पर चिह्न नहीं बनाए गए हैं, परन्तु निकटतम चिह्न से इसकी दूरी का पता परकार द्वारा तुरन्त पाया जा सकता है।

इस तुला से तोलने का काम शीघ्र होता है और इसका काम सन्तोषप्रद रहता है।

5. घड़ी की कमानी तुला

0-1 ग्राम अथवा 1-10 ग्रामों को तोलने के लिए एक सुगाही (सेंसेट्रिव) तुला घड़ी की कमानी के एक टुकड़े और लकड़ी की इष्टिका (ब्लाक) अथवा धागे की रील से सुगमता से बन सकती है।

लकड़ी की इष्टिका या धागे की रील को किसी सुविधाजनक आधार पर जड़ दीजिए। फिर उस पर जेबी लकड़ी की कमानी का लगभग 20 सेंटीमीटर लम्बा टुकड़ा जड़िए। कागज या दफ्ती का शंकु के आकार का पलड़ा बनाइए। इस पलड़े को कमानी में, लगभग उसके मुक्त सिरे के पास, मुहर करने की लाख से, या अध्यय 18 में बताए गए किसी अन्य सीमेंट से, जोड़ दीजिए। कमानी के मुक्त सिरे से संकेतक (प्वाइटर) का काम लीजिए और पोस्टकार्ड से मापनी का। जात बाटों को पलड़े में रख कर अंशांकन कीजिए। तुला का सुग्राही होना कमानी पर निभर है परन्तु मापनी पर अंश-चिह्न सन्तोषजनक दूरियों पर पड़ेंगे।




6. सरल विषम-भुज तुला (100 ग्राम तक तोलने वाली)

इसका पलड़ा दफ्ती से बनाया जाता है और वह कीप (फनेल) के आकार का होता है। पलड़े को डण्डी में जोड़ दिया जाता है। डण्डी त्रिभुजाकार चादर से पर्ती लकड़ी अथवा मोटे प्लास्टिक (जैसे पस्पेंस) से बनाई जाती है।

डण्डी गावदुम के आकार की होती है—दूरस्थ सिरे पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी और पलड़े के पास 5 सेंटीमीटर चौड़ी। कीलक (पिवट) मोटे सूजे (या मोटी सूई) का बनाया जा सकता है। कीलक को पलड़े से 2 सेंटीमीटर और ऊपरी किनारे से 2 सेंटीमीटर हट कर ठोकना चाहिए। डण्डी को सन्तुलित करने के लिए डण्डी या पलड़े का कुछ भाग काटा जा सकता है।

कीलक धातु के रकाब (स्टिरप) में बने छेदों में आंशित रहता है। एक बाहरी रकाब भी

होती है, जिसके कारण डण्डी अगल-बगल नहीं विसक सकती। डण्डी के ऊपरी किनारे पर U अक्षर के आकार का आरोही (राइडर) रखा जाता है : प्रामाणिक बाटों की सहायता से डण्डी को अंशांकित करके उसमें खांचे (नॉचेज) बना दिए जाते हैं। पलड़े के समान शंकु के आकार में मोड़े गए फिल्टर कागज के उपयोग से चूर्ण किए गए ठोस पदार्थ (या पदार्थों का चूरा) भी तोले जा सकते हैं।




7. जेझडर की तुला

यह चातुर्यपूर्ण तुला, जो प्रयोग दिखाते समय बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, कुछ ही मिनटों में पिन, रेजर ब्लेड, कार्क और इस्पात की बनी बुनने की सलाई का उपयोग करके बनाई जा सकती है।

पहले सलाई को काग में आर-पार घुसा दिया जाता है। घुसाने की दिशा काग के एक सिरे के व्यास-समानान्तर हो, और सलाई काग के केन्द्रीय अंश से यथासम्भव दूर रहे।

प्रत्येक सिरे से अर्ववेलन काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे तुला की डण्डी उस आकृति की हो जाती है जैसी दिखाई गई है।



काग को सहारा देने वाली पिनें अब काग में घुसा दी जाती हैं, और उन्हें शीशे के टुकड़ों पर टिका दिया जाता है। ये टुकड़े लकड़ी की पट्टी पर चिपकाए जाते हैं।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

इस तुला की सहायता से कुछ प्रयोग

1. सिलाई के धारे का या पतंग के पतले कागज का छोटा-सा आरोही, जिसकी तौल लगभग 2 मिलीग्राम हो, डण्डी की एक भुजा के बीच में रखने पर वह डण्डी को लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा देता है।

2. थोड़ी-सी भी गैस का बनना इससे प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए गैस को छोटी-सी चंचु (जेट) द्वारा निकलने देना चाहिए और गैस की धार को डण्डी के सिरे पर पड़ने देना चाहिए।

3. जलती दियासलाई को डण्डी के नीचे लाकर वायु में संयन्त्रण (कन्वेक्शन) धारा में दिखाया जा सकता है।

4. तुला की डण्डी को विसंवाहित चालक होती है, इसलिए वह बिजलीकरण (एलेक्ट्रिफिकेशन) दिखा सकती है? विद्युत्मय दण्ड से इसको छूकर इसे विद्युत्मय किया जा सकता है।

5. यदि सलाई को चुंबकित कर दिया जाए तो वह नमन सूई (डिप नीडल) बन जाएगी।

6. यदि डण्डी को चुंबकित कर दिया जाए और इसके एक सिरे के पास तार की कुण्डली लगाई जाए तो तुला धारा-मापी (गैलवैनोमीटर) का काम देगी। उदाहरणार्थ लोहा और कान्टैप्टन के तापान्तर युग्म (थर्मोकपल) को 1.5 मिली-मीटर मोटे तांबे के तार की 22 फेरे की कुण्डली से सम्बद्ध किया जा सकता है। युग्म को मोमबत्ती की ज्वाला से तप्त करने पर केवल लगभग 0.01 वोल्ट का विभव-अन्तर उत्पन्न होता है, तो भी तुला की डण्डी बहने वाली धारा का पता लगा लेती है।

7. प्रक्षेपण। यदि तुलादण्ड में दर्पण की छोटी

पट्टी लगा दी जाए और इस दर्पण से परावर्तित (रिफ्लेक्टेड) प्रकाश-किरणावली का उपयोग किया जाए तो तुलादण्ड का छोटे-से-छोटा संचलन भी दिखाया जा सकता है, यहां तक कि यदि पूर्वोक्त तापान्तर युग्म को केवल अंगुलियों से गरम किया जाए तो भी ताप-विद्युत् धारा इस सरल उपकरण से दिखाई जा सकती है।

8. सब कामों के लिए उपयोगी समझुज तुला

लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी और लगभग 2.2 सेंटीमीटर लम्बी वर्गाकार लकड़ी की पैंदी (बेस) बनाइए। फिर 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से दो खड़े आधार-स्तम्भ बनाइए। इनको पैंदी के केन्द्र के पास इस प्रकार जड़िए कि दोनों के बीच में 2.5 सेंटी-मीटर का अन्तर रहे। इनको या तो पैच से जड़ा जाए या पैंदी में छेद किए जाएं और उन्हीं में इन को कस दिया जाए। प्रत्येक खड़े आधार के ऊपरी किनारे को पतली आरी से इतना गहरा काटना चाहिए कि अगर उसमें रेजर ब्लेड डाला जाए तो उसकी धार लकड़ी से लगभग 4 मिलीमीटर उठी रहे। चौर (स्लाट) में रेजर ब्लेड कस कर बैठा रहे।

तुलादण्ड मीटर की पटरी या उतनी लम्बी लकड़ी की किसी भी पटरी से बनाया जाता है। पटरी के ठीक सन्तुलन-केन्द्र पर एक बहुत पतली कील आर-पार ठोंक दी जाती है। यह कील दोनों खड़े आधारों के बीच रहती है और रेजर ब्लेडों पर रखी जाती है।

इस तुला से यह दिखाया जा सकता है कि वायु में भार होता है। इसके लिए खेलने के दो समान गुब्बारे लेने चाहिए और साइकिल पम्प से एक में कम और एक में अधिक हवा भरनी चाहिए।


ख. उष्मा के प्राप्ति-स्रोत

1. टीन के डिब्बे का ज्वालक

एक बड़ा डिब्बा लीजिए, जिसका व्यास 10 सेंटी-मीटर का हो। पैंदी से लगभग 4 सेंटीमीटर पर डिब्बे के चारों ओर त्रिभुजाकार छेद अंकित करिए,


जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कतरनी से प्रत्येक त्रिभुज की तिरछी भुजाओं पर टीन को काटिए परन्तु त्रिभुज की आधार-रेखा को न काटें। छेद बनाने के लिए इतना पर्याप्त है।

त्रिभुजाकार भागों को भीतर की ओर मोड़ दीजिए। इस प्रकार कोयले के टिकने के लिए मंच बन जाएगा। इसमें लकड़ी का कोयला जलाना चाहिए।



2. मैथिलेटेड स्पिरिट का बनार

पुराने बूट पालिश के डिब्बे से सरल बनार बन सकता है। तो भी ऊपरी ढक्कन में धातु की एक नली टांके से आली (जोड़ी) जा सकती है और एक तार मोड़ कर उससे एक कामचलाऊ हल्था (हैडल) बन सकता है। लेकिन यह बहुत अवश्यक नहीं है। बत्ती के लिए चीथड़ों या रही कच्चे सूत का उपयोग किया जा सकता है।




3. दोशनाहि की शीशी का स्पिरिट लैम्प

स्याही की ऐसी शीशी लीजिए जिसका ढक्कन धातु का हो और घुमा कर पेच के सहारे शीशी पर कसा जाता हो। कील से ठोक कर बीच में

ग. अन्य उपयोगी वस्तुएं

1. एक मामूली त्रिपाद

टीन के डिब्बे की बगल को तीन जगहों से काट कर एक उपयोगी त्रिपाद (ट्रिपाड) बनाया जा सकता है। विविध ज्वालकों के लिए स्टैंड के काम के लिए इस प्रकार दो-तीन त्रिपाद बना रखना सुविधाजनक रहेगा।




छेद कर दीजिए। इस छेद में तिकोनी रेती घुसा कर और रेती को घुमा-घुमा कर छेद को इतना बड़ा करिए कि उसका व्यास लगभग 8 से 10 मिलीमीटर का हो जाए। किसी गोल और कड़ी वस्तु से छेद को चिकना कर लीजिए। किसी नरम धातु के बरतन से या धातु की चादर के टुकड़े से एक टुकड़ा काट लीजिए, जो लगभग 2, 5 सेंटी-मीटर लौंग हो और 4 सेंटीमीटर लम्बा हो। इसे उपयुक्त व्यास वाली गोल लकड़ी या गंजी छड़ पर लपेट कर एक नली बना लीजिए। नली का व्यास ऐसा हो कि स्याही की शीशी के ढक्कन में बने छेद में वह कस कर बैठे। ढक्कन के छेद में नली लगा दीजिए। यह लगभग 1 सेंटीमीटर बोतल के भीतर चली जाए। नली और ढक्कन की सन्धि, और नली की सन्धि को भी टांके से जोड़ा जा सकता है। कच्चे सूत, पुराने सूती तौलिए के टुकड़े या सूती धागे के टुकड़ों के गुच्छे से बत्ती बनाइ जा सकती है। बत्ती इतनी लम्बी अवश्य रहे कि वह शीशी की पेंदी तक पहुंच जाए और वहां फैल कर उसे ढक ले। इसमें मैथिलेटेड स्पिरिट या बुड़ अल्कोहल इस्तेमाल कीजिए।



2. भाप-उष्मक (स्टीम बाथ)

चाय की तश्तरी और टीन के डिब्बे से बाष्पन-पाव (एवैपोरेटिंग डिश) और भाप-उष्मक (स्टीम बाथ) का प्रबन्ध हो सकता है। भाप के निकलने के लिए टीन के डिब्बे के ऊपरी




विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

किनारों से छोटे-छोटे टुकड़े काट कर निकाल देने चाहिए।


3. तापक (हीटर)

एक दूसरे प्रकार का तापक तेल के पुराने डिब्बे से बनाया जा सकता है। परीक्षण-नलिका (टेस्ट ट्यूब) पर तार लपेट कर और उसके सिरों को मोड़ कर हथ्या बना लेने से काम में सुविधा रहती है।




4. आसूत (डिस्टिल्ड) जल

चाय की केतली में पानी उबालिए और जैम जार (चौड़े मुंह की बड़ी बोतल) में भाव को संघटित करिए। जैम जार में बड़ा काग लगा रहे और उसे ठण्डे पानी से भरे किसी बड़े बरतन (तसले) में रखा जाए। बड़े की नली, चिपकाऊ फीता अथवा चिकनी मिट्टी को सन्धि पर लगाने के लिए काम में लाया जा सकता है।



5. वायु-तन्त्र (एग्रर श्रोतन)


टीन का एक बड़ा डिब्बा वायु-तन्त्र का काम दे सकता है। ढक्कन में एक छेद करिए और उसमें काग लगा कर तापमापी (थर्मो-मीटर) लगादें। डिब्बे के भीतर तार की जाली पुलिया रख कर उस पर चाय की तश्तरी या कटोरी रखी जा सकती है।



6. लीजिंग संघनक (लोहे का)


लोहे की एक नलिका लीजिए, जो पानी के लिए

या बिजली के तार की रक्षा के लिए, बिजली-वाहिनी के रूप में प्रयुक्त होती है। इस पाइप के एक टुकड़े से धातु का संघनक (कंडेन्सर) बन सकता है, जो शीशे के संघनक से अधिक मजबूत होता है। पानी के आने और जाने के लिए नलिकाएं इसकी बगल में चूड़ी काट कर कसी जा सकती हैं या टांके से जाली (जोड़ी) जा सकती है। प्रत्येक सिरे पर एक छेद वाला काग कस दिया जाता है और छेदों में शीशे की साधारण नली लगा दी जाती है।



7. फिल्टर

कई कामों के लिए पौधों वाला गमला, जिसकी पेंदी के छेद में रुई ठूस दी जाए और पेंदी पर कुछ इच्छ मोटी बालू की तह लगा दी जाए, फिल्टर का सन्तोषजनक काम देता है।








8. फिल्टर पम्प

शीशे के साधारण फिल्टर पम्प बनाने में कुछ हस्तकौशल की आवश्यकता पड़ती है परन्तु शीशे की नली और कागों से सरल फिल्टर पम्प सुगमता से बनाया जा सकता है। पम्प इस सिद्धान्त पर काम करता है कि जब पानी का प्रधार (जेट) संकरी नली में डाला जाता है तो वह अपने साथ हवा को भी खींच ले जाता है और

इसलिए आसपास (ख) की हवा की दाब कम हो जाती है। चंचुओं (जेट्स) के लिए सर्वोत्तम नार्पे केवल परीक्षण और निरीक्षण से जानी जा सकती हैं, परन्तु साधारणतः अगर पहले चंचु का व्यास एक मिलीमीटर और दूसरे का 2 मिलीमीटर हो तो अच्छा रहेगा।

9. वयस्तिगत काम के लिए रसायन से सम्बन्धित उपकरण।



प्रारम्भिक रसायन से सम्बन्धित अधिकांश प्रयोगों के लिए कुछ आधारभूत उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बीकर, परीक्षण-नलिकाएं, इत्यादि। नीचे वर्णन किए गए सामान में वे सभी वस्तुएं पाई जाएंगी जिनकी आवश्यकता साधारणतः पड़ती है; गोल गरदन वाले 150 घन सेंटीमीटर के पायरेक्स-फ्लास्कों को बीकर, फ्लास्क, या भाप-उत्पादक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। साधारण शीशे की नली को, उसके ऊपर तार की जाली लपेट कर, दहन-नलिका की तरह काम में लाया जा सकता है। यह साधारण कडे शीशे की नलिका की अपेक्षा कम ही दृटी है।

नमूना-नली से एक छोटा गैस जार बनाया जा सकता है। परीक्षण-नलिकाओं को रखने के लिए छोटा स्टैंड बना लेने से काम में सुविधा होती है, पर यह नितान्त आवश्यक नहीं है। जिन छोटी परीक्षण-नलिकाओं के बारे में यहां बताया गया है, उनमें यह भी गुण होता है कि उनके मुह को बच्चों की छोटी अंगुलियां बन्द कर सकती हैं। बड़ी नलिकाएं, लकड़ी की पेंदी लगा देने के बाद स्टाक बोतल (अधिक सामग्री रखने की बोतल) के रूप में और कई अन्य प्रयोगों के लिए भी उपयोगी होती हैं। यदि पानी का नल उपलब्ध न हो तो टीन के बड़े डिब्बे से (जिसमें 500 घन सेंटीमीटर पानी आ सके) टंकी का काम लिया जा सकता है। कठिनाई केवल यह होती है कि निकास-नलिका की सन्धि किस प्रकार जलरोधी बनाई जाए। छोटी कक्षाओं में प्रयोगात्मक रसायन का शिक्षण देने के लिए यह उपकरण बहुत उपयोगी पाया गया है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ

10 विजली के पुराने बल्बों के उपयोगी आधान (कण्टेनर्स)

विजली के पुराने बल्बों से ऐसे आधान बन सकते हैं जो फ्लास्क, बीकार, परीक्षण-नलिकाओं तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का काम दे सकें। उचित सावधानी बरतने से ये पर्याप्त ताप सहन कर सकते हैं और बहुत दिन चल सकते हैं। किसी भी नाप का बल्ब काम में लाया जा सकता है। कई विभिन्न नापों के बल्ब हों तो वे अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।

जब किसी बल्ब से काम लेना हो तो उसे सावधानी से पुराने तैनिए या अन्य कपड़े में लपेट लेना बुद्धिमत्ता होगी। पहले चाकू से बल्ब के सिरे पर लगी धातु वाली टिकुली या टिकुलियाँ (मेटल बटन) को उखाड़िए। उनको इतना मोड़ दीजिए कि उनको गहुआ (प्लायर्स) से पकड़ा जा सके। इन टिकुलियों को गहुआ से खींच कर ऊपर उठाइए। इस प्रकार वे तार दिखाई पड़ने लगेंगे जिनसे टिकुली जुड़ी रहती हैं। मरोड़ कर टिकुलियों को तार से अलग कर दीजिए। अब काले विस्वाही (इन्सुलेटिंग) पदार्थ में छेद दिखाई पड़ेंगे। एक टिकुली वाले बल्बों में यह छेद केन्द्र में होगा। सावधानी से इस काले पदार्थ को अलग करिए और हटा दीजिए। इसके लिए गहुआ से दबा-दबा कर काले पदार्थ को टुकड़े-टुकड़े कर देना सम्भवतः आवश्यक होगा। जहां तक हो सके, सावधान रहिए कि पीतल का खोल टेढ़ा न हो। इसके बाद बड़ी सावधानी की आवश्यकता है और सम्भवतः पहले दो-चार बल्ब आपसे टूट जाएं। कपड़े में लपेटे हुए बल्ब को मजबूती से पकड़िए। तब झटके से रेती के ऊपरी सिरे से बल्ब के उपर के खुले भाग में छेद कर दीजिए, इससे बल्ब के भीतर तारों को पकड़ने वाली कांच की छड़ बल्ब के भीतर गिर पड़ेगी। फिर गोल (चूहे की पूँछ के आकार की) रेती से बल्ब की गरदन के टेढ़े-मेढ़े टूटे शीशे को एक-सा करिए। सावधानी से काम करने पर बल्ब चटकेगा नहीं। आधार-छड़ तथा अन्य

वस्तुएं, जो बल्ब के भीतर हों, अब निकाली जा सकती हैं और बल्ब काम में लाया जा सकता है। यदि पीतल का छल्ला जो अब फ्लास्क का मुह है, टेढ़ा हो गया हो तो उचित व्यास की गोल लकड़ी डाल कर घुमाने से वह ठोकर्किया जा सकता है। पीतल के इस छल्ले के कारण इसमें काग या रबड़ की डाट भी कस कर बैठाई जा सकती है।

11. मापक शिलास या अंशांकक

ईन-एक छोटे-बड़े कांच के चौड़े मुह वाले ऐसे बरतन चुनिए जिनके पार्श्व सीधे हों। जैतून की बोतलें अंशांकूत सिलिंगर बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। (भारत में जैतून, प्रालिव, की खपत बहुत कम है और ऐसी बोतलें कठिनाई से मिलेंगी)। लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी बोतल की सारी लम्बाई पर चिपका दीजिए, केवल सिर की ओर लगभग 1 सेंटीमीटर स्थान खाली रहे। अब बाजार से खरीदा अंशांकित सिलिंगर, जिसकी धारिता लगभग उतनी ही हो जितनी आपकी बोतल की है, लीजिए और नाप कर इतना पानी बोतल में डालिए कि वह लगभग नापने वाले को कागज के सिरे तक पहुंच सके। नापने के लिए लगाए गए कागज पर एक रेखा जल की ऊंचाई दिखाने के लिए खींचिए और उसके नीचे लिखिए कि कितना पानी डाला गया था, जैसे 50 घन सेंटीमीटर या 100 घन सेंटीमीटर। फिर, यदि बोतल सर्वत्र समान व्यास की हो तो पेंदी से लेकर कागज पर अंकित चिह्न तक की दूरी को सुविधा के अनुसार इच्छित भागों में बांट दीजिए। इसके लिए कागज पर रेखाएं खींचिए और प्रत्येक रेखा पर जल की मात्रा लिखिए। उदाहरणार्थ, मान लीजिए 50 घन सेंटीमीटर जल डाला गया था। तो आप बोतल की लम्बाई को पांच बराबर भागों में बांट सकते हैं, नीचे से पहली रेखा पर 10 घन सेंटीमीटर लिखा जाएगा, उसके बाद की रेखा पर 20 घन सेंटीमीटर, इत्यादि। अब प्रत्येक बड़े भाग को छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है और कागज की

पट्टी पर तदनुसार रेखाएं खीची जा सकती हैं। इस प्रकार बने अंशांकित सिलिण्डर की कई धारण-क्षमताओं पर परीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए किसी निश्चित सतह तक पानी डाल कर और पानी को बाजार के या मानक-पात्र में उड़ें कर देखना चाहिए। कागज पर बनी रेखाओं में से कुछ को सम्भवतः थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे करना पड़ेगा। जब जांच पूरी हो जाए तो पिछले मोम (पैराफिन), स्पिरिट में घुली लाख, लेबल वानिश या प्लास्टिक सीमेंट की पतली तह चढ़ा कर आप मापक को पक्का बना सकते हैं।


12. परीक्षण-नलिका के लिए ग्राही (होल्डर)

परीक्षण-नलिका के लिए उपयुक्त ग्राही (होल्डर) कमानी के मजबूत तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है। तार पीतल या लोहे का हो और उसे चित्र में दिखाई गई आकृति में मोड़ा जाए। कोट-हैंगर का तार भी सन्तोषजनक काम करता है।



13. प्रयोगशाला के लिए चिमटी

पेटियों और लकड़ी के झाँबों को बाहर भेजने के लिए बहुधा उनको लोहे की पत्ती से बांधा जाता है। इन पत्तियों के लम्बे टुकड़ों से बहुत उपयोगी चिमटियां बनाई जा सकती हैं। चित्र में दिखाई गई चिमटियों लेगभग 12 सेंटीमीटर लम्बी हैं। यह पत्ती के दो टुकड़ों को पीतल से जोड़ कर, या रिवेट करके, और फिर उन्हें उचित आकृति का काट कर और मोड़ कर, बनाई जा सकती है। चित्र(ख) में दिखाई गई चिमटी 36 सेंटी-मीटर लम्बी एक ही पत्ती से बनाई गई थी। गोल सिरा बनाने के लिए पत्ती के मध्य भाग को उचित व्यास के लोहे की छड़ पर लपेट कर कसा गया था। तब चिमटी के पाश्वों को काटा गया था और उनको उचित आकार दिया गया था।




14. धातु का बलय-स्टैंड और बलय

एक उपयोगी बलय-स्टैंड और बलय क्रमशः पर्दी टांगने की चपटी छड़ी से और उस पुर्जे से बनाया जा सकता है जो लैम्पशेड लटकाने के लिए विजली के बल्ब पर कसा जाता है। यह सब सामग्री लोहे का सामान बेचने वालों की दुकानों पर साधारणतः मिल सकती है। (भारत में ऐसा सामान मिलना कठिन ही है, परन्तु मोटे तार को मोड़ कर बलय बनाए जा सकते हैं और लोहे की चादर को मोड़ कर लोहार पर्दे की छड़ की आकृति की नली बना सकता है)। पर्दे की छड़ को मोड़ कर चित्र की आकृति का कर देना चाहिए।

पर्दे की छड़ में दो टुकड़े होते हैं, जिनमें से एक टुकड़ा दूसरे के भीतर घुस सकता है और खिसक सकता है। इस प्रकार दोनों की सम्मिलित लम्बाई कम-अधिक चौड़े पर्दों के अनुसार की जा सकती है।

इस प्रकार की पर्दे की छड़ों के दो भागों में से प्रत्येक को लकड़ी की उचित पेंदी पर कीलों से या पेंचों से कसिए। छड़ और पेंदी के साथ एक तिकोनी लकड़ी को सटा कर जड़ देना चाहिए। इससे बलय-स्टैंड अधिक मजबूत हो जाएगा। चित्र में यह लकड़ी भी दिखाई गई है। लैम्पशेड से निकाले गए तारों को दबा कर सटा देना चाहिए और उनकी भुजाओं (प्राइस) को पर्दे की छड़ के भीतरी ओर बने खांचे में फिट कर देना चाहिए। यह तार कमानी की तरह फैलना चाहेगा और इस कारण खोखली छड़ के भीतर फंसा रहेगा और किसी भी ऊंचाई पर टिका रह सकता है। इस प्रकार यह बलय-स्टैंड में ठीक ढंग से काम कर सकेगा।




15. लकड़ी का वलय-स्टैंड

इसे वलय-स्टैंड का पेंदे 40 सेंटीमीटर लम्बी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बनाया जाता है। पेंदे के बीच 1 सेंटीमीटर व्यास का छेद कर दिया जाता है। आधार-स्तम्भ 1 सेंटीमीटर व्यास की और 45 सेंटीमीटर लम्बी लकड़ी की गुज्जी (डावेल राड) से बनाया जाता है। (ऐसी लकड़ी विदेशों में ही मिलती है, हम कड़ी लकड़ी या बांस से काम ले सकते हैं)। आधार-स्तम्भ पेंदे के छेद में खूब कस कर बैठाना चाहिए। यदि पूर्वोक्त नाप की गुज्जी न मिल सके तो किसी दूसरे नाप की छड़ लगाई जा सकती है। परन्तु तब पेंदे के छेद को उसी के अनुसार बनाना चाहिए।

16. वलय-स्टैंड के लिए उपकरण-धारक पट्टिका

पूर्वोक्त वलय-स्टैंड के लिए एक उपयोगी उपकरण-धारक 18 सेंटीमीटर लम्बी, 4 सेंटी-मीटर चौड़ी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी और कपड़ा टांगने की कमानीदार चार चुटकियों से बन सकता है। इन चुटकियों को धारक पट्टिका में चित्र में दिखाई गई रीति से जड़ दिया जाता है। ये चुटकियां अपने दोनों फलों से परीक्षण-निलिका आदि उपकरणों को

पकड़ सकती हैं और धारक पट्टिका के बीच में जड़ी हुई दो चुटकियां वलय-स्टैंड के आधार-स्तम्भ को पकड़ती हैं। आप देखेंगे कि धारक के दाहिने छोर पर जड़ी चुटकी तिरछी लगाई गई है। इसके लिए पेंदे को पहले किसी समतल स्थान पर रख कर चुटकी को चित्र में दिखाई गई स्थिति में जड़ना चाहिए। इस प्रकार परीक्षण-निलिका तिरछी स्थिति में रखी जा सकती है ताकि उसे ठीक ढंग से गरम किया जा सके।



17. शीशे के जारों और बोतलों को काटने के लिए बैचूत कल


बोतलों, जगों, फ्लास्कों, बिजली के पुराने बलबों और कांच की बनी अन्य वस्तुओं से कई प्रकार के उपयोगी उपकरण बनाए जा सकते हैं। विशेष कार्यों के लिए उन्हें उपयुक्त बनाने में बहुधा इन वस्तुओं के सिरे या पेंदे को काटना पड़ता है। यहां जिस कल के बारे में बताया जा रहा है, उसकी सहायता से कांच की बोतलें आदि बड़ी सफाई से काटी जा सकेंगी। काटने के बाद उनके तीक्ष्ण कोरों को रेत कर या आंच दिखा कर एक-सा कर लेना चाहिए।

$20 \times 7 \times 4.5$ सेंटीमीटर के दो आधार-स्तम्भों को एक-दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उचित पेंदे पर जड़ दीजिए।

आधार-स्तम्भों में से प्रत्येक में, जिस ओर कम नाप हो, उस तरफ इतने बड़े छेद बनाइए कि उनमें 5 मिलीमीटर व्यास की पीतल की छड़ डाली जा सके। ये छेद ऊपरी सिरे से 2 सेटीमीटर नीचे रहें। एक आधार-स्तम्भ में पीतल या लोहे का काबला (बोल्ट) डाल दिया जाता है। दूसरे स्तम्भ के छेद में अधिक लम्बा काबला डाला जाता है और उसमें मूठ भी लगा दी जाती है। चित्र में आप देखेंगे कि नियामक (रेगुलेटर) के लिए एक सेट स्क्रू (पेच) लगाया गया है।

निक्षेप का एक तार या कोई दूसरा तार

लीजिए, जिसका वैद्युत प्रतिरोध अधिक हो। इस का विभव उपलब्ध विजली की 6 बोल्टता के अनुसार रहना चाहिए (220—12 बोल्ट या 110—12 बोल्ट वाले अवक्रम परिणामित्र, ट्रांसफार्मर, से 12 बोल्ट)। प्रतिरोधक तार के सिरों को खड़े स्तम्भों में डाली गई छड़ों से उपयुक्त ढिबरियों द्वारा सम्बद्ध कर दीजिए। विद्युत-कुण्डली चित्र में दिखाई गई है। अवक्रम परिणामित्र केवल प्रत्यावर्ती धाराओं (ए० सी०) पर काम करता है।




अध्याय—३

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

क. जड़ें

१. मूल-रोम कसे उगाए जाएं

नम फलालैन पर उगाए सरसों के बीजों की जड़ों पर रोम सुगमता से देखे जा सकते हैं। यदि मिट्टी की तश्तरी में ये बीज रखे जाएं, तश्तरी को थाली में रख दिया जाए, थाली में कुछ पानी डाल दिया जाए और वायु को नमदार रखने के लिए उसे थाल या दूसरी थाली से ढक दिया जाए तो मूल-रोम के बहुत अच्छे नमूने प्राप्त हो सकते हैं। चित्र में थाली के बदले सूप प्लेट्स दिखाई गई हैं, परन्तु भारतीय घरों में ये कठिनाई से मिलेंगी।




२. मूल-रोमों का निरोक्षण

प्रवर्धक लैन्स से मूल-रोमों का अध्ययन कीजिए और देखिए कि उनकी संरचना कैसी है।


३. यह जांच करना कि मूल-रोम जल तथा उसमें डाले गए पदार्थों को सोखते हैं या नहीं

अलग-अलग परीक्षण-नलिकाओं में (१) जल, (२) लाल स्याही, और (३) कांगो रेड डालिए। एक ही प्रकार के तीन पौधों को इन परीक्षण-नलिकाओं में डालिए। कुछ दिनों के बाद पौधा (२) रंगिन हो जाएगा, (१) और (३) रंग-रहित रहेंगे क्योंकि उन्होंने केवल जल सोखा है।



४. सरल रसायनमाली (आस्मोसीटर)

२.५ सेंटीमीटर की शीशी से पेंदी निकाल कर अलग कर दें। पेंदी में एक काग कस कर लगा दें, जिसमें एक छेद रहे और ५० सेंटीमीटर लम्बी कांच की नली या लेमनेड पीने वाली दो नलिकाओं को एक में एक जोड़ कर इस छेद में कस दें, एक टुकड़ा सेलोफेन या चर्म-पत्र (पार्चमेंट) (या किसी जानवर की ज़िल्ली, जैसी खंजड़ी या ढोलक या लगाई जाती है) शीशी के दूसरे सिरे पर रख कर मजबूत धागे या पतली डोर से कई फेरे लपेट




पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

कर बांध दीजिए। शीशी में चीनी का खूब गाढ़ा खोल भर दीजिए और एक छेद वाले काग को फिर से लगा दीजिए। इस बात की सावधानी रखिए कि शीशी में कोई बुलबुला न रहने पाए। इस प्रकार बने रसाकर्षणमापी को सन्धर (क्लैम्प) की सहायता से पानी के गिलास में लटका दीजिए और कुछ घंटे तक पड़ा रहने दीजिए।

5. गाजर से बना रसाकर्षणमापी


एक ऐसी गाजर चुनिए जिसका सिर बड़ा हो और जिसकी सतह कहीं से कटी-फटी न हो। किसी तेज चाकू अथवा सेब का बीज निकालने वाले यन्त्र से गाजर के सिर पर लगभग 2 या 2.5 सेंटीमीटर गहरा एक छेद कीजिए। यह सावधानी रखिए कि गाजर का सिर फटने न पाए। इस छेद में चीनी का गाढ़ा खोल भर दीजिए। फिर इस छेद में एक छेद वाला काग या रबड़ की डाठ कस कर लगा दीजिए। लेमन पीने की नलिकाएं एक-दूसरी में डाल कर जोड़िए और कस दीजिए। फिर एक काफी लम्बी शीशों की नली से काम लीजिए। कुछ घंटों तक गाजर को पानी के बरतन में डूबा रहने दीजिए। यदि आपने गाजर के सिर को समतल नहीं काटा है तो काग की सन्धि पर जलती हुई मोमबत्ती से मोम टपका कर उसे बन्द करना सम्भवतः आवश्यक होगा।



6. ग्रेडे से बना रसाकर्षणमापी

थोड़ा-सा तनु (डाइल्यूट) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सान्द्र (तेज) सिरका किसी छिल्की

तश्तरी (जैसे चाय की तश्तरी) में लगभग 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हो जाए। ग्रेडे के बड़े सिरे को अम्ल में इतनी देर तक डुबा रखिए कि उस सिरे का ऊपरी खोल अम्ल से नष्ट हो जाए और छिल्की दिखाई पड़ने लगे। फिर ग्रेडे को धो डालिए ताकि अम्ल बह जाए। किसी तेज औजार से ग्रेडे के दूसरे सिरे पर खोल में सावधानी से एक छोटा-सा छेद कीजिए। इस छेद में लेमन पीने वाली नलिका या कांच की नलिका डाल कर उसके मुह को ग्रेडे के भीतर तक पहुंचा दीजिए। नलिका के चारों ओर की सन्धि को मुहर करने की लाल्ह या धरेलू सीमेंट से बन्द कर दीजिए। जोड़ पूर्णतया बन्द हो जाए। इस प्रकार बने रसाकर्षणमापी को पानी के गिलास में रख दीजिए और कुछ घंटे तक पड़ा रहने दीजिए।




7. मूलों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव

सोख्ते के कई टुकड़े कीजिए जो लगभग 8 सेंटीमीटर वर्ग के हों। इन्हें कांच के दो वर्गाकार टुकड़ों के बीच रखिए। मूली या सरसों के कुछ बीजों को सोख्ते और काच के बीच प्रत्येक और रखिए और रबड़ के छल्लों से बांध दोजिए। सोख्ते को पानी से तर कर दीजिए और तब आली में थोड़ा पानी भर कर उसमें इस उपकरण को खड़ा कर दीजिए। जब बीजों में अंकुर निकल आएं और जड़ें लगभग 1.5 सेंटीमीटर लम्बी हो जाएं तो उपकरण को 90° पर (अपने ही प्रताल में) घुमा दीजिए और तब उसे बिना हिलाए-डुलाए पर्याप्त समय तक पड़ा रहने दीजिए। फिर उसे

दोबारा घुमाइए और देखिए कि जड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करने की दूसरी रीत यह है कि कुछ बीजों को अंकुरित किया जाए और तब उनमें से उस बीज को चुना जाए जिसका अंकुर सीधा हो। बीच में लम्बी पिन या सूई लगा दीजिए और पिन (या सूई) को काग में एक बोतल या शीशी में कुछ भीगी रूई या सौख्य पर रख दीजिए। फिर काग और अंकुरित बीज को बोतल में रख दीजिए, और लगभग एक-एक घंटे बाद इसका निरीक्षण कीजिए।



8. जड़ों पर जल का प्रभाव

कांच की एक तश्तरी या थाली में (मिट्टी भर कर) एक सिरे पर कुछ नहें पौधे उगाइए। जब वे लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तो उन्हें केवल एक ओर से और निकटतम पौधे से

तनों के बढ़ने पर प्रकाश का प्रभाव

(क) दो गमलों में कुछ शीघ्र बढ़ने वाले बीज, जैसे जई (ओट), मूली, सेम या सरसोंआदि बोइए। जब नए पौधे लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तो एक गमले को बक्स से ढक दीजिए। बक्स के एक बगल के ऊपर के किनारे के पास एक छेद कर दीजिए। समय-समय पर बक्स को उठाते रहिए और देखिए कि पौधा किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। बक्स को घुमा दीजिए, जिससे प्रकाश किसी दूसरी दिशा से आए और कुछ दिनों के बाद फिर देखिए।

(ख) किसी लम्बे, तंग बक्स में प्रकाश के मार्ग में इकावट डालने के लिए चित्र में दिखाई गई रीत से पहुंच लगा दीजिए, और बक्स की दीवार में छेद कर दीजिए। अंकुरित आलू को एक

कुछ हटा कर पानी देना आरम्भ कीजिए। पानी लगभग एक सप्ताह तक प्रति दिन दीजिए। तब मिट्टी खोद कर फेंक दीजिए। तब मिट्टी सीधे जड़ों में बढ़ने की दिशा पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं।


9. पौधों के विभिन्न भागों में जड़े उगाना

कहीं से एक पेटी बालू लीजिए और ऐसी जगह रखिए जहां उस पर सीधी धूप न पड़े। बालू को पानी से अच्छी तरह नम कर दीजिए और उसे बराबर नम रखिए। बालू में ये वस्तुएं रोपिए:-

- (क) विविध बल्ब;
- (ख) विगेनिया और जिरेनियम के तनों की कलमें (या मेहदी, गुलाब, अङ्गूष्ठ, आदि के तनों की जड़ें);
- (ग) इख के तने का एक टुकड़ा, इसकी एक गांठ बालू में दबी रहे;
- (घ) बांस के तने का एक टुकड़ा जिसकी एक गांठ बालू में दबी रहे;
- (ङ) गाजर, मूली या चुकन्दर, प्रत्येक में जड़ का कुछ भाग लगा रहे;
- (च) प्याज़;
- (छ) पुतली (आइरिस) का तना;
- (ज) आलू के टुकड़े, प्रत्येक में कुछ आंखें रहें;
- (झ) विलो वृक्ष की एक शाखा।

ख. तने

ऐसे छोटे गमले में रोप दीजिए, जिसे बक्स के भीतर रखा जा सके। जो पर्दा छेद से सबसे अधिक दूर हो, उसके पीछे गमले को रख दीजिए। बक्स पर ढक्कन लगा कर और उसे लिङ्की में रख दीजिए। छेद प्रकाश की ओर रहे। समय-समय पर देखते रहिए कि पौधा किस दिशा की ओर बढ़ता है।



पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

(ग) चार गमलों में शीघ्र बढ़ने वाले कुछ बीज बोइए, जैसा कि (क) में बताया गया है। जब तक पौधे 2.5 सेंटीमीटर ऊंचे न हो जाएं, गमलों को कमरे में रखिए। इनमें से एक गमले को खिड़की पर, जहां धूप आती हो, रखिए और देखिए कि पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। गमले को घुमा कर पौधों को प्रकाश की उल्टी दिशा में कर दीजिए और परिणाम देखिए। गमले को कुछ दिनों तक ऐसे स्थान पर रखिए जहां सीधा प्रकाश न पड़ता हो और देखिए कि क्या परिणाम होता है।

(घ) नए उग बीजों के तीन बच रहे गमलों में से प्रत्येक को भिन्न-भिन्न बक्सों में रखिए। प्रत्येक बक्स में एक खिड़की बनाइए और प्रत्येक खिड़की को किसी लाल, पीले और नीले रंगों के भिन्न-भिन्न सेलोफेनों से ढक दीजिए। नए उगे बीजों के गमले वाले बक्सों को ऐसे स्थान में रखिए जहां अच्छा प्रकाश पड़ता हो और बक्सों की खिड़कियां प्रकाश की ओर रहें। विभिन्न रंगों से होकर आने से प्रकाश तनों की वृद्धि में जो भिन्न-भिन्न प्रभाव डालता है, उसे ध्यान से देखिए।

2. तने द्रवणों का परिवहन करते हैं

(क) सेलेरी* के तने लीजिए। तनों के सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर काट कर फेंक दीजिए और बचे तनों को ठण्डे पानी में दो घंटे पड़ा रहने दीजिए ताकि वे ताजा हो जाएं। फिर कुछ तश्तरियों में लाल-स्याही डाल कर तनों को उनमें रख दीजिए और कई घंटे इसी स्थिति में रहने दीजिए। तनों को अच्छी तरह देखिए। उन्हें काट कर उनके कई छोटे टुकड़े कर दीजिए और देखिए कि तने में स्याही ऊपर तक कहां, चढ़ी है। तनों में से इन नलियों (ट्यूब्स) को खींच कर निकालने की चेष्टा कीजिए।

(ख) कुछ सफेद कारनेशन (सफेद गुल-मेहदी या हल्के रंग के गेंदे) के फूल वृन्त महित की जांच कर देखिए कि वे विदेशों में तरकारी बनती हैं। भारत में गुलमेहदी या गेंदा के तने से काम

लीजिए। वृन्तों को फूल से लगभग 2 सेंटीमीटर हट कर काटिए। काटने का काम तेज़ चाकू से और पानी के भीतर किया जाए। इन वृन्तों को पानी के ऐसे गिलासों में रखिए जिनमें या तो खाने की वस्तुएं रंगने के विविध रंग घुले हों या रंगीन स्याही हों। कई घंटे बाद निरीक्षण करिए।

(ग) सफेद कारनेशन (या हल्के रंग के गेंदे के फूल) के वृन्त को तीन भागों में चीर दीजिए। चीर केवल 8 या 10 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंचे और फिर वहां फीता बांध दीजिए कि वृन्त और न फटे। तीनों भागों को फैला दीजिए और प्रत्येक को विभिन्न रंग की स्याही अथवा वस्तुएं रंगने के घोल में डाल दीजिए। कुछ घंटे बाद फूल का निरीक्षण करिए।

(घ) कई प्रकार के वृक्षों के वृन्तों या नई शाखाओं के काटे हुए सिरों को रंगीन स्याही में रख दीजिए और पीछे उन्हें एक तेज़ चाकू से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर देखिए कि स्याही उनमें किस जगह तक चढ़ी है।

(ड) गमलों में उद्यान के साधारण पौधों के बीज बोइए। जब नए पौधे 8 या 10 सेंटी-मीटर ऊंचे हो जाएं और अच्छी तरह बढ़ रहे हों तो तने के ऊपरी भाग को तेज़ छुरी से काट कर ग्रलग कर दीजिए। शीघ्र ही जहां काटा गया था वहां जल की बूँदें दिखाई पड़ेंगी।

3. विविध प्रकार के तने

(क) एक बदल : बांस, ईख और मवका आदि कई पौधों के तने प्राप्त कीजिए। एक बहुत तेज़ छुरी से अथवा रेज़र ब्लेड से प्रत्येक तने को आर-पार काट दीजिए। अनुप्रस्थ काटों (क्रास सेक्शन्स) की परस्पर तुलना करके उनकी समताओं को देखिए। विशेष रूप से यह देखिए कि नलियां या रेशों और मैलों के जालक (फाइब्रोवेस्क्युलर बण्डल) तनों की भीतरी मज्जा (पिथ) में किस प्रकार सर्वत्र विखरे हैं।

* सेलेरी के तनों से विदेशों में तरकारी बनती है। भारत में गुलमेहदी या गेंदा के तने से काम लिया जा सकता है—अनुबादक।

(ब) द्विल : विलो, जिरेनियम, टमाटर आदि कई पौधों या छोटे वृक्षों के तने प्राप्त कीजिए। प्रत्येक तने को आर-पार तेज़ छुरी या रेजर ब्लेड से काटिए। आप देखेंगे कि बाहरी परत से ठीक नीचे चटक हरे रंग की एक

परत है। यह एधा-परत (कैम्बियम लेयर) है। आप यह भी देखेंगे कि नलियां या रेशों और सैलों के जालक (फाइब्रोवेस्क्युलर बण्डल) तने के मध्यस्थ काढ़ भाग के चारों ओर एक वृत्त में स्थित हैं।

ग. पत्तियां

1. पत्तियों की किस्में

लिली, बांस, ईख, मक्का, विलो और जिरेनियम (या अड्डहुल या पीपल) जैसे पौधों या वृक्षों की पत्तियाँ इकट्ठी करिए। आप देखेंगे कि एकदल पौधों (जैसे लिली, बांस, मक्का, ईख) में पत्तियों की शिराएं प्रायः समानान्तर होती हैं। देखिए कि द्विल पौधों (विलो, जिरेनियम, पीपल, इत्यादि) की पत्तियों की शिराएं शाखा वाली होती हैं।


2. पत्तियों का संग्रह बनाना

जितने भी तरह के पौधे मिल सकें, सबकी नई पत्तियाँ एकत्र करिए। एक मज्जबूत चिकने पटरे पर समाचारपत्र अथवा सोस्ते की कई तहें फैला दीजिए। फिर उस पर पत्तियों को इस प्रकार सजा दीजिए कि वे एक-दूसरे को न छुएं। तब उन पर फिर समाचारपत्र अथवा सोस्ते की कई तहें बिछा दीजिए। ऊपर फिर एक पटरा रख दीजिए और उस पर कई-एक भारी पत्थर या भारी वस्तुएं रख दीजिए। जब तक पत्तियाँ पूर्णतया सूख न जाएं, तब तक उनको इसी प्रकार दबा रहने दीजिए। अन्त में दाढ़ में से पत्तियाँ निकाल कर नोटबुक के पृष्ठों पर स्वच्छता से सजाई जा सकती हैं और स्काच टेप अथवा गोंद लगे कागज से वे जोड़ी जा सकती हैं। नोटबुक के पृष्ठ पर पत्ती का नाम और अन्य रोचक सामग्री अंकित की जा सकती है।

3. पत्तियों की धूम्र-छापें बनाना

पत्तियों की धूम्र-छापें (स्प्रोक प्रिंट्स) चित्र में दिखाए गए चार क्रमों का अनुसरण करने से सुगमता से बन सकती हैं।

किसी गोल चिकनी बोतल के पाठ्वर्भ पर वसा (ग्रीज) या वैसलिन की पतली तह चढ़ा दीजिए।




बोतल में ठण्डा पानी भर दीजिए और उस पर कस कर काग लगा दीजिए। फिर बोतल को मोमबत्ती की जलती ली पर रखिए और सर्वत्र एक-समान कालिख चढ़ जाने दीजिए। समाचारपत्र पर किसी पत्ती को इस प्रकार रखिए कि उसकी शिराएं ऊपर रहें। कालिख लगी बोतल से पत्ती को बेलिए। फिर पत्ती पर एक ताढ़ सफेद कागज रखिए। तब सफेद कागज और पत्ती को स्वच्छ गोल बोतल या अन्य रोलर से बेलिए।

4. पत्तियों की छिड़काव-छाप (स्पैटर प्रिंट्स)

पत्ती को सफेद कागज पर रखिए और उसे पिन, कील या पत्थर के कुछ टुकड़ों से चपटा करिए। किसी पुराने दांतों के बुश को पोस्टर रंगने के रंग में या हिन्दुस्तानी स्थाही में डुबा लीजिए। (ये सब रंग गोंद में छोटे रहते हैं)। बुश को कागज से थोड़ी ऊंचाई पर पकड़े रहिए और उसके बालों पर सावधानी से चाकू का फल फिरा कर उसके रंग को पत्ती के चारों ओर बराबर-बराबर छिड़क दीजिए। आवश्यकता से अधिक रंग या स्थाही

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

इस्तेमाल न करें। जब रंग सूख जाए तो पत्ती को हटा दीजिए।



पत्ती छापने की एक छिड़काव-पेटिका (स्पैटर बाक्स) ऊपर के दाहिनी ओर के चित्र में दिखाई गई रीति से बनाई जा सकती है। एक कम गहरे बक्स या चौकटे के ऊपर छिड़कियों पर लगने वाली जाली का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। (इनके बदले छलनी को आँधी रख कर भी अच्छी तरह काम चलाया जा सकता है)। अब दातों के बुश को रंग में डुबा कर और उसी जाली पर रगड़ कर रंग छिड़का जा सकता है। पत्ती और कागज पेटी के नीचे रखे जाते हैं। विविध रंगों के कागजों पर सफेद रंग का इस्तेमाल करके भी देखिए।

5. पत्तियों की स्याही-छापें

छापाखाना से थोड़ी-सी स्याही लीजिए और उसे शीशे की चादर (अर्थात् सपाट शीशे) पर अथवा चीनी मिट्टी की टाइल पर रख दीजिए। फिर रबड़ के बेलन से बेल कर स्याही की एक पतली और सर्वत्र समान तह बना दीजिए। समाचार-पत्र की तहों पर पत्ती को इस प्रकार से रखिए कि उसकी शिराएं ऊपर रहें। फिर पत्ती पर स्याही लगे बेलन को एक बार चला दीजिए। अब पत्ती को सावधानी से उठाइए और उसे सफेद कागज पर रखिए। स्याही लगा पृष्ठ कागज की ओर रहे। ऊपर से समाचारपत्र की एक परत बिछा कर उसे चिकनी गोल बोतल से बेल दीजिए। अब पत्ती को सावधानी से उठा लीजिए। छाप तैयार है।

6. पत्तियों के तिमिर-चित्र

एक सफेद कागज पर एक पत्ती रखिए और उसे अंगूठे अथवा अंगुली से इस प्रकार दबाए रहिए कि वह हिल न सके। प्राकृतिक या कृत्रिम स्पंज के एक टुकड़े को (या रुई को कपड़े में बांध कर बनाई गई पोटली को) स्याही की गडी (इंक पैड) पर दबाइए। फिर धीरे-धीरे, लेकिन मजबूती से हाथ को बार-बार केन्द्र से बाहर की ओर चला कर, पत्ती के चारों ओर रगड़ कर चित्र वें दिखाई गईं विधि से उसके किनारों का चित्र बना लीजिए।



7. कार्बन पेपर से पत्ती की छापें

पत्ती की शिराओं वाली बगल पर चर्बी या वैसलिन की बहुत पतली तह चढ़ाइए। अब इसको समाचारपत्र की कई परतों पर रखिए। शिराओं वाली पीठ ऊपर की ओर रहे। ऊपर कार्बन पेपर रख दीजिए (मसालेदार पृष्ठ नीचे की ओर रहे)। कार्बन पेपर पर एक ताव कोई दूसरा कागज रख दीजिए और उसके आर-पार कई बार चिकनी पेंसिल बेल कर कागज को रगड़िए ताकि कार्बन पेपर का मसाला पत्ती पर चढ़ जाए। शुद्ध छाप तैयार करने के लिए पत्ती को दो सफेद कागजों के बीच रखिए और फिर पेंसिल से रगड़िए।

8. पत्तियों के विन्यास का अध्ययन

जितनी अधिक संस्था में देख सकें, उगते हुए पौधों को ठीक ऊपर से देखिए। पत्तियों के विन्यासों के विविध नमूनों के चित्र लीजिए।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

9. कक्षा में पत्तियां उगाना

यदि कक्षा में शकरकन्द को पानी में रख दिया जाए तो उसमें से बहुत सारी पत्तियां उग आएंगी। इसके लिए गिलास या चौड़े मुंह की बोतल में शकरकन्द को रखिए, जड़ वाला सिरा नीचे की ओर रहे। बोतल में इतना पानी डालिए कि कन्द के नीचे का एक-तिहाई भाग पानी से ढका रहे। कन्द को डूबने से बचाने के लिए उसकी बगल में तीन सींकें या दियासलाइयां खोंसी जा सकती हैं और इनको गिलास के मुंह के धेरे (रिम) पर रखा जा सकता है।

गाजर, शलजम और चुकन्दर के कन्दों में काफी मात्रा में संचित आहार रहता है। यदि उन्हें पानी में उगाया जाए तो उनसे पत्तियां तो उत्पन्न होंगी, परन्तु नए पौधे तैयार नहीं होंगे। ऊपर से सब पुरानी पत्तियों को हटा दीजिए और नीचे से कन्द को छांट दीजिए ताकि उसका केवल 5 से 8 सेंटीमीटर तक का भाग शेष रहे। इस भाग को छिछली तश्तरी में रख दीजिए और तश्तरी में पानी डाल दीजिए। कन्द को खड़ा रखने के लिए तश्तरी में कंकड़ या पथर के टुकड़े रख दीजिए।


पत्तियों की जड़ से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे हट कर अनन्नास को काट लीजिए और इस भाग को पानी की छिछली तश्तरी में रख दीजिए। कई सप्ताह तक पत्तियां बढ़ती रहेंगी।



10. पत्तियों से जल-वाष्य निकलता है

मिट्टी से भरे दो गमले लीजिए, जिनमें से एक में कोई छोटा पौधा हो और दूसरा खाली। गमलों में पानी देने के बाद उनकी मिट्टियों को चित्र में


दिखाई गई आकृति की दफ्ती से ढक दीजिए। प्रत्येक गमले पर शीशे का जार (चौड़े मुंह की बोतल) ओंधा रख दीजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है। घूप में पीवों को पास-पास रख दीजिए और दिन में समय-समय पर इन्हें देखते रहिए (इस प्रयोग को जाड़े में किया जाए)।



11. पत्तियों की संरचना

किसी स्कूल, डाक्टर या अस्पताल से एक सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) मंगनी मांग लीजिए। उससे पत्तियों का पिछला भाग देखिए और उसके सांस लेने वाले रन्ध्रों (स्टोमाटा) का पता लगाइए। स्टोमाटा के अगले बगल आप दो छोटी-छोटी द्वार-कोशिकाएं देखेंगे।

रेजर ब्लेड से किसी पत्ती को बहुत पतला अनुप्रस्थ काट (कास सेक्शन) में काटिए और उसके किनारे को सूक्ष्मदर्शी से देखिए। लम्ब उत्तक (पैलिसेड) स्तर, बाह्य त्वचा (एपिडर्मिस) और स्पंजी स्तर का पता लगाइए। सम्भवतः आप स्पंजी स्तर में एक शिरा और एक रन्ध्र (स्टोमाटा) का खुला मुख देख सकेंगे।




पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

12. हरी पत्तियां पौधों के लिए आहार बनाती हैं

किसी चौड़े मुँह की बोतल को खौलते पानी के ऊपर रख कर उसमें थोड़ा-सा अरकोहल गरम करिए, यहां तक कि वह खौलने लगे। जिरेनियम (या अड्डुल, या सरसों) या किसी अन्य पौधे की कई हरी पत्तियां लीजिए, पर इन्हें पहले कई घंटे तक धूप में रख दीजिए। इन पत्तियों को खौलते अरकोहल में डाल दीजिए। जब उनका सब कलोरोफिल निकल जाए तब उन्हें फौरन निकाल कर खूब गरम पानी के बेसिन (तामचीनी के बड़े बरतन) में डाल दीजिए। एक पत्ती को पानी से निकाल कर शीशों की चादर या टाइल पर फैला दीजिए। पत्ती पर टिक्कर आयोडीन पोत दीजिए और उसे कई मिनट तक यों ही रहने दीजिए। गाढ़े नीले रंग का उत्पन्न होना स्टार्च की पहचान है, जिसे पत्ती ने धूप में बनाया है।


13. हरी पात्तिया धूप में आक्सीजन छोड़ती हैं

जल के भीतर उगने वाले कुछ पौधों (सेवार, आदि) को कीप (फरेल) के नीचे पानी के बीकर में रख दीजिए। कीप की डण्डी के ऊपर पानी से भरी एक परीक्षण-नलिका उलट कर रख दीजिए। इस उपकरण को कड़ी धूप में रख दीजिए। पौधों से गैस के बुलबुले उठेंगे जो परीक्षण-नलिका के ऊपर तक पहुंचेंगे। कुछ देर बाद परीक्षण-नलिका हटाइ जा सकती है और उसके भीतर की गैस की परीक्षा सुलगती हुई सींक या दिया-सलाई से की जा सकती है।



14. पत्ती हारा पौधे में हवा धूस सकती है


एक ऐसी पत्ती जो जिसमें वृत्त लगा हो। वृत्त को काग के छेद में डाल कर सन्धि को (गीली मिट्टी, आदि से) बन्द कर दीजिए। इस काग में एक पाश्वनली लगाइए और काग को फ्लास्क के मुँह में कस कर लगा दीजिए। फ्लास्क में पानी रहे। पाश्वनली में मुँह लगा कर हवा को चूस लीजिए। तब वृत्त के सिरे से हवा के बुलबुले निकलते दिखाई पड़ेंगे।



15. पौधे सांस लेते हैं

पौधे को किसी परीक्षण-नलिका में रखिए और उस परीक्षण-नलिका को लकड़ी के किसी भारी (ब्लाक) में बनाए गए इष्टिका छेद में फँसा दीजिए ताकि परीक्षण-नलिका लुढ़क न जाए। अब इष्टिका को चूने के पानी के बड़े बरतन में रखिए और पौधे को शीशों के बड़े बरतन से ढक दीजिए। फिर पौधे को इसी प्रकार ढक कर किसी अन्धेरे स्थान में कई घंटे पड़ा रहने दीजिए अथवा दूसरे दिन देखिए।

चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि कार्बन डाइ-आक्साइड गैस



निकली थी और पानी के स्तर के उठने से पता चलता है कि पौधे ने पर्याप्त आक्सीजन ले ली है।

घ. फूल


1. फूलों को एकत्रित करना और सुरक्षित रखना

पत्तियों के सम्बन्ध में जिन रीतियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं को प्रपनाया जाए।

2. फूल के प्रमुख भागों का अध्ययन

कुछ बड़े तथा सरल फूलों, जैसे दृश्यलिप्या लिली (या सुदर्शन, या घटूरा या अगस्त्य) की जांच कीजिए। पुकेसरों (स्टेमेन्स) को गिनिए और देखिए कि वे केन्द्रीय स्त्रीकेसर (पिस्टिल) के चारों ओर किस प्रकार स्थित हैं। महत्वपूर्ण अंगों के बड़े चित्र खींचिए। चित्र में स्त्रीकेसर के विविध भागों—वर्तिकाय (स्टिम्मा), वर्तिका (स्टाइल) और अण्डाशय (ओवरी)—के नाम लिखिए। पुकेसर के भागों—तन्तु (फिलामेंट) और परागकोश (एन्थर) के भी नाम लिखिए।

वृत्त का वह सिरा, जिस पर फूल उगता है, आशय (स्टिम्पेकल) कहलाता है। आशय की जड़ पर साधारणतः पत्ती की भाँति अंग रहते हैं, जो कली को धेरे रहते हैं। इनको बाह्यदल (सेपल) कहते हैं। बाह्यदलों के ऊपर साधारण चट्क रंगों की पंखुड़ियों का एक वृत्त रहता है, जिसे दलपुंज (कोरोला) कहा जाता है।



3. सादा फूलों को छीरना

पांच कार्ड या कागज के टुकड़ों में से प्रत्येक

पर निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द लिखिए : पुकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, आशय। एक फूल को सावधानी से छीरिए और उसके विभिन्न भागों को उपयुक्त कार्डों पर अलग-अलग रख दीजिए।

कुछ फूलों के अंगों को खींच कर ही सुगमता से अलग किया जा सकता है, परन्तु औरों के लिए चाकू या कैंची की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि फूल काफी संख्या में मिल सकें तो यह अम्ब्यास प्रत्येक विद्यार्थी की पृथक् क्रियाशीलता के लिए प्रत्यन्त मूल्यवान है। इस काम के लिए सादा फूलों को ही, जिनमें पंखुड़ियों की एक ही पंक्ति रहती है, लेना चाहिए।

एक पुकेसर को लीजिए और उसके परागकोश (एन्थर) को काले कागज पर हल्के-हल्के राखिए। तब साधारणतः कागज पर पराग के कण दिखाई देंगे।

अण्डाशय को तेज छुरी से आड़ा काटिए और बीजाण्डों अर्थात् 'बीज-थैलियों' को गिनिए। बीजाण्डों के भीतर बीजों के प्रारम्भिक रूपों को ध्यान से देखिए।

4. विविध फूलों के पराग-कणों का निरीक्षण

कई फूल लीजिए, जिनमें पुकेसरों पर पराग बन चुका हो। काले या गाढ़े रंग के कागजों पर प्रत्येक फूल के पराग को अलग-अलग छाड़िए। अलग-अलग प्रकार के पराग का निरीक्षण प्रबंधक लैन्स से कीजिए और उनकी विभिन्नताओं पर गौर कीजिए।

5. पराग के कणों को अंकुरित करना

चीनी का गाढ़ा धोल बनाइए और उसे छिक्कली तश्तरी (जैसे चाय की तश्तरी) में रखिए। विविध प्रकार के फूलों के परागों को जाड़ कर चीनी के धोल की सतह पर डालिए। अब इसे शीशे की ओर से ढक दीजिए और किसी मासूली गरम स्थान में कई घंटे पड़ा रहने दीजिए। यदि

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

प्रयोग सफल हुआ तो पराग के कणों से छोटी कलिया उगती हुई दिखाई पड़ेंगी। प्रवर्षक लैन्स का उपयोग कीजिए।

6. सावा फूल की प्रतिकृति (माडल) बनाना

मूर्ति बनाने की मिट्टी, रंगीन कागज और सींक का उपयोग करके त्रिविस्तारीय माडल बनाइए (अर्थात् ऐसे नमूने जिनमें लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हों), जो किसी विशेष वर्ग के फूल के विविध अंगों को निरूपित करें। यह अम्यास विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत क्रियाशीलता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इससे विद्यार्थियों को फूल के विविध अंग अच्छी तरह स्मरण हो जाते हैं।

वृत्त बनाने के लिए मूर्ति बनाने की थोड़ी-सी मिट्टी लीजिए। उसे हथेलियों के बीच बेल कर बेलन का रूप दे दीजिए। इसका व्यास लगभग 2 सेंटी-मीटर रहे और लम्बाई लगभग 5 सेंटीमीटर। इसके एक सिरे को भेज या डेस्क पर मच्चबूती से दबा दीजिए और दूसरे सिरे के बीच में उचित लम्बाई की सींक घुसा दीजिए, जैसा कि चित्र में क पर दिखाया गया है।

वाह्यदल बनाने के लिए हरे कागज से छः बिन्दुओं का तारा काटिए। बीच में एक छेद बनाइए, जिसका व्यास कम-से-कम 1 सेंटीमीटर हो। तब वृत्त पर वाह्यदलों को उचित स्थिति में रख दीजिए, जैसा ख पर दिखाया गया है।


एक चटकपेते रंग के कागज से पंखुड़ियों का दलपुंज काटिए। बीच में काट कर छेद बनाइए, और बाह्यदल के ऊपर दलपुंज को बैठा दीजिए, जैसा ग पर दिखाया गया है।

मूर्ति बनाने की मिट्टी से स्त्रीकेसर को नन्ही सुराही के आकार का बनाइए। इसको सींक के निकले हुए भाग पर दबा दीजिए जिससे यह अपने स्थान पर टिका रहे, जैसा घ पर दिखाया गया है।

इसके बाद थोड़ी-थोड़ी मिट्टी सींकों के सिरों पर रख कर पुकेसर बनाइए। अब जैसा

छ पर दिखाया गया है, इन सींकों को स्त्रीकेसर की जड़ के पास की खुली मिट्टी में चारों ओर खोंस दीजिए।

जब फूल की प्रतिकृति तैयार हो जाए तो इसके डण्ठल को ग्रंगुलियों से कुछ लम्बा करने और फल वाले सिरे को कुछ शुका देने से प्रतिकृति अधिक सच्ची दीख सकती है।



7. फूलों के व्यवहार के लिए क्षेत्र-भ्रमण

फूलों को खिलाता हुआ देखने के लिए क्षेत्र-भ्रमण की योजना बनाइए। यदि पाठशाला के आस-पास रोचक जंगली फूल उगते हुए न मिलें तो किसी निजी उद्यान या पार्क में जाने का आयोजन करना चाहिए। कुछ फूल एकत्र भी करिए।

8. यह देखना कि फूलों से फल किस तरह विकसित होते हैं

फूलों के कुछ ऐसे नमूने इकट्ठे कीजिए जो परिपक्वता की विविध अवस्थाओं में हों अर्थात् नव विकसित कलियों से लेकर उन फूलों तक जिनकी पंखुड़ियाँ झड़ गई हों। प्रत्येक अण्डाशय को काट कर खोलिए और देखिए कि बीज के विकास में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं।

ताजा तोड़े हुए सेर भर मटर या सेम की फलियों का निरीक्षण कीजिए और वे फलियाँ चुन लीजिए जिनमें पूरे दाने नहीं पड़े हैं। इनको

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थी


चौलिए और इनकी तुलना पूरी भरी फलियों से कीजिए। अविकसित दाने उन बीजाण्डों के

अवशेष हैं जो पराग से निषेचित नहीं हो पाए हैं।

ड. बीज

1. बीज उगाने का एक उपयोगी तरीका


किसी कम लम्बे गिलास के मुँह पर कपड़े का एक टुकड़ा बांध दीजिए। फालतू कपड़ा बगल में लटकता रहे और कांच के चौड़े मुँह के किसी बरतन (जैसे अमृतबान) में 2 सेटीमीटर ऊंचे पानी में डूबा रहे। अमृतबान का मुँह कांच की चादर से ठक दीजिए ताकि भीतर की वायु नमदार रहे। बीजों को कपड़े पर रखा जाता है।



2. 'पुराने कपड़े को लपेट कर बनाया गया' बीज-परीक्षक


किसी महीन कपड़े का एक सीटर का चौकोर टुकड़ा लीजिए और उसे एक ही तरफ में दो बार तह कर दीजिए (इस प्रकार कुल मिला कर कपड़े की चार तहें हो जाएंगी)। एक किनारे के पास लगभग पेसिल से 5×5 सेटीमीटर के आठ या दस चौकोर खाने बनाइए। इन वर्गों पर गिनती लिख दीजिए और बीज की प्रत्येक पुड़िया में से दस बीज निकाल कर एक-एक वर्ग में रख दीजिए। कपड़े के हूसरे सिरे को मोड़ कर बीजों पर डाल दीजिए। फिर कपड़े को लपेट लीजिए और उसे धागे से हल्के-हल्के बांध दीजिए। इस प्रकार बीज-परीक्षक बना कर उसे पानी से तर कर दीजिए। इसको बराबर नम रखिए और यदि जाड़े की कृतु हो

तो किसी गरम जगह में कई दिनों तक पड़ा रहने दीजिए। तब उसे खोलिए और देखिए कि हर किस्म के बीजों में से कितने अंकूरित हुए।



3. गिलास-उद्यान

कांच के गिलासों में विविध प्रकार के बीज उगाइए। इन्हें हम 'गिलास-उद्यान' कहेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना निजी गिलास-उद्यान रखना चाहिए और प्रतिदिन बीज से उगे पौधों के विकास का सचित्र लेखा रखना चाहिए।




गिलास-उद्यान बनाने के लिए सूखे को आयताकार काट लीजिए और गिलास के भीतर डाल दीजिए (सूखे गिलास के भावर्वों को छूता रहे)। गिलास के बीच में सूखी काई (पीट मास), रुई, लकड़ी का घूआ, लकड़ी का बुरादा अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ भर दीजिए।

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

कुछ बीजों को सोखते और गिलास की बगल में डाल दीजिए। गिलास की पेंदी में धोड़ा पानी हमेशा रहे।


4. बीजों के अंकुरित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अध्ययन

नीचे दिए गए चित्र में क में बीज रुई पर रखे गए हैं। यहाँ उन्हें गरमी और हवा, दोनों, मिलती हैं, परन्तु पानी नहीं मिलता। ज में पानी और गरमी मिलती है परन्तु हवा नहीं मिलती क्योंकि पानी के ऊपर एक तह खौला कर उण्डा किया गया तेल डाल दिया गया है। ग में पानी से तर रुई के कारण नमी है और हवा भी है परन्तु वर्फ जमाने के भिशण (फोर्जिंग मिक्सचर) में परीक्षण नलिका को डूबा रख कर उसे उण्डा रखा गया है।



5. यह दिखाता कि उगते हुए बीज आवश्यक लेते हैं


एक नलिका लीजिए और उसके भीतर



थोड़ी-सी नम रुई और दो-चार दाने सरसों रख कर उसके एक सिरे को काग से बन्द कर दीजिए। खुले सिरे को कास्टिक सोडा के तनु (आइल्यूट) घोल में डुबा दीजिए और कुछ दिनों तक पड़ा रहने दीजिए। घोल नलिका में चढ़ जाएगा। काग हटा कर जलती हुई लकड़ी से परीक्षण करने पर पता चलेगा कि या तो बहुत कम आवश्यक बच्ची है या कुछ भी शेष नहीं रही।

6. बीज की संरचना का अध्ययन करना

सम, मटर, लौकी (कहु), सूर्यमुखी, मक्का, (चना, कमल) और अन्य बड़े आकार के बीजों को पानी में भिगो दीजिए। जब वे नरम हो जाएं तो उनके ऊपरी छिलके हटा दीजिए और सावधानी से काट कर बीज को खोलिए। उन अवयवों का पता लगाइए जिनसे बीज बना है। इन अवयवों के वानस्पतिक नाम सिखाने से कोई विशेष लाभ न होगा—यद्यपि विद्यार्थियों को इसमें दिलचस्पी हो सकती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विद्यार्थी बीज के उस भाग को, जो नया पौधा है, और उस भाग को, जो संचित आहार है, पहचानना सीख जाए।



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर-ग्रन्थ

7. उस गैस की जांच जो बीजों के अंकुरित होने में निकलती है

एक फ्लास्क में थोड़ी-सी भीगी रुई लीजिए और उस पर सरसों के कुछ बीज रखिए। उपकरण को ऊपर चित्र में दिखाई रीति से संयोजित करिए। कुछ दिनों तक बीजों को अंकुरित होने दीजिए। सावधानी से काग को हटाइए और एक गोलाकार कीप (थिसल-फनेल) के द्वारा नीचे पानी छोड़िए। किलप को खोल कर हटाई गई वायु को चूने के पानी में से बुलबुला छोड़ते हुए निकलने दीजिए। पानी दूधिया हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइ-आक्साइड की उपस्थिति का पता चलता है।

च. जीवाणु


1. जीवाणु उगाने की तैयारी

कांच की दो या तीन दर्जन गहरी तश्तरियां प्राप्त करिए। किसी भी प्रकार की तश्तरियों से काम चल जाएगा। कांच के चौकोर टुकड़े काट लीजिए, जिससे ये तश्तरियां ढकी जा सकें। ये टुकड़े तश्तरियों से कुछ बड़े रहें। ऐसी तश्तरियां जीवाणु-उद्यानों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। प्रारम्भिक प्रयोगों के लिए आलू, गाजर या शकर-कन्द की फांकें जीवाणु उगाने की 'भूमि' का काम दे सकती हैं। इन खाद्य पदार्थों से 6 या 8 मिली-मीटर मोटी फांकें काटिए। ये इतनी बड़ी हों कि छोटी तश्तरियों में सुगमता से आ जाएं।

जीवाणुओं के लिए उद्यान तैयार करने में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि सब वस्तुएं साफ-सुधरी रहें। आलू आदि के टुकड़ों को अच्छी तरह धोइए और तश्तरियों तथा उनके ढक्कनों को धोकर सुखा लीजिए। तश्तरियों और उनके ढक्कनों को साफ सफेद कागज पर रखिए। अपने हाथों को पूर्णतया साफ कर लीजिए। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो एक साफ सींक से आलू आदि के टुकड़ों को उठा कर तश्तरियों में डाल


8. यह विखाना कि बीजों के अंकुर किस दिशा की ओर बढ़ते हैं

लौकी (या कद्दू) के अथवा अन्य बड़े बीजों को रात भर पानी में फूलने दीजिए और उनमें से तीन को चित्र में दिखाई गई रीति से सूड़ियों पर लगा दीजिए। एक बीज की नोक ऊपर की दिशा में रहे, एक की बगल की ओर और तीसरे की नीचे की ओर। उनको नमदार वायु में रखिए। सावधानी से देखिए कि अंकुर किस दिशा में उगते हैं।



(बैक्टीरिया)

दीजिए। फिर उन पर ढक्कन लगा कर चित्र में दिखाए गए ढंग से धागे से बांध दीजिए। इन तश्तरियों को किसी बड़ी-सी थाली में रख कर तन्दूर (ओवन) में 110° से 120° सेंटीग्रेड तक ही ताप पर एक घंटे तक गरम करिए। इससे उद्यानों के भीतर के जीवाणु मर जाएंगे।



2. जीवाणु-उद्यानों को रोपित करना

जब जीवाणु-उद्यान ठण्डे हो जाएं तब उनको मेज पर अलग-अलग रखिए, परन्तु जब तक आप बोने के लिए तैयार न हो जाएं तब तक उनके ढक्कनों को न खोलिए। जीवाणुओं को जीवाणु-उद्यानों में रोपित करने के लिए बांस या लकड़ी की सींक अच्छे औजार का काम देती है। 30 या 40 सींकों को किसी ढक्के में रखिए और तन्दूर में रख कर घंटे भर तक गरम करिए। इससे अधिकांश

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग शीर सामग्री

जीवाणु मर जाएंगे। किसी सींक को जब निकालना हो तो उसे चिमटी से निकालिए। चिमटी केवल एक ही सींक को छुए।

जहां तक हो सके, अधिक-से-अधिक स्थान से जीवाणु लीजिए, उदाहरणार्थ (1) सड़ता हुआ या सड़ा हुआ फल, (2) सड़ा या खराब दांत, (3) गन्दा सिक्का, (4) नाखूनों के नीचे से खुरचा गया भैल।

सींक से जीवाणु के उत्पादक पदार्थ को स्पर्श कीजिए और तब शीघ्रता से किसी एक जीवाणु-रहित 'उद्यान' का ढक्कन उठाइए। सींक के सिरे को आलू की फांक पर रख डाइए और ढक्कन रख दीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि 'उद्यान' में जीवाणुओं को रोपित करते समय ढक्कन को यथासम्भव कम ही उठाया जाए ताकि वायु में विद्यमान जीवाणु और फकूदिया (माउल्ड्स) उसमें घुसने न पाएं। ढक्कनों को फिर कस कर बांध दीजिए और तश्तरियों को कुछ दिनों तक अन्धेरे में रख छोड़िए। यदि जाड़े के दिन हों तो उनको ऐसे स्थान में रखिए जो साधारणतः गरम रहे। जब उनकी जांच की जाएगी तो जीवाणु आलू पर घब्बे के रूप में दिखाई पड़ेंगे। प्रत्येक घब्बे में हजारों जीवाणु रहते हैं।

3. जीवाणु-उद्यानों के लिए एक दूसरी 'भूमि'

थोड़े-से चावल या आलूओं को तश्तरी में इतनी देर तक उबलिए कि वे अच्छी तरह पक जाएं। मोंड छान कर रख लीजिए। इस मांड का इस्तेमाल थोड़ी-सी जिलैटिन या 'अगर' तैयार करने में करिए। जिलैटिन में एक चुट्की नमक और थोड़ा-सा मांस का शोरबा अथवा मांस के सत का पकाया टुकड़ा (बूलान क्यूब) डाल दीजिए। तश्तरी और ढक्कन बैसे ही हों जैसा विच्छले प्रयोग में बतलाया गया था। प्रत्येक तश्तरी में जिलैटिन का इतना गरम मिश्रण डालिए कि वेंटी पर 3 या 4 मिलीमीटर की तह पड़ जाए। अब तुरन्त ढक्कन लगा दीजिए और जब तक जिलैटिन जम न जाए तब तक

उसे यों ही पढ़ा रहने दीजिए। ढक्कनों को बांध दीजिए और तन्दूर में रख कर जीवाणु-रहित करने की क्रिया करिए। तन्दूर से निकालने से पहले तश्तरियों को वहीं ठण्डा होने दीजिए और जिलैटिन को जम जाने दीजिए। इन जीवाणु-उद्यानों में जीवाणु उसी प्रकार रोपित किए जाते हैं जिस प्रकार पहले बताए गए उद्यानों में।

4. अन्तरण सूई बनाना

जीवाणु सम्बन्धी प्रयोग करते समय एक ऐसी अन्तरण सूई (ट्रांसफर नीडल) उपयोगी सिद्ध हो सकती है जिसको ज्वाला में तप्त करके जीवाणु-रहित किया जा सके। मूठ बनाने के लिए पेसिल के बराबर की कोई नरम लकड़ी लीजिए। सूई की नोक को लकड़ी में काफी दूरी तक पहुंचा दीजिए और सूई के आंख वाले सिरे को जीवाणु-उद्गमों को टटोलने के लिए काम में लाइए।

5. यह देखना कि जीवाणु नमदार स्थानों में अधिक अच्छी तरह पनपते हैं या शुष्क स्थानों में

दो जीवाणु-रहित तश्तरियां लीजिए। किसी तीसरी तश्तरी में उगते हुए जीवाणु समूह से अन्तरण सूई का स्पर्श करा कर पूर्वोक्त तश्तरियों में जीवाणुओं का अन्तरण कर दीजिए। सूई पर लगे पदार्थ को प्रत्येक तश्तरी की जिलैटिन पर अच्छी तरह लगाना चाहिए। ढक्कन तुरन्त बन्द कीजिए। एक पर 'शुष्क' और दूसरी पर 'नमदार' का लेबल लगा दीजिए। पहली तश्तरी को विकिरक (रेडिएटर) पर रख कर सुखा लीजिए परन्तु उसे बराबर किसी बक्स से ढका रखिए। (भारत में मकान गरम करने के लिए विकिरक, रेडिएटर, का प्रचलन नहीं है, आग बुझाने के बाद गरम चूल्हे से या रात से ढके कण्डे की मन्द आंच से काम चलाया जा सकता है)। तश्तरी इतनी गरम न होने पाए कि उसे छूना कठिन हो जाए। 'नमदार' लेबल बाली तश्तरी को किसी अन्धेरी साधारण गरम कोठरी में रखिए, जाड़ा हो तो रसोईघर में और जब

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

आग बुझ जाए तो चूल्हे के पास । परन्तु जगह ऐसी हो कि तश्तरी सूखने न पाए । कई दिनों तक दोनों तश्तरियों की जांच करते रहिए ।

6. यह देखना कि जीवाणु गरम स्थान में अधिक पनपते हैं या ठण्डे स्थानों में

दो जीवाणुओं को अन्तरित करिए । एक पर 'गरम' का लेबल लगाइए, दूसरी पर 'ठण्डे' का । पहली तश्तरी को किसी गरम अन्धेरे स्थान में रखिए । गरमी इतनी हो जितनी भारत में अधिकांश स्थानों में गरमी या बरसात में पड़ती है, जाड़े के दिनों में कमरे को अंगीठी से गरम रखिए । दूसरी तश्तरी को किसी ठण्डे अन्धेरे स्थान में रखिए । गरमी के दिन हों तो पेटी के एक कोने में प्रति दिन बर्फ का ढोका रख दिया करें । कई दिनों तक इन तश्तरियों का प्रति दिन निरीक्षण करिए ।

7. यह देखना कि जीवाणु अन्धेरे में अधिक अच्छी तरह पनपते हैं अथवा प्रकाश में

पहले की तरह दो जीवाणु-रहित तश्तरियों में जीवाणु अन्तरित करिए । एक पर 'अन्धकार' का लेबल लगाइए, दूसरी पर 'प्रकाश' का । पहली तश्तरी को किसी अन्धेरे गरम स्थान में रखिए और दूसरी को तेज धूप में अथवा किसी ऐसी जगह जहाँ बिजली का तेज बल्ब सारे समय तश्तरी पर तीव्र प्रकाश डालता रहे । कई दिनों तक दोनों तश्तरियों का निरीक्षण प्रति दिन करते रहिए ।

8. जीवाणु कहाँ मिल सकते हैं ?

जीवाणु-रहित की गई जीवाणु उगाने वाली तश्तरियों का सम्पर्क निम्नलिखित में से यथासम्भव अधिक-से-अधिक वस्तुओं से स्थापित करिए । तश्तरियों पर लेबल लगा दीजिए । उनको साधारण गरम अन्धेरी जगह में कुछ दिनों तक रहने दीजिए, और तब उनका निरीक्षण करिए ।

1. स्वच्छ हाथ और गन्दे हाथ
2. जाड़न, जिससे तश्तरियों आदि पोंछी जाती हों
3. कूड़े की बाल्टी
4. खावार (कफ)
5. छींक
6. जूते के तले
7. खाना खाने को स्वच्छ याली या तश्तरी
8. मक्की
9. झींगर
10. कुत्ते के रोएं
11. पाठशाला की किसी कोठरी की हवा
12. दूध, जो खट्टा हो गया हो
13. पैसिल की नोक
14. किसी गन्दी गली की हवा
15. रुका हुआ पानी, जैसे पोखर का जल
16. कम्बल, पायदान, दरी या गलीचा

9. क्या धूप में जीवाणु मर जाते हैं ?

किसी तश्तरी से, जिसमें जीवाणु उग रहे हों, जीवाणु लेकर उन्हें दो जीवाणु-रहित तश्तरियों में अन्तरित करिए । एक तश्तरी को खुली धूप में रखिए और दूसरी को साधारण गरम अन्धेरे में । जब पहली तश्तरी कई घंटों तक धूप में रह चुके तो उसे दूसरी तश्तरी के साथ पूर्वोक्त अन्धेरे स्थान में रख दीजिए । प्रत्येक तश्तरी का निरीक्षण कई दिनों तक प्रति दिन करिए ।

10. क्या जीवाणुनाशक (डिसिन्फेक्ट्स)

जीवाणुओं का नाश करते हैं ?

बाजार में बिकने वाले तथा कई तरह के घरेलू जीवाणुनाशक पदार्थ प्राप्त करिए (अगर पानी में नीम की पत्तियाँ उबाली जाएं तो वह पानी भी घरेलू जीवाणुनाशक का काम दे सकता है) । जितने प्रकार के जीवाणुनाशक आप प्राप्त कर सकें, उतनी ही पोषण तश्तरियों में जीवाणुओं का अन्तरण कर दीजिए और

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

एक तश्तरी और से लीजिए जो तुलनक क. काम दे सके। प्रत्येक अन्तरित तश्तरी की 'भूमि' को एक विभिन्न जीवाणुनाशक से धो डालिए। फालतू जीवाणुनाशक को उंडेल दीजिए। प्रत्येक तश्तरी में लेबल लगा दीजिए। सब तश्तरियों को ढक दीजिए और तुलनक तश्तरी समेत सबको किसी साधारण गरम अन्धेरे स्थान में रख दीजिए और कुछ दिनों के बाद उनकी जांच करिए।

छ. फफूंदियाँ

1. विविध प्रकार की फफूंदियाँ प्राप्त करना

(क) एक ऐसी नारंगी लीजिए जिस पर हरी फफूंदी लग गई हो और उसे कांच के अमृतबान (बरतन) में डाल कर अन्धेरे साधारण गरम स्थान में रखिए।

(ख) एक टुकड़ा पाव रोटी (डबल रोटी) या साधारण रोटी को पानी में नम करके किसी बरतन में रख दीजिए और उसमें हवा लगाने दीजिए। कुछ दिनों तक उसे अन्धेरे साधारण गरम स्थान में रहने दीजिए।

(ग) एक टुकड़ा नीला या रोकफोर्ट पनीर प्राप्त करिए, जिसमें जरा फफूंदी लगी हो (या कई दिनों तक रखी मलाई या दही लें, जिसमें फफूंदी लग गई हो)। अमृतबान में डाल कर उसे एक अन्धेरे और साधारण गरम स्थान में रखिए।

(घ) एक हुए पानी में कुछ मरी मक्कियाँ डाल दीजिए। कुछ दिनों में उनके चारों ओर प्रायः सफेद फफूंदी उग आएगी।

2. फफूंदी के पौधे किस प्रकार उगाए जाएं

जिन तश्तरियों का उल्लेख जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगों में किया गया था, वैसी ही जीवाणु-रहित तश्तरियाँ लीजिए और उनमें आलू के कतरे अथवा जिलैठिन रखिए। ऊपर के प्रयोग I में बताए गए प्रत्येक जीवाणु उत्पादक से फफूंदी लेकर एक जीवाणु-रहित पोषण तश्तरी में डाल दीजिए। चारों तश्तरियों को किसी अन्धेरे

11. यह बेलना कि मिट्टी के जीवाणु कहाँ रहते हैं बलोदर, ऐल्फेल्का या सोयाबीन (या मटर, बोडा, सेम, चना या सनई) के पौधे को खोद कर उठा लीजिए। जड़ में लगी मिट्टी को सावधानी से धो डालिए और देखिए कि जड़ों में कई नहीं छोटी अन्धियां (नोड्यूल्स) दिखाई पड़ रही हैं या नहीं। यहाँ वे नाश्ट्रोजन विनिवेशी जीवाणु पाए जाते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

साधारण गरम स्थान में रख छोड़िए। कुछ दिनों में चारों किस्मों की फफूंदियों की विशुद्ध उपजें आप पा सकते हैं।

3. फफूंदियों की संरचना

जब फफूंदियों की चारों विशुद्ध उपजें खूब बढ़ जाएं तो प्रवर्धक लैन्स द्वारा प्रत्येक का निरी-क्षण करिए। यह देखिए कि वे तन्तु दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं जिनके कारण कुछ फफूंदियाँ मकड़ी के जाले की तरह दिखाई पड़ती हैं। यह भी देखिए कि उनमें नहीं काली धुण्डियों वाले छोटे-छोटे डण्ठल हैं या नहीं। ये ही जीवाणु-पुट कहलाते हैं। प्रत्येक जीवाणु-पुट में हजारों जीवाणु जन्म लेते हैं। इनके परिपक्व होने पर पुट फट जाता है। यदि परिस्थितिया अनुकूल हों तो प्रत्येक जीवाणु से फफूंदी का एक नवीन पौधा विकसित हो सकता है।

4. क्या फफूंदियों की बुद्धि के लिए पानी की आवश्यकता होती है?

जीवाणु-रहित पोषण तश्तरी में एक चम्मच सूखा अनाज, जैसे चावल या आटा रखिए। उतनी ही मात्रा में वही अनाज दूसरी जीवाणु-रहित पोषण तश्तरी में भी रखिए परन्तु उस अनाज को पहले पका लीजिए। प्रत्येक में अन्तरण सूई द्वारा जीवाणु अन्तरित कीजिए। तश्तरियों को ढक दीजिए और उनमें लेबल लगा दीजिए। किसी अन्धेरे साधारण गरम स्थान में तश्तरियों को रख दीजिए और कुछ दिनों के बाद प्रत्येक को देखि।

5. गरम स्थान में फैलूंदियाँ अधिक अच्छी तरह उगती हैं अथवा ठण्डे में ?

प्रयोग 4 को किर से करिए, परन्तु इस बार एक तश्तरी को साधारण गरम अन्धेरे स्थान में रखिए (गरमी का दिन हो तो किसी पेटी में रखिए और पेटी में प्रति दिन काफी बर्फ डाल कर उसे ठण्डा कीजिए)। कुछ दिनों बाद तश्तरियों का निरीक्षण करिए।

6. अन्धेरे में फैलूंदियाँ अधिक अच्छी तरह उगती हैं अथवा प्रकाश में ?

उपर के प्रयोग 4 को दोहराइए परन्तु इस बार एक तश्तरी को साधारण गरम स्थान में रखिए, जहाँ उस पर बराबर प्रकाश पड़ता रहे। दूसरी तश्तरी को किसी साधारण गरम अन्धेरे स्थान में रखिए। कुछ दिनों बाद तश्तरियों का निरीक्षण कीजिए।

ज. खमीर

1. सने आटे पर खमीर का प्रभाव दिखाना

थोड़ी-सी चीनी, पानी और मंदे को इस अनुपात में मिलाइए कि उससे बढ़िया पाव रोटी बन सके (उदाहरणार्थ मैदा 100 भाग, चीनी 7 भाग और पानी इतना कि उड़ेल सकने लायक गाढ़ा मिश्रण बन जाए)। इस गुणिका (डफ) को दो बराबर भागों में बांटिए। थोड़े से पानी में खमीर की आधी टिकिया मिलाइए और उसे गुणिका के एक नमूने में भिला दीजिए। गुणिका के दोनों नमूनों को तश्तरियों में रख कर उनमें लेबल लगाइए और साधारण गरम स्थान में रख छोड़िए। कुछ घंटे बाद निरीक्षण करिए (खमीर की टिकिया भिलने में सम्भवतः कठिनाई होगी, परन्तु हलवाई से जलेबी के लिए खमीर उठाया मैदा लेकर भी काम चलाया जा सकता है। आधी टिकिया खमीर के बदले 2 चम्मच खमीर उठे जलेबी के आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है)।

2. खमीर की क्रियाशीलता पर ताप के प्रभाव की परीक्षा

उपर प्रयोग 1 में बताई गई रीं से थोड़ी-सी गुणिका बनाइए। एक टिकिया खमीर को पानी में मिलाइए और तब उसको गुणिका में खूब अच्छी तरह मिला दीजिए। इस गुणिका के तीन भाग करिए और उन्हें कटोरियों या अमृतबान में रख दीजिए। इन पर 1, 2, 3 के लेबल लगा हो उसे प्रशीतक (रेफिजरेटर) में रख दीजिए। प्रशीतक न हो तो कटोरी को लकड़ी

की पेटी में बर्फ पर रखिए, बर्फ इतनी रहे कि कम-से-कम चार घंटे तक चले। कटोरी संख्या-2 को साधारण गरम स्थान में रखिए और कटोरी संख्या-3 को खूब गरम स्थान में। कुछ घंटे बाद प्रत्येक कटोरी की गुणिका की जांच करिए।

3. यह दिखाना कि खमीर चीनी पर प्रभाव डालता है


किसी बरतन में थोड़ा शरबत बनाइए। इसके लिए चाहे चीनी का प्रयोग करिए, चाहे खांड का अथवा शहद का। शरबत को परीक्षण-नलिका में उड़ेल कर उसमें खमीर की चौथाई टिकिया पीस कर डाल दीजिए। उतना ही खमीर पीस कर एक दूसरी परीक्षण-नलिका में डालिए। इस परीक्षण-नलिका में उतना ही पानी रहे जितना पहली परीक्षण-नलिका में शरबत है। दोनों नलिकाओं को साधारण गरम स्थान में रखिए। समय-समय पर परीक्षण-नलिकाओं को ध्यान से देखते रहिए और पता लगाइए कि उनमें क्या अन्तर आया?

4. चीनी पर खमीर की क्रिया से निकली गैस का अध्ययन

एक परीक्षण-नलिका में थोड़ा-सा साफ चूने का पानी रखिए और किसी विद्युर्धी से कहिए कि वह उसमें लेमन पीने की नलिका से सांस छोड़े। नलिका का दूसरा सिरा चूने के पानी में डूबा रहे। शीघ्र ही चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है। अब एक परीक्षण-नलिका में थोड़ा-सा शरबत डाल कर उसमें खमीर


पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

मिलाइए। इस परीक्षण-नलिका में एक-एक छेद वाला काग लगाइए और छेद में कांच की नलिका। इस नलिका में रबड़ की नली (द्यूब) जोड़िए और उसके दूसरे सिरे पर लगभग 15 सेंटीमीटर लम्बी कांच की एक दूसरी नलिका। एक दूसरी परीक्षण-नलिका में चूने का साफ पानी लेकर इस लम्बी नलिका को उसमें डुबो दीजिए। अब दोनों परीक्षण-नलिकाओं को कुछ समय तक किसी साधारण गरम स्थान में पढ़ा रहने दीजिए। चूने के पानी का निरीक्षण करिए।



5. खमीर के पौधों को बेसना

किसी कालेज या हाई स्कूल से अथवा किसी डाक्टर से या किसी अस्पताल से एक सूक्ष्मदर्शी मंगनी मांग लाइए। खमीर वाले शरबत की एक-दो बूंदें शीशे की पट्टिका (स्लाइड) पर रखिए और सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका निरीक्षण करिए। आपको अनेक अण्डाकार कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक कोशिका खमीर का एक पौधा है। सम्भवतः आप कुछ ऐसे पौधे भी देखेंगे जिन पर कलियां लगी हैं। यही रीति है जिससे खमीर के पौधे प्रजनन करते हैं।



अ. मिट्टी के बिना पौधे उगाना

सम्भव है कि कुछ बच्चे घर के भीतर मिट्टी के बिना ही पौधे उगाना चाहें। ऐसा किया तो जा सकता है परन्तु इसके लिए विशेष सामग्री और रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होगी। इन प्रयोगों के लिए आवश्यक

सामग्री की पेटियाँ 'सायंस सर्विस, 1719 ऐन ट्रीट' ऐन० डब्ल्य० वार्शिगटन डी० सी०, यू० ऐस० ए० (संयुक्त राज्य अमेरिका)' से 4.95 डालर में मंगाई जा सकती हैं।

अ. सरल बागबानी

कई लड़के चाहते हैं कि घर या स्कूल में उच्चान बनाए जाएं। प्रत्येक बच्चे को उत्साहित करना चाहिए कि वह थोड़ी-सी भूमि इस काम के लिए चुन ले और उसे साफ करे। जब भूमि की गोड़ाई ग्रन्थी तरह कर दी जाए तो उसमें पंक्तियों के लिए लाइनें डाल दी जाएं। अगर मूली या लैट्यूस (या गाजर) आदि बोने हों तो ऐसा किया जा सकता है कि पहली पंक्ति में मूलियां बोई जाएं और हर दूसरी में लैट्यूस। प्रत्येक

विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने उच्चान का नक्शा बनाए और उसमें यह दिखाए कि कहां क्या वस्तु बोई गई है।

पौधों को घर पर या स्कूल में बाया जा सकता है और बाद में उनको खेत में रोपा जा सकता है। इसके लिए लगभग 10 सेंटीमीटर गहरे लकड़ी के बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी (इनके बदले मिट्टी के गमलों का भी उपयोग किया जा सकता है)। इन बक्सों

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

में अच्छी (पुरानी खाद मिली हुई) मिट्टी
लगभग 8 सेंटीमीटर तक भर दी जाती है।
टमाटर, गोभी, करमकल्ला (पातगोभी) और
छोटे पौधों के बीज घर के भीतर बोए जा
सकते हैं। जब तक खेत में मूली, गाजर के
पौधे तैयार होंगे, तब तक घर के भीतर
बोए गए पौधे भी खेत में रोपे जाने योग्य


हो जाएंगे।

बागबानी करने से पौधों को उगाने और
उनकी देख-भाल करने के सम्बन्ध में कई-
एक उपयोगी बातों का ज्ञान मिलेगा। समय आने
पर उगाई हुई सब्जियों की प्रदर्शनी की भी
योजना बनाई जा सकती है।

प्राणियों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

1. कीट-जाली

एक गोल छड़ी (या बांस), थोड़ा मोटा तार और मसहरी की जाली या खंखरे कपड़े से एक उपयोगी कीट-जाली बनाई जा सकती है। मोटे तार को मोड़ कर 39 से 45 सेंटीमीटर व्यास का बलय बना दीजिए और उसके सिरों को एक साथ करके ऐंठ दीजिए और यह ध्यान रखिए कि वह सीधा भाग कम-से-कम 15 सेंटीमीटर लम्बा हो। इस बलय को इस छड़ी (या बांस) के सिरे पर तार (या डोरी) से बांध दीजिए या दो-मुहे कीलों से जड़ दीजिए। मसहरी की जाली का एक टुकड़ा इतना बड़ा काटिए कि उससे लगभग 75 सेंटीमीटर गहरी जाली बन जाए। इस जाली को पूर्वोक्त गोल तार पर टांक दीजिए।



2. कीट-मार बरतन

चौड़े मुँह का एक कांच का बरतन ले लीजिए, जिसके ऊपर पेंचदार ढक्कन लगा हो या जो कस कर बन्द किया जा सके। पेंदी में रुई की गही रख दीजिए और उसके ऊपर गते या सोखते का एक गोल टुकड़ा रख दीजिए, जिसमें कई-एक छेद कर दिए गए हों। प्रयोग करते समय रुई को कार्बन टेट्राक्लोराइड (कार्बोना)


अथवा किसी ऐसे अन्य क्रमिनाशक से तर कर दीजिए, जिसमें डी० डी० टी० पड़ी हो। गते को रुई के ऊपर रख दीजिए और तब कीट (पतंगे या कीड़े) को बरतन में डाल दीजिए। बरतन को कस कर बन्द कर दीजिए और जब तक कीट मर न जाए, उसे न खोलिए। यदि पतंगे या तितलियां तैयार की जा रही हों तो यह ध्यान रहे कि बरतन का मुँह इतना बड़ा अवश्य हो कि निकालते समय पंख न टूटने पाएं।

3. कीटों के लिए तान-पट्टिका

यदि कीटों को आरोपित करने के लिए तान-पट्टिका की आवश्यकता पड़ती है तो सिगार बक्स से बहुत जल्दी ही तान-पट्टिका बनाई जा सकती है। सिगार बक्स से ढक्कन को अलग कर दीजिए और उसे बीच से लम्बाई में चीर कर उसके दो बराबर भाग कर दीजिए। अब दोनों भागों के बीच लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ा स्थान छोड़ कर इन्हें फिर से बक्स पर जड़ दीजिए। कीट के शरीर को इस गड्ढे में रख दिया जाता है और पंखों को अगल-बगल की लकड़ी के ऊपर कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों द्वारा स्थिर कर दिया जाता है। कागज के टुकड़े ढक्कन की नरम लकड़ी में पिन खोंस कर जड़े जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पिन केवल कागज में से ही होकर जाएं, कीटों के पंख में से नहीं। कभी-कभी ढक्कन के दोनों भागों को छोटा कोण बनाते हुए भी रखना उपयोगी होता है। इसके लिए ढक्कन के टुकड़ों को जड़ने के पहले सिगारों के बक्स के सिरों को V के रूप में काट देने से काम चल सकता है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

यह नीचे के चित्र में ख पर दिखाया गया है।



4. कीट संचयों के लिए आरोपण-पेटिकाएं

लकड़ी या दफती के सिगार बक्सों से बहुत उपयोगी और सुविधाजनक कीट संचय-पेटिकाएं बन सकती हैं। तान-पट्टिका से कीट को हटाने के बाद उसके शरीर में एक पिन गोद दी जाती है, और वह पिन बक्स की पेंदी में खोंस दी जाती है, जिससे कीट वहाँ लगा रहे। पिनों को कम से लगाना चाहिए। पिन के सिरे के पास मोटे-से कागज का एक छोटा कार्ड लगाया जा सकता है, जिस पर उस कीट के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत विवरण हो।



सिगार बक्सों के भीतर रुई बिछा कर भी कीटों को आरोपित किया जा सकता है। ढक्कन हटा दिया जाता है और बक्स के भीतर धुनी रुई की तहें जमा दी जाती हैं। इस पर कीट सजा दिए जाते हैं और तब बक्स को कांच या सेलो-फेन से ढक दिया जाता है। कांच या सेलो-फेन को पट्टी (टेप) से बक्स पर चिपका दिया जाता है। लीजिए, आपकी पक्की आरोपणी (मार्टिंग) तैयार है। यह आरोपणी तितलियों और पतंगों को आरोपित करने के लिए अथवा पाठशाला के संग्रहालय (म्यूजियम) में कीटों के प्रदर्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

5. विज्ञान कक्ष के लिए जन्तुओं के पिजड़े

प्रारम्भिक और सामान्य विज्ञान में बहुधा यह आवश्यक हो जाता है कि कभी-कभी जन्तुओं को पिजड़े में बन्द करके कक्ष में भी थोड़े समय के लिए रखा जाए ताकि विद्यार्थीगण उनका अध्ययन कर सकें। उसके लिए पिजड़े ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए। जिन बस्तुओं से ये बनाए जाते हैं, वे बस्तुएं हर जगह मिल सकती हैं।

ऐसा एक पिजड़ा लकड़ी के बक्स से बनाया जा सकता है। इसमें एक कब्जेदार ढक्कन

होना चाहिए। ढक्कन में एक खिड़की (खुला भाग) हो जिस पर तार की जाली लगा दी जाए। बक्स के चारों पाश्वों में भी खिड़कियां बना दी जाएं। अगल-बगल और पीछे की खिड़कियों में जाली लगा दीजिए और सामने वाली खिड़की में चाक जड़ दीजिए। इस तरह के पिजड़ों में नीचे एक दराज लगा देने से पिजड़ा और भी उपयोगी हो जाता है। दराज कांच वाली खिड़की के नीचे रहे और उसकी लम्बाई-चौड़ाई इतनी हो कि वह नीचे से समूची पेंदी को ढक ले। तब इससे जानवरों को परेशान किए बिना ही पिजड़े की सफाई की जा सकती है।




शीतोष्ण प्रदेशों में तार की जाली की बजाय बांस की खपचियां अथवा लकड़ी लगा कर बहुत उपयोगी पिजड़े बनाए जा सकते हैं।

पिजड़े में बन्द जन्तुओं को दाना-पानी देना बहुधा सरल नहीं होता। खाद्य और पानी के बरतनों को आम तौर पर पेंदी से कुछ ऊपर रखना चाहिए। छोटे जन्तुओं के लिए मामूली खाने का बरतन साधारण टीन के डिब्बे से बन सकता है। डिब्बे की बगल से एक पट्टी काट लेनी चाहिए और फिर डिब्बे को पिजड़े की बगल में छोटे तारों से लटका देना चाहिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है। सफेद

प्राणियों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

चूहों, गिनी पिस और बड़े चूहों (हेस्टसं) को पानी देने की व्यवस्था एक बोतल और कांच अथवा प्लास्टिक की छोटी नलिका द्वारा की जा सकती है (चित्र देखिए)।




6. घर पर बनी कीटधानी (बर्मरी)

लकड़ी का एक बक्स लीजिए, जिसका आकार 30 सेंटीमीटर \times 30 सेंटीमीटर \times 15 सेंटी-मीटर का हो। इसमें सामने की ओर कांच लगा होना चाहिए। यह बक्स केंचुओं के रहन-सहन का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होगा।

बक्स को लगभग ऊपर तक (क) बालू, (ख) सड़ी पत्तियों, और (ग) भुरभुरी मिट्टी से भर दीजिए। ऊपरी तह डालने के पहले प्रत्येक निचली तह को अच्छी तरह दबा देना चाहिए।

ऊपर की मिट्टी पर लेट्यूस की पत्तियां (अथवा करमकले की नरम पत्तियां या अन्य



साग-पात), गाजर, इत्यादि रख दीजिए और साथ ही कुछ केंचुए भी छोड़ दीजिए।

बक्स के भीतर की सामग्री को नमदार रखिए और केंचुओं के रहन-सहन का अध्ययन करिए।

7. कीड़ों के जीवन-वृत्त का अध्ययन


गते का एक बड़ा-सा बक्स लीजिए और उसके चारों ओर की दीवारों में बड़े आयताकार छेद काट कर उनको बहुत महीन कपड़े से ढक दीजिए। कपड़े को बक्स के किनारों पर मोड़ दीजिए और लेई से चिपका दीजिए। एक बड़ा-सा ढार भी बनाइए। इसके लिए बक्स की एक दीवार को तीन ओर से काटिए और चौड़े मोड़ पर गते को मोड़ दीजिए। हस्ता बनाने के लिए हरे कागज या गते का एक टुकड़ा मोड़ कर ढार के सिरे के पास चिपका दीजिए। बक्स की असली पेंदी को ज्यों-का-त्यों रहने दीजिए ताकि बक्स मजबूत रहे। (यदि सेलोफेन मिल सके तो ढार अथवा एक दीवार में एक लिङ्की बनाई जा सकती है)। पेंदी पर एक टुकड़ा कागज बिछा दीजिए पर उसे चिपकाइए नहीं। इससे बक्स की सफाई करने में सुगमता रहेगी। कुछ छोटी-छोटी प्यालियों में नमदार मिट्टी रखिए, उनमें फूल खोंस दीजिए और खाद्य पौधों की पत्तियां तथा तने भी रख दीजिए। पानी से भरे बरतन रखना ठीक नहीं रहता क्योंकि पानी में फूंक कर कीट मर भी सकते हैं।

तितलियों के जीवन-इतिहास की सभी अवस्थाओं को जानने के लिए यह पिंजड़ा बहुत उपयुक्त है और अगर प्यूपे बनने के लिए मिट्टी के बड़े बरतन भी साथ रख दिए जाएं तो यह पतंगों (माथ) के सम्बन्ध में भी उपयोगी हो सकता है। कीड़ों के छूने आदि के लिए बुश या किसी छोटी छड़ी से काम लिया जा सकता है।

8. टिहड़े और तूण-कीटों के लिए सामग्री जुटाना

इन कीटों को चौड़े मुह के कांच के बरतन, अमृतबान अथवा बड़े गिलास, को उलट कर

उमर्में रखा जा सकता है। उनके खाने के लिए बरतन में पत्तियाँ रख देनी चाहिए। पत्तियों की टहनी को पानी के छोटे बरतन में खड़ा किया जा सकता है। कीट को अधिक स्थान देने के लिए और उसे डुबने से बचाने के लिए औंधे बरतन को, जूते के औंधे डिब्बों को उल्टा रख कर उस पर रखा जा सकता है। पत्तियाँ जूते के बक्स की पेंदी से, जो अब सबसे ऊपर है, बाहर निकली रहें।



9. मक्कियों के लिए अमृतबान से बना जीवालय

बड़ी मक्की (ब्लो फ्लाई) के जीवन और रहन-सहन का अध्ययन करने के लिए उसे कांच के अमृतबान में रखा जा सकता है। जब वह इस बरतन में रखे कूड़े पर अण्डे देचुके तो मक्की को दूसरे बरतन में रख दीजिए और अण्डों को किसी साधारण गरम स्थान में रख दीजिए (जाड़ों में घूप में)। एक सप्ताह बीतने पर अण्डों से ढोले (जेण्टल्स) निकलेंगे। एक सप्ताह और बीतने पर वे पीतावेष्टित (किसेलाइड) हो जाएंगे। अगर थोड़ी-सी गीली मिट्टी अथवा काई (मॉस) को बरतन में डाल दिया जाए तो वे सूखेंगे नहीं। कुछ ही सप्ताहों में उनका पूरा जीवन-इतिहास जाना जा सकता है। बाद में उनसे सम्बन्धित कई समस्याओं की ज्ञान-बीन भी की जा सकती है, जैसे क्या वे सोती हैं? वे क्या खाती हैं? नर और मादा में क्या अन्तर होता है?

10. मकड़ियों का अध्ययन

आपन देखा होगा कि कई जातियों की मकड़ियाँ पानी के ऊपर या पालिश किए हुए घरातलों पर नहीं चल पातीं। इस तथ्य से लाभ उठाया जा सकता है। पानी के थाल में पौधे का गमला रख दीजिए या गमले को पालिश की हुई मेज पर रखिए। हो या तीन छड़ियों या गत्ते की पट्टियों को एक बहुभुज के आकार के अनुसार आपस में बांध दीजिए, और इस ढांचे को गमले के पौधे के सहारे कुछ तिरछा खड़ा कर दीजिए। अब पौधे पर एक जाला बुनने वाली मकड़ी रख दीजिए। वह जाला बुनता शुरू कर देगी।

यदि किसी अलमारी की कुछ दराजे निकाल दी जाएं और उसमें एक बड़ा-सा मकड़ा, जैसे एपायरा डायाडेमाटा (मादा), रख दिया जाए तो वह उसमें ही जाला बुन देगा। अलमारी में कुछ पौधे रख दीजिए और फिर मकड़े को रख कर अलमारी का द्वार बन्द कर दीजिए। कुछ घंटों के बाद द्वार खोलिए। इससे सम्भवतः जाला टूट जाएगा, परन्तु अब यदि द्वार को खुला छोड़ दिया जाए तो मकड़ा भागने की कोशिश नहीं करेगा। वह एक दूसरा जाला बुन डालेगा। यदि उसके जाले में काफी कीट न फंसें तो उसे कीट, ढोले, पतंगे या मक्कियाँ खाने को देनी चाहिए।

जाला बुनने की विधि भी देखनी चाहिए और उसके खाने तथा अन्य कार्य-व्यवहारों की तिथि तथा समय सहित नोटबुक में लिख देना चाहिए। अनियमित जाला बनाने वाली मकड़ी (काबवेब स्पाइडर) को बड़े अमृतबान में रखना चाहिए। अमृतबान पर जाली लगा देने से समय-समय पर भीतर डाली गई मकड़ी उड़ कर भाग नहीं पाएगी। मकड़ी जितने भी अण्डे देगी, वे सुगमता से देखे जा सकते हैं और खाने के सम्बन्ध में उसकी रोचक आदतों का भी अध्ययन किया जा सकता है।

11. मेंढकों और भेंडों का पालन और प्रेरण

मेंढकों और भेंडों को चिड़ियाँ रखने के किसी

पुराने पिंजड़े में रखा जा सकता है। इसके भीतर मिट्टी, पौधे और पानी के लिए एक-दो खाली तश्तरियाँ रख दीजिए। तब पिंजड़े के दरवाजे से, जो साधारणतः छोटा होता है, पानी से भरी बोतल पिंजड़े के भीतर डाल कर तश्तरियों को भर दीजिए। मेंढकों तथा भेकों को खाने के लिए केंचुए और मक्कियाँ देनी चाहिए।

मेंढकों और भेकों के श्वसन-नन्त्रों, सांस की गति और उनकी खाने की आदतों का सही-सही अध्ययन किया जा सकता है। यदि पिंजड़े पर आड़ कर दी जाए तो यह देखा जा सकता है कि इससे मेंढक की चमड़ी के रंग में वया परिवर्तन होता है। यदि एक मेंढक को शीशे के एक बड़े कटोरे में डाल दिया जाए तो उसके तंत्रने की विधि भी देखी जा सकती है।

बैंगचियों को कांच के बरतनों में रखा जा सकता है परन्तु जब उनका रूपान्तर निकट आए तो उनको किसी कम गहरी तश्तरी या थाली में डाल देना चाहिए। थाली के बीच में थोड़े-से पत्थर रख दिए जाएं। बैंगचियों से उत्पन्न छोटे मेंढकों को पालना सरल नहीं है। अच्छा यही होगा कि उनको मुक्त कर दिया जाए और अधिक आयु के मेंढकों को ही ऊपर की रीति के अनुसार पाला जाए।

(जस्ती बरतन ऐम्फीविया—उभयचर प्राणियों—के लिए उपयुक्त नहीं होते।)

12. चूहों का पालन और प्रेक्षण

काले और सफेद चूहों को जस्ते की कलई वाली चादरों से बने नहाने के पुराने टबों में रखा जा सकता है। टब को मजबूत तार की बड़े छोटे वाली जाली से ढक देना चाहिए। चूहे के बच्चे तार की जाली से बाहर निकल आएंगे और जाली पर खेल-कूद मचाएंगे। यदि जाली टब के चारों ओर कई इंच बाहर बढ़ी रहे और पास में कोई लाग न रहे तो वे जाली पर से उतर नहीं सकेंगे। टब की पेंदी पर स्वच्छ बालू की कम-से-कम 3 सेंटी-मीटर सोटी तह बिछा देनी चाहिए। इसको

प्रति दिन बदलना चाहिए। बालू को बहुते पानी में अच्छी तरह धोकर और हवा में फैला कर सुखाने के बाद फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। रहने की जगह बनाने के लिए कपड़े के साफ टुकड़े लीजिए। बाद में या तो इनको उबाल लीजिए या फिर केंक दीजिए।

चूहों को पालना सरल होता है। वे सभी कुछ खा लेते हैं। उन्हें जूठन और तरकारी आदि की छीलत खाने के लिए दी जा सकती है। उनको थोड़े-से 'पैरट सीड' भी दे देने चाहिए, जिसका अधिक भाग हेलिएन्थस के बीज होते हैं (इसके बदले चना भी दिया जा सकता है)। चूहों को 'पैरट सीड' बहुत अच्छे लगते हैं और वे उन्हें पंजों में पकड़ कर उनके छिलकों को तोड़ते हैं। उनको सूर्यमुखी, मटर, सेम या गेहूं (या चने) के नव अंकुरित पौधे देने चाहिए ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में सब विटामिन मिल सके।

शुरू में चूहों की एक जांड़ी ही काफी होगी क्योंकि चूहों के बच्चों की परम्परा तेजी से बढ़ती है।

यदि चूहों को अच्छा खाना दिया जाए और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाए तो वे शीघ्र ही पालतू बन जाते हैं और जब तक वे डर न जाएं, कभी काटते नहीं। एक ही व्यक्ति या सदैव उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उनका पालन आदि होना चाहिए।

चूहों के रहन-सहन और प्रजनन का अध्ययन करें। उनकी वृद्धि का लेखा बनाएं। चूहों का बजन लेने के लिए एक विशेष बक्स बनाइए। गते का एक ऐसा बक्स लीजिए जिसका ढक्कन गहरा हो। हवा आने-जाने के लिए ढक्कन में कई-एक छोटे-छोटे छेद कर लीजिए। बक्स के भीतर थोड़े-से हेलिएन्थस (अथवा चने) के बीज रख दीजिए। बक्स और चूहे को एक ही साथ तोलिए और प्राप्त तौल से बक्स की तौल को बटा लीजिए। आहार सम्बन्धी सरल प्रयोगों के लिए चूहों

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

की तौल को सूचकांक माना जा सकता है। चूहों को नियमित ढंग से तोलना चाहिए जैसे, प्रति सप्ताह।



चूहों की सहायता से सरल मेण्डलियन प्रयोग भी किए जा सकते हैं।

यदि चीड़-फाड़ की आवश्यकता पड़े और क्लोरोफार्म उपलब्ध न हो, तो चूहे को निम्न-लिखित रीत से बड़ी सरलता से मारा जा सकता है: मजबूत पेटी अथवा अच्छे ढक्कन वाले विस्कुट के छोटे डिब्बे की पेंदी, दीवारों और ढक्कन में कील से ठोक कर कई-एक छेद करिए। चूहे को इस डिब्बे में रख दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। समूचे डिब्बे को पानी में डुबा दीजिए और ढक्कन पर भारी बोझ रख दीजिए। डिब्बे में पानी भर जाएगा और चूहा शीघ्र मर जाएगा।

13. चीटियों का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षण-नीड़

चीटियों के जीवन-इतिहास के अध्ययन के लिए एक प्रेक्षण-नीड़ निम्नलिखित रीत से सुगमतापूर्वक बनाया जा सकता है:

लकड़ी के तीन टुकड़े लीजिए, जिनमें से प्रत्येक की लम्बाई 30 सेंटीमीटर और मोटाई-चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर हो। इन टुकड़ों को U की आकृति में जोड़ दीजिए। अब इसको लकड़ी की किसी पेंदी पर जड़ दीजिए। इसके बाद 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर के दो कांच के टुकड़े काटिए और उनको U के दोनों ओर रख कर उन पर रबड़ के छल्ले लगा दीजिए या धातु के किसी प्रकार के सन्धरों (बिल्पों) से उन्हें जड़ दीजिए।


अब इसके ऊपर लगान के लिए एक ढक्कन बनाइए जो इस पर कस कर बैठ। चित्र को देखिए। एक तरफ, ऊपरी किनारे से लगभग 5

सेंटीमीटर नीचे, 0.5 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद कीजिए और उसमें रुई ठूंस दीजिए।

नीड़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कांचों के बीच के स्थान में मिट्टी भर दी जाए। मिट्टी उसी खेत से लेनी चाहिए जहाँ से चीटियां लाई जाएं।

उपर से बलुई मिट्टी डाल दीजिए और इसे बीच-बीच में दबा कर इसके तल को लगभग उस छेद के स्तर तक ला दीजिए जहाँ रुई ठूंसी हुई है।

जहाँ तक चीटियों का सम्बन्ध है, इस काम के लिए काली या लाल चीटियां सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं। वे अपनी बस्ती ब्रायः सपाट पत्थरों के नीचे ही बनाती हैं।



जैसे ही आप सपाट पत्थर उठाएंगे, चीटियों भागने लगेंगी। अब संकरे मुँह की दबा वाली दो शीशियां, उनके मुँह को बन्द करने के लिए रुई, खुरपी और एक ताव बड़ा सफेद कागज या चादर चाहिए।

एक शीशी को भूमि पर रख दीजिए और चीटियों को बोतल में जाने दीजिए। लगभग 100 चीटियां लीजिए। तब रुई ठूंस कर शीशी का मुँह बन्द कर दीजिए।

इसके बाद रानी का पता लगाइए। इसके लिए काफी गहराई तक खुरपी से खोदिए और सकें चादर को भूमि पर बिछा कर मिट्टी को उस पर फैलाते जाइए। जब आप मिट्टी के ढाकों को अंगुलियों से तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक चीटी औरों से बहुत बड़ी है। यही रानी है। इसे दूसरी शीशी में डाल दीजिए, परन्तु इस काम में धैर्य की आवश्यकता होगी।

प्रेक्षण-नीड़ में चीटियों को पहुंचाने के लिए किसी बड़े थाल में पानी भर दीजिए और उसके बीच में एक थाली उल्टी करके रख दीजिए, जिसके बीच में एक टापू-सा बन जाए और उस पर से चीटियां भाग न सकें। प्रेक्षण-नीड़ को बीच वाली धाली पर रख दीजिए और चीटियों को उस थाली पर या सीधे प्रेक्षण-नीड़ पर ही छोड़ दीजिए। एक बार जब रानी उसमें बन्द हो जाएगी तो शेष चीटियां अपने-आप द्वारा में से भीतर आ जाएंगी।

चीटियों को दिन का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, इसलिए छेद में रुई ठूस दीजिए और नीड़ पर मोटे बादामी कागज का लिफाफा चढ़ा दीजिए। तब घोंसले को उठा कर उसके नियत स्थान में रख दीजिए।

द्वार के पास भीतर शीशे पर थोड़ा-सा शहद चुपड़ लीजिए, चीटियों के लिए काफी आहार की व्यवस्था हो गई। मिट्टी को नमदार रखने के लिए फाउटेनपेनों में स्याही भरने की नलिका से कभी-कभी भीतर पानी छिड़क दीजिए।

नीड़ के भीतर की कौतूहलपूर्ण घटनाओं, अण्डों का दिया जाता, ढोलों का निकलना, चीटियों के परस्पर बारतिलाप का ढंग, जो एक-दूसरे के सिर को शंगिकाओं (ऐण्टेन्नी) से छू कर किया जाता है, का अध्ययन कृत्रिम प्रकाश में किया जा सकता है क्योंकि कृत्रिम प्रकाश से चीटियों के कार्य-व्यवहार

में कोई बाधा नहीं पड़ती। चीटियों की सुरंग कांच के समानान्तर ही बनाई जानी चाहिए ताकि ये सब बातें बड़ी सुगमता से देखी जा सकें।

निम्नलिखित प्रयोग भी लाभदायक सिद्ध होंगे—कुछ चीटियों को नीड़ से बाहर निकालना और फिर वापस रख देना, दूसरे स्थान से कुछ चीटियों को लाकर नीड़ में डाल देना, हरी मक्कियों को या मकड़ियों आदि को नीड़ में डाल देना, आदि आदि।

एक बार जब नीड़ सुस्थित हो जाए और रानी अण्डे देने लगे, तब द्वार में से रुई निकाल दी जा सकती है। प्रेक्षण-नीड़ को एक खुली खिड़की के पास रख देने से चीटियां वर्ष भर स्वतन्त्रता से आती-जाती रहेंगी।

14. अमृतबान का मत्स्यकुण्ड¹ (जल-जीवशाला)

यदि कांच की कोई बड़ी टंकी न मिल सके तो साधारणतः किसी भी कांच के बरतन से साधारण मत्स्यकुण्ड बनाया जा सकता है। केवल यह ध्यान में रहे कि मत्स्यकुण्ड के पानी में एलोडिया या मिरियोफाइलम (या सेवारतथा अन्य पौधे, जो तालों या नदियों में पानी के भीतर ही भीतर उगते हैं) आदि काफी जल-पौधे रखे जाएं ताकि पानी में हवा पहुंचतीं रहे। एक किलोग्राम के अमृतबान में कैडिस (कैडिस-प्लाई) के डिम्ब तालाब में पाए जाने वाले पौधे, छोटे कठिनी (क्रस्टेशिया) और एलोडा और छोटा लेम्ना (लेम्ना माइनर) आदि पौधे भली-भाति रखे जा सकते हैं। अगर इन पौधों को सावधानी से लगाया जाए तो महीनों तक ये ठीक और सन्तुलित ढंग से काम करेंगे। इसमें कम पौधे लगाना उतना ही हानिप्रद होगा जितना कि अधिक लगाना। इस मत्स्यकुण्ड की देख-रेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु अगर इसमें डिस्टिक्स या कोई अन्य शिकारी डिम्ब रखा जाए तो बरतन की पेंदी में 3 सेटीमीटर

¹. मत्स्यकुण्ड में केवल मछलियां ही नहीं पाली जातीं, वरन् सभी प्रकार के जल-जीव पाले जा सकते हैं। इसे अंग्रेजी में एकवेरिथम कहते हैं।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

तक स्वच्छ बालू भरने से वह कैडिसों के लिए शयन-कक्ष का काम कर देगी। उसके ऊपर महीन कपड़ा डाल देना चाहिए ताकि कैडिस मक्खियों के चुपके से भाग जाने का डरन रहे।

अण्डे देने, अन्य परिवर्तनों तथा उनके अन्य कार्य-व्यवहारों से सम्बन्धित बातों को लिखने के लिए एक दैनिकी (डायरी) अपने पास रखनी चाहिए।

इन मत्स्यकुण्डों के आधार पर तालाब में रहने वाले पौधों और प्राणियों के परस्पर सम्बन्ध का प्रारम्भिक अध्ययन किया जा सकता है।

तालों और नदियों के प्राणियों (मछली आदि) को पकड़ने के लिए रस छानने की छलनी (अथवा आटा छानने की छलनी) एक मजबूत जाल का काम दे सकती है। उस छलनी के बेंट को किसी छड़ी में मजबूती से फीते से बांध दीजिए। फीते को कई बार बेंट के छेद से निकालिए। यदि रबड़-विलयन (सोल्यूशन) मिल सके तो उसे फीते पर खूब चुपड़ दीजिए और फीते पर मजबूत गांठ बांध कर गांठ पर भी विलयन चुपड़ दीजिए।

15. बड़े जलचरों के लिए मत्स्यकुण्ड

इनके लिए 50 सेंटीमीटर \times 25 सेंटीमीटर ताप का कांच का मत्स्यकुण्ड बनाना चाहिए। पुराने संचायक के सेलों से भी काम चलाया जा सकता है। परन्तु उसका कांच बहुत साफ नहीं होता।

मत्स्यकुण्ड तैयार करने के लिए किसी निर्मल नदी या ताल की पेंदी में जमी महीन मिट्टी (मल या सिल्ट) लीजिए और उसे बहते पानी में अच्छी तरह धोइए। मत्स्यकुण्ड की पेंदी पर इसकी 2 सेंटीमीटर मोटी तह बिछा दीजिए। उसमें तरकूल (रीड) के कुछ पौधे लगा दीजिए। इनमें पौधों की जड़ों को पत्थर से या सीसे के छल्ले से ढाना चाहिए। तब मोटी बालू या बजरी की एक तह बिछाइए और कुछ बड़े पत्थर रख दीजिए, जिनमें जल-कीट छिप सकें। मत्स्यकुण्ड में

धीरे-धीरे पानी डाल कर उसको भरिए और एक-दो दिन तक उसे बैसा ही छोड़ दीजिए। जब पानी निर्मल हो जाए तो उसमें स्वच्छ जल-पौधों को लगाइए। यदि जल-पौधे काफी संख्या में रहें तो बातन-व्यवस्था के लिए व्यर्थ का थ्रम नहीं करना होगा।


अब घास को स्वच्छ रखने के लिए कुछ घोंधे भीतर डालिए और तब जिन जलचरों को आप चाहते हों उनको भी मत्स्यकुण्ड में डाल दीजिए। उनको खिलाना भी कम पड़ेगा। मछलियां घोंधों के अण्डों को खा लेंगी और साधारण ताल के पानी में काफी संख्या में छोटे-छोटे जीव रहते हैं, जिनसे उनकी अन्य आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। यदि केंचुए खिलाने हों तो सप्ताह में केवल एक बार ही देने चाहिए और उन्हें इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर डालना चाहिए कि मछलियां उन्हें आसानी से खा सकें। जो आहार बच रहे उसे तुरन्त निकाल कर फेंक देना चाहिए अन्यथा उसमें फूफूदी लग जाएगी और उससे मछलियां दूषित हो जाएंगी। मत्स्यकुण्ड के ऊपर छेदों-वाला जस्ते का ढक्कन लगा देना चाहिए। इससे जल-छिपकलियां (न्यूट्रस) और मेंढक भागने नहीं पाएंगे।



16. फल-मक्षिकाओं के जीवन-चक्र का निरीक्षण

कांच के छोटे अमृतबानों (या बड़े मुह की बोतलों) में फल-मक्षिकाएं बड़ी सुगमतापूर्वक रह सकती हैं। बरतन की पेंदी में पके फल का एक टुकड़ा रख दीजिए और कागज की कीप बना कर उसे बोतल के मुंह पर कस दीजिए। बोतल को खुले स्थान में रख दीजिए, और जब 6 या 8 फल-मक्षिकाएं उसमें घुस जाएं तो कीप को

हटा कर बोतल के मुंह में हल्के-से हुई ठूस दीजिए। इन मक्खियों में कुछ नर और कुछ मादा होंगी। मादा बड़ी होती है और उनका पेट अधिक चौड़ा होता है। नर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और उनके पेट पर एक काली नोक होती है।



फल-मक्खियाएं शीघ्र ही अण्डे देंगी और दो-तीन दिन में डिम्ब निकल आएंगे। बरतन के भीतर कागज का एक टुकड़ा ढाल देना चाहिए जिससे प्यूपा बनने का समय आने पर उस पर डिम्ब रेंग सकें। इन प्यूपों से प्रौढ़ कीट निकलेंगे। इनसे निकली हुई नई मक्खियाओं को दूसरे बरतन में रखने से नई पोढ़ी आरम्भ की जा सकती है।


17. मुर्गी के अण्डों को सेना

यदि आपकी कक्षा में बिजली लगी हुई है तो बहुत कम खर्च में अण्डे सेने की एक मशीन, जिसे इन्वर्टर कहते हैं, बनाई जा सकती है। कहीं से गत्ते के दो बक्स लाइए, जिनमें एक बड़ा और एक छोटा हो। छोटे बक्स का एक ओर का एक सिरा काट दीजिए और बड़े बक्स के एक ओर की दीवार में 15 सेंटीमीटर की वर्गाकार खिड़की काटिए। इसके बाद छोटे बक्स के ऊपरी सिरे में आधी दूरी तक एक चीर लगाइए (सीधा काटिए) और बक्स के भीतर एक बिजली का बल्ब लटका दीजिए। इस बल्ब में लम्बा तार लगाना चाहिए।

छोटे बक्स को बड़े बक्स के भीतर रखिए और दोनों के बीच चारों तरफ मोड़ हुए समाचारपत्र रख दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि छोटे बक्स का खुला भाग बड़े बक्स के उस ओर

रहे जिधर खिड़की काटी गई है। बक्स के भीतर एक तापमापी ऐसी जगह रखिए जहां से आप उसे पढ़ सकें। खिड़की पर कांच का टुकड़ा लगा दिया जाता है।

अब आप प्रयोग आरम्भ कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि बक्स के भीतर का ताप 21 दिन तक दिन-रात बराबर 103° फारू (40° सेंटीग्रेड) बना रहे। विविध बल्बों के उपयोग से और समाचारपत्रों की संख्या को घटा-बढ़ा कर कुछ दिनों बाद आप अपने इन्वर्टर में इस ताप की नियमित व्यवस्था कर सकेंगे। इन्वर्टर के भीतर छोटी-सी कटोरी में कुछ पानी रख देना चाहिए।




अब एक दर्जन अवन्ध्य (फटाइल) अण्डे प्राप्त करिए। अण्डों को इन्वर्टर में रख दीजिए। तीन दिन बाद एक आज्ञा निकाल लीजिए और उसे सावधानी से तोड़िए।

भीतर के पदार्थ को एक कम गहरी तश्तरी में एक साथ ही गिरा दीजिए। आपको तीन दिन के अन्दर एक झूण दिखाई देगा और आप उसके हृदय की धड़कन भी देख सकते हैं और वह शायद आधे धंटे तक धड़कता रहे। हर तीसरे दिन एक अण्डा निकालिए और झूण का विकास देखते रहिए। कुछ अण्डों को यह देखने के लिए पूरे 21 दिन तक रहने दीजिए कि उनमें से किसी में से बच्चा निकलता है या नहीं।

18. सांप

अध्ययन के लिए विषहीन सांपों को कक्ष में लाया जा सकता है। चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक ऐसा पिंजड़ा बनाया जा सकता है जिसमें सांप के निकल भागने का कोई डर न रहे। पिंजड़े की पेंदी पर बालू और बजरी बिछा देनी चाहिए। पिंजड़े के भीतर पानी का कोई कम गहरा बरतन रख देना चाहिए। कुछ पथर और किसी वृक्ष की एक टहनी भी वहां रख देनी चाहिए, जिसमें दो या दो से अधिक शाखाएं हों।

जब कोई विषहीन सांप बाहर दिखाई पड़े तो बहुत ही धीरे-से उसके पास जाना चाहिए। यदि सांप को कभी हाथ से उठाना हो तो उसे एक हाथ से सिर के ठीक पीछे पकड़ें। उसे बहुत कस कर न पकड़ें। शरीर के शश भाग को अपने दूसरे हाथ का सहारा दीजिए। केवल, कई प्रकार के कीट, शृंगे या मांस के छोटे टुकड़े खिला कर सांपों को पाला जा सकता है। कुछ सांप पिंजड़े में बन्द करने पर कुछ खाते ही नहीं। बहुधा सांप कई सप्ताह तक कुछ नहीं खाते। यदि कोई सांप खाता ही नहीं तो उसे छोड़ देना ही ठीक रहेगा।



शिलाओं, मिट्टियों, खनियों और जीवाश्मों के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

शिलाओं, मिट्टियों, खनियों और जीवाश्मों के बारे में जानने के लिए बालकों को सहैता उत्सुकता रहती है। प्रायः सभी प्रकार के पर्यावरणों में इनके नमूने मिल सकते हैं, इसलिए ये विज्ञान-शिक्षण में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। शिक्षक को यह नहीं समझना चाहिए कि विद्यार्थी जितने नमूने लाएं, उन सबका नाम बताना उसके लिए अनिवार्य है। वर्गीकरण और नामकरण तो प्रशिक्षित भू-गर्भ-वैज्ञानिकों का काम हैं। पारिभाषिक शब्दों के जाल में फँसे बिना भी शिलाओं और खनियों के विषय में बहुत-कुछ सीखा जा सकता है। शिलाओं और खनियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट-घ देखिए।

कुछ शिलाएं रुखी तथा खुरदरी होती हैं और ऐसा जान पड़ता है, भानो बालू के कण एक-दूसरे में चिपका दिए गए हों। ऐसे पत्थरों को बलुआ पत्थर या बालुकाश्म कहा जा सकता है। शिलाओं का एक दूसरा समूह नहीं कणों और स्फटों (क्रिस्टल्स) से बना हुआ जान पड़ता है। वै-ग्रेनाइट की तरह होती है। उन्हें ग्रेनाइट-सम कहा जा सकता है। स्लेट, चूनापत्थर और नरम परतदार शिला, जो बहुधा नदियों के किनारे मिलती हैं, साधारण शिलाओं की कुछ दूसरी किस्में हैं। यद्यपि यह सरल शब्दावली वैज्ञानिक ड्रिटिकोण से पूर्ण नहीं है, फिर भी साधारण शिलाओं में से अधिकांश के वर्गीकरण के लिए अच्छा काम देंगी।

शिलाओं को उनके बनने की रीति के अनुसार साधारणतः तीन बड़े बगीं में बांटा जा सकता है :

1. अवसादीय शिला या तलहटी शिला (सेडिमेण्टरी रॉक्स) नदियों द्वारा लाए गए कीचड़ और तलहट से पानी के बीच बनी थी। ये शिलाएं बहुधा परतदार होती हैं। शैल और चूनापत्थर इसके उदाहरण हैं।

2. आग्नेय शिला या मैग्मेट शिला (इग्नीयस रॉक्स) पिघले पदार्थों के ठण्डे होने पर बनी थी। लावा, स्फटिक (क्वार्ट्ज) और अब्रक आग्नेय शिलाओं के अच्छे उदाहरण हैं।

3. अत्यात्मरित शिला (मेटामार्फिक रॉक्स) उच्च ताप और अत्यधिक ताप होने पर अवसादीय शैलों तथा आग्नेय शिलाओं से बनी थी। इस प्रकार की शिलाओं के उदाहरण चूनापत्थर से बना संगमरमर और शैल से बनी स्लेट हैं।

क. शिलाएं और खनियाँ

1. शिला-संग्रह बनाना

अगर प्रत्येक छात्र से शिला का एक टुकड़ा लाने को कहा जाए तो आसपास में पाई जाने वाली साधारण शिलाओं का एक संग्रह बनाया जा सकता है। छात्रों को समझा दीजिए कि सब शिलाओं का नाम जानना आवश्यक नहीं। एक तरह के नमूनों को अलग करके एक मेज पर एक

साथ रख दीजिए। संगृहीत शिलाओं को उनकी आकृति, रंग तथा अन्य लक्षणों के अनुसार बगीं में विभाजित करिए। शिलाओं का वर्गीकरण करने के लिए अधिक-से-अधिक रीतियाँ खोज निकालिए।

2. किसी एक शिला का अध्ययन

एक अकेली शिला को चुन लीजिए और साधारणी से उसका निरीक्षण करते हुए उसके बारे में

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। अगर उसका आकार चपटा है तो सम्भवतः वह किसी अवसादी संरचना का एक टुकड़ा या परत है। ये शिलाएं ग्राज से लाखों वर्ष पहले नीचे बढ़े अवसादों के कड़े हो जाने से बनी थीं। यदि किसी शिला को देख कर यह जान पड़े कि वह बालू के महीन कणों को, मानो सीमेट द्वारा जोड़ने से बनी है तो वह सम्भवतः बलुआ पत्थर (सैण्डस्टोन) है। यदि उसमें कुछ बड़े गोलाकार या अण्डाकार रोड़े हैं तो वह सम्भवतः एक अन्य अवसादी शिला है, जिसे मिश्रपिंडाशम (कंग्लॉमरेट) कहते हैं। यदि शिला कुछ गोल दिखाई पड़े तो यह सम्भवतः जल के प्रवाह का परिणाम है। प्रवर्धक लैन्स से शिला की जांच करिए। यदि उसमें छोटे कण और स्फाट (क्रिस्टल्स) हैं तो वह ग्रेनाइट-सम शिला है और सम्भवतः उसे बहुत पहले किसी शक्ति ने पृथक्षी के गहरे गर्भ से ऊपर फेंक दिया था। इस प्रकार कई शिलाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने से छात्रों में अन्य शिलाओं का संग्रह करने और उनका अध्ययन करने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी।

3. निजी शिला-संग्रह बनाना

विद्यार्थियों को उत्साहित करना चाहिए कि वे अपना निजी शिला-संग्रह बनाएं। इन संग्रहों को गत्ते के छोटे बक्सों अथवा सिगार के बक्सों में रखा जा सकता है। बक्सों में विभाजन पट्टियां लगा देनी चाहिए। विद्यार्थी अपने संग्रह की शिलाओं को पहचान ले तो उसे चाहिए कि वह प्रत्येक शिला पर कागज के छोटे-छोटे लेबल या चिपकने वाले फीते के टुकड़े चिपका दे। प्रत्येक शिला पर एक संख्या डाल देनी चाहिए और बक्स के ढंगन पर एक तालिका चिपका देनी चाहिए। संग्रह को सीमित ही रखना अच्छा है। छात्रों को उत्साहित करना चाहिए कि जो नमूने उनके पास आवश्यकता से अधिक हों, उन्हें वे दूसरे छात्रों को देकर उसके बदले में उनसे वे नमूने ले ले जो उनके पास न हों, और इस तरह संग्रह को पूर्ण बनाएं।

4. दूटी हुई शिला का अध्ययन

शिलाओं के कई नमूनों को बीच से तोड़ कर दो टुकड़े कर दीजिए। ताजा तोड़ी गई सतहों की तुलना शिला की बाहरी छीजी हुई सतह से करिए। शिलाओं को अधिक टूट-फूट से बचाने के लिए उन्हें कपड़े में लपेट कर और किसी बड़े पत्थर पर रख कर हथौड़े से जोर से ठोकना चाहिए। कपड़ा लिपटे रहने के कारण छोटे टुकड़े छटक नहीं पाते।

5. चूनापत्थर की पहचान

यह देखने के लिए शिलाओं के नमूनों की परीक्षा की जा सकती है कि उनमें कोई चूनापत्थर है या नहीं। इसके लिए उन पर नींबू का रस, सिरका अथवा अन्य कोई तनु अम्ल (डाइत्यूट एसिड) गिराइए। यदि उनमें से कोई चूने का पत्थर होगा तो अम्ल पड़ने पर वह बुद्बुदाने लगेगा और उसमें बुलबुले उठेंगे। यह बुद्बुदाना कार्बन डाइ-आक्साइड गैस के कारण उत्पन्न होता है, जो अम्ल के सम्पर्क में आने के कारण चूना-पत्थर से बनी आनेय शिला होने के कारण, यह परीक्षण किया जा सकता है।

6. प्रवर्धक लैन्स की सहायता से दूटी शिलाओं का अध्ययन

ताजा तोड़ी शिला का अध्ययन प्रवर्धक लैन्स से करिए और उसमें विभिन्न खनिजों के स्फाटों (क्रिस्टल्स) को ढंडने की चेष्टा करिए। विविध खनिजों के स्फाट आकार, आकृति और रंग में विभिन्न होंगे।

7. प्रवर्धक लैन्स की सहायता से बालू का परीक्षण

थोड़ी-सी बालू की परीक्षा प्रवर्धक लैन्स अथवा, यदि सूक्ष्मदर्शी उपलब्ध हो तो उसकी कम शक्ति (लो पावर) का उपयोग करके करिए। जो स्फाट करीब-करीब रंगहीन हों, वे एक स्फटिक (क्वार्ट्ज) के हैं। यह खनिज पृथकी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता

शिलाओं, मिट्टियों, खनिजों और जीवाश्मों का अध्ययन

है। बहुधा अन्य खनिजों के स्काट भी बालू में पाए जाते हैं। उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करिए।

8. 'शिला' और 'खनिज' का शब्दार्थ

जो नमूने आपने एकत्रित किए हैं, उनका अध्ययन करिए और उनसे इन दोनों शब्दों का अर्थ ज्ञात करिए। शिला एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश शिलाएं कई खनिजों का मिश्रण होती हैं; यद्यपि कुछ शिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें केवल एक ही खनिज रहता है। खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी में प्राकृतिक रीति से मिलता है, जिसकी रासायनिक संरचना निश्चित है और जिसमें विशिष्ट और लाक्षणिक गुणों का एक विशेष संयोग रहता है।

9. कक्षी खदान का निरीक्षण

खदान को शिक्षक पहले ही देख आएं। देखिए कि शिला कैसे निकाली जाती है। यदि शिला अवसादी (सेडिमेण्टरी) है तो उसकी परतों को देखिए। शिलाओं के नमूने इकट्ठे करिए और उन्हें कक्षा में अध्ययन के लिए ले जाइए। पौधों या जीवों के जीवाश्मों (फासिल्स) का पता लगाइए। उन क्षेत्रों में भी द्वात्रों को ले

जान की योजना बनाई जा सकती है जहां किसी शिला को तोड़ा गया हो या जहां पास में कोई कोयले की खान हो।

10. शिलाओं और खनिजों के नमूनों को आरोपित करना

पेरिस प्लास्टर का आधार (बेस) बना कर संग्रह की जाने वाली शिलाओं और खनिजों के नमूनों को उसमें सफाई से आरोपित किया जा सकता है। प्लास्टर के सफेद चूर्ण को पानी में फेंट कर गाढ़ा मिश्रण बनाना चाहिए। इस मिश्रण को किसी टीन के डिब्बे के ढक्कन में भरिए जो लगभग 1 सेंटीमीटर गहरा हो। भरने से पहले ढक्कन के भीतर मोमी कागज का अस्तर लगा देना चाहिए या उसमें वसा (या वैसलिन) चुपड़ देनी चाहिए। प्लास्टर कड़ा होने के पहले ही शिला या खनिज के छोटे नमूने को उसमें इतना धंसा देना चाहिए कि उसके निकलने का डर न रहे, परन्तु इतना भी धंसा न रहे कि वह अच्छी तरह दिखाई भी न पड़े। फिर सफेद आधार पर पदार्थ का नाम सुन्दर अक्षरों में लिखा जा सकता है और अन्त में आधार पर चमड़े की स्वच्छ पालिश या वार्निश लगाई जा सकती है।

ख. कुत्रिम शिलाएं

1. सीमेंट और कंक्रीट

पोर्टलैण्ड सीमेंट (मकान बनाने में काम आने वाला सीमेंट) से भरी एक छोटी बोरी लाइए। द्वात्रों से कहिए कि वे उसे पानी में मिलाएं और उसे टीन के डिब्बों के ढक्कनों, कागज के चोगों या दफ्ती के छोटे बक्सों में भर दें। जब वह कड़ा हो जाए तो उसके रंग-रूप और गुण-धर्मों का अध्ययन करिए। एक टुकड़ा तोड़िए और उसका अध्ययन करिए। सूखे सीमेंट को दुगुनी बालू या बजरी के साथ मिलाइए। इससे कंक्रीट बनेगा। इसमें पानी मिला कर उसे अच्छी तरह सानिए और सांचों में डाल दीजिए। कड़ा होने के लिए इसे कई दिनों तक छोड़ दीजिए और फिर इन

नमूनों के रंग-रूप और लक्षणों का अध्ययन कीजिए।

2. पेरिस प्लास्टर

थोड़ा-सा पेरिस प्लास्टर (प्लास्टर आव पेरिस) लीजिए और उसमें से कुछ को पानी में मिलाइए। इसे तेज़ी से मिलाना चाहिए अन्यथा मिलाते समय ही यह कड़ा हो जाएगा। मिश्रण को सांचों में रख दीजिए और खूब कड़ा होने तक पड़ा रहने दीजिए। नमूनों के रंग-रूप और गुण-धर्मों का अध्ययन करिए।

3. गृह-निर्माण में काम आने वाली सामग्री का संग्रह
अपने नगर या ग्राम में गृह-निर्माण में काम

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

आने वाली जितने भी प्रकार की शिलाएं या खनिज मिलें, उनके नमूनों का संग्रह करिए—उदाहरणार्थ संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट, चूनापत्थर, ईंट, संग्रह में रख लीजिए।

ग. तत्व और मिश्रण

1. तत्वों का संग्रह

तत्वों की एक सारणी लीजिए और उनमें से जितने भी तत्व आपको मिल सकें, उनका संग्रह करिए। निम्नलिखित के नमूने तो आपको मिल ही जाने चाहिए : लोहा, अमोनियम, जस्ता, रांगा, तांबा, सीसा (धातु), सोना, चांदी, पारा, गन्धक। देखिए परिशिष्ट -ग।

घ. ज्वालामुखी की प्रतिकृति (मॉडल) बनाना

रासायनिक पदार्थ बेचने वाली किसी कम्पनी से 500 ग्राम अमोनियम बाइक्रोमेट, 125 ग्राम मैग्नीशियम पाउडर और 30 ग्राम मैग्नीशियम फीता लीजिए। सब सामग्री का कुल खर्च लगभग 15 रुपये होगा और इससे 30 या 40 ज्वालामुखीय स्फोट दिखाए जा सकते हैं।

बच्चों को थोड़ी साधारण चिकनी मिट्टी इकट्ठी करने के लिए कहिए। किसी पटरे से आधार का काम लीजिए और उस पर मिट्टी से ज्वालामुखीय शंकु (कोन) बनाइए, जो लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा हो और जड़ पर 60 सेंटीमीटर व्यास का हो। शंकु की नोक में 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई तक झाड़ू की एक सींक धंसा दीजिए।

कागज के एक टुकड़े पर इतना अमोनियम बाइक्रोमेट डालिए कि शंकु का गड़ा दो बार भर उठे। इसके स्फाटों को पीसिए नहीं। इसकी

सीमेट, प्लास्टर (बलुआ पत्थर, लाल पत्थर), इत्यादि। इन पर सही लेबल लगाइए और अपने संग्रह में रख लीजिए।

2. साधारण रासायनिक मिश्रणों का संग्रह

जितने भी रासायनिक मिश्रणों के नमूनों का संग्रह आप कर सकें, करिए। निम्नलिखित को अवश्य प्राप्त करिए : नमक, चीनी, स्टार्च, सोडा (सोडियम कार्बोनेट) तूतिया, (कापर सल्फेट), ब्लीचिंग पाउडर, पेरिस प्लास्टर, रबड़, ऊन, रुई, इत्यादि।

ड. मिटटी बनाना

कंकड़ियां ही अधिक अच्छा काम देती हैं। बाइक्रोमेट के स्फाटों में थोड़ा-सा मैग्नीशियम पाउडर डाल दीजिए और दोनों को वेसिल से सावधानी से मिला दीजिए।

इस मिश्रण का लगभग आधा भाग ज्वालामुखी के मुख में डाल दीजिए। मैग्नीशियम के फीते से 7.5 सेंटीमीटर का एक लम्बा टुकड़ा काट लीजिए और उसके एक सिरे को पलीते की तरह बाहर निकला रहने दीजिए। मैग्नीशियम के फीते में दियासलाई से आग लगा दीजिए और पीछे हट जाइए। यदि पहली बार ही विस्फोट नहीं होता तो कुछ क्षण ठहरिए। दूसरा पलीता लगाइए और फिर चेष्टा करिए। जब विस्फोट तो हो जाए परन्तु ज्वालामुखी में बचा पदार्थ गरम ही रहे तो शेष मिश्रण को भी उडेल दीजिए और तब दूसरा विस्फोट होगा।

ड. मिटटी

1. मिट्टियों की किस्में

जितने अधिक स्थानों से मिट्टियों के नमूने ले सकें, सीजिए और उनको शीशे के बरतनों में रख दीजिए। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी (लोम), चिकनी मिट्टी या मृत्तिका (क्ले), और सड़ी-गली पत्तियों आदि से भरपूर मिट्टी के नमूने प्राप्त करने की चेष्टा करिए। छात्रों से इन मिट्टियों का अध्ययन कराइए और प्रत्येक नमूने से थोड़ा-सा निकाल

कर प्रवर्धक लैन्स की सहायता से भी निरीक्षण कीजिए।

2. मिट्टी के करणों में विभिन्नताएं

कांच के कुछ ऐसे बरतन लीजिए जिनमें आधा गैलन या दो लिटर पानी आ सके। एक बरतन में कई मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए। इस बरतन को पानी से भर दीजिए और तब मिट्टी को पानी में खूब घोलिए। बरतन को कई घंटे तक पड़ा रहने दीजिए।

शिलाओं, मिट्टियों, खनिजों और जीवाशमों का अध्ययन

सबसे भारी कण पहले बैठेंगे और सबसे हल्के कण अन्त में। जब मिट्टी बैठ जाए तो मिट्टी के कणों की नाप के क्रम में अनेक तरहें बनी रहेंगी। ऊपर के पानी को रबड़ की नलिका से साझकर करके निकाल दीजिए। फिर प्रत्येक तरह से नमूना लीजिए और प्रवर्धक लैन्स की सहायता से उसकी जांच करिए।

3. यह दिखाना कि मिट्टी में हवा होती है

किसी शीशों के बरतन या बोतल में थोड़ी-सी मिट्टी रखिए और उस पर धीरे-धीरे पानी ढोड़िए। आप पानी में मिट्टी से उठ कर आते हुए बुलबुले देखेंगे।

4. यह दिखाना कि शिलाओं से मिट्टी कैसे बनती है

कांच के किसी टुकड़े को किसी ज्वाला (या आग) में सावधानी से गरम करिए और तब उसे एकाएक पानी में डुबा दीजिए। एकाएक ठण्डा होने से कांच भीतर-बाहर समान रूप से नहीं सिकुड़ता और इसीलिए वह चटक जाता है। कुछ शिलाओं को आग में डाल कर खूब गरम करके उन पर पानी डाल दीजिए। गरम करते समय और ठण्डा करते समय—दोनों बार ही—पत्थर बहुधा चटक जाते हैं। मिट्टी बनने में जो-जो अवस्थाएं आती हैं, उनमें तापों की विभिन्नता के कारण शिलाओं का टूटना भी एक है।

5. नदियों को कौन-सी बस्तु मटमेला कर देती है

जब कभी पानी जोर से बरसे तो छात्रों से कहिए कि वे कांच के बरतनों में बहते हुए मटमेले पानी के नमूने ले लें। पानी को कई घंटों तक धिरने दीजिए। जब सब तलछट बैठ जाए तब छात्र उसका परीक्षण करें।

6. शिलाओं से मिट्टी बनाना

कक्षा में आसपास से कुछ नरम शिलाएं, जैसे शेल या छीजा हुआ चूनापथर लीजिए। छात्रों से कहिए कि उसे चूर-चूर करें और बारीक पीस डालें।

7. ऊपरी हुई बनस्पतियों पर मिट्टी का प्रभाव

फूल या सब्जी के खेत की उपजाऊ मिट्टी, जंगल की मिट्टी, उस स्थान की मिट्टी जहाँ कोई गहरी नींव या तहखाना खोदा जा रहा हो, बल्कि स्थान की मिट्टी, नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी, आदि के नमूने लाइए। इन नमूनों को अलग-अलग गमलों या कांच के बरतनों में रख दीजिए। हर प्रकार की मिट्टी में बीज बोइए और प्रत्येक को बराबर मात्रा में पानी दीजिए। देखिए कि किस प्रकार की मिट्टी में बीज शीघ्र अंकुरित होते हैं। जब पौधे बढ़ने लगें तब देखिए कि मिट्टी के किस नमूने में वे अधिक अच्छा उगते हैं।

8. यह दिखाना कि मिट्टी में पानी हो सकता है

कांच की पतली रकाबी में थोड़ी-सी मिट्टी रखिए और छोटी-सी लौ पर उसे सावधानी से गरम करिए। रकाबी को कांच के ठण्डे बरतन से ढक दीजिए और तब आप देखेंगे कि बरतन के ठण्डे पाश्वरों पर जल संधनित हो जाता है।

9. ऊपरी सतह और अवधिमि की मिट्टियों की उर्वरता में पाए जाने वाले अन्तर का अध्ययन

फल या सब्जी के खेत की ऊपरी सतह की मिट्टी लीजिए। फिर लगभग 50 सेंटीमीटर की गहराई से मिट्टी का दूसरा नमूना लीजिए। इन नमूनों को अलग-अलग गमलों में रखिए और प्रत्येक में बीज बोइए। प्रत्येक नमूने में बराबर पानी दीजिए, बराबर ही ताप रखिए और उन पर बराबर ही प्रकाश पड़ने दीजिए। देखिए कि किस मिट्टी से अधिक स्वस्थ पौधे उत्पन्न होते हैं।

10. यह दिखाना कि फली वाले पौधों की जड़ों पर नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणुओं की प्रनिधियां होती हैं

कुछ फली वाले पौधों, जैसे ब्लौबर, ऐल्फेल्फा, सोयाबीन, लोबिया, चना, सेम, बोडा आदि को खुर्सी से सावधानीपूर्वक खोद कर बाहर निकालिए। उनकी जड़ों में जो मिट्टी लगी हो, उस पानी से धोकर दूर करिए। जड़ों पर

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

छोटी-छोटी गांठे दिखाई देंगी। इन गांठों के भीतर नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे ऐसा परिवर्तित कर देते हैं कि पौधे उसे मिट्टी से ले सकें।

11. यह दिखाना कि केशिकत्व (कैपिलरिटी) पानी को कैसे खींच लेता है


किसी कम गहरी तरली में कुछ पानी रख कर उसे रंगीन स्थाही से रंगीन कर दीजिए और पानी की सतह से सोख्ले का स्पर्श कराइए। देखिए कि पानी सोख्ले में किस प्रकार चढ़ता है।

मिश्री के एक डले से पानी को स्पर्श करिए और देखिए कि पानी किस प्रकार ऊपर उठता है।

पानी में कपड़े की बत्ती डाल कर भी देखिए।

12. यह दिखाना कि पतली नलिकाओं में पानी कैसे चढ़ता है

शीशे की एक नलिका को लौ में गरम करिए और उसे खींच कर एक पतली नलिका या कशिका नली बनाइए। इस नलिका के टुकड़े कर डालिए और टुकड़ों को गते पर चिपका दीजिए, नलिकाएं गते की कोर स लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर निकली रहें। नलिकाओं के इन सिरों को रंगीन पानी में डुबा दीजिए और देखिए कि केशिकत्व आकर्षण से पानी किस प्रकार ऊपर चढ़ता जाता है।



13. यह दिखाना कि विविध प्रकार की मिट्टियों में पानी कैसे चढ़ता है?

लैम्प की कुछ सीधी चिमनियां लीजिए और

प्रत्येक के सिरे के ऊपर एक कपड़ा बांध दीजिए। अलग-अलग चिमनी में 15 सेंटीमीटर तक अलग-अलग प्रकार की मिट्टी डाल दीजिए, जैसे बालू, दोमट मिट्टी, महीन बजरी, चिकनी मिट्टी, इत्यादि। इसके बाद इन चिमनियों को थाल में खड़ा कर दीजिए, जिसमें लगभग 3 सेंटी-मीटर पानी हो। देखिए कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी केशिकत्व के कारण सबसे ऊपर चढ़ता है।


14. यह दिखाना कि कौन-सी मिट्टी पानी को अधिक ग्रहण करती है

कई लैम्प-चिमनियां लीजिए और प्रत्येक के एक सिरे के ऊपर कपड़ा बांध दीजिए और तब प्रत्येक में ऊपर से 8 सेंटीमीटर छोड़ कर शेष भाग में किसी एक प्रकार की मिट्टी भर दीजिए जैसे बालू, चिकनी मिट्टी, लोम और जंगल की मिट्टी। प्रत्येक चिमनी के नीचे एक तरली रख दीजिए ताकि चिमनी से जो पानी गिरे, वह उस तरली में गिरे। फिर प्रत्येक चिमनी में नाप कर इतना पानी छोड़िए कि कुछ पानी नीचे से बह चले। देखिए कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी बिना बहे अधिक भात्रा में छोड़ा जा सकता है।

15. पतली मिट्टी पर वर्षा का प्रभाव

टीन का एक डिब्बा लीजिए और उसकी पेंदी में हथीड़े और महीन कील से छेद करके पानी छिड़कने का हजारा बनाइए। कई गमलों या डिब्बों में पोली मिट्टी इस मात्रा में भरिए कि वह गमले के ऊपर तक बराबर आ जाए। कुछके सिक्कों, या लेमन की बोतलों के टीन वाले ढक्कनों को मिट्टी की सतह पर रखिए। प्रत्येक गमले को एक थाली में रखिए और उस पर हजारे से पानी छिड़किए। हजारे से छिड़का हुआ पानी बरसते हुए पानी के समान होता है। पहले हल्का छिड़काव करिए और यह देखिए कि मिट्टी पर हल्की वर्षा का क्या प्रभाव होता है। छिड़काव जारी रखिए ताकि आप भारी वर्षा के प्रभाव को भी जान सकें। देखिए कि किस प्रकार अरक्षित मिट्टी छींटों के साथ बह

जाती है और फिर सिक्कों और ढक्कनों के नीचे मिट्टी के स्तम्भ बने रह जाते हैं।



16. ढाल की मिट्टी पर वर्षा का प्रभाव

किसी कम गहरी थाली या ऐसे ही बक्स में कस कर मिट्टी भरिए। थाली को बाहर वर्षा में इस प्रकार रख दीजिए कि वह एक ओर उठी रहे। देखिए कि किस प्रकार पानी की बूँदें नीचे वाले सिरे की ओर मिट्टी को बहा ले जाती हैं। यह प्रयोग वर्षा के बदले हजारे के उपयोग से घर पर भी किया जा सकता है।


17. मिट्टी पर वर्षा की बूँदों के गिरने का प्रभाव दिखाना

एक तश्तरी अथवा किसी डिब्बे के ढक्कन में मिट्टी भरिए और उसे सफेद कागज पर रख दीजिए। दवा टपकाने वाली नलिका में पानी भर लीजिए और उसे मिट्टी से लगभग एक मीटर ऊपर ले जाकर बूँद-बूँद करके टपकाइए और देखिए कि कितनी मिट्टी छटक कर कागज पर जा पड़ती है। फिर साफ कागज का एक दूसरा ताब तश्तरी के नीचे रखिए और बूँद-बूँद करके मिट्टी पर पानी टपकाइए, परन्तु अब की बार बूँदों के मार्ग में कोई प्रवरोध, जैसे पेंसिल डाल दीजिए, जिससे बूँदों का बल ठूं जाए। क्या पौधे मिट्टी का अपकरण इसी प्रकार करते हैं?

18. वर्षा की बूँदें मिट्टी पर भिन्न-भिन्न प्रभाव कैसे डालती हैं?

सफेद कागज के एक ताब को कागज पकड़ने वाली किलपों से किसी गते पर स्थिर करिए और उसे फैला पर सपाट रख दीजिए। दवा टपकाने वाली नलिका स उस पर रंगीन पानी टपकाइए। प्रयोग को

हराइए परन्तु अब की बार गत के एक किनारे को उसके नीचे कुछ रख कर, कुछ उठा दीजिए। ध्यान से देखिए कि पानी को विभिन्न ऊंचाइयों से गिराने में, गते की ढाल को कम-अधिक करने और बूँदों को छोटी-बड़ी करने का क्या प्रभाव होता है। प्रयोग की क्रिया-विधि में अनेक परिवर्तन करिए और परिणाम देखिए। यदि हर प्रयोग में नया कागज और नए-नए रंग लिए जाएं तो इन प्रयोगों का एक लेखा बनाना बांधनीय रहेगा।



19. ऊपरी सतह की मिट्टी पर वर्षा-जल का प्रभाव

एक गमले में दोमट मिट्टी या बालू भरिए। नल की टोंटी को इतना खोलिए कि पानी बूँद-बूँद करके टपके। गमले को घटे भर या अधिक समय तक के लिए उसके नीचे रख दीजिए। देखिए कि गिरती हुई बूँदों के कारण चिकनी मिट्टी और अकार्बनिक (इनार्गेनिक) पदार्थ ऊपरी सतह से किस प्रकार हट जाते हैं।

20. भूमि की अरक्षित सतहों पर वर्षा का प्रभाव

किसी बक्स या चौड़े थाल में बालू और मृत्तिका की एक ढेरी बनाइए। ढेरी के ऊपरी हिस्से पर हजारे से हल्के-हल्के पानी छिड़किए। यह देखिए कि पानी अपने साथ शिला-कणों को किस प्रकार बहा ले जाता है और उन्हें किस प्रकार ढेरी के निचले तल पर निष्प्रक्षिप्त (जमा) कर देता है।

21. बहता हुआ पानी मिट्टी के से बहा ले जाता है ?

नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दो ट्रे बनाइए। ट्रे के जोड़ों में पुटीन भर दीजिए। इससे पानी बाहर नहीं निकलेगा। जो पानी ऊपर से बह कर बाहर गिरे, उसे इकट्ठा करने के लिए बाल्टी अथवा बोतल और कीप का उपयोग किया जा सकता है।

(क) एक ट्रे में पोली मिट्टी भरिए और दूसरी में कूट कर दबाई हुई मिट्टी। दोनों ट्रेओं को कुछ तिरछा करके रखिए और प्रत्येक पर बराबर मात्रा में पानी छिड़किए। देखिए कि कौन-सी मिट्टी अधिक शीघ्र बहती है और बह कर निकला हुआ पानी किस प्रकार का है।

(ख) दोनों ट्रेओं में मिट्टी भर दीजिए परन्तु एक में तृणी ढेले (धास लगे हुए मिट्टी के ढेले) भर दीजिए। दोनों में पहले की तरह पानी डालिए और अपक्षरण तथा बह कर निकलने वाले पानी की जांच करिए।

(ग) दोनों ट्रेओं में मिट्टी भरिए परन्तु एक को अधिक ढलुआ रखिए। पहले की तरह पानी डालिए और देखिए।

कोडों में पुटीन भर दो



22. ऊपरी मिट्टी का अपक्षरण कैसे रोकें ?

ऊपर के प्रयोग के लिए जो ट्रे बनाई गई

थीं, उनका उपयोग करिए।

(क) दोनों ट्रेओं में पोली मिट्टी भरिए और प्रत्येक को एक जैसा ढालू करके रखिए। किसी छड़ से एक में ट्रे के अनुदिश (लम्बाई की दिशा में) और दूसरी में उसके अनुप्रस्थ (चौड़ाई की दिशा में) खूड़ (हल रेखाएं) बनाइए अर्थात् एक में खड़ी तथा दूसरी में बेंडी गहरी रेखाएं बनाइए। प्रत्येक पर बराबर पानी छिड़किए। दोनों स्थितियों में होने वाले अपक्षरण और बह कर निकले पानी की जांच करिए।

(ख) ट्रेओं को फिर पोली मिट्टी से भरिए। उन पर इतना पानी छिड़किए कि पानी नालियां बना कर बहने लगे। अब एक ट्रे की नालियों में जग्ह-जग्ह छोटे पथर तथा छोटी टहनियां रख कर पानी के बहने का मार्ग रोकिए। फिर पानी से सीचिए और देखिए कि नालियों को रोकने का क्या परिणाम होता है।

23. अपक्षरण का अध्ययन करने के लिए सेत्र-भ्रमण

आसपास में किसी ऐसे स्थान का पता लगाइए जहां पानी ने बह कर नालियां काट कर हानि पहुंचाई हो। इस अपक्षरण के अध्ययन के लिए सभी छात्रों को वहां ले जाइए। ऐसा क्यों हुआ ? यह किस प्रकार रोका जा सकता था ? क्या अब भी कुछ किया जा सकता है ?

24. पाठशाला की भूमि का परीक्षण

प्रायः सभी पाठशालाओं के मैदानों में कहीं-न-कहीं ऐसा स्थान होगा जहां बहते पानी ने क्षति पहुंचाई हो। छात्रों को प्रेरित करिए कि वे एक योजना बना कर यह निर्णय करें कि अपक्षरण को किस उपाय से रोका जाए और तब उन्हें अपनी योजना को क्रियान्वित करने दीजिए।

च. जीवाशम (फॉसिल्स)

1. जीवाशम कहां मिल सकते हैं ?

कहीं-कहीं पथर में या ऐसे स्थानों में, जहां भूमि में शिलाएं उभरी हुई हों, जीवाशम पाए

जा सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का प्रयत्न करिए जो जीवाशमों के बारे में जानता हो और तब कक्षा के साथ जीवाशम पाए जाने

शिलाओं, मिट्टियों, खनिजों और जीवाशमों का अध्ययन

बाले क्षेत्र में जाने और जीवाशम एकत्र करने की योजना बनाइए।

नरम या बिटुमिन बाले पत्थर के कोयले के ढोंकों को तोड़ कर उनके दो टुकड़े करने पर बहुधा बीच में जीवाशम मिलते हैं। ढोंकों को सावधानी से तोड़िए और टूटे तलों का निरीक्षण करिए कि उस पर पत्तियों और पर्णांगों (फर्नी) की छाप है या नहीं।

यदि पास-पड़ोस में जीवाशम न मिलें तो आपको प्रादेशिक या राष्ट्रीय संग्रहालयों का सहारा लेना पड़ेगा। वे कुछ जीवाशम आपको भेज सकते हैं। प्रादेशिक या राष्ट्रीय संग्रहालयों (म्यूजियम) को पत्र लिखना शायद लाभदायक सिद्ध हो।

2. यह देखना कि जीवाशम कैसे बने

किसी पत्ती में वैसलिन लगाइए और उसे सपाट कांच पर अथवा किसी दूसरी चिकनी सतह पर रखिए। पत्ती के चारों ओर कागज या गत्ते की पट्टी गोलाई में खड़ी करके लगा दीजिए। इस पट्टी की बगल में मूर्ति बनाने की मिट्टी लगाइए।

ताकि पट्टी मजबूती से खड़ी रहे। अब कुछ पेरिस प्लास्टर को पानी में मिलाइए और उसे पत्ती के ऊपर डाल दीजिए। जब प्लास्टर पर पत्ती की बढ़िया छाप दिखाई पड़ेगी। कुछ जीवाशम इसी प्रकार बने—उनके ऊपर मिट्टी की परत पड़ती गई और बाद में वह कड़ी होकर अवसादी शिला में परिवर्तित हो गई। इस प्रयोग को फिर से करिए परन्तु छाप के लिए पत्ती के बदले वैसलिन लगी सीपी या घोंघे का उपयोग करिए।

3. जीवाशमों को आरोपित करना

यदि आप ऐसे स्थान में रहते हैं जहां जीवाशम बहुत मिलते हैं तो पाठशाला-संग्रहालय के लिए छात्रों से जीवाशम-संग्रह बनवाना रोचक होगा।

जीवाशमों को पेरिस प्लास्टर में सफाई से उसी ढंग से आरोपित किया जा सकता है जो इस अध्याय के खण्ड क-10 में शिलाओं और खनिजों के आरोपण के लिए बताया गया था।

ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

छोटी कक्षाओं के छात्रों तथा सामान्य विज्ञान का अध्ययन करने वाले तरुण बालकों के लिए ज्योतिष सदैव एक रोचक विषय रहा है। कई स्थानों में ज्योतिष की आधारभूत कल्पनाएं वर्णनात्मक ढंग से सिखाई जाती हैं—अर्थात् वच्चे उनके बारे में केवल पढ़ या सुन लेते हैं। इस अध्याय में कई-एक प्रयोग सुझाए गए हैं, जिनसे शिक्षक पूर्वोक्त कल्पनाओं में से कुछ को प्रेक्षण तथा प्रयोग से विस्तार-पूर्वक प्रदर्शित कर सकेगा।

इस अध्याय में प्रयोगों का कम ऐसा नहीं रखा गया है कि कठिन प्रयोग बाद में हों। अच्छा यह होगा कि शिक्षक उन प्रयोगों को चुन ले जो पाठ्य-विषय के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ें।

क. तारों का प्रेक्षण करना

1. सरल वर्तन-दूरदर्शी बनाना

सरल दूरदर्शी बनाने के लिए गते की दो ऐसी नलिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी कि एक दूसरी के भीतर ठीक-ठीक आ जाए।

यदि अच्छे लैन्स उपलब्ध न हों तो दूरदर्शी सन्तोषजनक नहीं बनेगा। जिन लोगों ने ज्योतिष सम्बन्धी प्रयोग पहले-पहल किए थे, उनको इस तथ्य का अनुभव शीघ्र ही हो गया था।

सूत-परीक्षक लैन्स (लिनेन टेस्टर) (कभी-कभी डाक-टिकट-प्रवर्धक लैन्स भी) अवर्णक होते हैं अर्थात् उन्हें वर्ण-विषयन की दृष्टि से संशोधित किया जाता है। यदि लैन्स का संगमान्तर (फोकल लैंग्थ) 2 या 3 सेंटीमीटर हो तो उसे किसी छेद वाले काग में लगाने पर एक अच्छा अभिनेत्र-लैन्स (आइ-पीस) बनाया जा सकता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि अभिदृश्य कांच अवर्णक हो। तभी ठीक-ठीक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि इस प्रकार का लैन्स मिल सके और उसका संगमान्तर भी 25 से 30 सेंटीमीटर का हो तो उसे एक बड़े व्यास वाली नलिका में प्लास्टिसीन से मजबूती से लगा देना चाहिए। दोनों लैन्सों के अक्ष को एक ही सरल रेखा म


लाने के लिए कुछ बैठ-विठाव करना पड़ता है (अर्थात् दोनों ताल उनके केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा पर लम्ब हो जाएं)। जब दोनों को ठीक ढंग से बिठा दिया जाए तो एक नलिका को दूसरों के भीतर आगे-पीछे चला कर फोकस (अर्थात् प्रतिबिम्ब की तीक्ष्णता) को ठीक कर लीजिए। आपका यह यन्त्र गैलीलियो के उस यन्त्र से भी अच्छा है जिससे उसने अपने सारे आविष्कार किए थे।

इस उपकरण के द्वारा बृहस्पति के उपग्रह (चन्द्रमा) सुगमता से दिखाई पड़ेंगे परन्तु (सम्भवतः) शनि वलय न दिखाई पड़ें (बूढ़े व्यक्तियों के चश्म के लैन्सों पर वैज्ञानिक सामान की दुकान से खरीदे साधारण छोटे लैन्स से बने दूरदर्शी लगान से भी बृहस्पति के उपग्रह दिखाई पड़े जाते हैं)।

2. सरल परावर्ती दूरदर्शी बनाना

सरल परावर्ती (दर्पण-युक्त) दूरदर्शी किसी मुह देखन वाल दर्पण के अवतर (कानकेव) कांच से बनाया जा सकता है। दर्पण को उपयुक्त

नाप के लकड़ी के बक्स में इस प्रकार रखा जाता है कि वह विविध कोणों पर तिरछा छुकाया जा सके। लकड़ी का एक आधार-स्तम्भ बना कर बक्स में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसका भी कोण बदला जा सके। दो कम संगमान्तर के नैन्सों को कागों में कस दिया जाता है और उनको गते की छोटी नलिका के सिरों में लगा दिया जाता है। यह अभिनेत्र-लैन्स का काम देता है। तब इस अभिनेत्र-लैन्स को आधार-स्तम्भ पर ऐसी स्थिति में कस कर लगाया जाता है कि दर्पण की दूरी दर्पण के संगमान्तर के बराबर हो जाए।



3. सूक्ष्म परावर्ती दूरदर्शी बनाना


दर्पण के निर्माण और कांच के जटिल घूरों को स्थान देना इस पुस्तक के क्षेत्र के पूर्णतया बाहर है। तो भी, शायद कुछ शिक्षक चाहेंगे कि उनके योग्य छात्र एक अच्छा दूरदर्शी बनाएं। इस विषय के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक है: 'एमेच्योर टेलिस्कोप मेकिंग'। प्रकाशक हैं: दि सायंटिफिक अमेरिकन पब्लिशिंग कम्पनी, न्यूयार्क सिटी, न्यूयार्क।

4. प्रमुख तारामण्डलों को पहचानना और तारों का मानचित्र बनाना

इस काम को घर पर ही आसानी से किया जा

सकता है। अमावस्या के आसपास का समय इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। उस समय चन्द्रमा का प्रकाश इतना तीव्र नहीं होता कि तारों को अच्छी तरह देखने में कठिनाई पड़े। सबसे पहले ध्रुव तारा को पहचानना चाहिए। इसके बाद बादामी कागज के एक टुकड़े में सूई से छेद करके तारामण्डलों के चित्र बना कर इस कागज को किसी प्रकाश की ओर उठा कर देखा जाएगा तो भूई-छिद्र दिखाई पड़ने लगेंगे। इस कागज को इतना धुमाना चाहिए कि उसी आकृति का तारामण्डल पहचान में आ जाए। तब अधिक विस्तृत तारा-चित्र, जिसका केन्द्र ध्रुव तारा हो, शीघ्र बनाया जा सकता है।

जब इस प्रकार कुछ तारामण्डलों का ज्ञान हो जाए तब एक चित्र राशि के आरम्भ में और एक सोने के समय बनाने से काफी जानकारी बढ़ेगी। तारामण्डलों को पहचानने की एक दूसरी रोचक रीति यह है कि एक श्यामपट्ट बाहर निकाल लिया जाए और तारों को निरूपित करने के लिए उसमें ऐसे बटन खोस दिए जाएं जो अन्धेरे में चमकते रहें।



5. तारा-मार्गों के फोटो लेंचना

जिन छात्रों के पास कैमरे हैं, उनके लिए एक अत्यन्त रोचक काम यह है कि वे तारों के आभासी मार्गों का चित्र लींचें। ये मार्ग पृथ्वी

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

के घूमने के कारण कैमरे में बनते हैं। इसके लिए कोई स्वच्छ किन्तु चन्द्रमा-रहित रात्रि चुनिए और कोई ऐसा स्थान खोज लीजिए जहाँ से क्षितिज बिना किसी रुकावट के दिखाई पड़ता हो और जहाँ बाहरी प्रकाश के कारण (जैसे मोटरगाड़ियों की बत्तियाँ इत्यादि) बाधा न पड़ती हो। कैमरे का मुख यथासम्भव ठीक ध्रुव तारे की ओर कर दीजिए और त्रिपाद पर रख कर अथवा लकड़ी की छोटी फिल्मियों से टेक लगा कर, कैमरे को स्थिर कर दीजिए। यदि कैमरा फोकस डालने वाला हो तो लैन्स को अनन्त (इनफिनिटी) पर रखिए (अर्थात् उसे अनन्त दूरी वाले चिह्न से समंजित कीजिए) और लैन्स-छिद्र को पूरा खोल दीजिए। संवारक (शटर) को एक निश्चित काल तक उद्भासित (एक्सपोज़) करने के लिए समंजित करिए (अर्थात् उसे उस चिह्न पर रखिए जिस पर रहने से एक बार घोड़ा दबाने पर संवारक खुलता है और दूसरी बार घोड़ा दबाने से बन्द होता है)। जब यह सब तैयारी हो जाए तो संवारक को खोल दीजिए और उसे एक से छः घंटे तक इच्छानुसार खुला रख छोड़िए। संवारक जितनी देर तक खुला रहेगा, तारा-मार्ग उतने ही बड़े होंगे। आकाश-गंगा के तारों के फोटो लेने की चेष्टा करिए।

6. तारामण्डल-घर बनाना

तारादर्शी एक ऐसी सरल युक्ति है, जिसका उपयोग विविध तारामण्डलों की आकृतियाँ सिखाने में किया जाता है। गते या लकड़ी का एक बक्स लाइए और उसके एक सिरे को अलग कर दीजिए। अब गाढ़े रंग का एक पतला गत्ता लीजिए, जो इतना बड़ा हो कि बक्स के खुले भाग को ढक सके। इन टुकड़ों पर विविध तारामण्डलों की आकृतियाँ खींचिए। तारामण्डलों में जहाँ-जहाँ तारे हों, वहाँ-वहाँ गत्ते में सफाई से छेद कर दीजिए। बक्स के भीतर बिजली-बत्ती रखिए।

ख. सूर्य और तारे

1. राशिचक्र के तारामण्डलों का मानचित्र राशिचक्र के तारामण्डल कान्तिवृत्त (रवि

जब बत्ती जलाई जाएगी और गते बक्स के सिरे पर रखे जाएंगे तो तारामण्डल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे।

एक दूसरी रीति यह है कि टीन के कई डिब्बे लिए जाएं, जिनके भीतर बिजली की बत्ती लगाई जा सके। तारामण्डल के विविध तारों को निरूपित करने के लिए इन डिब्बों की पेंदी में छेद कर दिए जाते हैं। जब किसी डिब्बे में बत्ती रखी जाती है और जलाई जाती है तो छेदों से प्रकाश दिखाई पड़ता है और तारामण्डलों की आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। जंग लगने से बचाने के लिए इन डिब्बों पर रोगन करना चाहिए। तब ये बर्बाद चलेंगे।

तारों की चमक के अनुसार छेद छोटे-बड़े रहें, डिब्बे लम्बे रहें और अगर बिजली-बत्ती में से प्रकाश प्रायः एक बिन्दु से निकले (उदाहरणार्थ मोटरकार की हेडलाइट वाली बत्ती) तो छेदों से निकला प्रकाश दीवार या छत पर भी डाला जा सकता है।

7. छाते पर तारा-घर बनाना

छाते की आङ्गाते किसी गोल वस्तु के भीतरी तल की तरह होती है। इसलिए आकाश के विविध भागों को निरूपित करने के लिए छाते के भीतरी भाग का उपयोग किया जा सकता है। कोई एक काफी बड़ा-सा पुराना छाता लीजिए। छाते के भीतर बीचों-बीच खड़िया से ध्रुवतारा बनाइए। किसी तारा-चित्र को देख कर विविध तारामण्डलों को भी स्वस्तिक चिह्नों से बनाइए। ध्रुव के आसपास के सब तारामण्डलों को बना चुकने के बाद आप किसी सफेद कागज से तारे काट-काट कर पूर्ण-अंकित स्थानों में चिपका सकते हैं या आप तारों को सफेद रंग से रंग सकते हैं। अन्त में बिन्दुमय रेखाएं खींच कर एक ही तारा-मण्डल के तारों को सफेद रंग या खड़िया से मिला सकते हैं।

मार्ग) 16 डिग्री चौड़ी मेखला के रूप में पाए जाते हैं। इस मेखला को 12 खण्डों में बांटा

ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

जाता है। इनमें से प्रत्येक खण्ड आंख पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और प्रत्येक मेखला में एक तारामण्डल रहता है, जिसे 'राशि' कहते हैं।

वर्ष के प्रत्येक मास में पूर्वोक्त राशियों में से एक राशि सूर्य की पृष्ठभूमि में रहती है, उदाहरणार्थ 21 मार्च को लगभग सूर्य के पीछे मीन राशि रहती है, एक महीने बाद मेष राशि और इसी प्रकार अन्य राशियाँ :

बसन्त की राशियाँ

मार्च	1	मेष
अप्रैल	2	वृष
मई	3	मिथुन

श्रीमंति की राशियाँ

जून	4	कर्क
जुलाई	5	सिंह
अगस्त	6	कन्या

शरद (पतझड़) की राशियाँ


सितम्बर	7	तुला
अक्टूबर	8	वृश्चिक
नवम्बर	9	धनु

हेमन्त (जाड़े) की राशियाँ


दिसम्बर	10	मकर
जनवरी	11	कुम्भ
फरवरी	12	मीन

यह मानचित्र एक ही नक्शे में उत्तरी आकाश के सब तारामण्डलों को दिखाता है। इसके किनारे

पर दिए गए दिनांक बताते हैं कि आकाश का वह भाग अध-रात्रि को ठीक उत्तर में कब दिखाई पड़ेगा। परन्तु नक्शे के सब तारे एक साथ ही दिखाई नहीं पड़ेंगे। वे तारे, जो एक साथ दिखाई पड़ेंगे, उस वृत्त के भीतर पड़ेंगे जिसका व्यास सारे नक्शे के व्यास के तीन-चौथाई से थोड़ा कम होगा और वह वृत्त नक्शे पर इस प्रकार बनाया जाएगा कि वह नक्शे की परिधि के उस बिन्दु पर स्पर्श करेगा जो अभीष्ट दिनांक के व्यास पर दूसरी ओर होगा। नक्शे का व्यास 1.1 सेटीमीटर है। इसलिए अच्छा यह होगा कि पारदर्शक कागज से 8 सेटीमीटर व्यास का वृत्त काट लिया जाए। उस पर एक व्यास खींच लिया जाए, जो उत्तर-दक्षिण रेखा बताएगा।



वृत्त को नक्शे पर पूर्वोक्त स्थिति में रखा जाए। जो भी व्यास आप खींचें, वह ध्रुव से होकर जाए और अभीष्ट दिनांक की दिशा में रहे। तब वह वृत्त यह बताएगा कि किसी चुने हुए दिन अध-रात्रि के समय कौन-सा क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। पारदर्शक



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रस्तु

कागज की परिधि और नक्शे की परिधि के बीच कुछ जगह छूट जाएगी और यह देखने में आएगा कि ध्रुवतारा सदा पारदर्शक वृत्त और उसके

हैं और लगभग 18 सेटीमीटर के वृत्त में पाश को रख कर उसे गते के ऊपर चिपका दिया जाता है। केन्द्र पर एक छोटी मोमबत्ती रखिए। यह




तत्कालीन उत्तरी किनारे के मध्य में पड़ता है।

[यह बात वहीं सत्य होगी जहां का अक्षांश (लैटिट्यूड) लगभग 45° उत्तर है]¹¹

2. एक मॉडल बनाना, जो तारों के बीच सूर्य का दृष्ट मार्ग दिखाए।

लगभग 60 सेटीमीटर लम्बे और 8 सेटीमीटर चौड़े कागज की पट्टी पर राशियों का चित्र सही क्रम में खींचा जा सकता है। तब कागज के सिरे एक-दूसरे से चिपका दिए जाते हैं, जिससे एक गोल घेरा बन जाता है। राशियां भीतर की ओर रहनी चाहिए। तब गते की पेंदी पर इस पाश को कोर के बल खड़ा कर दिया जाता


1. अनुवादक



सूर्य को निरूपित करती है। राशियों से सम्बद्ध क्रतुएं पेंडी पर पास के बाहर लिख दी जाती हैं। एक अखरोट अथवा किसी अन्य वस्तु को धागे से लटकाइए और धागे को एक ओर ऐंठिए। जब ऐंठन खुलेगी तो वह वस्तु घूमने लगेगी। इससे अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी का निरूपण किया जा सकता है।

3. एक मॉडल बनाना, जो यह दिखाए कि ग्रहण कैसे लगता है

एक गते को काला करके उसमें 5 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद कोजिए। छेद के पीछे दूधिया बिजली-बत्ती रखिए। यह सूर्य को निरूपित करेगी। इस छेद के चारों तरफ लाल खड़िया से किरीट (कारोना) बना दिया जाता है। चन्द्रमा बनाने के लिए लकड़ी की एक गेंद लीजिए, जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर हो और इसको बुनने की सलाई पर लगा दीजिए। इस उपकरण के सामने एक पर्दा लगा दिया जाता है। इस पर्दे में कई बड़े सूई-छिद्र बना दिए जाते हैं। देखने वाला इनमें से किसी एक से झांक कर ग्रहण को देखता है। इस प्रतिकृति में भी किरीट केवल पूर्ण ग्रहण की स्थिति में दिखाई पड़ता है। चन्द्रमा की स्थिति को ठीक करने के लिए साइकिल की एक मजबूत तीली लगा दी जाती है, जो उपकरण के अग्र भाग में से बाहर निकली रहे।



4. सूर्य-ग्रहण दिखाना

छत से लटकी बड़ी बिजली-बत्ती की तरफ एक आंख से देखिए, और दूसरी आंख को बन्द

रखिए। खुली आंख के सामने कोई छोटा सिक्का कुछ इच्छ को दूरी पर पकड़े रहिए। बड़ी बत्ती दूरी पर है और सूर्य को निरूपित करती है। छोटा सिक्का आपकी आंख के पास है और सूर्य और पृथ्वी के बीच रहने वाले चन्द्रमा को निरूपित करता है। आप देखेंगे कि छोटा सिक्का आपको बत्ती को पूर्णतया छिपा देता है और आपकी आंख पर छाया कर देता है।

5. सूर्य के धब्बे देखना

उस दूरदर्शी का उपयोग करिए जिसे आपने किसी पहले प्रश्नों में बनाया था। उसे इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि वह ठीक सूर्य की दिशा में हो जाए। दूरदर्शी के अभिनेत्र-लैन्स से कुछ दूरी पर सफेद गता रखिए। दूरदर्शी से इस प्रकार फोकस डालिए कि गते पर सूर्य का साफ और कान्तिमय प्रतिविम्ब पड़े। यदि सूर्य की सतह पर सूर्य-कलंक या सूर्य के धब्बे विद्यमान होंगे तो आप प्रतिविम्ब में उन्हें अनियमित रूप-रेखा के छोटे काले धब्बों के रूप में देख सकेंगे।

चेतावनी : दूरदर्शी में आंख लगा कर सूर्य को मत देखिए। देखना ही हो तो आंख पर गाढ़े रंग का कांच-फिल्टर अवश्य लगा लीजिए।

6. सूर्य के हिसाब से पृथ्वी को स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को देखना


आपनी कोठरी के फर्श या दीवार पर उस स्थान पर रेखा खीचिए जहाँ धूप पड़ती हो। ठीक मास, दिन और घंटा (समय) लिख लीजिए। प्रत्येक सप्ताह के अन्त में ठीक उतने ही बजे उसी प्रकार फिर रेखा खीचिए। साल भर तक इसी प्रकार सप्ताह-सप्ताह और महीने-महीने का परिवर्तन सूर्य के गिर्द पृथ्वी के घूमने का परिणाम है।

ग. सौर-परिवार विषयक प्रयोग

दूरियों की प्रत्यक्ष जानकारी की जा सकता है। सूर्य तथा ग्रहों को निरूपित करने के लिए या तो विविध नापों की गेंदों का उपयोग करना

किसी अन्य वस्तु का उन्नतांश-कोण नापने में सूचक का काम भी देगा।

इससे अच्छी भी एक प्रतिकृति बनाई जा सकती है, जिसकी सहायता से तारे का उन्नतांश (ऊंचाई) और दिगंश (उत्तर-दक्षिण दिशा से कोण), दोनों नापे जा सकते हैं। आधार-स्तम्भ को आधार-पीठिका (पेंडी) पर चेच से कस दीजिए। दो सिक्कों के बीचोंबीच छेद करके उन्हें वाशर की तरह काम में लाइए और आधार-स्तम्भ क्षैतिज कोण नापने के लिए आधार-स्तम्भ में टीन का एक टुकड़ा जड़ दीजिए। आरम्भ के कई आविष्कार इसी प्रकार के कामचलाऊ उपकरणों की सहायता से किए गए थे।




3. घटक की प्रतिकृति

काग, सरेस, पिन, कांच-नलिका, इत्यादि के उपयोग से एक सरल घटक (सेक्सटेंट) बनाया जा सकता है।

काग के एक सिरे से एक छोटा-सा भाग काट कर निकाल दिया जाता है। इस पर चांदे की आधार-खेता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह काग के सिरे के व्यास के समानान्तर रहे। चांदे की आधार-खेता के बीचोंबीच एक मजबूत पिन खोंस दी जाती है। यह पिन दर्पण के धूमने के लिए भूरी का काम करती है। कांच की किसी नलिका को (भरम करने के बाद) खींच-दींच कर इतना पतला कर लिया जाता है।

कि वह पिन पर बहुत ढोली न बैठे। इसे दर्पण की एक पट्टी पर (जो नाप में 7 सेंटीमीटर \times 1 सेंटीमीटर की हो) चिपका दिया जाता है और पिन इसी में पहना कर चांदे के छेद में खोंस दी जाती है। इस प्रकार नलिका कब्जे का काम देती है। नलिका बाले सिरे की ओर से 1 सेंटीमीटर छोड़ कर दर्पण की पट्टी की शेष कलई छुड़ा दी जाती है। इस प्रकार कलई-रहित किया गया भाग यन्त्र की भुजा का काम देता है और चांदे की मापनी पर का कोण बताता है।

दूसरा दर्पण, जो स्थिर रहता है, चांदे पर बनाए गए दीर्घ छिद्र (स्लाइट) में कसा जाता है और लाख से जोड़ दिया जाता है। चांदे (प्लास्टिक का) में दीर्घ छिद्र तपाए गए तार या बुनने की सलाई से किया जाता है। इस दीर्घ छिद्र को चांदे के आधार से 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। इस दर्पण से (बीच की ओर से) आधी कलई हटा दी जाती है। चांदे की आधार-खेता के समानान्तर लेमन पीने की नलिका का एक टुकड़ा या कांच की नलिका लाख से चिपका दी जाती है और इसी में से देखा जाता है। इस नलिका से देखने पर पूर्वोक्त कलई-रहित आधे दर्पण द्वारा क्षितिज दिखाई पड़ना चाहिए (आवश्यकता हो तो नलिका की दिशा ठीक कर लीजिए) :




विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

इस्तेमाल करते समय काग को पकड़ कर यन्त्र को दाहिने हाथ में लेना चाहिए और यन्त्र की भुजा को इस प्रकार समंजित करना चाहिए कि क्षितिज के दोनों प्रतिबिम्ब, स्थिर दर्पण के कलईदार भाग में दिखाई पड़ने वाला और उसके स्वच्छ भाग द्वारा दिखाई पड़ने वाला, अटूट हों। तब यन्त्र की स्वच्छ कांच वाली भुजा जिस कोण को सूचित करती है, उसे लिखा जाता है।

भुजा को अब इतना धुमाया जाता है कि सूर्य अथवा अन्य वस्तु का प्रतिबिम्ब, जो स्थिर दर्पण के कलईदार आधे भाग में दिखाई पड़ता है, उसके दूसरे स्वच्छ भाग द्वारा दिखाई पड़ने वाले क्षितिज पर बैठा हुआ जान पड़े।

भुजा जितने कोण द्वारा धूमती है, वह सूर्य के उत्तरांश का आधा है। यदि सूर्य तेज़ चमक रहा हो तो आंखों की रक्षा के लिए गाढ़े श्याम रंग के कांच या जिलैटिन की आवश्यकता पड़ेगी। भारत में सूर्य सदा ही तेज़ चमकता है और बिना श्याम कांच के सूर्य की ओर कभी नहीं देखना चाहिए।


इसी प्रकार की दर्पण की पट्टियां चित्रफलक पर पिनों की सहायता से ऊर्ध्वाधर समतल में खड़ी की जा सकती हैं। इसके लिए कांच की नलिकाओं में पिन डाल कर इन पिनों को चित्रफलक में खोंस देना चाहिए। बष्ठक के दर्पण-तन्त्र में प्रकाश-रद्दियों के मार्ग के अध्ययन के लिए पूर्वोक्त पट्टियां उपयोगी सिद्ध होंगी। विशिष्ट रद्दियों के मार्ग का पता पाने के लिए किरण-वलियों अथवा पिनों का उपयोग करना चाहिए।



4. धूप-घड़ी बनाना


ऋतु से बचने के लिए धूप-घड़ी को धातु

अथवा रंगी हुई लकड़ी से बनाना चाहिए ताकि उसमें छीजन न हो। सरल प्रयोगों के लिए गते की भी प्रतिकृति बनाई जा सकती है।



समय का पता शंकु की छाया से चलता है। शंकु एक समकोणिक त्रिभुज होता है, जिसका आधार-कोण उस स्थान के अकांश (लैटिट्यूड) के बराबर होता है जहां धूप-घड़ी का इस्तेमाल किया जाता हो।

इस त्रिभुज को सरेस आदि से अपने स्थान पर इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसका कर्ण ध्रुव तारे की दिशा में रहे। तब आधार-पट्टिका पर घंटों के चिह्न बनाए जा सकते हैं।



यदि 4 सेंटीमीटर व्यास की कांच की कोई नलिका मिले तो उससे दूसरे ढंग की धूप घड़ी बनाई जा सकती है।

इस उपकरण में बुनने की मजबूत सलाई शंकु का काम करती है। उसे आधार-पट्टिका में उचित कोण पर खोंस दिया जाता है। पैमाना नलिका की परिधि पर चिपका दिया जाता है और उसे 24 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। सलाई की जो छाया इस पर पड़ती है उससे घंटे का बोध होता है। कांच की नलिका को

ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री


कागों की सहायता से ठीक स्थान पर रखा जाता है।

5. पृथ्वी और चन्द्रमा की सरल प्रतिकृति

पृथ्वी को नारंगी या अन्य किसी गोल वस्तु से निरूपित किया जा सकता है। नारंगी शादि को बांस अथवा किसी मजबूत सीखचे पर लगा दिया जाता है। एक तार को मोड़ कर या बुनने की सलाई को बांस के बीच में छेद करके डालिए और उस पर कोई छोटा गोल फल अथवा बीज या मेवा रख कर चन्द्रमा को निरूपित करिए। इसे हाथ में लेकर किसी लैम्प के चारों ओर चक्कर लगाने से चन्द्रमा की कलाएँ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का धूमना और प्रहणों का लगाना भी समझाया जा सकता है।

6. शृंतुओं का कारण दिखाना

रबड़ की खोखली गेंद की (जैसे टेनिस की गेंद) पृथ्वी बनाइए। गेंद में 15 सेंटीमीटर लम्बा तार या बुनने की सलाई बुसा दीजिए। यह पृथ्वी का अक्ष है। गते पर लगभग 40 सेंटी-मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। यह पृथ्वी की कक्षा को निरूपित करेगा। इस पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम शादि चारों दिशाएँ अंकित करिए। सूर्य को निरूपित करने के लिए एक बिजली-बत्ती को गते से लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लटका दीजिए। इसके बदले जलती मोसबत्ती भी रखी जा सकती है। गेंद को, जो



M14DPD/62—13

पृथ्वी को निरूपित करती है, पूर्वोक्त चार स्थानों में पारी-पारी से रखिए। अक्ष ऊर्ध्वाधर से 23.5 डिग्री का कोण बनाए। देखिए कि गेंद का कितना भाग सदा प्रकाश में रहता है और रश्मियां सीधी कहा गिरती हैं। चारों स्थितियों में देखिए कि रश्मियां किस गोलार्ध पर तिरछी पड़ती हैं।

प्रयोग फिर से करिए, परन्तु अब की बार चारों स्थितियों में पृथ्वी का अक्ष ऊर्ध्वाधर रहे और देखिए कि यदि पृथ्वी का अक्ष तिरछा न होता तो क्या होता।

7. किसी स्थान पर दिन और रात की लम्बाइयों में अन्तर पड़ने का कारण दिखाना

वही उपकरण लीजिए जिसका उपयोग ऊपर प्रयोग-6 में किया गया था। गेंद के बीचोंबीच एक वृत्त खींचिए। वह भूमध्य रेखा (ईक्वेटर) को निरूपित करेगा। भूमध्य-रेखा पर और उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में नगरों को निरूपित करने के लिए गेंद पर बिन्दु लगा दीजिए। गेंद को फिर चारों स्थितियों में रखिए परन्तु इस बार प्रत्येक स्थिति में गेंद को उसकी धुरी पर घुमाइए और देखिए कि विविध नगर, जिन्हें आपने अंकित किया है, कितने समय तक प्रकाश में रहते हैं और कितने समय तक छाया में। प्रत्येक धुर पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात।

8. यह दिखाना कि पृथ्वी पर श्राई हुई उष्मा (गरमी) और प्रकाश पर सूर्य की किरणों के तिरछेपन का क्या प्रभाव होता है

एक गते को इस प्रकार मोड़िए कि उससे 2 सेंटीमीटर की (अनुप्रस्थ) काट की और 32 सेंटीमीटर लम्बी चौकोर नलिका बन जाए। फिर खूब कड़े गते से 23 सेंटीमीटर लम्बी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट लीजिए। इसे नलिका के एक ओर इस प्रकार चिपका दीजिए कि पट्टी 15 सेंटीमीटर बाहर निकली रहे। कड़े गते के सिरे को मेज पर रखिए और नलिका को ऊर्ध्वाधर

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

से लगभग 25° तिरछी दिशा में रखिए। नलिका के ऊपरी सिरे पर टार्च या जलती मोमबत्ती रखिए और मेज पर उस क्षेत्र को अंकित कर लीजिए जिस पर नलिका के भीतर से आया हुआ प्रकाश पड़ता है। इस प्रयोग को फिर करिए परन्तु अब नलिका केवल 15 डिग्री झुकी रहे। प्रयोग को फिर करिए परन्तु इस समय नलिका ऊर्ध्वाकार रहे। तीनों क्षेत्रों की तुलना करिए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सूर्य से आई उष्मा और रोजानी की मात्रा अधिक कब रहती है? जब रसियां खड़ी पड़ती हैं, या तब जब वे तिरछी पड़ती हैं?

9. शंकु बनाना

पाठशाला के खुले मैदान में एक 130 सेंटीमीटर लम्बी छड़ी को भूमि में गाढ़ दीजिए और छात्रों को कहिए कि छाया की लम्बाई नाप

ड. चन्द्रमा सम्बन्धी प्रयोग

1. चन्द्रमा के तल का निरीक्षण

पृष्ठ 88 पर बताए गए दूरदर्शीया क्षेत्र-दूरदर्शी (फील्ड-सेज़) का उपयोग करिए। चन्द्रमा के तल का अध्ययन करिए और देखिए कि आप उसमें किसी ज्वालामुख (क्रेटर) अथवा पर्वत को देख सकते हैं या नहीं।

2. चन्द्रमा की कलाओं का निरीक्षण

पूरे एक चन्द्र मास तक लड़कों से प्रति रात्रि चन्द्रमा का निरीक्षण कराइए और उसकी आकृति का चित्र लिचवाइए। अमावस्या से आरम्भ करके यह क्रम अमावस्या तक जारी रखिए।

3. चन्द्रमा की कलाओं का कारण विज्ञाना

अपनी कक्षा में या किसी दूसरे कमरे में अन्धेरा करके मेज पर एक जलती मोमबत्ती या बिजली-बत्ती रखिए। 8 सेंटीमीटर व्यास की रबड़ की गेंद को सफेद रंग से रंग लीजिए। हाथ फैला कर गेंद को पकड़ रहिए और इस प्रकार खड़े रहिए कि प्रकाश आपकी पीठ की ओर रहे। गेंद को अपने से कुछ ऊचा रखिए ताकि उस पर प्रकाश पड़ सके। देखिए कि गेंद के किस भाग पर प्रकाश पड़ रहा है। यह स्थिति पूर्णिमा को निरूपित करती है। अब धीरे-धीरे दाँई से बाई और

कर लिख लें। छाया को वर्ष की विविध ऋतुओं में दिन में दो-तीन बार नापिए।

10. यह दिलाना कि एक ही समय पर सूर्य-रसियों का कोण (उष्ट्रतांश) रोजाना बदलता रहता है

कागज या गते के टुकड़े में 1 सेंटीमीटर व्यास का गोल छेद कर दीजिए। अपनी कक्षा की दक्षिण दिशा की किसी खिड़की में इसे ऐसी जगह रखिए कि धूप छेद में से होकर फर्श या खिड़की की चौखट पर रखे गए सफेद कागज पर पड़े। जहां पर सूर्य की किरणावली पड़ती है, उस स्थान पर कागज में एक धेरा बनाइए। घेरे के भीतर दिनांक और समय लिख लीजिए। इस प्रयोग को आगामी दिनों में ठीक पहले दिन बाले समय पर दोहराइए।

घूमिए। गेंद को बराबर अपने सामने और सिर से कुछ ऊचा रखिए। एक बार पूरा धूम कर देखिए कि गेंद के प्रकाशित भाग की आकृति किस प्रकार बदलती है। क्या आप चन्द्रमा की विविध कलाओं को देखते हैं? अब फिर धूमिए परन्तु पूरे चक्कर के आठवें भाग पर रुक जाइए और किसी से कहिए कि वह चन्द्रमा (गेंद) के प्रकाशित भाग का चित्र खींचे (वह व्यक्ति आपसे यथा-सम्बन्ध स्ट कर खड़ा हो, अन्यथा उसके लिए प्रकाशित भाग की आकृति दूसरी हो जाएगी)।

4. चन्द्र-प्रहण दिलाना

एक कमरे में अन्धेरा करिए। सूर्य को निरूपित करने के लिए टार्च या मोमबत्ती जलाइए। एक हाथ में 8 सेंटीमीटर की रबड़ की गेंद लीजिए, जो पृथ्वी को निरूपित करे। चन्द्रमा को निरूपित करने के लिए दूसरे हाथ में 2 सेंटीमीटर की दूसरी गेंद लेकर टार्च से निकली किरणावली के सामने रखिए और पृथ्वी की छाया को देखिए। इसके बाद छोटी गेंद अर्थात् चन्द्रमा को पृथ्वी के पीछे छाया में ले जाइए। जब तक चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में होकर चलता रहेगा तब तक चन्द्र-प्रहण लगा रहेगा।

वायु और वायुदाब के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

जीवन के लिए जो वस्तुएं परम आवश्यक हैं, उनमें से वायु भी एक है। वायु के समुद्र के तल में हम रहते भी हैं। मनुष्य अपने कई एक दैनिक कार्यों में वायुदाब का उपयोग करता है। प्रत्येक बालक और बालिका के पाठ्य-विषयों में वायु और वायुदाब को भी स्थान मिलना चाहिए।


क. यह दिखाना कि वायु कहाँ-कहाँ है

1. संकरे गले की एक शीशी का मुँह नीचे की ओर करिए। कांच के एक बड़े बरतन में पानी रख कर शीशी को उसमें पूरी तरह डुबा दीजिए। अब धीरे-धीरे शीशी को तिरछा करके उसके मुँह को पानी की सतह की ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या शीशी खाली थी?
2. पानी के बरतन में मुट्ठी-भर मिट्टी डालिए और ध्यान से देखिए। क्या आपने कोई ऐसी बात देखी जिससे पता चले कि

ख. यह दिखाना कि हवा जगह घेरती है

1. एक बोतल और एक कीप लीजिए। कीप को बोतल के मुँह में लगा दीजिए और बोतल के मुँह की सन्धि पर बाहर की ओर मूर्ति बनाने की मिट्टी लगा दीजिए। गीली मिट्टी बोतल के मुँह में कस कर लगाई जाए। कीप में धीरे-धीरे पानी डालिए। आप क्या देखते हैं? हवा के बारे में इससे क्या पता चलता है?

2. ऊपर के प्रयोग-1 को फिर से करिए और इतना पानी डालिए कि पानी लगभग कीप के ऊपरी किनारे तक पहुंच जाए। बोतल में लगी मिट्टी में सावधानी से कील से एक छेद




मिट्टी में हवा थी?

3. एक ईंट लीजिए और उसे पानी के बरतन में ढोड़ दीजिए। क्या कोई प्रमाण मिलता है कि ईंट के भीतर हवा थी?
4. गिलास में ठण्डा पानी भरिए और सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करिए। गिलास को गरम स्थान में कई घंटे पढ़ा रहने दीजिए। फिर निरीक्षण करिए। आपको क्या अन्तर दिखाई पड़ता है? क्या कोई प्रमाण है कि पानी में हवा है?


कर दीजिए। छेद बोतल के भीतर तक पहुंच जाए। आपने क्या देखा? ऐसा क्यों हुआ?

3. कांच के बड़े बरतन को पानी से आधा भर कर उस पर एक काग तैराइए। अब काग के ऊपर एक गिलास को उल्टा करके रखिए। गिलास को नीचे डबाइए। आप क्या देखते हैं? इस प्रयोग को फिर करिए, परन्तु पहले गिलास की पेंदी में थोड़ा कागज कस कर ढूँस दीजिए। क्या कागज भीग जाता है?



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

4. एक मत्स्यकुण्ड श्रथवा कांच का कोई बड़ा बरतन लीजिए और उसे लगभग पूरा भर दीजिए। पानी पीने के एक गिलास को औंधा करके उसे मत्स्यकुण्ड में डुबाइए। दूसरे हाथ में एक दूसरा गिलास भी भीतर औंधा ही डालिए। इस गिलास का मुँह इस प्रकार तिरछा करिए कि उसमें पानी भर सके। अब दूसरे गिलास को पानी के भीतर ही औंधा करके पहले गिलास के कुछ ऊपर पकड़े रहिए। पहले गिलास को धीरे-से तिरछा करिए और हवा को धीरे-धीरे निकलने दीजिए। दूसरे गिलास में पहले गिलास की हवा भर लीजिए। हवा के बारे में इससे क्या पता चलता है?



5. मत्स्यकुण्ड में कांच का एक लम्बा बरतन रखिए। इसे पानी से भर जाने दीजिए। तब इसे मत्स्यकुण्ड की पेंदी पर औंधा खड़ा कर दीजिए। इस बरतन के मुँह की ओर के नीचे रबड़ की नलिका या लेमन पीने की नलिका का एक सिरा डाल

ग. यह दिखाना कि हवा में भार होता है

1. एक लम्बी छड़, जैसे मीटर की पटरी या गज लीजिए और उसके ठीक बीच में एक पतली कील को आर-पार ठोक दीजिए। कांच के दो गिलासों की कोरों पर कील को टिका कर छड़ को सन्तुलित करिए। फिर तार के छोटे टुकड़े से एक आरोही (राइडर) बनाइए और उसे छड़ के सिरे पर उस ओर रखिए जिसे सन्तुलन की दृष्टि से भारी करना हो। आरोही को बटा-बद्दा कर

दीजिए और नलिका में धीरे-से फूंक मारिए। इससे हवा के बारे में क्या पता चलता है?

6. छोड़े मुँह की लम्बी बोतल को पानी से भर कर आधी भरी थाली पर उलट दीजिए। ऐसा करने का तरीका यह है कि बोतल को पानी से भर कर उसके मुँह पर कांच या गते का एक टुकड़ा रख लिया जाए और तब बोतल को उलट कर उसके मुँह को थाली के पानी के भीतर कर दिया जाए। फिर ढक्कन को पानी के भीतर से निकाल लिया जाए। बोतल के मुँह को ज़रा-सा उठाइए और उसके नीचे दवा टपकाने वाली



नलिका का मुँह डाल दीजिए। दवा टपकाने वाली नलिका के रबड़ को दबाइए और देखिए कि क्या होता है। ऐसा कई बार किया जा सकता है। हवा के बारे में इससे क्या पता चलता है?

7. एक ऐसी बोतल लीजिए जिसमें कस कर बैठने वाला काग या रबड़ की डाट हो। बोतल को पानी से भर दीजिए परन्तु हवा का छोटा बुलबुला उसमें रह जाए। बोतल को तिरछा करिए और काग को दबा कर बुलबुले को निकालने की चेष्टा करिए। आप क्या देखते हैं? यह प्रयोग हवा के बारे में क्या बताता है?

छड़ को ठीक-ठीक सन्तुलित करिए (विना आरोही और सन्तुलन के भी काम चल सकता है)। छड़ के एक सिरे पर रबड़ का एक गुब्बारा और रबड़ का (या साधारण) एक छल्ला लटका दीजिए। अब छड़ के दूसरे सिरे पर कुछ बाट या अन्य वस्तुएं रख कर छड़ को ठीक-ठीक सन्तुलित करिए (यदि पहले कुछ पासंग रहेगा तो उसका प्रभाव इस सन्तुलन से मिट जाएग)। छड़


पर उन स्थानों पर चिह्न लगा लीजिए जहां गुब्बारा और सन्तोलक भार रखे गए थे। गुब्बारे को हटा लीजिए और उसमें साइकिल पम्प से हवा भरिए। गुब्बारे का मुँह धागे से बांध दें। फिर गुब्बारे और सन्तोलक भार को ठीक उन्हीं जगहों पर रख दीजिए जहां वे पहले थे। यह काम सरल नहीं है क्योंकि नाम-मात्र भी अन्तर पड़ने से प्रयोग बेकार हो जाएगा। इसलिए छड़ि के सिरों पर भी पतली कीलें ठोक कर वहां गुब्बारा और सन्तोलक भार लटकाना अधिक अच्छा होगा। आप क्या देखते हैं? इससे हवा के बारे में क्या पता चलता है? (आर्किमिडीज के सिद्धान्त

के अनुसार हवा भरने पर गुब्बारे तथा उसके भीतर की हवा की सम्मिलित तौल उतनी कम हो जाएगी जितनी कि विस्थापित हवा की तौल होगी, इससे गुब्बारे की तौल में सूक्ष्म अन्तर पड़ेगा और वह भी केवल इसलिए कि भीतर की हवा में दाव कुछ अधिक है।) प्रयोग को बड़ी सावधानी से करना चाहिए।

ऊपर के प्रयोग को फुटबाल, बास्केट बाल आदि के ब्लैंडर या वाइसिकिल या मोटर के पहिए की भीतरी ट्यूब की सहायता से भी किया जा सकता है।

घ. यह दिखाना कि हवा दबाव डालती है


1. एक गिलास को पानी से ऊपर तक भर दीजिए। उसके ऊपर पतले गत्ते का एक टुकड़ा रख कर उसको गिलास पर दबाए रखिए और गिलास को उलट दीजिए। फिर अपने उस हाथ को हटा लीजिए जिससे आपने गत्ते को पकड़ रखा था।



उलटे हुए गिलास को चिकनी मेज पर रखिए और सावधानी से गिलास को गत्ते से मेज पर खिसकाना आरम्भ करिए। गिलास को धीरे-धीरे मेज पर खिसकाइए। क्या आप मेज पर पानी गिराए बिना गिलास को खाली करने की कोई रीति सुझा सकते हो? यह प्रयोग हवा के बारे में क्या बताता है?

2. चौड़े मुँह की लम्बी बोतल लीजिए और उसकी बारी पर गीली मिट्टी की तीन या चार गोलियां चिपका दीजिए। बोतल में पानी भरिए। मिट्टी पर एक तश्तरी रखिए और तब बोतल तथा

तश्तरी को उलट दीजिए। मुर्गी के बच्चों के लिए जल-पात्र रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। बोतल में पानी क्यों रुका रहता है। तश्तरी से थोड़ा पानी निकाल लीजिए। क्या होता है?




3. पतले पटरे का 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर लम्बा टुकड़ा लीजिए। पटरे को मेज पर इस तरह रखिए कि लगभग 25 सेंटी-मीटर टुकड़ा किनारे से आगे निकला हो। अब समाचारपत्र का एक ताव लेकर उसे इस प्रकार फैलाइए कि पटरे का मेज पर का भाग उसके नीचे आ जाए। इसके बाद अपने हाथ को कागज के मध्य भाग से किनारे की ओर ले जाते हुए सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। इस प्रयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप हवा को कागज के नीचे से पूरी तरह निकाल पाएं। जब यह हो जाए तो किसी से


विज्ञान-शिक्षण के लिए यनेस्को का आकर ग्रन्थ

कहिए कि पटरे के बड़े हुए भाग पर छड़ी से मारे। क्या होता है? इससे हवा के बारे में क्या पता चलता है?

4. कांच की सीधी नलिका अथवा शरवत पीने की नलिका के एक सिरे पर अंगुली रख कर उसे बन्द कर लीजिए और दूसरे सिरे को रंगीन पानी में डुबाइए। अंगुली हटा लीजिए और



देखिए कि क्या होता है? नलिका के सिरे को फिर अंगुली से बन्द कर लीजिए और नलिका को पानी से हटा लीजिए। क्या होता है? क्यों होता है? हवा के बारे में इससे क्या पता चलता है?



5. टीन के डिब्बे के एक ओर पेंदी के पास कील से एक छेद करिए। डिब्बे को पानी से भरिए। हथेली को डिब्बे के मुंह पर कस कर दबाइए। छेद से पानी का बहना बन्द हो जाएगा। हाथ हटा लीजिए तो पानी किर छेद में स बहने लगता है। इससे क्या पता चलता है?

6. एक चौड़े मुंह की अथवा साधारण लम्बी बोतल चुनिए। थोड़ा-सा कागज मरोड़ कर उसकी एक गोली-सी बना लीजिए और उसमें आग लगा कर उसे बोतल में डाल दीजिए। बोतल के मुंह पर रबड़ का गुब्बारा खींच कर तुरंत लगा दीजिए या उस पर रबड़ का टुकड़ा दबा रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?

7. एक अण्डे को 10 मिनट तक उबालिए या इतना उबालिए कि वह बढ़त कड़ा हो जाए। ऊपर का छिलका अलग कर दीजिए। एक ऐसी बोतल लीजिए जिसकी गरदन इतनी चौड़ी हो कि उसमें बिना अण्डे की सफेदी के टूटे ही अण्डे को दबा कर भीतर डाला जा सके। दूध की बड़ी बोतल, जिसमें एक क्वार्ट या एक लिटर दूध आता है, अच्छा काम देगी। थोड़े-से कागज की एक गोली बना कर उसमें आग लगा दीजिए और उसे बोतल में डाल दीजिए। अण्डे को तुरन्त बोतल के मुंह में रख दीजिए। नुकीला सिरा नीचे की ओर रहे। क्या होता है? आप इसे कैसे समझाते हैं? अण्डे को बाहर निकालने के लिए बोतल को उलट दीजिए। ऐसा करिए कि अण्डा बोतल की गरदन में आ जाए और उसका नुकीला सिरा नीचे की ओर रहे। अब बोतल में मुंह लगा कर उसमें जोर से हवा भरिए और देखिए कि मुंह हटाने पर क्या होता है?

8. पानी पीने के गिलास को पानी के बड़े बरतन में डुबा दीजिए। ध्यान रखिए कि पानी से गिलास पूर्णतया भरा रहे। अब गिलास को औंघी स्थिति में रख कर उसे इतना ऊपर उठाइए कि गिलास लगभग पूर्णतया पानी के बाहर निकल आए। गिलास के भीतर का पानी गिरता क्यों नहीं?

9. पाइप साफ करने वालों का रबड़ का प्लास्टिक फोर्स कप (प्लम्बर्स फोर्स कप) लीजिए। उसकी पेंदी के नीचे पानी लगाइए और उसे किसी सपाठ सतह



पर दबाइए, उदाहरणार्थ तिपाई के ऊपर। प्याले के साथ-साथ तिपाई को भी उठाने की चेष्टा करिए। ऐसा करना क्यों सम्भव है? (भीगे चमड़े के बृत के केन्द्र में डोर पहना कर भी यह प्रयोग किया जा सकता है)।

10. पाइप साफ करने वालों के रबड़ के दो प्याले लीजिए। उनके किनारों पर पानी लगाए। दोनों प्यालों को सटा कर बलपूर्वक दबाइए और तब उन्हें अलग करने की चेष्टा करिए। उन्हें खींच कर अलग करना क्यों झटना कठिन है? यह प्रयोग प्रसिद्ध मैग्नेडिवर्ग गोलार्धों वाले प्रयोग से मिलता-जुलता है।


11. एक गुब्बारे में अपने मुंह से थोड़ी-सी हवा फूंकिए। गुब्बारे की मेज की ऊपरी सतह के पास लाइए और चाय के दो प्यालों को गुब्बारे के अगल-बगल रख कर उनके मुंहों को गुब्बारे के दोनों ओर दबाइए (इससे गुब्बारा कुछ दूर तक दोनों प्यालों में घुस जाएगा)। गुब्बारे में अब कुछ और हवा फूंकिए। और तब गुब्बारे का मुंह दबा कर बन्द कर दीजिए। यदि यह प्रयोग सावधानी से किया जाएगा तो गुब्बारे को उठाने पर दोनों प्याले उठ आएंगे। प्यालों को गुब्बारे से कौन-सी वस्तु चिपका दती है?

12. कांच के एक ही ताप के दो गिलास लीजिए और एक के मुंह के चारों ओर भीगे सोख्ले का बालर बना कर लगा दीजिए। कुछ कागजों को भरोड़ कर एक गोली बना लीजिए। उसमें आग लगा दीजिए और उसे मेज पर रखे गिलास में डाल दीजिए। फिर तुरन्त ही दूसरे गिलास को उलट कर सोख्ले पर जोर से दबाइए। क्या आप

ऊपर के गिलास को उठाने से नीचे वाले गिलास को भी उठा सकते हैं? क्यों?

13. दो मोटे गिलास लीजिए। प्रत्येक को पानी से भर दीजिए। एक गिलास पर कागज का एक टुकड़ा रख दीजिए और उसे दूसरे गिलास पर इस प्रकार उलट दीजिए कि दोनों गिलासों की बासियाँ एक-दूसरे पर ठीक-ठीक पड़ें। कागज को हटा दीजिए। क्या होता है? क्यों?

14. टीन के एक बड़े डिब्बे में, जिसके मुंह पर पेचदार ढक्कन हो, 3 सेंटीमीटर पार्सी भरिए। ढक्कन हटा कर टीन को स्टोव (चूल्हे) पर खुला रखिए। जब पानी खूलने लगे और खुले मुंह से भाय जोर से निकलने लगे तब डिब्बे को फूर्ही से चूल्हे से हटा कर उस पर शीघ्रता से पेचदार ढक्कन लगा दीजिए और खूब कस दीजिए। डिब्बे को ठण्डा होने दीजिए और परिणाम देखिए। डिब्बे पर ठण्डा पानी छोड़ने से या उसे ठण्डे पानी की बाल्टी में डुबाने से परिणाम और भी शीघ्र दिखाई पड़ेगा?




15. विजली के एक पुराने बल्ब को गैस अथवा स्पिरिट लैम्प की ज्वाला में गरम करके उसके पीतल के छल्लों को निकाल दीजिए। जब बल्ब की लाख धुआँ देने लगे तब उसे प्लास से ऐंठ कर बल्ब से छुड़ा दीजिए। आपको एक नलिका का सिरा दिखाई देगा, जो बल्ब के भीतर धुसा रहता है और जिसके द्वारा भीतर की हवा खींच ली जाती है। बल्ब को रंगीन पानी के बरतन में इस तरह रखिए कि नलिका बाला सिरा नीचे रहे। प्लास से नलिका का सिरा (पानी के भीतर-ही-भीतर) तोड़ दीजिए। क्या होता है? आप इसकी क्या व्याख्या करेंगे?

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

ड. वायुदाब को नापना

1. सरल पारा वायुदाब-मापी

लगभग 80 सेंटीमीटर लम्बी एक कांच की नलिका लीजिए। नलिका के सिरे को गैस (या स्टोव या स्प्रिट लैप्प) की ज्वाला में डाल कर और नलिका को घुमा-घुमा कर उसके सिरे को बन्द करिए। नलिका को यथासम्भव ऊँचाधिर रखना चाहिए। एक छोटी-सी साधारण अथवा गोलाकार कीप लीजिए और उसे अपने दाब-मापी की नलिका के खुले सिरे से किसी रबड़ नलिका के छोटे टुकड़े से जोड़िए। नलिका में धीरे-धीरे पारा (मर्करी) डालिए। यदि हवा के बुलंबुले फंस जाएं तो पारे को ऊपर-नीचे धीरे-से हिला कर नलिका से उन्हें दूर किया जा सकता है। पारा सिरे से 1 सेंटी-मीटर नीचे तक ही भरिए। अन्तिम भाग को दवा टपकाने वाली नलिका से भरना अच्छा है। इससे पारा बेकार नहीं जाएगा। नलिका में इतना पारा भरिए कि पारे की सतह नलिका की बारी से नाम-मात्र के लिए ऊपर हो जाए। अब किसी रकाबी या बहुत चौड़े मुँह की बोतल में लगभग 2 सेंटीमीटर पारा डालिए अर्थात् पारे की गहराई 2 सेंटीमीटर हो जाए। पारे से भरी




नलिका के सिरे पर अंगुली रख कर उस सिरे को तश्तरी या बोतल के पारे में डुबो दीजिए। जब नलिका का सिरा पारे में डूब जाए तब अंगुली

हटा लीजिए। फिर नलिका को उचित आधार के सहारे खड़ा रखिए। यह उपकरण पारद वायुदाब-मापी का काम देगा। तश्तरी में पारे के तल से नलिका में पारे के तल की ऊँचाई सेंटीमीटरों या इन्हों में वायुदाब बताती है।

2. बोतल से बना वायुदाब-मापी

किसी बोतल में थोड़ा पानी भरिए। एक तश्तरी में कुछ पानी डाल कर बोतल को उलटा कर दीजिए और बोतल के मुँह को तश्तरी के पानी में डुबो दीजिए। अब इसका प्रयोग मुर्गी के बच्चों को पानी पिलाने के लिए किया जा सकता है। परन्तु इससे बोतल के बाहर चिपकाई गई कागज की पट्टी पर वायुदाब में होने वाले परिवर्तनों को भी मोटे हिसाब से अंकित किया जा सकता है।




3. निर्द्व वायुदाब-मापी

निर्द्व वायुदाब-मापी की प्रतिकृति बनाने के लिए गैस-मुखोटा साइकिल के हृत्ये की नाली-दार रबड़-नलिका से काम लिया जा सकता है। इसमें सूक्ष्मता की आवश्यकता व्यर्थ है क्योंकि कई प्रकार की त्रुटियां उसमें रह सकती हैं।

नालीदार नलिका के सिरों को बन्द करने के लिए दो अच्छे काग या रन्ध-रहित (नान-पोरस) लकड़ी के दो टुकड़े लीजिए। सिरों को बन्द करने पर नलिका निर्वात मंजूषा (वैकुञ्जम बॉक्स) का काम देती है। कागों को तब कसना

चाहिए जब नालीदार नलिका तरी रहे। सन्धियों को मोम से वायु-अभेद्य (एक्स-टाइट) कर देना चाहिए। रबड़ की बाहरी सतह पर भी इसी उद्देश्य से एक डोर कस कर बांध देनी चाहिए।



नीचे के काग पर एक बोझ (कोई बटखरा) लटका दिया जाता है। यह वायुमण्डलीय दाब का थोड़ा-बहुत प्रतिरोध करेगा और भायी को खींच कर फैला देगा।


वायुमण्डलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को एक प्रवर्धक संकेतक (प्वाइंटर) द्वारा सूचित किया जा सकता है।

4. एक तुला वायुदाब-मापी

तुला वायुदाब-मापी इस सिद्धान्त पर बनाया जाता है कि एक ही ताप पर नम वायु की अपेक्षा शुष्क वायु अधिक भारी होती है। एक ही जैसे दो बेलनों को (टीन के डिब्बों के; भी लिया जा सकता है) किसी सूक्ष्मग्राही तुला की डण्डी के दोनों सिरों पर आरोपित करिए। जेण्डर्स-व्यवस्था

(पृष्ठ 41) की सहायता से यह काम सन्तुष्ट-प्रद रीति से हो जाता है।


एक बेलन को पूर्णतया बन्द (सील) कर दिया जाता है। इसके भीतर की हवा प्रामाणिक हवा का नमूना है। दूसरे में एक छेद रहता है, जिससे बाहरी हवा भीतर घुस सके। केवल एक ही बेलन रहने पर भी यह उपकरण काम कर सकता है, परन्तु दो बेलनों के उपयोग से इसे सन्तुलित करना अधिक सुगम होता है। इस उपकरण को किसी पेटी में रखना चाहिए ताकि इस पर हवा का झोका न लगे। पेटी के ऊपर बाहर निकला हुआ सकेतक डण्डी की स्थिति बताता है।



5. एक दूसरा निर्देश वायुदाब-मापी

कांच के छोटे बरतन के मुह पर पतला रबड़ खींच कर लगा दीजिए। रबड़ को जकड़े रखने के लिए उस पर एक धागा या डोर बांध दीजिए। डोर के नीचे के फालतू रबड़ को काट दीजिए और इस किनारे के नीचे घरेलू सीमेंट लगा कर रबड़ को अच्छी तरह चिपका दीजिए (घरेलू चेप—हाउसहोल्ड सीमेंट—भारतीय घरों में प्रयुक्त नहीं होता, परन्तु मोटरकार की भरमत करने की सामग्री बेचने वालों की दुकान से धातु पर कपड़ा आदि चिपकाने का सीमेंट खरीदा जा सकता है, जो रबर-सल्फूरान से बहुत गाढ़ा और अधिक चिप-चिपा होता है)। किसी छोटे काग के ऊपर से एक पंतली गोल कतरन काट लीजिए और उसे रबड़ के बोच में चिपका दीजिए। फिर एक लम्बी सीक या शरवत-नलिका को काग में सरेस से चिपका दीजिए। दियासलाई से एक छोटा-सा त्रिभुज

(स्फान या फनी) काट लीजिए और उसे बोतल के किनारे पर सरेस से चिपका कर उस पर सींक या शरबत-नलिका को टिका दीजिए। सींक के खुले सिरे के पीछे एक पैमाना बना कर रख दीजिए।



6. साइकिल पम्प को सहायता से वायुमण्डलीय दाब को नापना

साइकिल पम्प में वाशर को उलटा

च. यह दिखाना कि पम्पों में वायुदाब का उपयोग किस प्रकार होता है


1. विभिन्न वायुदाबों के कारण डिब्बे से पानी बलपूर्वक बहर कैसे आ जाता है

एक परीक्षण-नलिका में दो छेद वाली रबड़ की डाट लगाइए। एक छेद में एक कांच की नलिका लगाइए जो परीक्षण-नलिका के भीतर लगभग उसकी पेंदी तक पहुंच जाए। परीक्षण-नलिका में पानी डालिए और कांच की नलिका के ऊपरी सिरे में मुह लगा कर चूसिए। देखिए क्या होता है? तब रबड़ की डाट के खुले छेद को कस कर बन्द करिए और फिर कांच की नलिका में मुह लगा कर चूसिए। देखिए क्या होता है? दोनों में अन्तर क्यों है?

2. एक साधारण पिचकारी


कांच या धातु की नलिका से एक साधारण पिचकारी बनाइए (लोहे का पानी वाला पाइप या बिजलीवाहिनी नलिका से काम लीजिए)। दो काग और धातु की एक छोटी-सी छड़ भी चाहिए।

लटकाइए। अब इसे वायुमण्डलीय दाब नापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पम्प के बैरल की काट (क्रास-सेक्शन) के क्षेत्रफल का अनुमान या नाप किसी वर्गाक्षित कागज से नापा जा सकता है। तब वायुमण्डल की दाब को किलोग्राम/सेंटीमीटर में ज्ञात किया जा सकता है। वायुमण्डलीय उत्क्षेप (अपथ्रस्ट) कितना बोझ सम्भाल सकता है, इसका पता पम्प के हृत्ये में विविध भारों को लटका कर लगाया जा सकता है। भार लटकाने के लिए पम्प के हृत्ये में लकड़ी की डाट टोंक कर उसमें पेचदार हुक लगा देनी चाहिए।




च. यह दिखाना कि पम्पों में वायुदाब का उपयोग किस प्रकार होता है

जिस काग से पिस्टन का काम लेना हो, उस पर सूत या लत्ता लपेटना चाहिए ताकि वह पिचकारी में कस कर चले। दूसरे काग में छेद करके कांच या शरबत पीने की नलिका या बांस लगा देना चाहिए। इधर से पानी पिचकारी में घुसेगा।




3. उत्थापक पम्प

पिचकारी में थोड़ा-बहुत फेर-बदल करके एक साधारण उत्थापक पम्प बनाया जा सकता है। इसके लिए पिस्टन में तप्त सलाई से दो छेद करिए और इन छेदों के ऊपर चमड़े का एक पतला टुकड़ा या रबड़ लगा दीजिए। यह टुकड़ा कपाट (वाल्व) का काम करेगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तब कपाट बन्द हो जाएंगे, परन्तु उसके नीचे आते समय इन छेदों द्वारा पानी ऊपर चढ़ाया जा सकेगा।



4. लैम्प-चिमनी से बनाया गया उत्थापक पम्प

एक ऐसी चिमनी लौजिए जिसकी दीवारें सीधी हों अर्थात् चिमनी बेलनाकार हो। इसे पम्प के बेलन (सिलिण्डर) की तरह इस्तेमाल करिए। पिस्टन बनाने के लिए चिमनी में दो छेदों वाला एक काग लगाइए। यदि काग कुछ ढीला हो तो उस पर सूत या लत्ता लपेटिए ताकि वह कस कर चले। यदि काग कुछ बड़ा हो तो उसे रेगमाल (बालू के कागज) पर घिस कर छोटा किया जा सकता है। पिस्टन-छेद के लिए काग के एक छेद में लोहे या पीतल की छड़ डालिए। काग के दूसरे छेद के ऊपर रबड़ या पुराने जूते से काटे हुए नरम चमड़े का लचीला ढक्कन लगा दीजिए। यही पिस्टन का कपाट (वाल्व) होगा। इसे अपनी जगह पर टिकाने के लिए काग में एक छोटी कील ठोक दीजिए।




चिमनी के निचले सिरे में एक ऐसी डाट कसिए जिसमें एक छेद हो। इस छेद में 50 सेंटीमीटर लम्बी नलिका लगा कर कसिए। इस डाट के छेद के ऊपर भी रबड़ या नरम चमड़े का एक कपाट (वाल्व) लगाइए। यह पाद-कपाट (फुट वाल्व) हुआ। किसी बरतन में पानी डालिए। पिस्टन के ऊपरी भाग पर कुछ पानी डाल कर पम्प तैयार करिए। पिस्टन के ऊपर जाते और नीचे उतरते समय कपाटों को ध्यान से देखिए। वायुदाब किस प्रकार पम्प के काम में सहायता पहुंचाती है?

5. लैम्प-चिमनी से बनाया गया फ्लोसं-पम्प

ऊपर बताए गए उत्थापक पम्प में पिस्टन के बदले एक छेद वाली एक डाट लगाइए। इस छेद में पिस्टन दण्ड को कस कर लगाइए। चिमनी की पेंदी में दो छेद वाली डाट लगाइए। एक छेद में 50 सेंटीमीटर की कांच की नलिका लगाइए और उसके ऊपर एक कपाट (वाल्व)। अब की एक बोतल में दो छेदों की कांच वाली डाट कस कर लगाइए। प्रत्येक छेद में कांच की एक छोटी नलिका रहे, जो डाट की पेंदी की सतह तक ही पहुंचे। एक छेद पर कपाट (वाल्व) लगा दीजिए। पम्प को किसी बलयधानी में कस कर लगा दीजिए। पूर्वोक्त बोतल को भी उसी धानी पर आँधा कस दीजिए (अर्थात् उसका मुह नीचे रहे)। बलयधानी में दो सन्धर लगाइए —एक सन्धर बोतल की डाट की नीचे से पकड़ और दूसरा बोतल की गरदन को ऊपर से। इससे बोतल मजबूती से अपने स्थान पर टिकी रहेगी। अब पम्प की निकास-नलिका को (जिस पर कपाट नहीं है) बोतल की आगम-नलिका से (जिस पर कपाट है) रबड़-नलिका द्वारा जोड़िए। बोतल (दाब-कक्ष) की निकास-नलिका में नली का एक टुकड़ा लगा दीजिए, जिसके सिर पर तुण्ड (नाजल या जेट) रहे, उदाहरणार्थ दबा टपकाने की नलिका। पम्प में पानी डाल कर उसे काम के लिए तैयार करिए और देखिए कि आप पानी को कितनी दूर फेंक सकते हैं। कपाटों

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

को ध्यान से देखिए। काम करते समय पम्प में वायु किस प्रकार काम करती है? उत्थापक पम्प से यह पम्प किस प्रकार भिन्न है? इस पम्प का उपयोग किस काम के लिए किया जा सकता है?



छ. यह दिखाना कि साइफन में वायुदाब का क्या उपयोग होता है.


1. सरल साइफन

दो लम्बी बोतलें लीजिए और प्रत्येक को पानी से लगभग आधा भर दीजिए। अब तीस-तीस सेंटी-मीटर लम्बी दो कांच-नलिकाएं लीजिए और उन्हें 30 सेंटीमीटर लम्बी रबड़ अथवा प्लास्टिक की नलिका से आपस में जोड़ दीजिए। नलिका के पानी से भर दीजिए और चुटकी से (बीच में) दबा लीजिए। किनारे की दोनों कांच-नलिकाओं को एक-एक बोतल में डाल दीजिए। बोतलों की ऊंचाई घटा-घटा कर पानी को एक बोतल से दूसरी में साइफन करते रहिए। यदि स्याही से पानी को रंगीन कर दिया जाए तो प्रयोग अधिक अच्छा होता है। दोनों बोतलों को मेज पर रख दीजिए। क्या साइफन अब भी चालू है? आप समझ सकते हैं कि वायुदाब किस प्रकार साइफन के कार्य में सहयता पहुंचाती है?

6. परीक्षण-नलिका का फ्लोर्स-पम्प

इस उपकरण को बनाने के लिए एक परीक्षण-नलिका को पेंदी को छोटी लौ पर गरम करिए और फूंक कर एक छेद बना लीजिए। इस प्रकार की दो परीक्षण-नलिकाएं लीजिए और उनमें एक-एक छर्रा या गोली डाल कर कपाट बनाइए।


यदि भीतरी परीक्षण-नलिका पर सूत या लता लपेट दिया जाए और चित्र में दिखाए गए ढंग से उसमें काम और नलिका लगाई जाए तो वह फ्लोर्स-पम्प के पिस्टन का काम देगी। सूत लपेटने से भीतरी नलिका बाहरी नलिका के भीतर कस कर काम कर सकेगी।



2. साइफन का फव्वारा

कांच के बरतन में (पुरानी बिजली-बत्ती के बल्ब से काम चल सकता है) दो छेद वाली रबड़ की डाट लगाइए। एक छेद में चंचुमुखी नलिका (जेट ट्यूब) लगाइए, जो बरतन (बल्ब) के भीतर, उसकी आधी लम्बाई तक, पहुंच जाए और डाट के बाहर लगभग 2 सेंटीमीटर निकली रहे। दूसरे छेद में कांच-नलिका का छोटा टुकड़ा उतने ही नीचे तक डालिए कि उसका सिरा डाट की पेंदी की सतह तक ही पहुंचे परन्तु बाहर की ओर वह 2 सेंटीमीटर के लगभग निकला रहे। चंचुमुखी नलिका में एक 20 सेंटीमीटर लम्बी रबड़-नलिका जोड़ दीजिए। दूसरी नलिका में 1 मीटर लम्बी रबड़-नलिका जोड़िए। बरतन (बल्ब) में थोड़ा पानी डालिए, डाट लगाइए और रबड़-नलिका को मेज पर रखे पानी के बरतन में डाल दीजिए तथा लम्बी नलिका के सिरे को भूमि


पर रखी खाली बाल्टी में डाल दीजिए। यदि मेज पर रखे बरतन के पानी को स्याही से थोड़ा रंग दिया जाए तो फव्वारा अधिक अच्छा दिखाई पड़ेगा। आप एक दुहरा साइफन फव्वारा बना सकते हैं। इसके लिए एक दूसरे उपकरण को ठीक पहले जैसा बनाइए और दोनों को एक साथ सम्बद्ध कर दीजिए।



3. स्वयंचल (सेल्फ-स्टार्टिंग) साइफन

कांच अथवा प्लास्टिक की एक छोटी नलिका लीजिए, जिसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर और लम्बाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो। एक सिरे

में एक छेद बाली एक डाट लगाइए। इस छेद में एक छोटी कांच-नलिका लगाइए, जो डाट के नीचे भीतर की ओर लगभग 1 सेंटीमीटर निकली रहे। बड़ी नलिका के दूसरे सिरे पर दो छेद बाली डाट लगाइए। इन छेदों में से एक में एक चंचुमुखी नलिका लगाइए जो बड़ी नलिका के भीतर नीचे से धुस कर ऊपर के एक छेद बाली डाट में लगी नलिका के मुंह में चली जाए। एक छेद बाली डाट में लगी नलिका के बाहरी सिरे पर एक लम्बी रबड़ की नलिका जोड़ दीजिए। अब मेज पर पानी से भरी एक बाल्टी रखिए और इस उपकरण को उससे एकदम पूरा डुबा दीजिए और लम्बी रबड़-नलिका के दूसरे सिरे को भूमि पर रखी खाली बाल्टी में डाल दीजिए। कुछ समंजन (एडजस्टमेण्ट) करने के बाद साइफन अपने आप चालू हो जाएगा।



ज. संपीड़ित वायु के प्रभावों को दिखाना

1. वायु की पत्थास्थता (कमानी को तरह होने के गुण)

एक साइफिल पम्प लीजिए और उसकी निकास-नलिका के मुख पर अपना अंगूठा रखिए। अब पिस्टन को बलपूर्वक भीतर धुसा कर तुरन्त छोड़ दीजिए। क्या होता है? क्या कारण है?

2. संपीड़ित वायु वाला धाराकर्षण बनाना

एक बड़ी, परन्तु संकरे मुंह बाली, बोतल लीजिए, अथवा बैसी बोतलें जैसी सोडावाटर या लेमनेड की होती हैं। बोतल में एक छेद बाली डाट लगाइए। डाट के छेद में 10 सेंटीमीटर लम्बी

कांच-नलिका लगाइए और कांच-नलिका के सिरे को (तप्त करके और) खींच कर चंचुमुखी (जेट) बना दीजिए। चंचुमुखी नलिका के निचले सिरे पर एक छोटी रबड़-नलिका द्वारा दूसरी कांच-नलिका जोड़ दीजिए। दूसरी कांच-नलिका इतनी लघ्वी हो कि वह लगभग बोतल की धैदी तक पहुंच सके। बोतल में लगभग आवा पानी भर दीजिए। कस कर डाट लगा दीजिए और अपनी अंगूलियों से दबाए रहिए ताकि कहीं वह बाहर न निकल पड़े। अब बोतल के भीतर जौर से फूक मारिए। जब फूक मारना बन्द करें तो बोतल का मुंह अपने से दूसरी ओर रखिए। क्या होता है?



3. संरीड़ित वायु से फिटफिटो (पाप-गन)

1 या 2 मेंटीमीटर व्यास की और 15 या 20 मेंटीमीटर लम्बी कांच अथवा प्लास्टिक की सौधी नलिका लीजिए। पेसिल पर धागा लपेट कर पिस्टन बनाइए। पिस्टन नलिका में कस कर चले। नलिका के अन्त में छोटा काग लगा दीजिए और पिस्टन को शीघ्रता से भीतर धकेलिए।




4. संरीड़ित वायु की सहायता से बोझ उठाना

फुटबाल या बास्केट बाल का ब्लैंडर निकाल

ज्ञ. वायुदाव को घटाने वाले कुछ परिणामों को दिखाना—


1. वायु दाव की सहायता से पानी को उठाना
परीक्षण-नलिका में थोड़ा पानी डाल कर उसमें एक छेद वाला काग लगाइए। काग के छेद में कांच की नलिका लगाइए। अब पानी को उबालिए ताकि परीक्षण-नलिका की सब हवा निकल जाए। तब उसे इस तरह उलटिए कि उसका खुला मुँह किसी बरतन में रखे पानी की सतह के



लीजिए और उसे मेज पर रखिए। ब्लैंडर पर कुछ पुस्तकों को एक-पर-एक करके रख दीजिए और तब ब्लैंडर के भीतर हवा फूंकिए।

5. 'भड़क' बोतल (बर्प बाढ़ल)

एक बोतल या प्लास्टिक में एक छेद वाली डाट लगाइए और उसमें एक कीप लगा दीजिए। डाट को बोतल में अच्छी तरह कस दीजिए और तब



कीप में पानी छोड़िए। बोतल नियमित रूप से रह-रह कर 'भड़क' उठेगी।

नीचे हो जाए। वायुमण्डलीय दाव पानी को ऊपर फेंक देगी और परीक्षण-नलिका प्रायः भर उठेगी।

2. सरल निर्वात पम्प बनाना


साइकिल या मोटरकार का हाथ पम्प लीजिए। पम्प को खोल कर पिस्टन निकाल लीजिए। उस बोल्ट को खोल डालिए जो चमड़े के बाशरों को कसे रहता है। बाशरों को अब उलटी दिशा में लगाइए (अर्थात् कटोरीनुमा बाशर का मुँह, जो पहले नीचे था, अब ऊपर हो जाए)। पिस्टन पर बाशर कस दीजिए और उसे पम्प के सिलिंडर में डालिए। इस तरह का पम्प निर्वात (वैक्युम) सम्बन्धी कई-एक सरल प्रयोगों में काम देगा।

3. निर्वात से सम्बन्धित प्रयोगों के लिए संग्राही बनाना

कांच का एक बड़ा बरतन लीजिए, जिस पर एक

वायु और वायुदाब के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

वायु-अभेद्य पेचदार ढक्कन हो, उदाहरणार्थ वह जार जिसमें फन संरक्षित किए जा सकते हैं। ढक्कन में बर्मी से एक छेद करिए और उस छेद में धातु की छोटी-सी नलिका टांके से जलवा लीजिए किन्तु उसका जोड़ वायु-अभेद्य रहे। इस नलिका के नीचे वाले सिरे में कार के पहिए की भीतरी रबड़ नली के कपाट (वाल्व) को उल्टा करके जलवा लीजिए।



4. गुब्बारे से एक प्रयोग

रबड़ के एक छोटे-से गुब्बारे में कुछ हवा भरिए और उसका मुँह रबड़ के धागे से (या साधारण धागे से) बांध कर बन्द करिए। इस गुब्बारे को अपने संग्राही में रख दीजिए और पम्प की सहायता से कुछ हवा निकालिए।

5. मानव-शरीर में वायु

1. फेफड़े कैसे काम करते हैं

किसी बड़ी बोतल की पेंदी काट डालिए (पृष्ठ 281 पर इसकी विधि देखिए)। मुँह में काग कस कर लगाइए। काग में Y की आकृति वाली एक तीन-मुँही नलिका लगाइए। इस नलिका की शाखाओं पर रबड़ के छोटे-छोटे गुब्बारे या ब्लैंडर बांधिए।

बड़े बरतन की पेंदी पर मजबूत बादामी कागज या रबड़ की चादर बांध दीजिए। इसके बीच में एक महीन छेद रहे। उसमें धागा डाल कर गांठ लगा दीजिए और छेद को लाख से बन्द कर दीजिए। इस धागे को खींचने से पर्दा (अर्थात् पूर्वोक्त कागज या रबड़) नीचे खींच जाता है और

5. बोतल और काग से एक प्रयोग

एक शीशी को काग या रबड़ की डाट से कस कर बन्द कर दीजिए। इस शीशी को संग्राही के भीतर रख दीजिए और अपने पम्प की सहायता से कुछ हवा निकालिए। क्या होता है? इसका कारण क्या है?


6. वायुदाब को घटा कर पानी को चलाना

दो शीशियां लीजिए। एक पानी से आधी भरिए और इसमें एक छेद वाली डाट लगा दीजिए। छेद में कांच-नलिका लगाइए, जो लगभग शीशी की पेंदी तक पहुंचती हो। नलिका के बाहरी सिरे पर रबड़-नलिका जोड़ दीजिए और उसके दूसरे सिरे को दूसरी शीशी में डाल दीजिए। इन दोनों शीशियों को संग्राही के भीतर रखिए और पम्प से इनकी कुछ हवा खींच लीजिए। क्या होता है? इसका क्या कारण है? आप चाहें तो पानी को स्थाही से रंग सकते हैं।

7. गुब्बारे पर दूसरा प्रयोग

शीशी (या छोटी बोतल) के मुँह पर रबड़ का गुब्बारा खींच कर लगा दीजिए (और गुब्बारे के मुँह को धागे से कस कर बांध दीजिए)। उसे अब संग्राही में रखिए और पम्प से कुछ हवा निकाल लीजिए। क्या होता है? इसका क्या कारण है?

Y की आकृति वाली नलिका के मुँह से होकर हवा भीतर घुसती है तथा उससे गुब्बारे फूल जाते हैं।




विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर मन्त्र

पर्दे को ऊपर की ओर दबाने का परिणाम उल्टा होता है।

2. फेफड़े के भीतर की वायु के आयतन को नापना

एक बोतल में पानी भर कर उसको इस प्रकार उलटिए कि उसका मुँह बालटी (या अन्य बरतन) में रखे हुए पानी की सतह के नीचे हो जाए। कांच या रबड़ की नलिका का एक सिरा बोतल के भीतर डाल दीजिए और पूरा सांस खींच कर बोतल के भीतर अपने फेफड़ों की पूरी हवा फूंक दीजिए।



बालटी अथवा अन्य बरतन में पानी डाल कर अथवा बोतल को और नीचे डुबा कर ऐसी व्यवस्था करिए कि बोतल के भीतर की वायु-दाब वायुमण्डल की दाब के बराबर हो जाए (अर्थात् भीतर और बाहर के पानी के तल एक


3. वायु के कुछ रासायनिक गुणों का अध्ययन

1. इस्पात का धूआ (स्टील बूल, जो लोहे को खराद पर काटने से उत्पन्न होता है) लीजिए और उसे दबा कर एक गोली बना लीजिए। गोली पर लगे हुए तेल को साफ करने के लिए उसे पैट्रोल, बेनजीन या कार्बन टेक्ट्राक्लोरोइड (कार्बोन) में धो डालिए। उसे निचोड़ लीजिए और तब खींचतान कर उसे कुछ बड़ा कर लीजिए या फुला लीजिए। जब वह सूख जाए तो उसे एक फ्लास्क में रख दीजिए, जिसमें एक छेद की डाट लगी हो। छेद में 40 सेंटीमीटर लम्बी कांच की नलिका लगी रहे। इस फ्लास्क और नलिका को पानी की बोतल में इस तरह खड़ा कर दीजिए कि नलिका का मुँह पानी में डूबा रहे। कुछ घंटे तक देखते रहिए। क्या होता है? इसका कारण क्या है?

समतल में आ जाए। बोतल के पाश्वं पर एक चिप्पी चिपका दीजिए। बोतल को उठा लीजिए और इसकी नाप करिए कि इस चिह्न तक भरने के लिए जितना पानी आवश्यक होगा, उसका आयतन कितना होगा।

3. सांस छोड़ने समय जो वायु निकलती है, उसमें कार्बन डाइ-आक्साइड होती है

दो फ्लास्कों को इस प्रकार सम्बद्ध किया जाता है कि जब आप T आकृति वाली नली द्वारा सांस लेते या छोड़ते हैं तो सारी हवा फ्लास्कों में रखे हुए चूने के पानी में बूलबूले छोड़ती हुई आती या जाती है। एक नलिका को सांस लेते समय अंगुली से बन्द कर दिया जाता है और दूसरी को सांस छोड़ते समय।




इस्पात का धूआ



2. ऊपर के प्रयोग को फिर से करिए, परन्तु इस बार इस्पात के घूए को परीक्षण-नलिका या छोटे बरतन की पेंदी में ठूस दीजिए और परीक्षण-नलिका आदि को पानी में अंधा कर दीजिए। 24 घंटे तक पड़ा रहने दीजिए। आप क्या देखते हैं? परीक्षण-नलिका (या छोटे बरतन) की कितनी हवा निकल जाती है या उसमें कहाँ तक पानी चढ़ जाता है? प्रयोग के बाद इस्पात के घूए का रूप कैसा हो गया? ऐसा क्यों हुआ?



3. लोहे की कील या कांटी को कपड़े में बांध कर लैम्प-चिमनी के ऊपरी किनारे में लगे हुए काग से लटका दीजिए। चिमनी को पानी की तरतीर में खड़ा रखिए। कुछ समय बाद पानी नलिका में चढ़ जाएगा।



4. इस्पात की पटरी या लोहे की छड़ को छुरी की धार पर सन्तुलित करिए, एक सिरे पर पीतल का बटखरा या पत्थर रखना चाहिए। इसे कुछ दिनों तक नम वायु में (या बरसात में) खिड़की के पास रख छोड़िए और यह देखिए कि उत्तोलक (लिवर) की लम्बी भुजा पर ज़ंग लगने का क्या परिणाम होता है।


5. यह सिद्ध करना कि किसी भी वस्तु के जलने के लिए आक्सीजन आवश्यक है, जटिल उपकरणों की सहायता के बिना साध्य नहीं होता। तो भी अनेक प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध होता है कि दहन (कम्बस्चन) जारी रखने के लिए ताजी हवा बराबर देते रहना आवश्यक है। यदि इन प्रयोगों के परिणाम सावधानी से निकाले जाएं और उनके आधार पर बहुत व्यापक नियम न बनाए जाएं तो ये प्रयोग वैज्ञानिक प्रवृत्ति बनाए रखेंगे और सन्तुलित विचार करने के स्वभाव के विकास में सहायता पढ़ूंचाएंगे। जब उपयुक्त पृष्ठभूमि इस प्रकार स्थापित हो जाए तो दहन में आक्सीजन का काम समझाया जा सकता है।

कई मोमबत्तियाँ लीजिए और इनको खड़ी रखने के लिए उनमें गत्ते की पेंदी लगा दीजिए। इसके लिए नई प्रथा पुरानी मोमबत्ती के दो-दो या तीन-तीन इंच के टुकड़े कर डालिए और प्रत्येक के एक सिरे को छील दीजिए, जिससे बत्ती लगभग चौथाई इंच बाहर निकल जाए। एक मोमबत्ती जलाइए और उसे तिरछा करके रखिए, जिससे पिघला मोम टपक पड़े। गत्ते के टुकड़ों के बीचों-बीच तीन-तीन या चार-चार बूंद मोम टपकाइए। जब तक मोम कड़ा न हो जाए, छोटी मोमबत्तियों को इन पर दबाए रहिए।

गत्ते पर जमाई गई एक मोमबत्ती को जला कर उस पर कांच का कोई बरतन उल्टा रख दीजिए। जब बत्ती बुझ जाए तो छाँतों से पूँछिए कि इससे क्या परिणाम निकला। ऐसे निष्कर्षों को न स्वीकार करिए, जिनको प्रत्यक्ष साधनों से सिद्ध न किया जा सके। जब कई निष्कर्ष सुन्नाए जा चुके तो उन्हें इस परिणाम का कारण यह बताइए कि मोमबत्ती छोटें-से बन्द स्थान में जलती हुई नहीं रह सकती।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

6. चार छात्रों से कहिए कि जैसे ही उन्हें संकेत मिले, वे कांच के चार बरतनों को चार जलती हुई मोमबत्तियों पर औंधा रख दें। बरतन छोटे से लेकर बड़े तक हों, जैसे आधे पाइंट का, एक पाइंट का, एक क्वार्ट का और एक गैलन का; या इसी प्रकार कोई अन्य माप-क्रम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकालने में शिक्षक और छात्रों को सावधानी बरतनी चाहिए।



7. किसी कम गहरे बरतन की पेंदी में मोम पिघला कर उसमें मोमबत्ती चिपकाइए। बरतन में 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तक पानी डालिए। मोमबत्ती को जला कर उस पर छोटा, सीधी दीवारों वाला कांच का बरतन औंधा रख दीजिए। जब प्रयोग समाप्त हो जाए तो पैमाने से देखिए कि पानी कितना ऊपर चढ़ा है। विभिन्न तापों के बरतनों से इस प्रयोग को बार-बार करिए। आप क्या देखते हैं? इसका क्या कारण है?

8. एक छोटी प्रज्ज्वलन-नलिका (इग्निशन ट्यूब) (अथवा साधारण छोटी नलिका का एक सिरा बन्द करके 5 सेंटीमीटर की एक परीक्षण-नलिका बना लीजिए) में आधी दूरी तक पोटासियम परमैग्नेट भर दीजिए। इसमें निकास-नलिका (डिलिवरी ट्यूब) जोड़ने के बाद इसे खूब तप्त कीजिए। इससे आक्सीजन गैस निकलेगी, जिसे गहरी तरशीरी (या थाली) के पानी के ऊपर संचित किया जा सकता है।



9. पांच भाग पोटासियम क्लोरेट और एक भाग मैग्नीज डाइ-आक्साइड मिला कर उसी

उपकरण में गरम करने से भी, जिसका उपयोग प्रयोग-8 में किया गया था, आक्सीजन बनाई जा सकती है।

10. एक 100 मिलीलिटर की बोतल लीजिए और उसमें लगभग 25 मिलीलिटर हाइड्रोजन पराक्साइड डालिए (साधारण दवाखानों वाला, या—विदेश में—विसातियों के यहां बिकने वाला पराक्साइड अच्छा काम देता है, परन्तु केश को विरंजित करने के लिए जिस पराक्साइड से काम लिया जाता है, उससे अधिक आक्सीजन निकलती है)। बोतल में एक चम्मच मैग्नीज डाइ-आक्साइड भी डालिए और ढीला काग लगा कर उसे कुछ मिनटों तक पड़ा रहने दीजिए। जो नन्हे नन्हे बुलबुले पराक्साइड से उठते हैं, वे आक्सीजन के हैं।

इसकी परीक्षा के लिए कि बोतल के भीतर की गैस आक्सीजन है या नहीं, एक लम्बी-सी सींक लीजिए और उसका तिरा जला कर ज्वाला को बुझा दीजिए। बोतल से काग हटा दीजिए और सुलगती हुई सींक को बोतल के भीतर की गैस में डालिए। सींक की लौ अधिक प्रज्ज्वलित हो जाएगी।

हाइड्रोजन पराक्साइड से आक्सीजन निकालने के लिए मैग्नीज डाइ-आक्साइड के बदले साधारण बैरिंग सोडे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। परन्तु इसकी प्रतिक्रिया में कुछ समय अधिक लगता है (बैरिंग सोडा एक पाउडर है, जिसमें क्रीम औफ टार्टार और सोडियम बाइकार्बोनेट आदि पड़ा रहता है और पाव रोटी बनाने के मैदे में यीस्ट के बदले बहुधा बैरिंग सोडा भी डाला जाता है)।




11. लोहे के बहुत महीन तारों को ऐंठिए और उस सिरे को ली में तब तक गरम करिए जब तक कि वह चमकने न लगे। तब इसे तुरन्त आक्सीजन-सी बोतल में डाल दीजिए और देखिए कि लोहे के तार कैसे जलने लगते हैं। यदि तार के सिरे पर ज़रा-सा पिसा गन्धक लगा दिया जाए तो तार आग जल्द पकड़ेगा।

12. धातु की तश्तरी में थोड़ा-सा इस्पात का महीन धूआ (स्टील वूल) रखिए और दिया-सलाई से उसमें आग लगाइए। इस्पात जलने लगेगा क्योंकि यह बहुत बारीक धजियों के रूप में है और आक्सीजन-सी, जो वायु में व्याप्त रहती है, इस धूए के अधिक-से-अधिक तल को स्पर्श करती है।

13. तार के सिरे पर थोड़ा इस्पात का धूआ बांधिए। किसी ज्वाला में रख कर उसमें आग लगाइए और तब इसे तुरन्त आक्सीजन की बोतल में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि हवा की अपेक्षा आक्सीजन में यह अधिक शीघ्रता से जलता है।

14. कार्बन डाइ-आक्साइड को बर्किंग सोडा या संगमरमर की छर्री तथा तनु अम्ल (डाइल्यूट) से तैयार किया जा सकता है। इसको संचित करने का ढंग यह है कि गैस को सूखी बोतलों या डिब्बों में जाने दिया जाए और तब उनके मुँह को गत्ते से ढक दिया जाए।



15. एक जलती हुई सींक (या लकड़ी) को कार्बन डाइ-आक्साइड से भरी बोतल में डालिए। क्या कार्बन डाइ-आक्साइड गैस चीजों का जलने में सहायता देती है?

16. कांच के अमृतबान में पिछली भोम सहित एक भोमबत्ती रखिए। भोमबत्ती को जलाइए और जलती भोमबत्ती वाले अमृतबान में एक-दूसरे अमृतबान में कार्बन डाइ-आक्साइड उड़ेंगिए। इससे कार्बन डाइ-आक्साइड के घनत्व के बारे में क्या पता लगता है?

17. थोड़ा चूना लीजिए और उसे पानी में चला कर चूने का साफ पानी तैयार करिए। मिश्रण को एक दिन तक स्थिर पड़ा रहने दीजिए और उसके ऊपर के स्वच्छ पानी को साइफन द्वारा निकाल लीजिए। इसों को चूने का पानी कहते हैं। प्रयोग-14 में प्रयुक्त जनिन्ह (जेनेरेटर) की सहायता से कुछ कार्बन डाइ-आक्साइड को स्वच्छ चूने के पानी में से बुलबुला छोड़ते हुए निकलने दीजिए। आप क्या देखते हैं? कार्बन डाइ-आक्साइड की उपस्थिति जानने के लिए इसके द्वारा रासायनिक परीक्षण किया जाता है।

18. कांच के बरतन के भीतर एक भोमबत्ती जलाइए। जब वह बुझ जाए तो उसे बाहर निकाल लीजिए और बरतन में थोड़ा चूने का पानी डालिए। बरतन को अच्छी तरह हिलाइए और ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं? भोमबत्ती के जलने से जो पदार्थ बने हैं, उनमें से एक पदार्थ क्या है? जलती लकड़ी या कागज का इस्तेमाल करके प्रयोग को दोहराइए।

19. जलती हुई भोमबत्ती, जलती लकड़ी और जलते कागज को ठण्डे चमकार बरतन के सम्पर्क में (थोड़ी देर के लिए) आने दीजिए। आप क्या देखते हैं? बरतन पर दिखाई पड़ने वाला पदार्थ क्या हो सकता है? एक पतीली में ठण्डा पानी रख कर और उसको पेंदी को पोंछ कर पतीली को गैस या मिट्टी के तेल के स्टोव पर रखिए। क्षण भर के बाद उसे आंच से उतार कर उसकी पेंदी देखिए। जलती भोम, लकड़ी या कागज से एक अन्य पदार्थ क्या बनता है? क्या यह भी वही पदार्थ है?

20. अग्निशमक यन्त्र की एक प्रतिकृति स्थाही की शीशी लेकर बनाइ जा सकती है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ


शीशी में कान और नलिका लगा दीजिए और सोडियम कार्बोनेट के धोल से इसे आधा भर दीजिए। अब दवा की गोलियों वाली एक छोटी शीशी में सलफ्यूरिक अम्ल रखिए और उसे सावधानी से पुर्वाक्त धोल में तैरा दीजिए।

जब यन्त्र को चलाना हो तो बोतल को हिलाइए। इससे अम्ल बाह्यकार्बोनेट में मिल जाएगा और कार्बन डाइ-आक्साइड गैस निकलने लगेगी।

अम्ल के बदले अगर अस्मीनियम सलफेट

ठ. वायुधाराओं से सम्बन्धित प्रयोग

(से भी काम चल जाएगा)।




जब हवा बह रही हो तो जिस ओर धारा का वेग अधिक हो, वहाँ वायुदाब कम, और जिधर वेग कम हो, वहाँ वायुदाब अधिक होती है। निम्नलिखित प्रयोग इसी सिद्धान्त पर आधित हैं :

1. दो सेब, नारंगी या पिंग-पांग खेलने की गेंदों को तांगों से लटका दीजिए। धारा कम-से-कम एक सेंटीमीटर लम्बा रहे। लटकाई गई वस्तुएं एक ही ऊंचाई में रहें और उनके बीच की दूरी 10 या 15 सेंटीमीटर हो। इन वस्तुओं के बीच वायु की एक वेग की धारा बराबर बहाइए और देखिए कि क्या होता है। वायु की धारा सबसे अधिक वेग से कहाँ बह रही थी? दाब कहाँ कम हुई? आपने जो देखा, उसका कारण क्या है?

2. कीप के भीतर एक पिंग-पांग की गेंद रखिए। कीप की निचली नलिका मुँह में लगा कर जोर से हवा फूंकिए और चेष्टा करिए कि गेंद उड़ जाए। कीप को उलट दीजिए और अंगुली से सहारा देकर गेंद को उसी के भीतर कर दीजिए। कीप की नलिका में जोर से हवा फूंकिए और देखिए कि नीचे से हाथ का सहारा हटा लेने से क्या होता है। गेंद को मेज पर रखिए। उसे कीप से ढक दीजिए। कीप-नलिका में हवा फूंकिए और देखिए कि इस प्रकार आप गेंद को मेज पर से उठा सकते हैं या नहीं। जो कुछ आपने देखा, उसका क्या कारण हो सकता है? (यदि पिंग-पांग की गेंद न मिले तो प्लास्टिक की हल्की गेंद

का उपयोग किया जाए और विशेष कर यदि उसमें थोड़ा साबुन का धोल भी मिला दिया जाए, तो उससे फेन निकलता है।




3. 20 सेंटीमीटर \times 10 सेंटीमीटर के पतले गते या कड़े कागज से एक पुलिया बनाइए। इसके लिए प्रत्येक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़े भाग को नीचे की तरफ मोड़ दीजिए। इस पुलिया को मेज पर रखिए और मेहराब में से फूंक कर इसे उड़ाने की चेष्टा करिए। जितने ही जोर से आप फूंकेंगे, उतने ही अधिक जोर से यह मेज पर चिपकेगा।


4. पतले गते या कार्ड से लगभग 7 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा काटिए। कोनों को रेखाओं से मिलाइए, अर्थात् वर्ग के विकर्ण लीचिए, और जिस स्थान पर ये मिलें, वहाँ एक साधारण पिन कार्ड के आर-पार खोंस दीजिए। पिन के सर पर चिपकाऊ फीता लगा कर उसे निश्चल कर दीजिए। धारे की खाली रील पर इसे इस तरह रखिए कि कार्ड की पिन रील के छेद में खली जाए। छेद में बलपूर्वक फूंक कर कागज

वायु और वायुदाब के लिए प्रयोग और सामग्री


को रील से उड़ाने की चेष्टा करिए। रील और कार्ड को उलट दीजिए। एक अंगूली से सहारा बेकर कार्ड को रील से हल्के-से चिपकाए रखिए। रील में हवा फूंकिए और अंगूली को हटा लीजिए। जो कुछ आप देखते हैं, उसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे?



5. एक मोमबत्ती जलाइए। इसे लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़े गते के पीछे रखिए। कार्ड पर जोर से फूंकिए और देखिए कि ज्वाला किधर जाती है। आप जो देखते हैं, उसका क्या कारण बताएंगे?




6. मेज पर जलती हुई मोमबत्ती रखिए। उसके सामने एक (बेलनाकार) बोतल रखिए। बोतल पर जोर से फूंकिए और देखिए कि ज्वाला किधर जाती है।




7. एक कीप को वैक्युम स्वीपर या किसी ऐसे पात्र के ऊपर रखिए जिसमें संपीड़ित वायु भरी हुई हो (वैक्युम स्वीपर न मिले तो लोहार की भाई भी ले सकते हैं)। गुब्बारे

को फूंक कर फुला लीजिए और उसकी गरदन पर थोड़ा तांबे का तार लपेट कर उसे भारी कर दीजिए। संपीड़ित वायु चालू कर दीजिए और वायुधारा में गुब्बारे को सन्तुलित करिए। गुब्बारे और कीप के बीच एक पिंग-पांग गेंद को भी सन्तुलित करने की चेष्टा करिए।



8. कांच की दो नलिकाएं अथवा शरबत पीने की दो पारदर्शी नलिकाएं लीजिए। एक नलिका को पानी से आधे भरे गिलास में रखिए। दूसरी नलिका को इस तरह कहीं लगाइए कि वह पहले वाली नलिका के समकोण रहे। दोनों के मुह के कार एक-दूसरे को छते रहें। समतल नलिका में मुह लगा कर फूंकिए और दूसरी नलिका में पानी के स्तर को देखते रहिए। क्या हुआ? इसका क्या कारण है? कणीकारक (ऐटोमाइजर), डी० डी० टी० (कीटनाशक) का छिड़काव करने का यन्त्र या रोगन-फुहार (पेट स्प्रेयर) भी इसी सिद्धान्त पर काम करता है।



9. कागज की लगभग 30 सेंटीमीटर लम्बी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक पट्टी लीजिए। पट्टी के एक सिरे से लगभग 4 सेंटीमीटर हट कर कागज को मोड़ दीजिए। मोड़ का चिह्न अच्छी

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

तरह पड़ जाए। अब छोटे मुड़े भाग को अपनी छुड़ी से सटा कर रखिए, मोड़ की रेखा लगभग आपके होठों की ऊंचाई पर रहे। कागज के ऊपरी सतह पर ज़ोर से फूंकिए और देखिए कि क्या होता है। इसका प्राप क्या कारण बताते हैं?

फूंक भारो →



10. तेज चलती मोटरकार में से हाथ बाहर निकालिए, हथेली क्षैतिज रहे। तब हथेली को थोड़ा ऐंठिए, जिससे हथेली के सामने वाला भाग

जरा ऊपर उठ जाए। अब वायुधारा आपकी हथेली को ऊपर उठाना चाहेगी।

11. चित्र में दिखाई गई रीति से कागज के एक टुकड़े को मोड़ कर और चिपका कर उसे वायुयान के पंख का-सा रूप दे दीजिए। इस कागज में पेसिल या अन्य कोई चिकनी पतली बेलनाकार बस्तु डाल कर कागज को लटकने दीजिए। हवा की धार इस प्रकार फूंकिए कि वह अगले (मोटे) सिरे पर पड़े। आप क्या देखते हैं? क्या आप उठने का कारण समझा सकते हैं?

फूंक भारो →



मौसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. मौसम सम्बन्धी यन्त्र और मौसम प्रेक्षणालय बनाना


मौसम एक ऐसा विषय है जिससे हर एक बालक भलीभांति परिचित रहता है। प्राइमरी स्कूलों की छोटी कक्षाओं में प्रति दिन मौसम का अध्ययन किया जा सकता है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए तो कक्षा में ही एक सरल मौसम प्रेक्षणालय बनाया जा सकता है। सामान्य विज्ञान का अध्ययन करते समय और उसके बाद मौसम सम्बन्धी घटनाओं के कारणों का अधिक व्यौरे-वार अध्ययन किया जा सकता है।

1. निर्द्वंद्व वायुदाब-मापी


एक सरल निर्द्वंद्व वायुदाब-मापी लकड़ी के छोटे बक्स, जैसे सिंगार बक्स, में अच्छी तरह आ सकता है। जिस और ढक्कन के कब्जे लगे हुए हैं, उस तरफ की बगल में 1 सेंटीमीटर व्यास का छेद करिए। दावसूचक उपकरण के रूप में पृष्ठ 105 पर प्रयोग ड-5 में बताए गए कांच के बरतन का उपयोग किया जा सकता है। बरतन के मुंह पर एक पतला रबड़ खींच कर लगा देना चाहिए। इससे कुछ अच्छा यन्त्र प्लास्टिक या टीन की तेलदानी (आयल कैन) से बनाया जा सकता है।

तेलदानी को दबाइए ताकि उसके भीतर की कुछ हवा बाहर निकल जाए, और तब उसके सिरे को (यदि प्लास्टिक की तेलदानी हो तो प्लास्टिक सीमेंट से और यदि टीन की तेलदानी हो तो टांके से) बन्द कर दीजिए। दावसूचक उपकरण को पूर्णतया वायु-अमेद्य होना चाहिए, इसलिए, जब सीमेंट अथवा टांका कड़ा हो जाए तो तेलदानी को पानी में डुबा कर और दबा कर जांच करिए कि कहीं से हवा आती तो नहीं। यदि कोई ऐसा स्थान दिखाई पड़े तो कुछ हवा को दबा कर निकालने के बाद रन्ध्र को जोड़ दीजिए। इस दावसूचक उपकरण को बक्स के भीतर चेप (घरेलू सीमेंट) से इस प्रकार चिपका दीजिए कि उसके गोल भाग का

केन्द्र ठीक उस छेद के नीचे पड़े जो आपने बक्स की बगल में बनाया है।




30 सेंटीमीटर लम्बे (माझीदार) धागे को दियासलाई के एक छोटे टुकड़े में बांधिए और उस टुकड़े को दावसूचक उपकरण में चेप से चिपका दीजिए। किसी टीन के डिब्बे से लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 9 या 10 सेंटीमीटर लम्बी एक टीन की पट्टी काटिए। पट्टी के दोनों सिरों को समकोण बनाते हुए इस तरह मोड़िए कि दोनों सिरे लगभग 1.5 सेंटीमीटर लम्बे रहें।



पट्टी के दोनों ओर मुड़े सिरों में ऊपरी किनारों से कुछ हट कर बीच में कील से छेद कर दीजिए। ये छेद इतने बड़े हों कि उनके भीतर छोटी

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

कील या बुनने की पतली सलाई सुगमता से धूम सके। इस कील या सलाई के एक सिरे पर संकेतक (प्वाइण्टर) का काम करने के लिए सरेस से एक सींक चिपका दीजिए। अब धातु की पट्टी को बक्स के माथे पर इस तरह जड़िए कि कील या सलाई की धुरी छेद के ठीक ऊपर रहे। सींक सिगार की पीठ पर धमे परन्तु उसे स्पर्श न करे।




अब दाबसूचक उपकरण में लगे धागे के सिरे को छेद में डाल कर ऊपर निकाल लीजिए। उसे सलाई या कील पर कई बार लपेट कर उसके सिर को रबड़ के छल्ले में बांध दीजिए। यह ध्यान रहे कि दाबसूचक उपकरण से धुरी तक लगा हुआ धागा तना रहे। रबड़ को केवल इतना ही खींचिए कि धागे में थोड़ा तनाव आ जाए और तब उसके सिर को सिगार बक्स के एक किनारे एक छोटी कील गाढ़ कर उसमें बांध दीजिए। सम्भव है तनाव को घटाना-बढ़ाना पड़े।

एक पैमाना बनाइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और उसे संकेतक के नीचे सिगार बक्स के ऊपर चिपका दीजिए। ऐसी व्यवस्था करिए कि संकेतक इस तरह स्थित हो जाए कि वह पैमाने के बिल्कुल बीच में रहे। अपने इस वायुदाब-मापी को ऐसे स्थान पर रखिए जहां से आप इसे पढ़ सकें। जब संकेतक अपनी स्थिति बदले तो रबड़ के तनाव को इस तरह घटाइए-बढ़ाइए कि संकेतक पैमाने पर उचित रीति से चले। पैमाने के दोनों ओर उचित दिशा में 'बृद्धि' और 'कमी' लिख दीजिए। यह वायुदाब-मापी बहुत सूक्ष्मदर्शी होता है और वायुदाब के परिवर्तनों को स्पष्ट सूचित

करता है। निर्देश वायुदाब-मापी के अन्य प्रकारों के लिए अध्याय-7 पृष्ठ 104 देखिए।

2. वात-दर्शक

वात-दर्शक वायु-प्रवाह की दिशा बताता है। 25 सेंटीमीटर लम्बा और चारों तरफ 2 वर्ग सेंटीमीटर छोड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा लीजिए। इसके दोनों सिरों में आरी से 6 सेंटीमीटर गहरा चीर लगा दीजिए।



इसके बाद लकड़ी का एक पतला टुकड़ा लीजिए, जो 10 सेंटीमीटर लम्बा हो और पूर्वोक्त चीरों में कस कर बैठे। इसके दो दुड़के करिए, जिनमें से एक का आकार तीर के अग्र भाग की तरह और दूसरा तीर की पूँछ के समान हो। चित्र देखिए।




वात-दर्शक के सिर और पूँछ को पूर्वोक्त चीरों में लगा दीजिए और उन्हें या तो सरेस से या छोटी कीलों से जड़ दीजिए।

अब इस वात-दर्शक को छुरी की नोक पर सन्तुलित करिए और उस स्थान पर चिह्न लगा दीजिए जहां वह सन्तुलित होता है। इसके बाद एक ड्रापर (दवा टपकाने वाली नलिका) का कांच वाला भाग और उसके छोटे मुँह को स्पिरिट लैम्प अथवा गैस-ज्वाला में धुमा कर बन्द कर दीजिए। वात-दर्शक के सन्तुलन-विन्दु पर उसकी मोटाई की तीन-चौथाई दूरी तक एक छेद कर दीजिए, जो ड्रापर से थोड़ा बड़ा हो। ड्रापर नली के छोटे सिरे को वात-दर्शक के छेद में डाल दीजिए और सरेस या पुटीन से उसे ठीक ढंग से जोड़ दीजिए।

अपने वात-दर्शक का आधारदण्ड बनाने के लिए कोई नरम लकड़ी लीजिए जो एक मीटर लम्बी


मौसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

हो। उसके आविरी सिरे में एक छोटी कील गाड़ दीजिए। कील के सिरे को रेती से नुकोला करिए। ड्रापर नली को इस कील पर रख दीजिए और अपने वात-दर्शक को किसी मकान के ऊपर या बल्ली पर लगाइए, जहां उसे सब दिशाओं से हवा लग सके।




3. पवन बेगदर्शी

हल्की लकड़ी के 50 सेंटीमीटर लम्बे और 1 सेंटीमीटर चौड़े के दो टुकड़े लीजिए। प्रत्येक टुकड़े के ठीक बीच में 1 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 0.5 सेंटीमीटर गहरा खांचा काटिए।



फिर इन खांचों को एक-दूसरे में ठोंकिए, जिससे उनका आकार स्वस्तिक भुजा के समान हो जाए।



ड्रापर नली का कांच लीजिए और उसके छोटे सिरे के मुह को गैस या स्पिरिट की ज्वाला में घुमा कर बन्द कर दीजिए। स्वस्तिक भुजाओं के ठीक बीच में तीन-चौथाई गहराई तक एक छेद करिए और उसमें ड्रापर नली को सीमेंट या पुटीन से मजबूती से जड़ दीजिए। सिगरेट के चार टिन या प्लास्टिक की चार छोटी कटोरियां लीजिए और उन्हें स्वस्तिक भुजाओं के सिरों पर छोटी कीलों या पेंचों से जड़ दीजिए। ध्यान रहे कि इन

कटोरियों (या तश्तरियों) के मुह एक ही दिशा में रहें। इस उपकरण के लिए भी ठीक उसी प्रकार आधार बना दीजिए जिस प्रकार वात-दर्शक के लिए बनाया गया था। छड़ी के सिरे पर कील ठोंकिए और रेती से उसे नुकोला कर लीजिए।


यह पवन बेगदर्शी हवा में धूमने लगेगा। तीस सैकंड में वह जितनी बार धूमे उसमें पांच का भाग देकर आप यह मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि हवा की चाल प्रति घंटा कितने मील है। यदि किलोमीटरों में जानना हो तो 0.62 से फिर भाग देना चाहिए।

पवन का बेग जानने के लिए एक दूसरी रीत यह है कि किसी शान्त दिन में (जब हवा न बह रही हो) आप किसी के साथ मोटरकार में कहीं जाइए। खिड़की से अपने बेगदर्शी को बाहर निकालिए और मोटर चालक से कहिए कि वह 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चले। इस रफ्तार में बेगदर्शी 30 सैकंड में जितनी बार धूमे उस संख्या को गिनिए। मोटर की रफ्तार 10, 15, 20, 25, 30, 40, इत्यादि मील प्रति घंटा करा कर इस किया को दोहराइए।

अपने पवन बेगदर्शी को ऐसे स्थान में लगाइए जहां इसे सब ओर से पूरी हवा लग सके।

4. बृष्टिमापी

एक कीप, बोतल तथा पानी के आयतन को नापने वाले बेलनाकार भाषक की सहायता से



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आंकर ग्रन्थ

बड़ी सुगमतापूर्वक एक सरल वृष्टिमापी बनाया जा सकता है।

कीप की कोर या तो तीक्ष्ण और ऊर्ध्वाधर हो अथवा उसमें समतल ओष्ठ (लिप) हो, जिससे वर्षा की बूदें छटक कर बाहर न जाने पाएं। इस पूरे उपकरण को भूमि में गाड़ देना चाहिए ताकि कीप भूमि के स्तर से केवल एक-दो सेंटीमीटर ही ऊपर रहे।

5. एक दूसरे प्रकार का वृष्टिमापी


टीन का एक बड़ा डिब्बा लीजिए, जिसका व्यास लगभग 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई लगभग 14 सेंटीमीटर। प्रायः ऐसे किसी भी डिब्बे से काम चल जाएगा। फिर एक बेलनाकार शीशी लीजिए, जिसका व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई कम-से-कम 25 सेंटीमीटर हो (जैतून का तेल अक्सर इसी प्रकार की बोतलों में मिलता है)। इसे टीन के डिब्बे के भीतर खड़ा रखना पड़ेगा। बड़े डिब्बे को एक समतल मेज पर रखिए और उसमें इतना पानी डालिए कि पटरी से नापने पर उसकी ऊंचाई ठीक 1 सेंटीमीटर हो जाए। अब लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की एक पट्टी लीजिए और उसे सीधे पाश्व बाली लम्बी शीशी पर लम्बाई में चिपका दीजिए। तब बड़े डिब्बे के पानी को लम्बी शीशी में डाल दीजिए और कागज की पट्टी पर उस जगह चिह्न लगा दीजिए जहां तक लम्बी शीशी में बड़े डिब्बे का 1 सेंटीमीटर पानी पहुंचता है। लम्बी शीशी की भीतरी पेंदी से लेकर इस चिह्न तक की दूरी को नापिए और उसके ऊपरी सिरे तक इसी के बराबर दूरियां नापते जाइए। चिह्नों के बीच की दूरियों को दस बराबर भागों में बांटिए, जिससे मिलीभी दर भी नापे जा सके। छोटा बरतन वर्षा की कम मात्रा को ही नाप सकेगा।

वृष्टिमापी तैयार करने के लिए लम्बी शीशी में एक कीप रखिए। कीप के मुह का व्यास ठीक बड़े बरतन के व्यास के बराबर होना चाहिए और तब दोनों को बड़े डिब्बे में रख दीजिए। वृष्टिमापी को किसी खुली जगह में रखिए जहां

उसके लुढ़कने का डर न रहे। यदि हल्की वर्षा होगी तो वह अकेले छोटे बरतन में नापी जा सकेगी परन्तु यदि अधिक वर्षा होगी तो फालतू पानी बह कर बड़े बरतन में पहुंच जाएगा और तब उसे छोटे बरतन में उडेल-उडेल कर नापा जा सकता है। यदि वर्षा को इंचों में नापना हो तो बड़े बरतन में एक इंच पानी डालिए और तब उसे लम्बी शीशी में उडेनिए। चिह्न लगा लेकि 1 इंच वाला पानी कहां तक पहुंचा और तब नापने को उसी के अनुसार बांटिए।

सेंटीमीटरों या इंचों में वर्षा नापने के लिए एक अधिक अच्छी रीत यह है कि मापक बोतल को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अंकित किया जाए। इस सूत्र में छोटे और बड़े बरतनों की त्रिज्याओं (अर्धव्यासों) की आवश्यकता होती है।

$$\text{एक सेंटीमीटर या } \left. \begin{array}{l} \text{एक इंच वर्षा के} \\ \text{लिए बोतल में} \end{array} \right\} = \frac{\text{कीप की त्रिज्या का वर्ग}}{\text{बोतल की त्रिज्या का वर्ग}} \text{ पानी की ऊंचाई}$$



6. एक शुष्कार्द बल्ब आद्रतामापी

दो सस्ते तापमापी लीजिए और यह देखने के लिए कि क्या वे एक-से ही रहते हैं, दिन में कई बार उनके पाठ्यांकों की तुलना कई दिन तक करते रहिए।

इन दोनों तापमापियों को एक ही पटरे पर जड़िए। उनके बीच की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर

मौसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

हो। उनके बल्ब पटरे के बाहर निकले रहें, जिससे उन्हें चारों ओर से हवा लग सके।


दाहिनी ओर के तापमापी के कुछ नीचे एक छोटी और चौड़े मुंह की शीशी (या कटोरी) रखिए। लिनेन या सूती नरम कपड़े की बत्ती बनाइए। उसका एक सिरा दाहिने हाथ वाले तापमापी के बल्ब पर लपेट दीजिए और दूसरे सिरे को नीचे रखे हुए बरतन में डाल दीजिए। इस बरतन में वर्षा का जल (अथवा आसुत जल) भर दीजिए। इस उपकरण से आप यह नाप सकेंगे कि किसी क्षण वायु में जल की आपेक्षिक मात्रा क्या है। यन्त्र को ऐसी जगह टांगिए जहाँ उसे बिना किसी रुकावट के हवा मिल सके। अब भीगे बल्ब पर पंखा झलिए। जब ताप के और कम होने की सम्भावना न रह जाए तो गीले और सूखे दोनों तापमापियों के पाठ्यांकों को नोट कर लीजिए। सूखे तापमापी के पाठ्यांक से गीले वाले का पाठ्यांक घटा दीजिए और तब परिशिष्ट छः की सारणी में देखिए कि आपेक्षिक नमी क्या है। मान लीजिए, सारणी में पाठ्यांक 40 मिलता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि शुष्क तापमापी द्वारा सूचित ताप पर वायु में जितना वाष्पजल रह सकता है, उस समय उसका केवल 40 प्रतिशत ही हवा में था।

7. केश-आर्द्धतामापी

इस उपकरण के द्वारा बिना सारणी का उपयोग किए ही आपेक्षिक आर्द्धता जानी जा सकती है।

किसी स्त्री अथवा पुरुष के दो-चार केश प्राप्त करिए, जो लगभग 30 सेंटीमीटर लम्बे हों। कास्टिक सोडा के तनु (डाइल्यूट) धोल से धोकर उनको तेल-रहित कर लीजिए। एक को किसी स्टैंड के ऊपरी सिरे में बांध दीजिए और नीचे 50 ग्राम का बोझ बांध कर उसे तान दीजिए। केश इतना लम्बा हो कि दो या तीन बार एक रील पर लपेटने के बाद भी वह नीचे तक पहुंच सके। रील में एक धूरी कसी रहे, जो टीन से बनाए गए धारकों (ब्रेयरिंगों) में सरलता

से धूमे। यह टीन स्टैंड पर ऐसी स्थिति में रहे कि स्टैंड का दो-तिहाई भाग ऊपर और एक-तिहाई भाग नीचे छूटा रहे। बाल्सा वुड (अथवा सेमर की लकड़ी, अथवा पुश्चाल की एक सींक) का एक हल्का संकेतक बनाइए और उसे रील की धूरी पर जड़ दीजिए। फिर उसके पीछे एक कार्ड में पैमाना बना कर लगा दीजिए। जैसे-जैसे वायु की नमी घटती-बढ़ती है, केश की लम्बाई भी कम-अधिक होती जाती है और साथ ही 'केतक भी ऊपर-नीचे खिसकता रहता है।



पैमाने में निशान लगाने के लिए सबसे अच्छी रीत यह है कि किसी प्रामाणिक आर्द्धतामापी से उसको मिलाया जाए। यदि वह न मिले तो उपकरण को एक बाल्टी में रखिए, जिसमें थोड़ा साधारण गरम पानी रहे और बाल्टी को भीगे तौलिए से ढक दीजिए। जब संकेतक और आगे न बढ़े तो इस बिन्दु पर 100 लिखिए, क्योंकि बाल्टी की हवा 100 प्रतिशत सन्तृप्त (सैचुरेटेड) होगी। अन्य चिन्ह शुष्कार्ड आर्द्धतामापी के पाठ्यांकों के अनुसार लगाए जा सकते हैं।


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पाठ्यांक लीजिए और परिशिष्ट छंग में उसकी सापेक्ष आद्रता मालूम करिए और इसी सापेक्ष आद्रता के अनुसार पैमाने पर संकेतक को स्थिर कर दीजिए। जब पैमाने पर लगभग तीन बिन्दु अंकित हो जाएं तब आप शेष को बराबर भागों पर रख सकते हैं और 5 से 100 तक, पांच-पांच के अन्तर से अंकित कर सकते हैं।

8. मौसम कुटी¹

वायुमण्डल में कितना जलवाष्प वर्तमान है, यह दो-चार मानवीय केशों के तनाव में घट-बढ़ देख कर अथवा तांत के किसी ऐसे टुकड़े से काम करके ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें आद्रताग्राही गुण आ गए हों।

जो मौसम कुटी हम बहुधा देखते हैं, वह गत्ते से बनाई जा सकती है। उसकी छत के ऊपर के कोण में एक काग लगा दिया जाता है। काग में तांत के एक छोर को सरेस से जोड़ा जाता है। दूसरे छोर पर एक क्षेत्रिज पटरा रहता है, जिस पर मानव-आङ्कितियां बना कर लगाई जाती हैं। तांत किस दिशा में ऐंठता है, यह परीक्षा से ज्ञात किया जा सकता है।



9. मौसम चित्र

दो भाग कोबाल्ट क्लोराइड और एक भाग

¹मौसम कुटी का भारत में चलन नहीं है। घर का एक छोटा-सा मॉडल बनाया जाता है और उसमें दो मूर्तियां रख दी जाती हैं। एक मूर्ति छाता लगाए रहती है, जो वर्षा का प्रतीक है, और दूसरी मूर्ति का छाता बन्द रहता है, जो सूखे दिन का प्रतीक है। उनमें ऐसी युक्ति की जाती है कि जब वायु आद्र रहती है तब छाता वाली मूर्ति धूम कर बाहर निकल आती है और जब वायु शुष्क रहती है तब दूसरी मूर्ति बाहर निकल आती है।

साधारण नमक के घोल में सोख्ते के एक टुकड़े को डुबो दिया जाता है। यह कागज जब तक आद्र रहता है तब तक गुलाबी रंग का रहता है, परन्तु जब इसे धूप में या बुन्सन बर्नर (अथवा चूल्हे) के पास सुखाया जाता है तब यह नीला हो जाता है।

दुकानों में बिकने वाले मौसम चित्र इसी सिद्धान्त पर बनते हैं। घर पर बना मौसम चित्र भी उतना ही अच्छा काम देता है। किसी पुस्तक से कोई ऐसा चित्र काट लिया जाता है जिसमें आकाश अथवा जल हो और एक भाग, जैसे आकाश, को काट कर निकाल दिया जाता है। उसकी बजाय वहां पर पूर्वोक्त विधि से बना सोख्ता लगा दिया जाता है। तब चित्र को किसी काई पर आरोपित कर दिया जाता है। चित्र को खिड़की के पास टाँगना चाहिए क्योंकि वहां वह वायुमण्डल की आद्रता के अनुसार शीघ्र बदलता रहेगा।

10. मौसम लेखा बनाना

ऋतु का लेखा रखने के लिए एक तीव्रता-सूचक मापनी (स्केल ऑफ इंटीसिटी) चाहिए। दिनांक, घंटा, ताप, आकाश और पवन की दशा सब एक सारणी में दिखाए जा सकते हैं।

प्रत्येक दिन एक ही समय पर पाठ्यांक लेना अधिक उपयोगी होगा।

यदि कोई तापमापी उपलब्ध न हो तो ताप इस प्रकार दिखाया जाए : गरम, कम गरम, न गरम न ठण्डा, अधिक ठण्डा, अत्यधिक ठण्डा।

मौसम के अन्तररिक्षीय संकेत-चिह्न भी हैं परन्तु यदि कोई सरकारी काम न करना हो तो लेखा करने में संक्षिप्त पैमानों का भी उपयोग

मौसम का अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

किया जा सकता है। पवन का बेग भी निम्न-लिखित शब्दों में अंकित किया जा सकता है:—

मंद—धुएं को उड़ाता है परन्तु वात-दर्शक को नहीं।


मध्यम—गर्द उड़ाता है और वृक्षों की टहनियों को थोड़ा-बहुत हिला देता है।

सबल—वृक्ष की बड़ी शाखाओं को हिला देता है।

उच्च—गर्द उड़ाता है, कागजों को उड़ा ले जाता है और समूचे वृक्ष हिलने लगते हैं।

आंधी—वृक्षों की शाखाएं तोड़ डालती हैं।

दिनांक	समय	ताप	आकाश	पवन	वर्षा




वायु की दिशा को तत्सम्बन्धी स्तरमें वाणों से सूचित किया जा सकता है, परन्तु साथ ही कागज का एक तारा बना लेना भी उपयोगी होगा, जैसा कि रेखा-चित्र में दिखाया गया है। तब प्रति दिन तारे की उस भुजा पर एक रेखा

ख. वायु और मौसम

1. गरम करने से हवा फैलती है

यह दिखाने के लिए कि गरम करने पर हवा फैलती है, बिजली के बल्ब से बनाए गए फ्लास्क या बोतल में एक-एक छेद वाली डाट लगाइए, जिसमें 30 सेंटीमीटर लम्बी कांच-नलिका अथवा



लेमनेड पीने की नलिका लगाई जा सके। नलिका के सिरे को पानी की छोटी बोतल में डाल दीजिए। फ्लास्क को गरम करिए और देखिए क्या होता है। फ्लास्क को इतना गरम करिए कि बहुत-सी हवा निकल जाए और तब फ्लास्क पर

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ

ठण्डा पानी डाल कर या उस पर बर्फ रगड़ कर उसे ठण्डा करिए। आप क्या देखते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है?

2. दूसरा प्रयोग : गरम करने पर हवा फैलती है


थैले के गुब्बारे को किसी शीशी के मुंह पर चढ़ा दीजिए और शीशी को गरम पानी में रख दीजिए। आप क्या देखते हैं? आप इसका क्या कारण बताते हैं?

3. वायु का फैलना

एक छेद वाली रबड़ को डाट लीजिए और उसमें एक छोटी-सी कांच-नलिका लगाइए। अब इसको 2 या 3 लिटर के छोटे मुँह के कनस्टर में कसिए। कांच-नलिका में एक रबड़-नलिका जोड़ दीजिए। पानी के एक थाल में पानी से भरी बोतल उलटिए और रबड़ की नली का मुँह इस बोतल की कोर के नीचे डाल दीजिए। कनस्टर को गरम करिए। आप क्या देखते हैं? यह कैसे हुआ?

4. ठण्डी हवा गरम हवा से अधिक भारी होती है

(क) एक साधारण तुला बनाइए, जैसी आपने प्रयोग ग-1, पृष्ठ 100 पर यह दिखाने के लिए बनाई थी कि वायु में भार होता है। कागज के दो थैले लीजिए जो एक ही नाप के हों। इन थैलों को खोलिए और प्रत्येक की पेंदी पर 20 सेटीटर लम्बा धागा कागज की चिप्पी (टेप) लगा कर अथवा सूई से छेद करके उसमें डालिए और उसके सिरे पर गांठ लगा दीजिए। दोनों धागों के दूसरे सिरे पर एक फन्दा बनाइए, जो इतना बड़ा हो कि तुला की डण्डी पर चढ़ाया जा सके। दोनों थैलों को डण्डी के दोनों सिरों के पास लटका दीजिए। थैलों को थोड़ा इधर-उधर करके ऐसी व्यवस्था करिए कि थैले बिल्कुल सन्तुलित हो जाएं। अब एक मोमबत्ती को काफी नीचे रख कर थैले के नीचे की हवा को गरम करिए। आप क्या देखते हैं? तुला को कई मिनट तक ऊपचाप ठण्डा होने दीजिए। देखिए क्या होता है? अब दूसरे थैले के नीचे की हवा गरम करिए। देखिए क्या होता है? इसका क्या कारण है?




(ख) गरम और ठण्डी हवा की तौलों में अन्तर जानने के लिए एक दूसरी रीति यह है कि कागज के थैलों के बदले तुला पर फ्लास्कों का इस्तेमाल किया जाए। फ्लास्कों को धागे के फटों से लटकाइए, घटा-बड़ा कर उनको सन्तुलित करिए और एक फ्लास्क को धीरे-धीरे गरम करिए। परिणाम देखिए। उसे कक्ष के ताप तक ठण्डा होने दीजिए और तब फिर देखिए। फिर दूसरे फ्लास्क को गरम करिए। बिजली के पुराने बलबों से बनाए गए फ्लास्क इस प्रयोग में बहुत अच्छा काम देते हैं।

5. संन्यन बक्स

यह दिखाने के लिए कि वायु क्यों बहती है, एक बक्स बनाने की विधि इस प्रकार है: लकड़ी या कंगते का ऐसा बक्स लीजिए जिसमें खिड़की बनाने के लिए श्रापको सही नाप का कांच मिल सकता हो। लकड़ी की खिड़िया वाली पेटी से भी, जिसमें ढक्कन के लिए खांचे कटे रहते हैं, एक अच्छा बक्स बनाया जा सकता है। कांच को ऐसी नाप का काटिए कि वह खांचों में खिसकाया जा सके। फिर बक्स के लम्बाई वाले धागों में से एक और में दो छेद करिए जो दोनों किनारों पर हों। इन छेदों का व्यास 2.5 से लेकर 3 सेटीमीटर तक हो सकता है। बक्स को इस प्रकार रखिए कि यह भाग ऊपर रहे। छेदों पर रखने के लिए दो चिमनियां लीजिए। यदि लैम्प की चिमनियां न मिलें तो गते की 15 सेटीमीटर लम्बी नलिकाओं से काम लीजिए (या पुराने ट्यूब लाइट के ट्यूब को काट कर चिमनी बना लीजिए, परन्तु स्मरण रखिए कि यदि उसे काटते समय हाथ कहीं कट

मौसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

जाए और दूधब के भीतर लगा मसाला धाव में पड़ जाए तो वाव शीघ्र अच्छा नहीं होगा क्योंकि मसाला विवैला होता है)। मोमबत्ती के एक छोटे टुकड़े को एक छेद के ठीक नीचे बक्स के कर्ण पर रखिए। मोमबत्ती को जलाइए। मोमबत्ती भूमि के उस क्षेत्र को निरूपित करती है जो सूर्य से तप्त हो गया है। कांच लगा कर बक्स का खुला पार्श्व बन्द कर दीजिए और धुआं देते समय एक कागज लेकर एक चिमनी में डालिए और वायु-धारा का निरीक्षण करिए। बक्स के भीतर वायु के चलने की दिशा देखिए। मोमबत्ती को दूसरी चिमनी के नीचे रखिए और प्रयोग को दोहराइए। आप क्या देखते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? इसको संन्यन-धारा (कन्वेक्शन करेंट) कहते हैं।



6. संन्यन-धाराओं का मार्ग देखना

(क) एक मोमबत्ती जलाइए और उसे आकस्मिक वायु-धाराओं से बचाने के लिए उसके चारों ओर आइ कर दीजिए। मोमबत्ती के पास की धाराओं का निरीक्षण धुआं देते हुए कागज से करिए।

(ख) एक गरम और एक ठण्डे कमरे के बीच का दरवाजा थोड़ा खोलिए। धुआं देते हुए कागज के दरवाजे के पल्लों के बीच के खुले स्थान में कमरे के ऊपर, नीचे और बीच में वायु-धाराओं को देखिए।

(ग) अगर सम्भव हो तो ऐसी कोठरी में वायु-धाराओं को देखिए जिसे विकिरक (रेडिएटर) या स्टोव (या अंगीठी से गरम किया गया हो)


(घ) ऐसी कोठरी में वायु-धाराओं को देखिए जिसमें बातन (वेंटिलेशन) के लिए ऊपर और नीचे खुली खिड़कियां हों।

(ङ) तार की सहायता से जलती मोमबत्ती को चौड़े मुह की किसी बोतल में उतार दीजिए कि क्या होता है। बोतल में ताजी हवा डालिए। जलती मोमबत्ती को फिर बोतल में डालिए परन्तु अब की बार I आकृति का गते का टुकड़ा काट कर बोतल में डाल दीजिए, जिससे गरम और ठण्डी वायु-धारा अलग-अलग हो जाए। धुआं देते हुए कागज से गते के दोनों तरफ वायु-धाराओं को देखिए।

गरम हवा की ऊपर
जाती हुई धारा



(च) किसी डिब्बे के धातु वाले ढक्कन को रोटरी ओपनर से काटिए ताकि धातु का गोल टुकड़ा मिल जाए (या ऐसा वृत्त पतले टीन या पीतल की पतली चादर से काटिए)। इसको ठीक बीच में कोल से ठोक कर जेरा-सा गड्ढा कर दीजिए। विज्यीय रेखाओं पर टीन को लगभग केन्द्र तक काटिए और इस प्रकार बनी सब पत्तियों को एक ही दिशा में थोड़ा-सा ऐंठ दीजिए। इस पहिए



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ


को एक नुकीले तार पर चढ़ा दीजिए। तब इसे मोमबत्ती के ऊपर या किसी दूसरी जलती हुई वस्तु के ऊपर पकड़े रखिए। अगर आप इसे साव-

धानीपूर्वक बना लेंगे तो यह चक्र विकिरक अथवा जलती हुई बिजली की बत्ती पर रख देने से भी धूमने लगेगा।

ग. वायु में नमी कैसे पहुंचती है

1. वायुमण्डलीय नमी देखो नहीं जा सकती

चाय की केतली में या किसी दूसरे बरतन में, जिसमें टोंटी लगी हो, थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए और उसे चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। यदि ऐसे बरतन न मिलें तो फ्लास्क में एक छेद वाली डाट लगाइए और उसमें समकोण पर मुड़ी हुई कांच-नलिका लगाइए। फ्लास्क में थोड़ा पानी डालिए और उसे आग पर रख दीजिए। जब पानी खौलने लगे और टोंटी से भाय निकलने लगे तो बादल के समान दीखने वाले उस वाष्ण-समूह को देखिए। यह भाय नहीं है, संघनित जल मात्र है। जब भाय निकल रही हो तब टोंटी के निकट-वर्ती स्थान को देखने का प्रयत्न करिए। क्या आप उसे देख सकते हैं? अब संघनित भाय के नीचे मोमबत्ती या ज्वालक (बर्नर) रखिए। आप क्या देखते हैं? बादल कहाँ चला जाता है?



2. शाढ़ का भार कम हो गया

डण्डे के एक सिरे पर सूती झब्बा बांध कर शाढ़ बना लीजिए। उसे पानी में भिगोइए। फालतू पानी निचोड़ दीजिए। तब मेज़ के एक कोने पर एक तिकोनी रेती रखिए और उस पर शाढ़ को सन्तुलित करिए। सन्तुलन बिल्कुल ठीक हो। घंटे भर बाद इसको फिर देखिए। क्या हुआ? इसका क्या कारण बताते हैं? पानी कहाँ चला गया?

3. नमी को तोलने के लिए दूसरा प्रयोग

ऊपर का प्रयोग नहाने के (रोएंदार) तौलिए

से भी किया जा सकता है। तौलिए को भिगाइए और निचोड़िए। उसे कोट-हैंगर (कोट टांगने का तार या लकड़ी) पर लटकाइए। कोट-हैंगर को लम्बे डण्डे के एक सिरे पर लटकाइए और मेज़ के कोने पर रखी तिकोनी रेती पर सन्तुलित करिए।

4. मिट्टी से नमी भाय बन कर उड़ जाती है

गमले में गीली मिट्टी भरिए और तुला के एक पलड़े पर रखिए। या तो दूसरे पलड़े में भार रख कर सन्तुलित करिए या गमले की तौल ज्ञात करिए। 24 घंटे बाद फिर उसकी तौल करिए।

5. घरेलू पौधों से नमी निकलती है

किसी घर के भीतर के पौधे या बाग के पौधे की एक पत्ती पर (जाड़े के दिनों में) सेलोफेन (पारदर्शक जल-अभेद्य कागज) की थैली चढ़ा दीजिए और उसके मुंह को पान-पत्ती के डण्ठल पर रखड़ के छल्ले (अथवा धागे) से बांध कर बन्द कर दीजिए। एक घंटे बाद निरीक्षण करिए। आप क्या देखते हैं? यह कहाँ से आया?

6. ग्रन्थ पौधों से निकली नमी

एक गमला लीजिए, जिसमें 10 या 15 सेंटी-मीटर लम्बे मटर या सेम के नए पौधे हों (पौधों को छोड़ कर गमले के ऊपरी सिरे को सेलोफेन या रखड़ की चादर से ढक दीजिए और पौधों के तनों के पास चादर में चारों ओर पिन लगा दीजिए, जिससे कहाँ भी मिट्टी खुली न रह जाए। अब एक स्वच्छ सूखा (ठण्डा) गिलास पौधों पर उलट दीजिए और एक घंटे बाद देखिए। आपने क्या देखा? यह कहाँ से आया (यह प्रयोग जाड़े में किया जाए, तो सफलता मिलेगी)।

मौसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

7. सांस की नमी

ठण्डे दर्पण पर सांस छोड़ कर या ठण्डे गिलास
या बोतल में सांस फूक कर सांस छोड़ने से
निकले जलबाष्प को दिखाया जा सकता
है।

8. गैस-ज्वाला से मिकली हुई नमी

ज्वाला से निकला हुआ जलवाष्प गैस-स्टोव पर कुछ क्षणों के लिए ठंडे पानी का बरतन रख कर दिखाया जा सकता है (पेंटी पहले पोंछ कर मुखा दी जाए)। आंच से बरतन को उठा लीजिए और पेंटी का निरीक्षण करिए।

9. दूसरी ज्वालाओं से निकली हड्डी तमी

मोमबत्ती की लौ को ठण्डे श्यामपट्टु (ब्लैक बोर्ड) के पास लाइए। गैंस बनंर, स्पिरिट लैम्प, जलते हुए कागज और जलती हुई लकड़ी की ज्वालाओं की सहायता से इस प्रयोग को दोहराइए। आप क्या देखते हैं? यह कहाँ से आया?

10. क्षेत्रफल-विस्तार की दर वाष्पन को प्रभावित करती है

50 मिलिलिटर जल नाप कर लीजिए और किसी मापी से उसे किसी बड़े व्यास के बरतन में ढंगेल लीजिए। अब फिर मापी में 50 मिली-लिटर जल नाप कर रख दीजिए। दोनों को आस-पास ऐसी जगह रखिए जहां ताप और वायुवेग दोनों के लिए समान रहें। हूसरे दिन प्रत्येक बरतन के जल को नापिए। वास्तव में किस बस्तु के प्रभाव के कारण अन्तर आया है?

घ. वाय से नमी कैसे निकलती है

1. नमी ठण्डे तलों पर संघनित होती है

टीन के चमकते डिब्बे में बर्फ भर दीजिए।
थोड़ी देर में बाहर के तल का निरीक्षण करिए।
आप क्या देखते हैं? यह कहां से आया?

2. जल-वाहक

थोड़े-से पानी को इतना गरम करिए कि वह

11. ताप व्याप्ति की गति को प्रभावित करता है

श्यामपट्ट अथवा स्लेट के किसी भाग को मोमबत्ती से या धूप में रख कर थोड़ा गरम करिए। इस गरम स्थान पर और किसी ठण्डे क्षेत्र पर गोले कपड़े से बराबर नापों के पानी के धब्बे लगाइए। इन स्थानों का निरोक्षण करिए और देखिए कि क्या होता है।

12. बहती हुई हवा वाष्पन की गति पर
प्रभाव डालती है

गीले संजय या कपड़े से ठांडे श्यामपट्ट के तल पर दो स्थानों पर बराबर माप के धब्बे लगा दीजिए, जो एक-दूसरे से कुछ दूर रहें। एक धब्बे को गते से हवा कीजिए और दूसरे को बिना हवा किए सूखने दीजिए।

वाष्पन की गति में किस कारण अन्तर पड़ता है?

13. बायु को नमी वाष्पन की दर में प्रभाव डालती है

लकड़ी के छल्ले या चौखटे पर कोई कपड़ा तान कर जड़ दीजिए। चौखटा बर्गफार हो और चारों ओर लगभग 30 सेटीमीटर का हो तथा लगभग 3 सेटीमीटर मोटा हो। चौखटे में लगाए हुए कपड़े को गीला कर दीजिए। फिर ठण्डे श्यामपट्ट के तल पर गीले स्पंज या कपड़े से पानी के दो धब्बे बनाइए। एक को उस चौखटे से ढक दोजिए जिसके ऊपर गीला कपड़ा मढ़ा है और दूसरे को खुला रहने दीजिए। कुछ क्षणों के बाद प्रत्येक धब्बे का निरीक्षण करिए। कौन-सा अधिक सूखा है? चौखटे के नीचे आद्र वायु वाष्पन की गति पर क्या प्रभाव डालती है?

M14DRD/62 17

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पानी डालिए जो बहुत ठण्डा हो। फ्लास्क को गिलास पर तिरछा रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गरम पानी का वाष्पन होगा। वह फ्लास्क की ठण्डी सतह पर संघनित होगा और उसकी छोटी बूँदें गिलास में गिरेंगी। यहां आप वाष्पन, संघनन और अवक्षेपण (नीचे गिरना) तीनों ही देख सकेंगे। प्रकृति में इस प्रकार का जल-चक्र चलता रहता है।




3. ओसांक-ताप

आप ओसांक-ताप (इयू-प्वाइण्ट टेम्परेचर) को चमकते बरतन, थोड़ा-सा पानी, एक ताप-मापी और कुछ बर्फ की सहायता से नाप सकते हैं। मौसम के सम्बन्ध में ओसांक-ताप का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह वह ताप है जिस पर वायु की नमी संघनित होने लगती है। ओसांक-ताप दिन-दिन घटता-बढ़ता रहता है।

ध्यान रहे कि बरतन का बाहरी भाग सूखा और चमकदार रहे। बरतन में कुछ पानी डाल दीजिए और उसे किसी छपे पृष्ठ पर रख दीजिए, जिससे छपे अक्षरों का प्रतिविम्ब बरतन में स्पष्ट दिखाई पड़े। तापमापी को पानी में रखिए (सम्भवतः तापमापी के बल्कि की लकड़ी को कुछ काटना पड़े)। अब थोड़ा-थोड़ा करके बर्फ को पानी में डालिए और उसे तापमापी से सावधानी के साथ चलाते रहिए। ताप पर बराबर ध्यान रहे और ज्यों ही बरतन के बाहरी पृष्ठ पर ओस बननी आरम्भ हो, इसका ताप पढ़ लीजिए। यही प्रायः ओसांक-ताप होगा।

4. बोतल में बादल

आप बोतल में बादल बना सकते हैं। कांच की बड़ी बोतल लीजिए और उसमें रबड़ की डाट लगाइए। डाट से 10 सेंटीमीटर लम्बी कांच-नलिका लगाइए। बोतल में लगभग 2.5 सेंटी-मीटर की ऊंचाई तक पानी भरिए, और बोतल के भीतर की हवा में थोड़ी-सी खड़िया-धूल डाल दीजिए। अब एक रबड़ की नली लीजिए और उसकी सहायता से कांच की नलिका को बाइ-सिकिल पम्प से जोड़ दीजिए। बोतल की डाट को दबाए रखिए और किसी विद्यार्थी से कहिए कि वह हवा भरना आरम्भ करे। जब बोतल में कस कर हवा भर जाए तो काग को उड़ जान दीजिए और देखिए कि फिर क्या होता है। यदि बादल अच्छा न बने तो आप पानी में स्पिरिट की कुछ बूँद मिला कर फिर से प्रयोग करिए। अब वायु फैलती है तो वह ठण्डी हो जाती है, जिससे बोतल के भीतर का ताप ओसांक से कम हो जाता है। नमी बादल के रूप में संघनित होती है। जब पृथ्वी पर गरम हवा चलती है तो उसकी भी दाढ़ कम हो जाती है। तब हवा फैलती है और ठण्डी होती है और जब ताप ओसांक से कम हो जाता है तब बादल बनते हैं।




5. वर्षा-चक्र

आप बहुत छोटे पैमाने पर अपनी कक्षा में वर्षा-चक्र देख सकते हैं। नह पौध का एक गमला मेज पर रखिए। इन पौधों से लगभग 35 या 40 सेंटीमीटर ऊपर धातु की थाली रखिए और किसी प्रकार उसको वहीं टिका दीजिए। थाली में चूरा की हुई बर्फ फैला दीजिए। चाय की केतली या फ्लास्क में थोड़ा पानी लेकर उसे आंच पर रखिए। केतली को इस प्रकार रखिए कि भाप पौधों और थाली के बीच से होकर निकले।

मौसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

अब आप वर्षा-चक्र का अध्ययन कर सकते हैं। वाय की केतली जल का प्राप्ति-स्थल है, जो पृथ्वी-स्थित है। यहां से बाष्प बन कर ऊपर उठती है और ठण्डी थाली तक पहुँचती है। थाली पृथ्वी के ऊपर की वायु की ठण्डी तहों को निरूपित करती है। यहां आद्रता थाली पर संविनित होती है और पौधों पर वर्षा के रूप में गिरने लगती है।



6. कक्षा में तुषार

धातु के एक लम्बे बरतन, जैसे टीन के लम्बे डिव्वे, की सहायता से कक्षा में तुषार (फास्ट) बनाया जा सकता है। बरतन में पारी-पारी स बर्फ और नमक की तहें भरिए। जितनी बर्फ डालें, उसका लगभग आधा नमक। बर्फ और नमक डालते जाइए और किसी लकड़ी से उन्हें कूट-कूट कर ढूसते जाइए। जब वह भर जाए तो बरतन के बाहरी भाग का निरीक्षण करिए। समझ वह है कि कुछ ओस बने और वह वहां जम जाए, परन्तु आपको वहां सुकुमार श्वेत तुषार भी दिखाई देना चाहिए, जो बरतन के बाहरी भाग पर बन जाता है। यदि बरतन


को कुछ समय तक ऐसे ही रहने दिया जाए तो वह सुन्दर श्वेत तुषार से ढक जाएगा (भारत में यह प्रयोग जाड़े में अधिक सफल रहेगा)।

7. ओलों का अध्ययन

जब ओले गिरें तो कुछ ओलों को इकट्ठा करिए। उन्हें बीच से काटिए और देखिए कि ओले की बर्फ किस प्रकार परत के ऊपर परत जम कर बनी है।

8. हिमतूल का अध्ययन

यदि आप किसी ऐसे स्थान में रहते हैं जहां हिमपात होता है तो थोड़े से हिमतूल (स्नो-फ्लेक्स) को काले या बहुत गाढ़े रंग के ऊनी कपड़े पर इकट्ठा करिए और उसे प्रवर्धक लैन्स से ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि उनकी आकृतियां भले ही असंख्य हों परन्तु हर एक हिमतूल में सरदादा ही छः भुजाएं या छः रश्मियां होती हैं। हिमतूल भी प्रकृति की दर्शनीय वस्तुओं में से एक है।



पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. पानी की संरचना

१. पानी का विच्छेदन कैसे किया जा सकता है

इस रोचक प्रयोग के लिए ६ बोल्ट की एक संचायक बैटरी या ऐक्युमुलेटर या ६ शुज्क सेलों (ड्राइ सेल्स) की आवश्यकता पड़ेगी।

तांबे के तार के दो टुकड़े लीजिए। प्रत्येक कम-से-कम ३० सेंटीमीटर लम्बा हो। प्रत्येक तार के सिरों से लगभग ६ सेंटीमीटर तक विसंवाही पदार्थ को अलग कर दीजिए। तांबे के फिर दो पुराने फाउण्टेनपेनों की सोने की नोक-वाली निबें लीजिए। तांबे के पूर्वोक्त तारों में से एक का एक खुला सिरा एक निब में लपेट दीजिए और दूसरे तार का एक सिरा दूसरी निब में। जोड़ पर लाख लगा दीजिए ताकि तांबा कहीं भी दिखाई न पड़े। बैटरी के एक सिरे से एक तांबे के तार का दूसरा सिरा जोड़ दीजिए और दूसरे सिरे में दूसरे तार का बचा हुआ सिरा। अब एक कांच की कम गहरी तश्तरी लीजिए और उसे लगभग आधी पानी से भर दीजिए। दो छोटी शीशियों को पानी से भरिए और उनके मुंह पर गत्ता रख कर उनको तश्तरी के पानी में उलट दीजिए (अब गत्ता हटा लीजिए; गत्ते के बदले अंगुली से काम चल जाएगा)। प्रत्येक शीशी को लकड़ी की दो-दो छोटी-छोटी पट्टियों पर खड़ा कर दीजिए ताकि उनका मुह तश्तरी की पेंदी से कुछ ऊपर उठा रहे। अब सावधानी से प्रत्येक बोतल में एक-एक निब डाल दीजिए।


फिर तश्तरी में रखे पानी में लगभग १ और्स सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए और एक-आध मिनट ठहरिए। अम्ल पानी में अच्छी तरह मिल जाएगा। अम्ल से काम करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यदि यह शरीर

पर कहीं पड़ जाएगा तो त्वचा को जला देगा और कपड़े पर गिर जाए तो कपड़े में छेद कर देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल दवाखाने से, बैटरी ठीक करने वालों से, या किसी रासायनिक प्रयोगशाला से प्राप्त किया जा सकता है।

जब उपस्कर तैयार हो जाए तो विद्युत-धारा चालू कर दीजिए (इसके लिए लाइन में कहीं एक स्विच रखना अच्छा रहेगा)। इस प्रयोग में समय लग सकता है। देखिए कि प्रत्येक शीशी में क्या होता है? यदि दोनों शीशियां एक नाप की हों तो परिणाम को आप पटरी से नाप सकते हैं। इन दोनों में क्या अनुपात है?

जब शीशियां गैस से भर जाएं तो प्रत्येक के मुंह पर कांच की प्लेट रख दीजिए। जो शीशी अपेक्षाकृत शीघ्र भर गई थी, उसे कांच पर ही औंधी पड़ी रहने दीजिए। जो शीशी धीरे-धीरे भरी थी, उसका मुंह ऊपर करके उसे मेज पर रखिए और कांच से ढका रहने दीजिए। अब एक मुलगती हुई सींक को (अर्थात् जिसकी लौ बुझ गई हो, परन्तु उसमें लगी आग चमक रही हो) उस बोतल में डालिए जिसका मुंह ऊपर की ओर है। क्या होता है? इस गैस को आक्सीजन कहते हैं।

जलती हुई सींक को उस बोतल के मुंह में लगाइए जिसे आपने औंधा रख छोड़ा था। क्या होता है? इस गैस का नाम हाइड्रोजन है। क्या आपने कभी किसी को पानी के लिए (एच-टू-ओ) कहते हुए सुना है? क्या आप अपने प्रयोग से इसे समझा सकते हैं?



2. आक्सीजन कैसे तैयार की जा सकती है

आक्सीजन तैयार करने की विधि अध्याय-7 में पृष्ठ 114 पर बताई जा चुकी है।


3. आक्सीजन के कुछ प्रयोग

आक्सीजन के प्रयोगों के लिए निदेश अध्याय 7 में पृष्ठ 114 पर दिए गए हैं।

4. आक्सीजन की सहायता से कुछ प्रयोग

किसी तनु (डाइल्यूट) अम्ल, जैसे हाइ-ड्रोबलॉरिक या सल्फूरिक, पर जस्ते जैसी धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन तैयार की जा सकती है। अम्ल दवाखाने से लाया जा सकता है। अम्ल के साथ सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं वह शरीर अथवा कपड़े पर न गिर पड़े। पुराना जस्ता शुष्क सेलों के बाहरी छिप्पे से लिया जा सकता है। जस्ते को खूब अच्छी तरह साफ कर लीजिए और उसमें से लगभग 2.5 सेंटीमीटर के वर्गकार टुकड़े काट लीजिए।

हाइड्रोजन बनाने के लिए जस्ते को एक फ्लास्क या बोतल में रखिए और उसमें दो छेदों की रबड़ की डाट लगाइए। एक छेद में कीपमुखी नलिका रखिए जो लगभग पेंदी तक पहुंच जाए। दूसरे छेद में समकोण पर मुड़ी नलिका रखिए और उसमें 30 या 40 सेंटीमीटर लम्बी रबड़ की नलिका लगा दीजिए। एक थाली को पानी से लगभग आधा भर दीजिए और पानी से भरी बोतलें उसमें अौंधी करके रख दीजिए। हाइ-ड्रोजन को इकट्ठा करने के लिए निकास-नलिका के सिरे को पूर्वोक्त बोतलों में से एक में डाल दीजिए। कोप-नलिका द्वारा जस्ते पर तनु अम्ल डालिए।



ध्यान रहे कि जनित्र के आसपास कोई लौ या ज्वाला न हो। हाइड्रोजन और वायु का मिश्रण बड़ा विस्फोटक होता है। जब बोतलें हाइड्रोजन से भर जाएं तो उनके मुंह पर कांच-पट्ट रख दीजिए और बोतलों को मेज पर अौंधी ही खड़ी रखिए।

5. क्या हाइड्रोजन जलती है

लकड़ी की एक सींक जलाइए और एक बोतल की मेज से (अौंधी ही) उठा कर उसके मुंह के पास जलती हुई लकड़ी की सींक ले जाइए। सींक को बोतल के भीतर डाल दीजिए। अब सींक को धीरे-धीरे बाहर लाइए। क्या होता है? क्या हाइड्रोजन जलती है? क्या यह आक्सीजन की तरह जलने में सहायता करती है?

6. हाइड्रोजन के जलने पर क्या उत्पन्न होता है?

रबड़ की एक निकास-नलिका के सिरे पर एक छोटी कांच-नलिका लगा दीजिए और फ्लास्क में जस्ते और अम्ल की क्रिया जोर से होने दीजिए। नलिका के पास जलती हुई सींक लाइए। हाइड्रोजन हल्के-हल्के जलने लगेगी। और लौ हल्के नीले रंग की हो जाएगी। लौ के पास किसी ठण्डी तश्तरी या थाली को ले जाइए। जब हाइड्रोजन जलती है (आक्सीजन से संयुक्त होती है), तब कौन-सी वस्तु बनती है?

7. हाइड्रोजन की सहायता से साबुन के बुलबुले बनाना

साबुन का गाढ़ा घोल तैयार करिए, जिससे अच्छे बुलबुले बनाए जा सकें। एक छोटी-सी कीपमुखी नलिका को निकास-नलिका के सिरे पर लगा दीजिए या उसके बदले विलायती चिलम (ब्लै पाइप) या देशी चिलम में छेददार डाट

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

और नलिका लगा दीजिए। जब फ्लास्क में अम्ल और जस्ते की किया जोर से हो रही हो तो हाइड्रोजन से बुलबुले छोड़िए। जब कोई बुलबुला बन जाए तो जरा झटका देने पर वह कीप से छूट जाएगा और छत तक उठेगा। एक

ऐसी लगी लीजिए जो छत के पास बुलबुले तक पहुंच सके। लगी में जलती भौमबत्ती बाध लीजिए और उससे बुलबुलों में आग लगाने की कोशिश करिए। यह एक आनन्ददायक खेल रहेगा।

ख. पानी कैसे शुद्ध किया जा सकता है

1. छानना (फिल्टर) कैसे बनाएं

पौधे का एक गमला लीजिए, जिसकी पेंदी के छेद में रुई ठूंस कर भरी हो और जिसकी पेंदी पर बालू की दो-चार इंच गहरी तह बिछी हो। यह कई कामों के लिए सन्तोषजनक छानना सिद्ध होता है। अध्याय-2 की संख्या-7 देखिए।

किसी बरतन में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी डाल कर चला दीजिए। इस पानी को छानने में डाल दीजिए और जो पानी छून कर निकले उसे एक साफ गिलास में भर दीजिए। बालू और पिसे कोयले की तर्ह एक के ऊपर एक डाल कर एक दूसरा छानना बनाने की कोशिश करिए। पीने के लिए उबालने से पहले पेय जल को शुद्ध करने के लिए यह छानना बहुत सन्तोषजनक काम देगा।

2. प्रायोगिक छानना बनाना

लैंगा की चिमनी के छोटे सिरे में एक छेद बाली डाट लगाइए। इसमें एक छोटी कांच-नलिका लगाइए। पेंदी में थोड़ी धुनी रुई रखिए। तब छोटी-छोटी साफ रोड़ियां लीजिए और थोड़ी मोटी बालू को अच्छी तरह धो डालिए तथा रोड़ियों के ऊपर उसकी एक तह बना दीजिए। फिर थोड़ी महीन बालू धोइए और पहले

की अपेक्षा अधिक मोटी तह डाल दीजिए। कुछ कोयले पीस डालिए और उन्हें पानी में मिला कर एक लेप-सा बना लीजिए। इस मिश्रण को बालू के ऊपर बराबर-बराबर डाल दीजिए। इसके बाद बहुत गंदला पानी लेकर छानने के ऊपर से डालिए। छानने के नीचे रखे साफ गिलास में छूने पानी को इकट्ठा करिए।

3. पानी को उबाल कर जीवाणु-रहित करना


पानी में बहुधा छोटे-छोटे जीवित पौधे और जीव रहते हैं। इनके कारण पानी पीने के अयोग्य हो जाता है। ये जीव सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देखे जा सकते। इस बात की जांच बड़ी सरल रीति से की जा सकती है कि उबालने से जीवित वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीवित जीवाणुओं के शरीर जिन पदार्थों के बने रहते हैं, अण्डे की सफेदी भी रासायनिक दृष्टिकोण से उस पदार्थ के बहुत समान होती है।

एक परीक्षण-नलिका या फ्लास्क को पानी से आधा भरिए और उबलने तक गरम करिए। दवा टपकाने वाली नलिका से अण्डे की सफेदी की कुछ बूँदें खौलते पानी में टपका दीजिए। आप देखेंगे कि अण्डे की सफेदी बिल्कुल बदल जाती है। यह उबले या तले अण्डे के सफेद भाग की तरह हो जाता है। दूसरे शब्दों में, वह स्कंदित (कोएगुलेट) हो गया है। जब पानी खौलाया जाता है तब उसके भीतर रहने वाले हानिकारक जीवाणुओं के जीवित ऊतकों (टिशूज) की भी सम्भवतः यही दशा होती है।

4. जल के प्राप्तवन (डिस्टिलेशन) के लिए

सरल उपकरण कैसे बनाया जाए

आप एक फ्लास्क और कुछ कांच-नलिकाओं अथवा रबड़-नलिकाओं की सहायता से एक



पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

सरल जल-आसवन उपकरण बना सकते हैं। फ्लास्क में एक छेद वाली डाट या काग लगाइए। डाट के छेद में या तो छोटी-सी कांच-नलिका लगाइए या 60 सेंटीमीटर लम्बी कांच-नलिका को चित्र में दिखाई गई रीति से मोड़ कर लगाइए। यदि छोटी कांच-नलिका लगानी हो तो उसमें रबड़ की नलिका जोड़ दीजिए। आसवित जल को इकट्ठा करने के लिए फ्लास्क या पानी पीने का गिलास या किसी बोतल का उपयोग करिए। जिस फ्लास्क में पानी खौलाना हो उसे गंदले पानी से आधा भर दीजिए और उसमें थोड़ी स्थाही अथवा अन्य रंग डाल दीजिए। उपयुक्त आंच लगा कर पानी को खौलाइए (भारत में गरमी के कारण केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा)। नलिका के क्षेत्र भाग पर कपड़ा लपेट कर उस पर बराबर ठण्डा पानी टपकाते रहना चाहिए परन्तु ध्यान रहे कि यह


ग. भारी पानी और हल्का पानी

भारी पानी में खनिज होते हैं। जब जल पृथ्वी के ऊपर से और पृथ्वी में से होकर आता है तब में खनिज पानी में घुल जाते हैं। हल्का पानी है जिसमें घुले खनिज या तो होते ही नहीं या बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, उदाहरणार्थ वर्षा का जल या आसुत जल।

1. भारी और हल्के पानी में अन्तर

किसी नदी, नाले (या कुएं) से थोड़ा-सा भारी पानी लीजिए (या आगामी प्रयोग में बताई गई रीति से बनाना लीजिए)। थोड़ा हल्का पानी भी लाइए, जैसे वर्षा-जल या आसुत जल (डिस्टिल्ड वाटर)। थोड़े से गरम पानी में साबुन के छोलन या चूर्ण को धोल कर साबुन का धोल तैयार करिए। दो बोतलें लीजिए और इनमें बराबर मात्रा में भारी पानी और हल्का पानी भर दीजिए। दो बोतलें वाली नलिका से हल्के पानी में साबुन के धोल की बूंदें गिन कर टपकाइए। एक बार में दो-तीन बूंद से अधिक मत टपकाइए। प्रत्येक बार साबुन का धोल छोड़ने के बाद बोतल को हिलाइए। पानी की ऊपरी सतह पर बुलबुलों की 1 सेंटीमीटर मोटी तह बनाने के लिए

पानी नलिका में लिपट कर या अन्य रीति से आसुत जल तक न पहुंच जाए)।



5. बड़ा आसवक कैसे बनाया जाए

देखिए अध्याय-2 का प्रयोग ग-4, पृष्ठ 44 पर।

6. लीविंग संघनक कैसे बनाया जाए

देखिए अध्याय 2, पृष्ठ 44।

साबुन के धोल की कितनी बूंदें डालनी पड़ीं थीं, यह मालूम करिए।

फिर साबुन का उतना ही धोल भारी पानी में मिलाइए और उतने ही समय तक अच्छी तरह हिलाइए। देखिए कि दोनों में क्या अन्तर है। भारी पानी में साबुन का धोल तब तक डालते रहिए जब तक कि बढ़िया फेन न बन जाए। प्रयुक्त साबुन की मात्राओं की तुलना करिए।

2. भारी पानी बनाना

भारी पानी दो प्रकार का होता है—अस्थायी और स्थायी। अस्थायी भारी पानी निम्न-लिखित रीति से बनाया जा सकता है : थोड़ा-सा साफ पानी लीजिए (निर्माण-विधि के लिए अध्याय 7 का प्रयोग ट-17, पृष्ठ 115 देखिए)। चूने के पानी में कार्बन डाइ-आक्साइड के बुलबुले तब तक बनाइए (देखिए ट-14, पृष्ठ 115) जब तक पहले का दूधियापन न मिट जाए। अस्थायी भारी पानी तैयार है। स्थायी भारी पानी तैयार करने के लिए थोड़ा-सा कैल्सियम सल्फेट या पेरिस प्लास्टर को पानी में चला कर कई बटे तक पड़ा रहने दीजिए। जब मिश्रण छान लिया जाएगा

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ

तो छानने पर जो साफ पानी मिलेगा, वह स्थायी भारी पानी होगा। मैग्नीशियम सल्फेट (एसएस साल्ट्स) को पानी में धोल कर भी इस प्रकार का भारी पानी तैयार किया जा सकता है।

3. भारी पानी को खौला कर मृदु करना

पानी का अस्थायी भारीपन खौलाने से दूर किया जा सकता है। थोड़े-से अस्थायी भारी पानी में साबुन के धोल की दो-चार बूंदें डाल कर उसे खूब हिलाइए और देखिए कि फेन बनता है या नहीं। फिर उतने ही अस्थायी भारी पानी को खौलाइए और पहले जितना ही साबुन का धोल डाल कर फेन बनाने की चेष्टा करिए।

4. रासायनिक पदार्थों से जल को मृदु करना

एक परीक्षण-नलिका को भारी पानी और साबुन के धोल की कुछ बूंदों से आधा भर कर फेन बनाने की चेष्टा करिए। उतना ही भारी पानी उबालिए और फिर उतना ही साबुन का धोल डाल कर फेन बनाने की चेष्टा करिए।

स्थायी भारी पानी में थोड़ा कपड़ा धोने का सोडा (सोडियम कार्बोनेट) मिलाइए और साबुन का धोल डाल कर फेन बनाने की चेष्टा करिए। क्या पानी मृदु हो जाता है? फिर से थोड़ा स्थायी भारी पानी लेकर उसमें कुछ सोहागा (सोडियम पायरोबोरेट) मिलाइए और चांच करिए कि क्या अब वह मृदु हो जाता है।

5. किसी चीज़ को धोकर साफ करने में साबुन पानी की सहायता किस प्रकार करता है

चर्बी या वैसलिन (या धी या तेल) लगा कर दो कपड़ों को गन्दा कर दीजिए। एक को गरम पानी में साबुन के विना ही धोइए और दूसरे को गरम पानी में और काफी साबुन लगा कर धोइए, जिससे फेन खूब उठे। दोनों कपड़ों को सूखने के लिए डाल दीजिए और देखिए कौन-सा अधिक साफ हुआ है।

6. वसा पर पानी का कार्य-प्रभाव

कांच के एक लम्बे बरतन को पानी से आधा भरिए। इसके ऊपर लगभग 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तिल का तेल या कोई अन्य तेल डालिए। इस मिश्रण को हिलाइए। देखिए कि तेल किस प्रकार नन्हीं-नन्हीं बूंदों में विभक्त हो जाता है। इसे स्थिर पड़ा रहने दीजिए। आप देखेंगे कि ये बूंदें अन्त में फिर एक साथ हो जाती हैं और ऊपर एकत्र हो जाती हैं। इस बोतल को अलग रख दीजिए और इस प्रयोग के परिणाम की तुलना आगामी प्रयोग के परिणाम से करिए।

7. वसा पर साबुन का कार्य-प्रभाव

पिछले प्रयोग के अनुसार ही एक दूसरे कांच के बरतन में तेल और पानी डालिए। परन्तु इस बार पानी में या तो आधा प्याला तरल साबुन या साबुन की कतरनों को धोल कर बनाया गया गाढ़ा धोल डालिए। मिश्रण को खूब हिलाइए। तब स्थिर रहने दीजिए और पिछले प्रयोग से मिले परिणाम से तुलना करिए। आपको मालूम होगा कि साबुन ने वसा (तेल या चर्बी) की नन्हीं बूंदों को तोड़ डाला है और वे सर्वत्र बिखर गई हैं तथा मिश्रण दूध के समान लगता है।

8. भारी और हल्के पानी द्वारा धुलाई

दो कपड़ों को गन्दा करिए। एक को हल्के पानी और साबुन से धोकर साफ करिए। दूसरे कपड़े को उतने ही समय तक और उतने ही साबुन का प्रयोग करके भारी पानी से धोइए। कपड़ों को सूखने के लिए डाल दीजिए और अन्तर देखिए।

9. साबुन बनाना

साबुन फालतू चर्बी (या तेल) से बनाया जा सकता है। थोड़ी बेकार चर्बी लीजिए और उसे तरतीरी में पिघलाइए (या तेल लीजिए)। कपड़े की कई परतें बना कर उस चर्बी को छान लोजिए। चर्बी को तोलिए और इस तौल की एक-तिहाई के बराबर

पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

बाजार कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रोक्साइड) लीजिए। उसे पानी में धोल लीजिए। चर्बी को लोहे की कड़ाही या किसी दूसरे बरतन में गरम करिए। जब वह पिघल जाए तो उसमें कास्टिक सोडे का धोल धीरे-धीरे डालिए और बराबर चलाते रहिए। आंच मन्द रहे ताकि मिश्रण उबल कर बाहर न गिरने पाए। 30 मिनट तक चर्बी और कास्टिक को उबलने दें। बराबर चलाते भी रहिए। इस तरह 30 मिनट तक

घ. स्थिर और गतिशील जल

1. दाब

कीचड़ लगे नंगे पैर से या जूता न पहन कर कागज पर खड़े होइए और अपने पैर की छाप बनाइए। किसी वर्गाकित कागज की सहायता से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए और प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कितना बल (भार) पड़ रहा है, इसका आकलन करिए। आगर आप एक पैर पर खड़े होंगे तो आपका भार केवल आधे क्षेत्र पर वितरित होगा। परिणाम यह होगा कि दाब प्रति वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाएगी (दुगुनी हो जाएगी)। नई दाब का भी आकलन किया जा सकता है।

2. भार और दाब में अन्नर

लकड़ी की एक इष्टिका को इस तरह काटिए कि उसका एक ओर का भाग दूसरी ओर के भाग से छोटा हो जाए परन्तु पहला भाग भी वर्गाकार ही रहे। चित्र में देखिए। दोनों ओर के भागों को बारी-बारी से मिट्टी या प्लास्टिसीन की मोटी तेह पर रख कर दबाइए। प्रत्येक बार समान बल लगाइए। मिट्टी या प्लास्टिसीन पर जो भिन्न-भिन्न गहराइयां बनेंगी, उनसे दोनों दाबों का अन्तर मालूम किया जा सकता है।



3. यह देखना कि द्रव दस्तुओं पर दाब डालते हैं


15 सेंटीमीटर लम्बी दो कांच-नलिकाओं को या लेमन पीने की दो प्लास्टिक की पारदर्शक नलिकाओं को किसी छोटी-सी रबड़-

उबालने के बाद उसमें कास्टिक सोडा से लगभग दुगुनी मात्रा में साधारण नमक डाल दीजिए और अच्छी तरह चलाइए। जब मिश्रण ठण्डा हो जाएगा तो साबुन की तह ऊपर जम जाएगी। केवल साबुन को ले लीजिए। उसे पिघलाइए और दियासलाई की डिबियों में डाल दीजिए। साबुन की छोटी-छोटी टिकियां बन जाएंगी। क्या यह साबुन अच्छा है?

घ. स्थिर और गतिशील जल

नलिका से जोड़िए और चित्र के अनुसार उन्ह एक आधार-स्तम्भ पर जड़ दीजिए।

नलिकाओं में लगभग 6 या 8 सेंटीमीटर की गहराई तक रंगीन पानी डाल दीजिए। यही आपका दाब-मापी है। छोटी कीप के मुँह पर पतला रबड़ खींच कर लगाइए और उसे धागे या डोर से अच्छी तरह बांध दीजिए। कीप को अपने दाब-मापी के साथ 30 सेंटीमीटर लम्बी रबड़-नलिका से जोड़िए। बाल्टी में पानी के भीतर कीप डाल दीजिए और दाब-मापी को देखते रहिए।



4. जल की दाब गहराई के अनुसार बदलती है

पिछले प्रयोग के लिए बनाया गया दाब-मापी लीजिए। कांच के एक लम्बे बरतन या बाल्टी में पानी भरिए। अपने दाब-मापी से मापिए कि बाल्टी के पानी के ऊपरी तल के ज़रा नीचे कितनी दाब है। फिर पेंदी के पास की दाब नापिए। गहराई के साथ दाब किस प्रकार बढ़ती है?

5. दाब द्रव पर निर्भर है

कांच के दो बरतन लीजिए, जिनमें आपके दाब-मापी की कीप चली जाए। एक में पानी भरिए

विज्ञान-शिक्षण के लिए बनस्कों का आकर मन्थ

और दूसरे में (उतनी ही गहराई तक) कोई कम घनत्व का द्रव, उदाहरणार्थ स्पिरिट। पानी के बरतन की पेंदी पर दाब मापिए और फिर स्पिरिट के बरतन की पेंदी पर। एक ही गहराई में दोनों दावें भिन्न-भिन्न क्यों हो जाती हैं?

6. बड़े और छोटे बरतनों में एक ही गहराई पर दाब समान रहती है


ऊपर के प्रयोगों में जिस दाब-मापी से काम लिया गया था, वही दाब-मापी लीजिए। छोटे व्यास का एक लम्बा बरतन और एक बड़े व्यास का बरतन लीजिए। दोनों बरतनों में समान गहराई तक पानी भरिए। प्रत्येक बरतन की पेंदी पर दाब नापिए। उनकी तुलना करिए।

7. दूसरे प्रयोग द्वारा यह दिखाना कि गहराई के बढ़ने के साथ-साथ दाब भी बढ़ती है

टीन का एक लम्बा डिब्बा लीजिए। पाश्व में तीन-तीन सेंटीमीटर पर एक सीधे में छेद करिए। इन छेदों पर चिपकाऊ फीते का एक टुकड़ा चिपका दीजिए (या छात्रों से कहिए कि अपनी अंगुलियों से वे इन छेदों को बन्द रखें)। डिब्बे में पानी भर दीजिए। पानी सबसे ऊपर वाले छेद के ऊपर तक पहुंच जाए। डिब्बे को ऐसी जगह, उदाहरणार्थ सिक के ऊपर, रखना चाहिए जहां पानी गिरने से हानि न हो। फिर शीघ्रता से चिपकाऊ पट्टी को छेदों पर से नीचे से पकड़ कर उखाड़ डालिए। देखिए कि छेदों से निकलने वाली धारें बरतन से कितनी दूर तक पहुंचती हैं।

8. पानी की दाब सब दिशाओं में बराबर होती है


टीन का एक लम्बा डिब्बा लीजिए। पेंदी के पास कील ठोक कर चारों ओर छेद करिए। पिछले प्रयोग की तरह चिपकाऊ फीते से छेदों को बन्द करिए। डिब्बे को पानी से भरिए और डिब्बे को सिक पर (या जहां भी पानी गिरने से हानि न हो) रख कर फीते की पट्टियों को उखाड़ दीजिए। देखिए और तुलना करिए कि पानी चारों ओर कितनी-कितनी दूरी तक पहुंचता है।



9. किसी दी दुर्ई गहराई पर ऊपर और नीचे की दिशाओं में दाब समान होती है


कांच का बेलन लीजिए, जो कम-से-कम 12 सेंटीमीटर लम्बा हो और 4 सेंटीमीटर व्यास का हो। ऐसी नलिका अग्निव आयल की बोतल के समान किसी ऐसी बोतल से, जिसकी दीवारें सीधी हों, पेंदी काट देने पर बनाई जा सकती है (पृष्ठ 281 देखिए)। अथवा ट्यूब लाइट के कांच अथवा पारदर्शक प्लास्टिक नलिका से भी काम चलाया जा सकता है। गते की नलिका से भी काम चल सकता है परन्तु पहले उसे पिघले मोम (मोमबत्ती के मोम) में डूबा लेना चाहिए या स्पिरिट में लाख का घोल बना कर उससे कई बार रंग देना चाहिए।

गते का एक वर्गाकार टुकड़ा काटिए, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो। उस पर मोम या लाख की तह चढ़ा दोजिए। केन्द्र में एक लम्बा धागा या ढोर फीते से चिपका दीजिए। धागे को नलिका में डाल कर दूसरी ओर से बाहर निकाल लीजिए और धागे को तान कर गते को कांच-नलिका की पेंदी से चिपकाए रहिए। अब नलिका को किसी बड़े बरतन में रख पानी में डालिए। गते बाला सिरा नीचे रहे। धागे को छोड़ दीजिए। अब नलिका के भीतर रंगीन पानी छोड़ दीजिए। देखिए कि नलिका में कितना पानी डालने पर गता गिरता है।




10. समुस्ति जल-सम्पद

लगभग एक ही लम्बाई की परन्तु विविध आकृतियों की बोतलें लीजिए और उनके पेंदे निकाल दीजिए। इसकी विधि जानने के लिए पृष्ठ 281 देखिए। बोतलों में काग या डाट लगाइए जिन में चित्र में दिखाई गई रीत से नलिकाएं लगाई गई हों। अब बोतलों को चित्र में दिखाई गई रीत से आपस में जोड़िए। बोतलों में रंगीन पानी यहां तक डालिए कि वे प्रायः भर जाएं। इस प्रयोग से फिर यह ज्ञात होता है कि किसी द्रव्य में दाढ़ बरतन की नाप या आकृति पर निर्भर नहीं होती, वह केवल गहराई पर निर्भर रहती है।



11. जल के दाढ़ की सहायता से भार उठाना

रबड़ की बनी गरम पानी रखने की थैली लीजिए। इसके मुंह में एक छेद की एक डाट लगाइए और उसमें एक छोटी कांच-नलिका लगाइए। अब एक डिब्बा लीजिए और उसकी पेंदी में एक इतना बड़ा छेद करिए कि उसमें वह छेद वाली डाट लगाई जा सके। इस डाट में भी एक छोटी कांच-नलिका लगाइए। पानी के थैले और डिब्बे को रबड़-नलिका से सम्बद्ध करिए। नलिका कम-से-कम 1.25 सेंटीमीटर लम्बी होनी चाहिए। थैले के जोड़ के नीचे-ऊपर तार लपेट ना बुद्धिमता का कार्य होगा। थैले, नलिका और डिब्बे को पानी से भर दीजिए। थैले को भूमि पर रखिए। उस पर एक पटरा रख दीजिए। उस पटरे पर कुछ पुस्तकें या अन्य भारी वस्तु रख दीजिए। अब डिब्बे को ऊपर उठाइए और पटरे पर रखे भार को देखिए। यह भी देखिए कि डिब्बे को यथासम्भव ऊपर उठाने से थैले द्वारा अधिक-से-अधिक आप कितना भार उठा सकते हैं।



12. पानी को संपीड़ित नहीं किया जा सकता

सोडा रखने की बोतल में एक छेद वाली डाट लगाइए। छेद में दवा टपकाने वाली नलिका की कांच-नलिका लगा दीजिए पर इसका पतला सिरा ऊपर (बाहर) रहे। बोतल को ऊपर तक पानी से भरिए और कस कर डाट लगाइए, यहां तक कि टपकाने वाली नलिका में पानी कुछ दूर तक अवश्य चढ़ जाए। अब बोतल की हाथ में लेकर काग को यथासम्भव जोर से दबाइए। पानी नलिका में चढ़ जाएगा क्योंकि पानी को दबा कर उसका आयतन घटाया नहीं जा सकता। क्या आप पानी को नलिका के बाहर तक पहुंचा सकते हैं?

किसी शीशी को पानी से भरिए। उसमें एक अच्छा काग कस कर लगा दीजिए। काग को हथौड़े से तेज़ी से मारिए। शीशी फट जाएगी।

13. द्रव-चालित उच्चालित्र (एलिवेटर) की प्रतिकृति बनाना

माल ढोने वाले और यात्रियों को ऊपर पहुंचाने वाले कुछ उच्चालित्र जल की दाढ़ की शक्ति से चलते हैं। मोटरकार के हाथ वाले पम्प की सहायता से आप इसकी एक प्रतिकृति (मॉडल) बना सकते हैं। पम्प से निकली नलिका में एक लम्बी रबड़-नलिका जोड़ दीजिए। जोड़ों को तार से बांध दीजिए, जिससे वे


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

खुल न जाएं। अब नलिका के दूसरे सिरे को पानी के नल से एक छेद की रबड़ की डाट द्वारा जोड़ दीजिए। नलिका और डाट के जोड़ पर तार बांधिए। एक छात्र को पम्प के हृत्थे पर बिठा दीजिए और उसे सहारा दीजिए ताकि वह गिरने न पाए। पानी को धीरे-धीरे खोलिए और देखिए कि हैंडल के साथ-साथ छात्र भी ऊपर उठता है या नहीं। सम्भव है आपको पानी के नल की डाट को हाथ से पकड़ना पड़े ताकि वह निकल न जाए (यह प्रयोग उन्हीं नगरों में किया जा सकता है जहां पानी के नल लगे हों और पानी पर्याप्त दाढ़ के साथ आता हो)।

14. सरल द्रव-चालित दाढ़क

जल-चालित दाढ़क (प्रेस) के सिद्धान्त को निम्नलिखित प्रतिकृति बना कर स्पष्ट किया जा सकता है :

किसी बेलनाकार बरतन को पानी से आधा भरिए। ऊपर पिघला मोम (मोमबत्ती वाला मोम) डालिए। यह पिस्टन का काम देगा। मोम जब ठण्डा होने लगे तब उसमें एक कांच-नलिका डाल कर उसको पकड़े रहिए। जब मोम जम जाए तो उससे एक जल-अभेद्य पिस्टन बन जाएगा। नलिका में मुँह लगा कर धीरे-से भीतर फूंकिए तो पिस्टन ऊपर उठेगा। इस प्रकार पिस्टन पर रखे काफी भारी बोझ उठाए जा सकते हैं।




15. जल-कुट्टक की प्रतिकृति

जल-कुट्टक का उपयोग किसी निचले तल से पानी को किसी ऊपरी तल तक उठाने के

लिए किया जाता है। वे जल की बहती हुई धारा से चालित होते हैं। आप जल-कुट्टक की एक प्रतिकृति बना सकते हैं। सोडावाटर की बोतल लीजिए, जिसकी पेंदी निकाल दी गई हो (पेंदी निकालने की विधि के लिए पृष्ठ 281 देखिए)।

बोतल में एक छेद वाली रबड़ की एक डाट लगाइए। डाट में छोटी कांच-नलिका लगाइए। इसको कांच अथवा धातु की तिनमुही (T जैसे आकार की) नलिका के एक मुख से जोड़िए। इस नलिका के एक सिरे में छोटी-सी रबड़-नलिका लगाइए। तीसरे मुख में चंचुमुखी कांच-नलिका (जेट) रबड़-नलिका की सहायता से लगाइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बोतल में पानी भरिए और अन्तिम नलिका को अंगुलियों से दबाए रखिए। अंगुलियां ढीली करिए और पानी बहने दीजिए। फिर अचानक अंगुलियां दबा कर पानी का बहना बन्द कर दीजिए और देखिए कि चंचु से पानी कितना ऊपर उछलता है। बारी-बारी से पानी को बहने दीजिए और रोकिए। जल-कुट्टक इसी प्रकार चालित होता है।




16. प्रतिक्रिया द्वारा चालित जल-टरबाइन

एक सोडावाटर की बोतल की पेंदी निकालिए। पेंदी के पास डोर बांधिए और बोतल को चित्र में दिखाई गई रीत से लटका दीजिए। बोतल के मुँह में दो छेदों वाली एक डाट लगाइए। चित्र में दिखाई रीत से इन छेदों में दो मुड़ी हुई नलिकाएं लगा दीजिए। इन नलिकाओं के सिरों को गरम करके और फिर लींच कर,


पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पहले से ही चंचु (जेट) के आकार का बना दिया जाता है। बोतल में पानी भरिए और जब पानी चंचुओं में से निकलने लगे तो टरबाइन (बोतल) के चारों ओर घूमने लगेगा।



17. पनचक्की की प्रतिकृति

चक्की के केन्द्रीय भाग को धागे की रील या काग से बनाया जा सकता है। बगल में सीधे खांचे काटिए जो किनारे तक जाएं। इन चीरों या खांचों में पतली लकड़ी या टीन के टुकड़े लगा दीजिए। ये क्षेपणी (पैडल) का काम देंगे।



रील से भी ऐसा कामचलाऊ उपकरण बनाया जा सकता है। पनचक्की को जल-शक्ति देने के लिए पानी किसी टंकी की टीन की श्रध्दबेलनाकार पनाली से पनचक्की पर गिराना चाहिए।

ड. डूबना और तिरना

1. वस्तुओं के डूबने या तिरने का क्या कारण है
सीसे, रांगे या अल्मीनियम की पत्ती (फायल) से एक छोटी-सी नाव बनाइए और उसे बाल्टी के पानी पर तैरा दीजिए। अब नाव को उठा कर पत्ती की गोली का रूप दे दीजिए और उसे तैरने की चेष्टा करिए। आप क्या देखते हैं? इसके लिए आप सबसे अच्छी व्याख्या क्या दे सकते हैं?

2. जल की उत्प्लावकता

थानु का एक डिब्बा लीजिए, जिस पर कस कर बैठने वाला ढक्कन लगा हो, जैसे सिगरेट का डिब्बा या काफी का डिब्बा। ढक्कन लगा कर डिब्बे को बाल्टी के पानी में डुबा दीजिए (ढक्कन नीचे रहे) और तुरन्त छोड़ दीजिए। इसको दोहराइए, परन्तु प्रत्येक बार डिब्बा कि भी नई स्थिति में पानी के भीतर पहुंचे। क्या आप

डिब्बे पर ऊपर की दिशा में पानी के बल का अनुभव कर सकते हैं? डिब्बे में कुछ पानी डाल कर प्रयोग को दोहराइए। थोड़ा-थोड़ा करके डिब्बे में पानी डालते जाइए और प्रयोग को दोहराते जाइए, यहां तक कि डिब्बा तैरना पाए।

3. जल की उत्प्लावकता को देखने की दूसरी रीत

एक समझूल तुला बनाइए (निर्माण-विधि के लिए पृष्ठ 42 देखिए)। सोडावाटर की दो बोतलें लीजिए और रसी के फन्दे से उन्हें डण्डी की भुजाओं से इस प्रकार लटका दीजिए कि वे ठीक-ठीक सन्तुलित रहें। एक बोतल के नीचे पानी से भरी हुई एक बाल्टी रखिए और बाल्टी को इतना उठाइए कि बोतल का कुछ अंश पानी में डूब जाए। देखिए क्या होता है?

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का ग्राहक प्रन्थ


4. जल की उत्प्लावकता का स्वयं अनुभव करना

एक बड़ा-सा काग लीजिए और उसे पानी से भरी हुई एक बाल्टी की पेंदी तक ले जाइए। देखिए कि काग को पेंदी पर पकड़े रहने में आपको कितना बल लगाना पड़ता है। इस प्रयोग को दोहराइए, परन्तु अब की बार काफी बड़ी बोतल लीजिए, जिसका मुँह डाट से बन्द कर दिया गया हो। क्या इसे दुबाए रखने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है?

स्ल जल के गुब्बारे को फूक कर फुला लीजिए और उसे बाल्टी के पेंदे तक दुबा दीजिए। काग और बोतल को पानी में दुबाए रहने की अपेक्षा अब कितना बल लगाना पड़ता है?


5. जल की उत्प्लावकता को देखने की एक अन्य रीत

ऐसा डिब्बा लीजिए जिसमें कस कर बैठने वाला ढक्कन हो, जैसे सिगरेट का डिब्बा या काफी का डिब्बा। डिब्बे को पानी से भर दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। डिब्ब पर डोर का दोहरा फन्दा डाल कर (या अन्य किसी प्रकार से) उसे बांधिए और तब इस डोर में रबड़ का बड़ा छल्ला (या पुराने बाइसिकिल-ट्यूब से काटी गई पट्टी) जोड़ दीजिए। रबड़ के छल्ले को पकड़ कर डिब्बे को उठाइए और देखिए कि रबड़ कितना खिच जाता है। अब डिब्बे को पानी की बाल्टी में डूबने दीजिए और देखिए कि रबड़ कितना खिचता है। दोनों में यह अन्तर क्यों है?



6. पत्थर का भार पानी में कम हो जाता है


एक बड़ा-सा पत्थर नीजिए और उसे कमानी-दार तुला से तोलिए। रस्सी के दोहरे फन्दे से (या अन्य किसी रीति से) पत्थर को बांधिए और पानी की बाल्टी में लटका कर तोलिए। भार में अन्तर क्यों पड़ गया?



7. चमत्कारी गोताखोर के से बनाया जाए

कांच का एक लम्बा बरतन लीजिए, जिसका मुँह काफी चौड़ा हो। दवा टपकाने वाली नालिका की रबड़ की खोखली धुण्डी के पतले भाग पर तांबे का तार दो-चार बार लपेट दीजिए। बरतन में ऊपर तक पानी भरिए। रबड़ की धुण्डी में थोड़ा पानी डाल दीजिए और उसे बरतन में तैरने दीजिए। धुण्डी में इतना पानी रहे कि वह लगभग डूबने ही वाली हो। इस अवस्था में रबड़ का प्रायः सम्पूर्ण भाग पानी के भीतर रहेगा। परन्तु इसके लिए कई बार जल की मात्रा घटानी-बढ़ानी पड़ेगी। धुण्डी को दवा कर हवा को एक-एक बुलबुला करके बाहर निकाल दीजिए। प्रत्येक बार देखिए कि बुलबुला छोड़ने पर धुण्डी का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। जब गोताखोर (रबड़ की धुण्डी) समर्जित हो जाए तो बोतल के मुँह में एक ठोस डाट लगा दीजिए अथवा मोटरकार की भीतरी ट्यूब से एक टकड़ा रबड़ काट कर बांध दीजिए। डाट पर रबड़ को दवाने से गोताखोर डूबेगा, दाब हटाने से गोताखोर ऊपरी तल तक उठेगा। यदि गोताखोर कांच की छोटी परीक्षण-


तलिका अथवा दवा की छोटी शीशी से बनाया जाए तो गोताखोर के डूबने या तिरने के समय उसके भीतर के पानी का स्तर देख कर उसकी कार्प-पद्धति समझाई जा सकती है।



8. निःसावी पात्र और ग्राही बाल्टी कैसे बनाए जाएं

डूबने और तिरने से सम्बन्धित ये उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धान्त के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। निःसावी पात्र बनाने के लिए एक ऐसा डिब्बा लाइए जो 10 या 20 सेंटीमीटर ऊँचा हो और जिसका व्यास 7 या 8 सेंटीमीटर हो। डिब्बे के ऊपरी सिरे से लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे कील ठोक कर एक छेद करिए। गोल रेती अथवा किसी औजार से इस छेद को इतना बड़ा करिए कि उसका व्यास पेंसिल के व्यास से कुछ बड़ा हो जाए। अब एक दूसरे डिब्बे से धातु लेकर एक टोंटी बनाइए। टोंटी वाले टीन की लम्बाई लगभग 6 सेंटीमीटर रहे। टोंटी के ऊपरी सिरे में 1 सेंटीमीटर लम्बी दो कोरें (फ्लैज) बनाइए और टोंटी को डिब्बे के भीतर डाल कर इनको मोड़ दीजिए ताकि टोंटी को भीतर से भी सहारा मिलता रहे। टोंटी को यथास्थान लगा कर भीतर और बाहर टाके से (रांगा और सीसा के मिश्रधातु से) जोड़ दीजिए।


ग्राही बाल्टी इससे कुछ छोटे डिब्बे से बन सकती है। डिब्बे के माथे के पास दो छेद बना दीजिए, जो आमने-सामने रहें। इस बाल्टी में तार का एक हृत्था लगा दीजिए।



9. डूबने वाले पिण्ड

निःसावी पात्र में इतना पानी भरिए कि पानी टोंटी तक पहुंच जाए (और टोंटी से थोड़ा पानी टपकने लगे)। ऐसा पत्थर लीजिए जो इस पात्र में आ सके। पत्थर में एक डोर बांधिए और कमानीदार तुला से पत्थर को तोलिए। ग्राही बाल्टी को तोलिए। रोपन बाल्टी को टोंटी के नीचे रखिए। पत्थर को पानी में डूब जाने दीजिए और तब उसकी तौल लिखिए। क्या अब भी उसकी तौल उतनी ही है जितनी हवा में थी? पत्थर द्वारा हटाया गया पानी ग्राही बाल्टी में गया होगा। इस तौल में से बाल्टी की तौल घटा दीजिए। इस प्रकार विस्थापित जल की तौल ज्ञात हो जाएगी।

हवा की बजाय पानी में तोलने पर पत्थर की तौल में जो आभासी कमी होती है, उसकी तुलना हटाए गए जल की तौल से करिए। डूबने वाले अन्य पिण्ड को लेकर इस प्रयोग को जारी रखिए।



10. प्लावी (तिरने वाले) पिण्ड

निःसावी पात्र को पानी से भर दीजिए और

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ


फालतु पानी को बह जाने दीजिए, यहां तक कि पानी का तल टोटी के तल के बराबर हो जाए। एक ऐसी लकड़ी का टुकड़ा लीजिए जो पानी में आधा या अधिक ही डूब कर तैरता हो (जैसे शीशम या साखू की लकड़ी) और बालटी में आ सके। ग्राही बालटी को टोटी के नीचे रखिए। लकड़ी को निम्नावी पात्र में (धीरे-से) रखिए और देखिए कि तुला का पाठ्यांक कितना हो जाता है। ग्राही बालटी और जल की सम्मिलित तौल से ग्राही बालटी की तौल घटा कर हटाए गए जल की तौल ज्ञात करिए। तैरती लकड़ी की तौल में तथा विस्थापित जल की तौल में क्या सम्बन्ध है? अन्य तैरते पिण्ड को लेकर इस प्रयोग को दोहराइए।

11. तैरती हुई मोमबत्ती के साथ प्रयोग

मोमबत्ती की पेंदी में एक कील घुसा दीजिए। कील का भार इतना हो कि जब मोमबत्ती तैरे तो उसका ऊपरी सिरा पानी के तल से थोड़ा ही ऊपर रहे। मोमबत्ती और कील को एक लम्बे गिलास में तैरने दीजिए। मोमबत्ती को जला दीजिए और जब तक वह लगभग सारी न जल जाए उसे देखते रहिए। जलने के कारण मोमबत्ती का भार बराबर घटता रहेगा। तो फिर वह बराबर तैरती क्यों रहती है?


12. विविध प्रकार की लकड़ियों से प्लवन सम्बन्धी प्रयोग

एक काग, हल्की लकड़ी जैसे सेमर या आम, भारी लकड़ी जैसे शीशम या साखू, और आबनूस के टुकड़े लोजिए (ये समकोणीय हों तो अच्छा है)। उनको पानी की बालटी में डालिए और देखिए कि प्रत्येक क्या करता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हो?



13. तैरते हुए ग्रण्डे से प्रयोग करना

एक साधारण गिलास में ताजा पानी भर कर उसमें एक ग्रण्डा रखिए और ध्यान से उसका निरीक्षण करिए। फिर पानी में नमक धोलिए और देखिए कि ग्रण्डा अब भी तैरता है या नहीं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? वर्तमान प्रयोग और इस तथ्य में क्या सम्बन्ध है कि जहाज समुद्र के जल में कम डूबे रहते हैं तथा मीठे पानी में अधिक।




नमक के पानी में ग्रण्डा ताजे पानी में ग्रण्डा

14. आर्किमिडीज के सिद्धान्त पर प्रयोग

पाखानों में जल बहाने के लिए पानी की जो टंकी लगाई जाती है, उसकी तांबे बली गेंद लीजिए। गेंद की संधि खोल कर उसके भीतरी आधे भाग में साइकिल वाल्व टांके से ज्ञाल दीजिए। दूसरे आधे भाग में सीसा या सीसे का छर्चा यहां तक भरिए कि समूची गेंद पानी में तिर सके (अथात् यहां तक कि तनिक-सा भी अधिक भारी होने पर वह डूब जाए)। ज़रा-सी प्लास्टिसीन लगा कर जोड़ को कामचलाऊ बनाया जा सकता है:

सारी व्यवस्थाएं करने के बाद गेंद के दोनों भागों को परस्पर टांके से जोड़ दीजिए और अन्तिम काम यह करिए कि वाल्व-ग्राही (वाल्व-होल्डर) की गरदन पर तांबे का तार लपेट दीजिए। जब कभी यह पूछा जाता है—“वस्तुएं क्यों तैरती हैं” तो अवश्य ही छात्र कहते हैं—“कारण यह है कि उनके भीतर वायु है”। यदि इस उत्तर को मान लिया जाए तो उनमें हवा रहने से उन्हें अधिक अच्छी तरह तैरना चाहिए।

परन्तु इस उपकरण में लगातार बीस बार भी पम्प से हवा भरें तो भी गेंद डूब जाती है।



इसी प्रयोग को फुटबाल या धातु की जल-बोतल की सहायता से भी करिए।

15. शरबत पीने की नलिका से व्यवधनत्व-मापी बनाना

शरबत पीने की नलिका या कोई प्राकृतिक पोली वृत्त (जैसे नरकट या बांस) लीजिए जो लगभग 20 सेंटीमीटर लम्बी हो (और सर्वत्र एक व्यास की हो)। यदि वह जल-अभेद न हो तो उसे पिघली मोमबत्ती में डुबा लीजिए, और सूखने दीजिए। एक सिरे को मोम से बन्द कर दीजिए और नलिका के भीतर सीसे का छर्चा या महीन बालू इतनी मात्रा में डालिए कि नलिका पानी में सीधी खड़ी होकर तैरने लगे। नलिका में थोड़ा पिघला मोम डालिए, जिससे भीतर डाला पदार्थ (छर्चा या बालू) अपने स्थान में पड़ा रहेगा। नलिका को ऊपर-नीचे खिसकाने के लिए उसके तने पर रबड़ का पतला छल्ला या काला धागा बांध दीजिए। धागा चिह्न का भी काम करेगा।

नलिका में जहां तक जल हो, उस स्थान पर चिह्न लगाइए। तब नलिका को पानी के बाहर निकाल लीजिए और पेंदी से जल के चिह्न तक की दूरी नापिए। मान लीजिए यह क सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए कि जल का आपेक्षिक गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी) का क्षेत्रफल सर्वत्र समान है। तब हम नलिका पर विविध द्रवों के आपेक्षिक गुरुत्वों को नापने के लिए, उदाहरणार्थ 0.6 से 1.2 तक के आपेक्षिक गुरुत्वों को नापने के लिए, निम्नलिखित सूत्र से चिह्न लगा सकते हैं:

पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री


पेंदी से जल के चिह्न तक नलिका की लम्बाई—
द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व



16. किसी ऐसे द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व जो जल में अस्थिर नहीं होता

दोनों ओर खुली हुई एक नलिका लीजिए और उसे पानी में अंकाशतः डुबा कर (ऊर्ध्वाधर) रखिए। इस नलिका में इतना तेल छोड़िए कि पानी नलिका से होकर निचले सिरे तक निकल जाए। पूरे तेल-स्तम्भ और डूबी नलिका की सापेक्ष लम्बाइयाँ (अर्थात् दोनों की लम्बाइयों का अनुपात) तेल के आपेक्षिक गुरुत्व का मान बताती है।

अगर द्रव जल से भारी हो तो द्रव को बरतन में रखिए और नलिका में जल छोड़िए।




17: विविध द्रवों का गुरुत्व

कांच का एक लम्बा पतला बरतन (परीक्षण-नलिका या बोतल) लीजिए। निम्नलिखित द्रवों को भी इकट्ठा करिए: पारा, कार्बन टेंट्राक्लोराइड,

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पानी और मिट्टी का तेल। लोहे या इस्पात की एक छोटी गोली (जैसे साइकिल का छर्रा) या लोहे की छोटी डिबरी या काबला, आबनूस या पानी में डूबने वाली किसी लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा, मोमबत्ती का मोम, एक काग, आदि की भी आवश्यकता पड़ेगी। बरतन में पहले कुछ पारा डालिए और तब क्रम से कुछ कार्बन ट्रेटाक्लोराइड, पानी और मिट्टी का तेल। चारों ओर पदार्थों को बरतन में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि लोहा ऊपर के तीन द्रवों में डूब जाता है परन्तु पारे पर तैरता है। आबनूस ऊपर के दो द्रवों में डूब जाता है परन्तु कार्बन ट्रेटाक्लोराइड पर तैरता है, मोम मिट्टी के तेल में डूब जाता है परन्तु पानी पर तैरता है और काग मिट्टी के तेल पर तैरता है।



18. पनडुब्बी को कैसे उठाया और गिराया जाता है


चौड़े मुह की छोटी शीशी लीजिए और उसकी पेंदी में लोहे के या पत्थर के इतने टुकड़े रखिए कि वह डूबने न पाए। पत्थर के टुकड़ों पर पिघला मोम डाल कर उन्हें स्थिर कर दीजिए। शीशी खड़ी स्थिति में तैरे। शीशी में दो छेदों वाला एक काग लगाइए। एक छेद में U की आकृति की कांच-नलिका लगाइए, जो

शीशी की पेंदी तक पहुंचे। दूसरे में छोटी कांच-नलिका लगाइए और उसमें एक रबड़-नलिका जोड़िए। शीशी को पानी के किसी बड़े बरतन में रखिए।

रबड़-नलिका में मुह लगा कर चूस कर कुछ हवा निकाल लीजिए। इससे शीशी में साइफन द्वारा पानी घुसेगा और शीशी डूब जाएगी। पानी के एक अंश को फूंक कर निकाल देने से बोतल को ऊपर उठाया जा सकता है।

वस्तुतः पनडुब्बी के इंजीनियर पनडुब्बी की उत्पादकता को पानी के बराबर रखते हैं और तब पानी के ऊपर आने या पानी के नीचे जाने के लिए उच्चालिश्रों (ऐलिवेटर्स) का उपयोग करते हैं। तल पर रहने के लिए वे उठने के बाद टंकियों के पानी को 'फूंक कर बाहर' निकाल देते हैं। जब पनडुब्बी पानी में डूबी रहती है तब टंकियों को संपीड़ित वायु से खाली करना सुगम नहीं होता।

यह प्रयोग यह भी बताता है कि डूबे जहाजों को उठाने के लिए टंकियों या पीपों का उपयोग किस सिद्धान्त पर किया जाता है। पूर्वोक्त शीशी में एक बोझ बांध दीजिए, दोनों को पानी में डूबने दीजिए और शीशी में हवा फूंक कर बोझ को उठाइए।



च. द्रवों के तल

पानी तथा अन्य द्रवों के ऊपर एक पतला पटल (फिल्म) होता है, जिससे उनका तल ढका रहता है। यह तल-पटल द्रव पर तना रहता है और इसे बहुधा तल-तनाव (सरफेस टेन्शन) भी कहते हैं। द्रव तलों के साथ कई-एक रोचक प्रयोग किए जा सकते हैं।

पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

1. पानी पर सूई तैराना

इस्पात की सूई को अच्छी तरह सुखा लीजिए। उसे खाना खाने के कांटे के कांटों पर रखिए और कांटे को धोरें-से तश्तरों में रखे पानी में ले जाइए। यदि आप यह काम सावधानी से करेंगे तो जब कांटे डूब जाएंगे तब सूई तैरती रह जाएंगी और आप कांटे को बाहर निकाल लें। पानी के तल के ध्यान से देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि सूई के भार से पानी का तल किस प्रकार दबा हुआ-सा जान पड़ता है?



2. रेजर ब्लेड को तैराना

एक इस्तेमाल किया हुआ रेजरब्लेड लीजिए, जिसके दोनों तरफ धार हो। उसे पानी के तल पर तैराने की चेष्टा करिए। फिर तल का निरीक्षण करिए और देखिए कि तल-पटल रेजर ब्लेड के नीचे दब जाता है या नहीं।

3. जल-तल को ऊपर उठाना

पिन के नोक वाले सिरे को मोड़ कर या पतले तार को झोड़ कर अंकुश बनालीजिए। अंकुश की नोक को खुब तेज़ कर लीजिए। पानी पीने के गिलास में पानी भरिए और अपनी आंख को पानी के तल के समतल रखिए। अंकुश के सिरे को पानी में डुबा दीजिए और उसकी नोक को इतना उठाइए कि वह पानी के तल (सरफेस) को छू दे। यदि आप सावधानी से काम करेंगे तो नोक तल को छेद करके बाहर नहीं आएंगी। वह तल को जरा-सा ऊपर उठा देगी।

4. छलनी में पानी रखना

तार की घरेलू छलनी की जाली पर थोड़ा-

सा तेल डालिए और फालतू तेल को झटकार दीजिए, जिससे छेद खुल जाए। एक जारी(पिचर) से छलनी पर सावधानी से पानी छोड़िए कि पानी छलनी की दीवारों से होकर नीचे उतरे। जब छलनी लगभग आधी भर जाए तो उसे बालटी के ऊपर कुछ ऊचाई पर पकड़ कर पेंदी का निरीक्षण करिए। आप देखेंगे कि पानी छेदों में से निकलने की चेष्टा कर रहा है परन्तु तल-तनाव उसे इस ओर नहीं निकलने देता। छलनी की पेंदी को अपनी अंगुली से छू दीजिए। पानी इस पार निकल आएगा।

5. डिब्बे के ढक्कन से एक प्रयोग

डिब्बे का ढक्कन लीजिए और उसमें महीन कील और हथौड़ी से बहुत-से छेद कर दीजिए। उसे बालटी के पानी में तैरा दीजिए। क्या पानी छेदों में से होकर ऊपर चढ़ता है? ढक्कन को निकालिए और अब उसे शारी से पानी डाल कर भरिए कि पानी ढक्कन की दीवारों से सट कर ढक्कन के भीतर पहुंचे। क्या पानी ढक्कन के बाहर गिरता है?

6. पानी को गिलास के तल से ऊपर उठाना

पानी पीने के एक गिलास को थाली या तश्तरी में रखिए। गिलास की बारी को सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। गिलास में इतना पानी डालिए कि वह ऊपर तक भर जाए। आप देखेंगे कि पानी गिलास के माथे से कई मिलीमीटर ऊपर तक भरा जा सकता है। अब गिलास में सिक्कों या धातु की पतली बाशरें को उनकी धार के बल धीरे-धीरे डालिए। देखिए कि इनको पानी में डाल कर पानी को बिना गिराए हुए आप तल को कितना ऊपर उठा सकते हैं?

7. बुश को तुकीता करना


रंगने का कोई भी बुश लीजिए और उसके बालों को देखिए। अब बुश को पानी में डुबो कर निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि तल-तनाव ने बालों को खींच कर संश्लिष्ट कर दिया है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

चित्रकार की तूलिका अथवा हजामत बनाने के बुश से भी यह प्रयोग अच्छी तरह किया जा सकता है।

8. तल-तनाव की सहायता से एक खेल खिलाना

एक पुराना डिब्बा लीजिए और उसमें कील से पांच छेद करिए। ये छेद डिब्बे की पेंदी के पास और पांच-पांच सेंटीमीटर की दूरी पर रहें। अब डिब्बे में पानी भर दीजिए। डिब्बे से पानी की पांच धारें निकलती हैं। अपने अंगूठे और तर्जनी से इन धारों को ढाबा दीजिए। पांचों धारों मिल कर एक में बहने लगेंगी। यदि आप अपने हाथ को छेदों पर ढोड़ा दें तो पानी फिर पांच धारों में होकर निकलेगा।



9. पानी कपड़े के दूसरी ओर नहीं जाएगा

कांच का कोई बरतन लीजिए और साथ ही किसी पुरानी धोती से थोड़ा कपड़ा या कोई झमाल ले लीजिए। बरतन में पानी भरिए। कपड़े को अच्छी तरह गीला करिए। उसे बरतन के मुंह पर कसिए और धागे या डोर से बांध दीजिए। बरतन को बालटी के ऊपर आंधा दीजिए, और देखिए कि तल-तनाव पानी को कपड़े से दूसरी ओर नहीं गिरने देता।

10. तल-तनाव पर साबुन का प्रभाव

एक बड़ी-सी प्लेट या थाली लीजिए और उसे इतनी देर तक पानी से धोइए कि वह पूर्णतः साफ हो जाए। उसे ठण्डे पानी से भरिए और मेज पर कुछ देर तक पड़ा रहने दीजिए, जिससे पानी शान्त हो जाए। पानी के तल पर हल्का-हल्का टैल्कम पाउडर छिड़क दीजिए। अब एक साबुन के टुकड़े को गीला करिए और

उससे प्लेट के एक किनारे पर पानी को छुआइए। टैल्कम पाउडर लिच कर तुरन्त प्लेट के दूसरी ओर चला जाएगा। साबुन उस स्थान के तल-तनाव को कम कर देता है और दूसरी ओर का तल-तनाव बढ़ कर तल को संकुचित कर देता है तथा टैल्कम को अपने साथ खींच ले जाता है।

11. तल-तनाव पर पेट्रोल का प्रभाव


ऊपर के प्रयोग को फिर से करिए। ध्यान रखिए कि प्लेट खूब साफ रहे। यह अच्छा होगा कि पानी भरने से पहले कुछ समय तक प्लेट को ठण्डे पानी से धोया जाए। अब की बार साबुन के बदले प्लेट के किनारे के पास पानी पर पेट्रोल की एक बूद डालिए। पानी के तल-तनाव पर पेट्रोल का क्या प्रभाव पड़ता है?

12. धागे के फन्दे से एक प्रयोग

थाली को पानी से धोकर खूब साफ कर लीजिए और तब उसमें पानी भरिए। धागे के दोनों सिरों में आपस में गांठ लगा कर एक फन्दा बनाइए। उसे कुछ फैला कर पानी के ऊपर तैरा दीजिए। फन्दे की गोलाई के भीतर के पानी के तल को जारा-सा साबुन से छुआइए और परिणाम देखिए।

13. तल-तनाव की सहायता से नाव खलाना

बनिये की टुकान से थोड़ा-सा कपूर मोल लीजिए। कड़े कागज से दो या तीन नावें काटिए। प्रत्येक लगभग 2.5 सेंटीमीटर लम्बी रहे। प्रत्येक के पिछले भाग में एक खांचा काटिए, जो ऐसा हो कि उसमें कपूर का टुकड़ा फँसाया जा सके और वह टुकड़ा पानी को छूता रहे। पानी के बड़े थाल में अपनी नावों की तैराइए।




पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

खांचे को ठीक बीच में रखने के बदले उसे दाहिने या बाएं कुछ हटा कर रखने से एक रोचक परिवर्तन दिखाई देगा।

14. तल-तनावयुक्त प्लावी

तांबे के पतले तार को मोड़ कर एक छल्ला बनाइए, जिसका व्यास लगभग 8 सेंटीमीटर हो। छल्ले के दूसरी ओर तार के दो टुकड़े कस कर ऐंठ दीजिए और इन दोनों तारों को लगभग 8 सेंटीमीटर नीचे ऐंठ कर एक में एक मिला दीजिए। ऐंठा हुआ भाग लगभग 5 सेंटीमीटर लम्बा रहे। चित्र में दिखाई गई रीति से एक चपटा काग लगा दीजिए और तब थोड़ी-सी रांगों की पश्ची को लपेट कर सबसे नीचे बांध दीजिए। इससे यह प्लावी (तैरने वाली वस्तु) खड़ी दिशा में ही तैरेगा। अब इस प्लावी को पानी की बाल्टी में रखिए और इसे पानी के भीतर डुबा दीजिए। जब यह नीचे से ऊपर उठेगा तो यह तल-पटल को तोड़ कर ऊपर नहीं आ सकेगा। देखिए कि यह तल-पटल में किस प्रकार खिचाव उत्पन्न कर देता है। पश्ची की मात्रा इतनी रहें कि जब प्लावी को जल पर छोड़ा जाए और प्लावी तिरने लगे तो काग प्रायः डूबा रहे।



15. तल-तनाव की सहायता से गोले बनाना

कांच का एक बरतन लीजिए और उसमें लगभग दो-तिहाई बाजार अल्कोहल भर दीजिए। अल्कोहल में दबा टपकाने वाली नलिका से तेल की कुछ बूंदें टपका दीजिए और तब बरतन को पानी से भर दीजिए। यदि आप मिश्रण ठीक बना लें तो तेल के गोले धीरे-से बरतन के लगभग बीच तक पहुंच जाएंगे। तल-तनाव तेल की बूंदों को गोलों का रूप देता है।

16. साबुन के बुलबुले छोड़ना

साबुन के पटलों और बुलबुलों से तल-तनाव पर बहुत रोचक प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। एक प्याली गरम पानी में तीन बड़े चम्मच साबुन का चूर्ण या साबुन की पत्तियाँ (फ्लेक्स) डाल कर आप साबुन का बढ़िया घोल तैयार कर सकते हैं (साबुन को नापने में चम्मच समतल भरा जाए, उस पर ढेर न लगाया जाए)। इस्तेमाल के पहले साबुन के घोल को तीन दिन तक पड़ा रहने दीजिए। बुलबुले फूंकने की फूंकनी, शरबत की नलिका, तस्वाक् पीने की विलायती नली (क्ले पाइप या गांजे वाली चिलम) या टीन के पुराने भौंपू से, जिसका व्यास लगभग 4 सेंटीमीटर हो, बुलबुले फूंकने की चेष्टा करिए।

बुलबुला फूंकने वाला एक दूसरा बढ़िया उपकरण शरबत की नलिका से बनाया जा सकता है। एक सिरे से 1 सेंटीमीटर तक चार लम्बी चीरें लगाइए, जिससे नलिका में चार फांकों बन जाएं। इन फांकों को बाहर की ओर मोड़िए। सिरे को चीरने के लिए रेजर ब्लेड अच्छा काम देता है।


17. साबुन के बुलबुले के लिए आधारदण्ड बनाना

बेलनाकार लकड़ी (या बांस) लीजिए, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लम्बी हो। इसे धांगी रील में, या पेंदी बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी में खोंस दीजिए। आधारदण्ड पर तांबे या लोहे का तार लपेटिए ताकि वह वहां टिका रहे और तार के सर पर एक फन्दा बनाइए, जिसका व्यास लगभग 10 सेंटीमीटर हो। फन्दे को साबुन के घोल में डुबा दीजिए। बड़े बुलबुले के भीतर एक छोटा

साबुन का एक बड़ा बुलबुला फूंकिए और उसे पूर्वोक्त फन्दे पर रख दीजिए। अब शरबत पीने की नलिका को साबुन के घोल से गीला करिए और सावधानी से उसे बड़े बुलबुले में घुसा दीजिए। बड़े बुलबुले के भीतर एक छोटा

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ


बुलबुला फूंकने की चेष्टा करिए। इसमें कुछ अस्थास की आवश्यकता पड़ेगी।



18. साबुन के पटलों से कुछ प्रयोग

तार से निम्नांकित आकृतियाँ बनाइए। विविध आकृतियों को साबुन के गाढ़े घोल में

डुबाइए और इस प्रकार बन पटलों का निरीक्षण करिए।



तार वाली आकृतियों को साबुन के घोल में डुबाइए। इस तार को ज़रा-सा खीचिए और देखिए कि पटल किस प्रकार खीच कर बढ़ता जाता है। खिसकने वाले तार को छोड़ दीजिए। पटल के सिकुड़ने के कारण वह पीछे की ओर खीच जाएगा।

यन्त्रों के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. उत्तोलक, चक्र, धुरी तथा घिरनी

1. एक साक्षात्रण समझूज उत्तोलक

पहले लकड़ी की पेंदी बनाइए, जो 15 सेंटीमीटर के वर्ग के आकार की और 2 सेंटीमीटर मोटी हो। इस पेंदी के बीच में लकड़ी की एक दूसरी इष्टिका जड़िए, जो 4 सेंटीमीटर के वर्ग के आकार की और 3 सेंटीमीटर मोटी हो। इस इष्टिका की दो बगलों में दो खड़ी लकड़ियां जड़िए, जो कि प्रत्येक 1.5 सेंटीमीटर लम्बी, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी हों। इनको पूर्वोक्त इष्टिका में पेंच से कसा जा सकता है। प्रत्येक खड़ी लकड़ी के ऊपरी सिरे में पतली आरी से एक पतला चौर लगाइए। यह चौर 2 सेंटीमीटर से कुछ कम ही गहरा रहे, अर्थात् केवल इतना ही कि उसमें पुराना रेजर ब्लेड डालने पर उसका कुल 2 या 3 मिलीमीटर भाग खड़ी लकड़ी से ऊपर निकला रहे।

उत्तोलक की भुजा के लिए एक ऐसी समांग पटरी का उपयोग करिए जिसकी लम्बाई लगभग 1 मीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई 5 मिलीमीटर हों। इस पटरी को किसी छुरी की धार पर सन्तुलित करिए और इसके सन्तुलन-केन्द्र का ठीक पता लगाइए। पटरी के सन्तुलन-केन्द्र के आर-पार एक पतली कील ठेंकिए। कील इतनी लम्बी हो कि वह पूर्वोक्त रेजर ब्लेड पर टिक सके और इस प्रकार पटरी उनके बीच स्वतन्त्रता से धूम सके।

पटरी को रेजर ब्लेडों पर सन्तुलित करिए और यदि पटरी पूर्णतया सन्तुलित न हो तो आरी और के सिरे को कुरी वा आरी से झरा-सा काट दीजिए।

पटरी पर सेंटीमीटरों के चिह्न लगा दीजिए। इस काम को कील (आलम्ब) की ओर से आरम्भ करिए और दोनों दिशाओं में 1 से शुरू करके पटरी के अन्त तक अंक लगाइए।

भारों और बटखरों को धागे के फल्दों द्वारा सन्तुलन-पटरी से लटकाइए।

(1) 10 ग्राम के एक बटखरे को आलम्ब से 20 सेंटीमीटर पर लटकाइए और तब 10 ग्राम के एक दूसरे बटखरे को दूसरी ओर रख कर सन्तुलित करिए। जब पंटरी सन्तुलित हो जाए तो देखिए कि दूसरा बाट आलम्ब से कितनी दूरी पर है। बाट को आलम्ब के कुछ अधिक निकट रख कर प्रयोग को दोहराइए और फिर दूर रख कर।

(2) 100 ग्राम के बटखरों से ऊपर के प्रयोग (1) को दोहराइए।


(3) एक ओर दो बटखरे रखिए और दूसरी ओर एक बटखरा रख कर सन्तुलित करिए। यहां सन्तुलन किस प्रकार किया जा सकता है? सुझाव : आलम्ब के एक ओर के प्रत्येक भार को आलम्ब से उस भार की दूरी को गुणा करिए और गुणनफलों को जोड़िए। इसकी तुलना दूसरी ओर के भार और दूरी के गुणनफल से करिए।

2. एक सरल तुला

चित्र में दिखाई गई रीति से एक पैमाने को धागे के फल्दों से किसी मेज से थोड़ा ऊपर लटकाइए। जब पटरी सन्तुलित रहे तो एक ही प्रकार के दो सिक्के लेकर एक को पटरी के एक ओर रखिए और दूसरे को दूसरी ओर इतनी दूरी पर कि पटरी फिर सन्तुलित


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर-ग्रन्थ

हो जाए। सिक्कों और दूरियों का सरल चुनाव करिए और धूर्ण (मोमेंट्स) के सिद्धान्त के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करिए। उदाहरणार्थ 2 सिक्कों को पटरी के किसी सिरे पर रखने पर उनका सन्तुलन, आलम्ब और पटरी के दूसरी ओर के बीचोंबीच रखे गए 4 सिक्कों से होगा।



3. सरल दण्ड-तुला

छात्रों को जिस प्लेटफार्म-तुला से तोला जाता है उसका दण्ड वस्तुतः एक उत्तोलक होता है, जिसका आलम्ब एक छोर से बहुत समीप होता है। इस प्रकार की तुला के कार्य-सिद्धान्त को दिखाने के लिए प्रयोग-2 में बताई गई पटरी पर आलम्ब के पास 8 या 10 सिक्कों को गड़ी बना कर रख दीजिए। पटरी की दूसरी ओर केवल एक सिक्का रख कर और उसे आगे-पीछे खिसका कर सन्तुलन करिए।




4. प्रथम श्रेणी का उत्तोलक

किसी छड़ी या पटरे को काट कर कक्षा की


किसी मेज या भारी डेस्क की ऊंचाई का कर लीजिए। उसके ऊपर कोई दूसरी, लगभग उतनी ही लम्बी, छड़ी रखिए। इस दूसरी छड़ी के एक सिरे को मेज के एक किनारे के नीचे लगाइए और उसे उत्तोलक (लिवर) की तरह इस्तेमाल करके मेज या डेस्क को उठाइए।

देखिए कि उत्तोलक से भारी वस्तु को उठाने में उत्तोलक की लम्बी भुजा का सिरा छोटी भुजा के सिरे की अपेक्षा अधिक चलता है। वास्तव में उत्तोलक का प्रयोग करने में ताकत की बचत नहीं होती। लम्बी भुजा पर हम जितना बल लगाते हैं, उससे कहीं अधिक बल छोटी भुजा में आ जाता है।



5. द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक


लकड़ी की एक सीधी पटरी लीजिए, जो लगभग 1 मीटर लम्बी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 मिली-मीटर मोटी हो। एक सिरे के पास बर्मी से छेद करिए, जो चौड़ाई के बीच में हो। फिर ऊपर प्रयोग-1 में बताई गई दोनों खड़ी लकड़ियों में, जड़ से लगभग 12 सेंटीमीटर ऊपर, छेद करिए। उत्तोलक पटरी को इन खड़ी लकड़ियों के बीच इस प्रकार रखिए कि तीनों छेद एक सीधे में आ जाएं और उनमें एक कील डाल



‘जिए। उत्तोलक पटरी के किसी स्थान पर भार लटकाइए और पटरी के सिरे के पास कमानी तुला लगा कर भार को उठाइए।

6. तृतीय श्रेणी का उत्तोलक

तृतीय श्रेणी का उत्तोलक सरल प्रयोगों के लिए बनाया जाता है। उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करिए जो ऊपर के प्रयोग-5 में काम में लाई गई थीं परन्तु भार के स्थान पर तुला रहे और तुला के स्थान पर भार।




7. छेकुलीनुमा (सी-सा) उत्तोलक

लगभग 3 मीटर लम्बा एक मोटा तस्ता कक्षा में लाइए। उसे किसी बक्स की कोर पर अथवा किसी अन्य सुविधाजनक वस्तु पर सन्तुलित करिए और छात्रों को इस उत्प्रतानत (सी-सा) से प्रयोग (एक्सपरिमेण्ट) करने दीजिए। आलम्ब के प्रत्येक ओर बच्चों को भिन्न-भिन्न संख्याओं में बिठाइए।


8. साधारण चक्र और धुरी

हथा धुमा कर पेसिल नुकीली करने की मशीन (या सान की मशीन) प्राप्त करिए। पेसिल नुकीली करने की मशीन के ढक्कन को हटा दीजिए या सान की मशीन से पथर हटा दीजिए। धरी पर डोर लपेट कर उस कस कर बांधिए। डोर के सिरे पर कई किलोग्राम का कोई बोझ बांध दीजिए और हथेरे को चलाइए। आप देखेंगे कि बोझ पर गुरुत्वाकर्षण का बल, हथा धुमान के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा, बहुत कम है। छात्रों को बताइए कि पेसिल नुकीली करन की मशीन इस प्रदर्शन में चक्र और धुरी की तरह काम कर रही है।




9. एक दूसरा चक्र और धुरी

थोड़ा मोटा नालीदार दुहरा गता प्राप्त करिए (चीड़, सेमर या आम के पतले पटरे से भी काम चल सकता है)। गते पर परकार से 15, 10 और 5 सेटीमीटर व्यास के वृत्त खींचिए। वृत्त में केन्द्र पर छेद करके दूसरी ओर भी वृत्त खींचिए। प्रत्येक पहिए को काट कर ग्रलग कर लीजिए। गते को दोनों ओर से सफाई से काटिए। तीनों पहियों के केन्द्रों में कील डाल कर तीनों को सरेस लगा कर अथवा स्टैपल लगा कर एक-दूसरे से जड़ दीजिए। मझोला पहिया बीच में रहे। उद्देश्य यह है कि तीनों पहिए एक साथ एक धुरी पर धूमें। चित्र में दिखाई गई रीति से उन्हें आरोपित करिए। प्रत्येक पहिए की परिधि को किसी प्रतीक्षण औजार से सावधानी से दबाइए ताकि उसमें एक हल्का-सा खांचा पड़ जाए। लकड़ी के पहिए हों तो खानी से काट कर खांचा बनाइए। प्रत्येक पहिए पर धागा लपेटिए। परिधि (रिम) में कहीं पर एक पिन लगाइए और धागा लगाने के पहले उसके एक सिरे को पिन में बांध दीजिए। धागों के दूसरे सिरों पर फन्दे बना दीजिए, जिससे बोझ लटकाया जा सके। बोझ हल्का रहे, जैसे कपड़ा लटकाने वाली चुटकियां (लकड़ी के पहिए हों तो भारी बोझ भी लटकाया जा सकता है)। आप देखेंगे कि उत्तोलक के समान इस यन्त्र से भी कई गुना भार उठाया जा सकता है। चक्र और धुरी एक प्रकार का उत्तोलक ही है।



10. सरल घिरनी बनाना


धागे की रील और तार का हैंगर अर्थात् कपड़ा लटकाने वाले तार (या लोहे के मोटे तार) से एक काफी सन्तोषजनक घिरनी (पुली) बनाई जा सकती है। यदि हैंगर अर्थात् कपड़ा लटकाने वाला तार हो तो हुक से लगभग 20 सेंटीमीटर हट कर दोनों तारों को काट दीजिए। सिरों को समकोण पर झुका दीजिए और दोनों को रील के छेद में डाल कर इससी ओर निकाल लीजिए। तारों को इस तरह ठीक से लगाइए कि रील सुगमता से धूमे और तब सिरों को नीचे की ओर मोड़ दीजिए ताकि तार फैलें नहीं।



11. एकल स्थिर घिरनी


एकल घिरनी को नीचे के चित्र के अनुसार व्यवस्थित करिए। बटखरों की सहायता से

देखिए कि 25, 50, 75, 100 और 200 ग्राम के बटखरों को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ती है। नाप कर देखिए कि प्रति-रोधी बल (भार) को 30 सेंटीमीटर तक उठाने के लिए प्रयास-बल को कितनी दूर चलना पड़ता ।



12. एकल चलायमान घिरनी

चित्र में दिखाई गई रीति के अनुसार किसी समतल आधार से दो घिरनियों को डोर द्वारा लटकाइए और उन पर भार लटकाइए। इसके लिए यदि प्रदर्शन मंच पर कोई समंजन-शील आधार न हो तो कुर्सियों को पीछे पर पद्म-छड़ रख कर भी काम चलाया जा सकता है। डोर के स्वतन्त्र सिरे पर कमानी तुला बांधिए और वस्तु के भार की ओर घिरनी-तन्त्र




यन्त्रों के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

द्वारा उसे उठाने के लिए आवश्यक बल की तुलना करें। उन दूरियों की भी तुलना करें, जिन पर प्रयास-बल और भार को अन्नन: सन्तुलित किया जाता है।

13. इच्छिका और रस्सी (ब्लाक और टैकल)

दो छात्रों को कहिए कि उनमें से प्रत्येक एक गोल छड़ी ले ले (जैसे बांस का डण्डा), और वे एक-दूसरे से कई फुट की दूरी पर खड़े हो जाएं। एक छड़ी में कपड़ा लटकाने की ओर (या चारपाई की उन्नचन) के एक सिरे को बांध दीजिए और तब डौर को दोनों छड़ियों के चारों ओर लपेट दीजिए, जिससे एक प्रकार से विरनी-संयोजन बन जाए। अब किसी तीसरे छात्र से, जो इन दोनों से छोटा हो, कहिए कि वह रस्सी के मुक्त सिरे को खींचे। छड़ी पकड़ने वाले छात्र चाहे कितना भी बल लगाएं, छोटा छात्र दोनों छड़ियों को खींच कर पास ला देगा।

उन सब युक्तियों की सूची बनाइए, जिनमें बल बढ़ाने के लिए विरनियों का उपयोग होता है। कर्ण कारें (बिंगड़ी मोटरकारों के अगले भाग को ऊपर उठा कर खींच ले जलने वाली लाइंयों) और मिट्टी आदि उठाने के शक्तिचालित यन्त्र इसके उदाहरण हैं। अन्य युक्तियों और मशीनों की सूची बनाइए, जिनकी सहायता से बल बढ़ाया जा सकता है।



नत समतल, पेच और फी


1. सरल नत समतल


छोटी गाड़ी या रोलर स्केट में एक कमानी-दार तुला बांधिए और उसे नत समतल (इन-क्लाइप्प फ्लेन) पर रख कर ऊपर लगाइए। देखिए कि उसे ऊपर चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ती है और इस बल की तुलना उस बल से करिए जो गाड़ी को सीधे ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है। यह भी देखिए कि सीधे ऊपर उठाने की अपेक्षा गाड़ी नत समतल पर चढ़ा कर पहले के बराबर ही ऊपर उठाने में अधिक दूरी तक बल लगाना पड़ता है। यदि हम घरें (फिक्शन) की बात न सोचें

तो दोनों दशाओं में समान ही बल-प्रयोग या कार्य करना पड़ता है। छात्रों को बताइए कि यही बात अन्य सरल मशीनों के सम्बन्ध में भी चरितार्थ होती है।

2. पेच एक नत समतल है

सफेद या बादामी कागज पर एक समकोण त्रिभुज लगाइए और उसे काट लीजिए। त्रिभुज का आधार लगभग 30 सेंटीमीटर लम्बा हो और दूसरी भुजा लगभग 15 सेंटीमीटर की हो। एक गोल छड़ी लीजिए और त्रिभुजाकार कागज को उस पर इस तरह लपेटिए कि त्रिभुज की छोटी भुजा छड़ी पर पहले पड़े और छोटी भुजा के सामने वाली नोक की बारी पूरा कागज लपेटे जाने पर आए। कागज के लपेटे जाने पर भी त्रिभुज की आधार-रेखा अपने ही ऊपर पड़ती जाए। देखिए कि नत समतल की लम्बाई (त्रिभुज का कर्ण) छड़ी पर समिलाकार रूप में ऊपर की ओर चली गई है।






3. एक सरल जैक पेच

लकड़ी की इष्टिका के आर-पार एक छेद कर दीजिए ताकि उसमें एक लम्बा बोल्ट (कैरेज बोल्ट) कस कर बैठाया जा सके। इसके लिए ऐसा बोल्ट चुनिए जिस पर प्राप्त: पूरे में ही चूड़ी बनी हो। बोल्ट के सर को इष्टिका में इतना कर दीजिए कि उसका तल लकड़ी के तल में आ जाए और तब उसके ऊपर एक पटरा जड़ दीजिए (यह पटरा पेंदी का काम देगा)। नीचे की ओर जो चूड़ियां निकली हुई हों, उन पर एक ढिवरी चढ़ा दीजिए, ढिवरी के ऊपर एक वाशर और फिर धातु के नल का एक टुकड़ा भी। इस नल का भीतरी व्यास बोल्ट के व्यास से कुछ अधिक रहे। ढिवरी को रिंच से धुमान से कुछ अधिक रहे।


ग. यन्त्रों के उपयोग से वेग को बढ़ाना

1. छोटी-बड़ी रीलें

कीलों की धुरी बना कर लकड़ी की इष्टिका पर एक बड़ी रील और एक छोटी रील लगा दीजिए। दोनों रीलों के ऊपर रबड़ का एक छत्ता चढ़ा दीजिए। बड़ी रील को पूरा एक चक्कर घुमाइए और देखिए कि छोटी रील एक चक्कर से अधिक घमती है या कम। उन युक्तियों की सूची बनाइए जो पट्टों की सहायता से चलती हैं।



पर यह युक्ति एक शक्तिशाली (लिफिंग जैक) का काम देगी।



4. फन्नी

लकड़ी की एक फन्नी बनाइए, (अर्थात् लगभग 15 सेंटीमीटर लम्बी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लीजिए और उसे वस्तु से छील कर उसकी मोटाई एक सिरे पर पूर्ववत् ही रहने दीजिए, परन्तु वहां से घटाते-घटाते दूसरे सिरे पर लगभग शून्य कर दीजिए, इसे मेज की टांग अथवा अन्य भारी वस्तु के नीचे धुसा दीजिए। ध्यान से देखने पर आपको मालूम होगा कि फन्नी एक दोहरा नत समतल होती है।

2. साइकिल की सहायता से प्रयोग करना

एक साइकिल को उलट दीजिए। साइकिल सीट और हैंडल पर टिकी रहे। पैडल को ठीक एक चक्कर घुमाइए और देखिए कि पिछला पहिया इतने में कितने चक्कर घूमता है।

3. अण्डा-फेंटनी

हाथ से चलने वाली अण्डा-फेंटनी अथवा हाथ की बर्मी अथवा किसी अन्य ऐसी मशीन को चला कर देखिए, जिसमें दांतेदार पहियों के उपयोग में वेग-वृद्धि की जाती हो।

4. उत्तोलक का उपयोग

छात्रों को दिखाइए कि यदि आलम्ब केन्द्र में न हो तो उत्तोलक की लम्बी भुजा छोटी भुजा की अपेक्षा अधिक वेग से और अधिक दूर तक चलती है। किंतु अथवा

यन्त्रों के अव्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

बेसब्राल के बैट में भी इसी लाभकारी सिद्धान्त का उपयोग किया जाता है। वेग बढ़ाने के लिए उत्तोलक तथा अन्य सरल मशीनों के उपयोग से सम्बन्धित अन्य उदाहरणों की एक सूची बनाइए।

5. घरनी का उपयोग

प्रयोग क-12 में दिखाए गए घरनी-संयोजन से कोई काम करिए। चलायमान घरनी पर हाथों से बल लगाइए और देखिए कि डोर के

घ. बलों की दिशा बदलने के लिए यन्त्रों का प्रयोग

1. उच्चालित्र (ऐलिवेटर) की प्रतिकृति

उच्चालित्र की एक काम करने वाली प्रतिकृति (वर्किंग मॉडल) साधारण सामग्री द्वारा सुगमता से बनाई जा सकती है। घूमने वाली ढोलकों के लिए, जिन्हें शीवज कहते हैं, धातु के बने काफी के बेलनाकार डिब्बों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हथौड़ी और बड़ी कील से पेंदी और ढक्कन के ठीक बीचोंबीच छेद कर लीजिए। ढक्कनों को डिब्बों पर कस दीजिए और तब डिब्बों को एक पटरे के अलग-अलग सिरों पर इस तरह आरोपित करिए कि वे सुगमता से घूम सकें।

उच्चालित्र का कठधरा बनाने के लिए गते या लकड़ी का एक छोटा चौकोर डिब्बा लीजिए। इस डिब्बे के दोनों सिरों पर डोर बांधिए और इन डोरों को चित्र में दिखाई गई रीत से शीवों पर लेपेट दीजिए। कठधरे के भार को मन्तुलित करने के लिए थोड़ी सनी हुई मिट्टी (या मूर्ति बनाने की मिट्टी) लीजिए, केवल इतनी ही मिट्टी रखिए कि कठधरा ठीक-ठीक सन्तुलित हो जाए। उच्चालित्र चलाने के लिए उस शीव को घुमाइए जिस पर डोर दोहरी लिपटी हुई है। यह प्रतिकृति वास्तविक उच्चालित्र से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है, परन्तु वास्तविक उच्चालित्र का शीव विद्युत् मोटर से चलाया जाता है।

2. सरल गियर


हथौड़ी और मझोले आकार की कील से

दूसरे छोर पर बंधा बोझ हाथ की अपेक्षा किस वेग से उठता है।

6. चक्र और धुरी का उपयोग


प्रयोग क-3 में दिए गए पेसिल नुकीली करने वाले यन्त्र का उपयोग करिए। डोर के उस सिरे को खींचिए जिसमें पुस्तके लटकाई गई थीं और देखिए कि हैंडल अपेक्षाकृत कितने वेग से घूमता है।

घ. बलों की दिशा बदलने के लिए यन्त्रों का प्रयोग




कई-एक बोतलों के पुराने टीन के ढक्कनों के ठीक बीचोंबीच छेद करिए। यदि ढक्कन कहीं टेढ़े हो गए हों तो ठोक कर उन्हें यथासम्भव सीधा कर दीजिए।

लकड़ी की इष्टिका पर इनमें से दो ढक्कनों को इस प्रकार रखिए कि उनके दांतेदार भाग एक-दूसरे में फंस कर चलें। ढक्कनों को चौड़े सिर वाली कीलों से जड़ दीजिए परन्तु यह ध्यान रह कि वे अन्त तक सुगमता से घूम सकें। एक ढक्कन को घुमाइए और देखिए कि दूसरा किस दिशा में घूमता है। तीसरा ढक्कन संयोजित करिए और देखिए कि प्रत्येक किस दिशा में घूमता है।



इ. घर्षण का उपयोग और उसको दूर करना

किसी भारी बक्स के नीचे गोल (बेलनाकार) पेंसिलें रख दीजिए। बक्स में डोर बांध दीजिए और यह देखिए कि उसे मेज पर दूसरी ओर तक खींचने में कितना बल लगता है। फिर यह देखिए कि पेंसिलों के अभाव में कितना बल लगता है। प्राप्त जानकारी को संक्षिप्त रूप में लिखिए और जो कुछ हुआ है उसका कारण बताइए।



2. पहियों का उपयोग


ऊपर के प्रयोग को फिर से करिए, परन्तु बलनों (पेंसिलों) के बदले किसी पहिएदार युक्ति का उपयोग कीजिए, जैसे रोलर-स्केट का (या कई-एक रोलर-स्केटों का)। वस्तुओं को हटाने-बढ़ाने के लिए बलनों की अपेक्षा पहियों के उपयोग से होने वाले लाभों को बताइए।

3. सर्पी घर्षण (स्लाइडिंग फ्रिक्शन)


किसी रोलर-स्केट के दोनों ओर के पहियों पर समपार रबड़ के छल्ले (किस्कास्ड रबर बैण्ड्स) चढ़ाकर पहियों को जकड़ दीजिए। इस रोलर-स्केट को ढाल पटरे पर रखिए और

3. समपार पट्टों का उपयोग

ऊपर प्रयोग ग-1 में प्रयुक्त घिरनियों के पट्टों को व्यत्यय कर दीजिए (अर्थात् उसके भाग एक-दूसरे को लांघ कर चलें)। देखिए कि घिरनियां अब विपरीत दिशाओं में घूमती हैं।



देखिए कि रबड़-घर्षण किस प्रकार उसे फिसलन नहीं देता।



4. घर्षण-स्थान

विविध यानिक युक्तियों के उन स्थानों को खोजिए जहां उसके विभिन्न भाग एक-दूसरे से राङड़ खाते हैं। रोलर-स्केट, घिरनियां और लिलौनों के पहियों में बहुधा तेल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दो घुरनियां पाने की चेष्टा करिए, जिनमें तेल डालने की आवश्यकता हो, उदाहरणार्थ रोलर-स्केट की घरनियां। एक में तेल दीजिए और देखिए कि बिना तेल वाले पहिए की अपेक्षा तेल वाला पहिया कितनी सुगमता से घूमता है।

5. तेल डाल कर घर्षण कम करना

रेगमाल के दो टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखिए। जब एक को दूसरे पर ढाला कर रखा जाता है तो देखिए कि घर्षण कितना उत्पन्न होता है। अब इनके बीच थोड़ी वसा (ग्रीज़) डाल दीजिए। घर्षण बहुत कम हो जाता है क्योंकि वसा रेगमाल के तेल की विषमताओं (उभार-


निचान) को भर देती है। यन्त्रों के धूमते हुए अंगों के बीच वसा इसीलिए डाली जाती है।

6. खुरदरी सतहों का घर्षण

रेगमाल के दो टुकड़े इकट्ठे रखिए। कठुकड़े को दूसरे पर रखँने से पैदा होने ले घर्षण पर ध्यान दीजिए। अब रेगमाल के टुकड़ों के बीच थोड़ी-सी (ग्रीज) रख दीजिए। घर्षण बहुत कम हो जाता है क्योंकि वसा ऊबड़-खाबड़ स्थानों को भर लेती है। मशीन के चलते भाग में वसा लगाने से यही होता है।

7. गोली-धारक (बाल बेर्यरंग) की सहायता से घर्षण कम करना

ऐसे दो डिब्बे लीजिए जिनके ऊपरी सिरे पर परिधि के पास गहरा खांचा हो, उदाहरणार्थ रंग के डिब्बे। एक खांचे में बच्चों के खेलने की गोलियां रखिए और दूसरे डिब्बे को इन गोलियों पर उलट दीजिए ताकि एक गोली-धारक बन जाए। सबके ऊपर एक पुस्तक रख दीजिए और देखिए कि धारक कितनी सुगमता से धूमाया जा सकता है। गोलियों में तेल डाल दीजिए तो वह और भी सुगमता से धूमेगा।



8. वास्तविक गोली-धारक

किसी वास्तविक गोली-धारक और रोलर-धारक की परीक्षा करिए। उन युक्तियों की सूची बनाइए जिनमें गोली-धारक या रोलर-धारक लगे रहते हैं।

9. एक दूसरा गोली-धारक

टीन के डिब्बे के ढक्कन में कुछ गोलिय़ रख कर उसे कड़े फर्श पर उल्टा रख दीजिए। ऊपर एक पैर से खड़े हो जाइए और देखिए कि आप चारों ओर कितनी सुगमता से धूम सकते हैं।

बल और जड़ता के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. तुला

1. सन्तुलित बलों का अध्ययन करने के लिए एक युक्ति बनाना

अध्याय—10 का प्रयोग क-1 देखिए।

2. ढेंकुली (सी-सा) पर सन्तुलन करना

एक मजबूत पटरी लीजिए, जो लगभग 3 मीटर लम्बा हो। किसी तिपाई या बक्स के ऊपर पटरे को सन्तुलित करके ढेंकुली बनाइए। यदि हो सके तो इसे कक्षा में ही करिए। आपके स्कूल के खेल के मैदान में छोटे बच्चों के लिए सम्भवतः एक ढेंकुली हो (अध्याय—10, प्रयोग क-7 भी देखिए)।

दो बराबर भार वाले बच्चे चुनिए और उनको पटरे के सिरों पर इस प्रकार बैठा दोजिए कि वे सन्तुलित रहें। आलम्ब (सन्तुलन-बिन्दु) से बच्चों तक की दूरियां नापिए।

फिर एक भारी लड़के को किसी हल्के लड़के से सन्तुलित करिए और देखिए कि दूरियों में क्या परिवर्तन करना पड़ता है। फिर एक और एक बच्चे को बैठा कर उसे दूसरी ओर दो बच्चों से सन्तुलित करिए। परिवर्तनों को देखिए। प्रत्येक बार आलम्ब से बच्चे तक की दूरी नापने और उस दूरी को बच्चे की तौल से गुणा करने पर सन्तुलन के बारे में एक रोचक बात का पता चलेगा।

टिप्पणी :-—जब दो बच्चे एक ही ओर रहें तो प्रत्येक को दूरी सन्तुलन-बिन्दु से नापिए। प्रत्येक बच्चे के भार से गुणा करिए और गुणनफलों को जोड़िए।

3. सन्तुलन का एक चमत्कार


एक चिकनी मीटर-पटरी लीजिए और अपनी तर्जनियों (फोरकिंगस) पर उसे उठा लीजिए। एक हाथ की अंगुली पटरी के एक सिरे के पास रहे और दूसरे हाथ की अंगुली दूसरे सिरे के पास। अब अंगुलियों को इस प्रकार पास लाइए कि पटरी गिरने न पाए। आपकी अंगुलियां मीटर-पटरी के किस बिन्दु पर आ मिलती हैं? प्रयोग को फिर से करिए परन्तु अब की बार आलम्ब में दाहिने हाथ की अंगुली पटरी के एक सिरे के पास रहे और दूसरे हाथ की अंगुली दूसरे सिरे और केन्द्र के लगभग मध्य-बिन्दु पर रहे। इस बार आपकी अंगुलियां कहां मिलती हैं? प्रयोग को फिर करिए परन्तु अंगुलियां उल्टी दूरियों पर रहें, अर्थात् बाएं हाथ की अंगुली पटरी के एक सिरे पर रहे और दाहिने हाथ की अंगुली दूसरे सिरे और केन्द्र के लगभग मध्य में रहे। आपकी अंगुलियां अब कहां मिलती हैं? अन्य दूरियों को लेकर प्रयोग करिए। क्या आप इस रोचक चमत्कार का कारण बता सकते हैं?

4. सन्तुलन सम्बन्धी कुछ सरल प्रयोग


(क) मूर्ति बनाने की मिट्टी से लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटा एक टुकड़ा किसी तेज चाकू से काटिए। उसके भीतर पेसिल की नोक डाल कर पेसिल को आर-पार कर दीजिए, नोक लगभग 2.5 सेंटीमीटर बाहर निकली रहे। तरकारी के टुकड़े में कांटा (जिससे खाया जाता है) चित्र में दिखाई गई रीति से खोंस दीजिए (कांटा न मिले तो छुरी से काम चल सकता

बल प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री


है)। अब पेंसिल की नोक को मेज की कोर पर रखिए और उन विविध अवयवों को इस प्रकार परस्पर बिठाइए कि सन्तुलन बन जाए। तब पेंसिल के लम्बे सिरे को हल्के-से एक बार ठोकिए।



(x) कच्ची तरकारी अथवा मूर्ति बनाने की मिट्टी से काटा हुआ एक टुकड़ा, दो कांटे (अथवा छुरियाँ) और एक पेंसिल को चित्र में दिखाइ गई रीति से व्यवस्थित करिए और उनको किसी बन्द बोतल के मुंह पर सन्तुलित करिए।



(g) कच्ची तरकारी अथवा मूर्ति बनाने की मिट्टी का काटा हुआ एक टुकड़ा, एक पेंसिल और दो कांटों (या चाकुओं) को चित्र में दिखाइ गई रीति से व्यवस्थित करिए। इस बार उन्हें धागे या डोर से लटका दीजिए। यह पता लगाने के लिए कि सन्तुलन के लिए धागे को कहां बांधना चाहिए, धागे को घटा-बढ़ा कर कुछ जांच करनी पड़ेगी।



(d) एक सिक्के और दो कांटों को चित्र में दिखाइ गई रीति से व्यवस्थित करिए। इन्हें बोतल अथवा गिलास की बारी पर सन्तुलित करिए।



(e) घर अथवा पाठशाला में पाई जाने वाली साधारण वस्तुओं को लेकर सन्तुलन के अन्य सरल प्रयोग सोचिए।

5. क्या आप डोर सीधी कर सकते हैं?

लगभग डड़ मीटर लम्बी एक मजबूत डोरी अथवा पतली रस्सी लीजिए। फिर कुछ साधारण डोर और लेकर उसमें भारी पुस्तकें अथवा कोई अन्य उपयुक्त भार बांधिए। पहली रस्सी के मध्य-बिन्दु पर पुस्तक वाली डोर इस तरह बांधिए कि जब पहली रस्सी को ताना जाए तो पुस्तकें लगभग 15 सेंटीमीटर नीचे लटकी रहें। पहली रस्सी के सिरों को हाथों से खींच कर रस्सी को तानिए। अथवा एक सिरे को आप पकड़िए तथा दूसरे को कोई अन्य छात्र, और वह अपनी शक्तिभर रस्सी को ताने। क्या आप तान कर रस्सी सीधी कर सकते हैं?

6. वस्तुओं का गुद्धत्व-केन्द्र ज्ञात करना

एक तिकोनी रेती लीजिए और उसे मज्ज पर रखिए। यह आलम्ब (सन्तुलन-बिन्दु) का काम देगी। कोई धारदार वस्तु भी, जिसकी पेंदी चपटी हो, काम दे सकती है। विविध छड़ियों, छण्डों तथा अन्य वस्तुओं, जैसे शाड़, बैट, बुश

आदि को छुरी की धार पर सन्तुलित करिए और उस स्थान पर खड़िया से चिह्न लगा दीजिए जहाँ वे सन्तुलित होते हैं। क्या प्रत्येक वस्तु का गुरुत्व-केन्द्र, जिसकी आपने जांच की है, वस्तु के ठीक

केन्द्र पर है ? किन वस्तुओं का गुरुत्व-केन्द्र उन के केन्द्र पर जान पड़ता है ? दूसरी वस्तुओं का गुरुत्व-केन्द्र साधारणतया कहाँ होता है ?

ख. गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी प्रयोग

1. गिरते हुए पिण्ड

यदि आपके आसपास लगभग 20 मीटर ऊंचा कोई भवन हो तो आप यह अध्ययन कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, जितने अधिक समय तक किसी पिण्ड पर काम करता है, उतने ही अधिक दैग से उसे किस प्रकार गिराता है। एक डोर इतनी लम्बी लीजिए जो कम-से-कम 20 मीटर की ऊंचाई से भूमि तक पहुंच सके। खिड़की के सामने, जो भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर हो, डोर में रंगीन कपड़ा या सूत बांध दीजिए। इससे लगभग 5 मीटर नीचे फिर एक टुकड़ा रंगीन कपड़ा बांध दीजिए। किसी छात्र को भूमि पर खड़ा कर दीजिए और उससे कहिए कि वह एक घड़ी लिए रहे और एक-एक सैकंड पर समय बोलता रहे। सैकंड बताने की अच्छी रीत यह है कि वह अपने एक हाथ से ताल ठोकता रहे और कहता जाए—“एक हजार एक, एक हजार दो, एक हजार तीन”।

अब एक छात्र को कार्य आरम्भ करने के स्थल से 5 मीटर नीचे वाले चिह्न पर खड़ा करिए और दूसरे को भूमि पर। भारी पत्थर और हल्के पत्थर गिराइए, बड़ी वस्तुएं और छोटी वस्तुएं गिराइए और देखिए कि एक सैकंड के अन्त में वे कितनी दूर तक गिरती हैं और दो सैकंड के अन्त में कितनी दूर तक।

2. सिक्कों का एकन्ताथ गिरना

एक पटरी को मेज़ की कोर (किनारे) पर तिरछा रखिए। पटरी का एक सिरा मेज़ की कोर से थोड़ा बाहर निकला रहे और दूसरा सिरा मेज़ की कोर से लगभग 3 सेंटीमीटर हटा रहे। अब एक सिक्का पटरी के बाहर निकले हुए भाग पर रखिए और दूसरे सिक्के को मेज़ पर (पटरी के दूसरे सिरे और मेज़ की कोर के बीच)।

अब और एक पटरी लेकर उससे पहली पटरी को जोर से समतल दिशा में मारिए। चोट पटरी के बाहर निकले भाग पर लगे (सिक्के को न लगे—इससे पटरी झैतिज समतल में धूम जाएगी)। एक सिक्का सीधे भूमि पर गिर पड़ेगा और दूसरा सिक्का (धूमती पटरी से समतल दिशा में चोट खाकर) अधिक लम्बा भारी तय करेगा। सावधानी से देखिए कि प्रत्येक सिक्का कब भूमि पर गिरता है। आपको इस प्रयोग को कई बार दोहराना पड़ेगा। आप किस परिणाम पर पहुंचते हैं ?

3. एक सरल लोलक

एक डोर लीजिए, जो कम-से-कम 2 मीटर लम्बी हो। उसे पथर अथवा धातु की छोटी गेंद में बांध दीजिए। अब गेंद को दरवाजे में ऊपर की चौखट या छत के हुक से लटका दीजिए और उसे हिला दीजिए, ताकि वह इधर-उधर कुछ दूर तक जाए। यह गिनिए कि 10 सैकंड में वह कितनी बार दोलन करता है और तब 6 से गुणा करके पता लगाइए कि एक मिनट में वह कितनी बार दोलन करता है।

फिर लोलक को इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह इधर-उधर बहुत थोड़ी ही दूर तक जाए और जात करिए कि अब लोलक एक मिनट में कितनी बार दोलन करता है। ऊपर की क्रियाओं को कई बार दोहराइए और प्रत्येक दशा में औसत लीजिए। क्या दोलन-विस्तार से लोलक के दोलन-काल पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

लोलक की लम्बाई उतनी ही रखिए परन्तु भार के लिए प्रयुक्त पदार्थ को बदल दीजिए। ऊपर बताई गई क्रियाओं को दोहराइए :

क्या गोलक (बाब) का पदार्थ लोलक के दोलन-काल पर कोई प्रभाव डालता है ?

ऊपर की प्रत्येक किया को दोहराइए। परन्तु ऐसे लोलक का उपयोग करिए जिसकी लम्बाई पहले की अपेक्षा आधी हो। क्या लोलक की लम्बाई दोलन-काल पर कोई प्रभाव डालती है? यदि हां, तो क्या?


4. लोलक का खेल

किसी कड़ी गेंद को, जिसका व्यास लगभग 8 सेंटीमीटर हो, डोर से मेज के ऊपर लटका दीजिए। डोर कम-से-कम 1.5 मीटर लम्बी हो और गेंद मेज से ठीक इतनी ऊंचाई पर हो कि गिराने पर वह गेंद उस पेंसिल के सिरे पर आघात कर दे जिसे मेज पर रील के भीतर डाल कर रखा गया है। गेंद को खींचिए और इस प्रकार छोड़िए कि जाते समय तो वह पेंसिल को न छुए, परन्तु लौटती बार पेंसिल को मार कर गिरा दे। आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि इसमें इस काम को सही-सही ढग से पूरा करने के लिए कोफी अभ्यास की ज़रूरत होती है।

5. स्थिति बदलने वाले लोलक

लेमन की (या कोई भी) दो बोतलें लें, जो ठीक एक ही तरह की हों। उनमें पानी भरिए और काग

से अच्छी तरह बन्द कर दीजिए। दो कुर्सियों की पीठ पर एक डण्डा रखिए। इस डण्डे से बोतलों को इस तरह लटका दीजिए कि वे लोलक की तरह चल सकें। इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों लोलक एक ही लम्बाई के हों।



एक लोलक को पकड़ कर स्थिर रखिए और दूसरे को चला दीजिए। तब पहले वाले को धीरे-से छोड़ दीजिए, जिससे वह अपनी विराम-स्थिति में स्थिर हो जाए। दोलन करता हुआ लोलक शीघ्र ही मन्द पड़ जाएगा और जो स्थिर था, वह दोलन करने लगेगा।

ग. अपकेन्द्री बल

1. अपकेन्द्री बल का अनुभव

लगभग एक मीटर लम्बी डोर में कोई भार बांध दीजिए और तब हाथ को फैला कर भार को चारों ओर नचाइए। डोर पर बाहर की ओर जो खिचावे पेड़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। यही अपकेन्द्री (सेंट्रीफ्यूगल) बल है।

डोर के बदले रबड़ की मजबूत पट्टी इस्तेमाल करिए। सावधानी से पट्टी के सिरे पर बंधे भार को नचाइए। देखिए रबड़ तन कर बढ़ जाता है। यह अपकेन्द्री बल का प्रभाव है।

2. एक सरल घूर्णन-यन्त्र

चित्र में दिखाई गई रीति की हाथ-बर्मी अथवा वक्ष-बर्मी (ब्रेस्ट ड्रिल) लीजिए। बर्मी के मुह (चक) में एक छोटा, खुले या नन्द मुह का इक

कस दीजिए। किसी लम्बी कील की नोक पर 30 सेंटीमीटर लम्बी हड्डी डोर बांधिए। धाँघे के दूसरे सिरे पर फन्दा बना कर उसे बर्मी में किसी हुक में फसा दीजिए।




विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर अन्य

अब हृत्या घुमा कर बर्मी को समान चाल से चलाइए। देखिए कि अपकेन्द्री बल लटकी हुई कील पर क्या प्रभाव डालता है।

3. दो कीलों का प्रयोग

उपर के प्रयोग में बताई गई रीति से बर्मी को धूर्णन-यन्त्र की तरह काम में लाइए। 15 सेंटीमीटर लम्बी डोर के सिरों को दो लम्बी कीलों की नोकों पर बांध कर दोनों कीलों को आपस में जोड़ दीजिए। इन कीलों को जोड़ने वाली डोर को उसके मध्य-विन्दु पर पकड़िए और ठीक वहीं बर्मी से आई हुई डोर को बांध दीजिए। ड्रिल के हृत्ये को समान चाल से घुमाइए और पूर्वोक्त दो कीलों पर अपकेन्द्री बल का प्रभाव देखिए।



4. छल्ले पर अपकेन्द्री बल

लोहे का एक छल्ला लीजिए, जिसका व्यास लगभग 6 सेंटीमीटर हो और उसे घूमती हुई बर्मी की डोर में बांध दीजिए। देखिए क्या होता है?

5. डिब्बे के ढक्कन पर अपकेन्द्री बल


डिब्बे के ढक्कन में किनारे के पास एक छेद ठोकिए। बर्मी की डोर को छेद में बांधिए और उसे घुमा कर देखिए।

6. गुरिया वाली जंजीर पर अपकेन्द्री बल

गुरिया वाली जंजीर (बीडेड चेन) का एक टुकड़ा लीजिए, जैसा बिजली के कुछ स्विचों को खींचने के लिए कभी कभी लगा रहता है या चावियों के छल्लों में लगा रहता है। सिरों को एक में अटका कर छल्ला बना लीजिए। इसे बर्मी वाली डोर में लगा दीजिए और अपकेन्द्री बल का प्रभाव देखिए।


7. इच्छ पर अपकेन्द्री बल

कांच की छोटी हाँड़ी या उसी प्रकार का कोई अन्य बरतन लीजिए। उसकी गरदन में एक तार इस प्रकार बांध दीजिए कि उसके खुलने का डर न रहे। इस तार में एक ओर डोर बांध दीजिए, जिससे हाँड़ी सीधी उठाई जा सके। इस डोर या तार के ठीक केन्द्र में बर्मी से आई हुई डोर को बांध दीजिए (या बर्मी में लगा हुक बांध दीजिए)। हाँड़ी में लगभग 3 सेंटीमीटर तक रंगीन पानी डाल दीजिए। बर्मी का हृत्या घुमा कर हाँड़ी और पानी को नचाइए। पानी पर अपकेन्द्री बल का प्रभाव देखिए।



8. पानी का एक दूसरा प्रयोग


चित्र में दिखाई गई रीति से टीन के एक डिब्बे को लटकाइए। डिब्बा लगभग 8 सेंटीमीटर गहरा हो और उसका व्यास 12 सेंटीमीटर हो। डिब्बे में लगभग 3 सेंटीमीटर पानी छोड़िए और बर्मी को नचाइए। देखिए कि पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है।



9. अपकेन्द्री बस्त्र-शैवित्र की कार्यविधि

पिछले प्रयोग में इस्तेमाल किए गए डिब्बे की तरह किसी डिब्बे का उपयोग करिए। कील से पांचवें में बहुत-से छेद कर दीजिए। डिब्बे के ऊपरी

किनारे पर बराबर दूरी पर तीन छेद कर दीजिए। उनमें तीन डोरों को बांध कर डिब्बे को लटकाइए और इन डोरों को बर्मी में लगे हुक में बांध दीजिए। अब गते का एक बेलन बनाइए या कोई बाल्टी लीजिए, जो डिब्बे से कुछ अधिक गहरी हो और काफी चौड़ी हो। बर्मी से लटके डिब्बे में कुछ गीले कपड़े रख दीजिए। अब डिब्बे को बेलन या बाल्टी में उतारिए और उसे बर्मी चला कर वेग से नचाइए। अपकेन्द्री बल के कारण कपड़ों और डिब्बे का पानी बाहर निकल पड़ता है।



10. पानी नहीं गिरेगा

एक छोटी बाल्टी लीजिए और उसे लगभग पूर्णतया पानी से भर दीजिए। हाथ को फैला कर इसे चारों ओर तेज़ी से चक्कर खिलाइए (बाल्टी नीचे से एक बगल होते हुए ऊपर जाए और दूसरी

घ. जड़ता सम्बन्धी प्रयोग

1. बोतल और गोली

चौड़े मुँह की शीशी में थोड़ी-सी बालू डाल दीजिए। शीशी के मुँह पर चिकना गत्ता या काँड़ (या ताश का एक पत्ता) रखिए, जो लगभग 5 सेंटीमीटर वर्ग का हो। गोली को इस गत्ते पर रखिए और तब गत्ते के किनारी पर जोर से (क्षैतिज) आधात करिए। तर्जनी को मोड़ कर अंगूठे पर टिकाइए और तर्जनी को झटके से सीधा करके ताश को मारिए। यदि प्रयोग सकल हुआ होगा तो गत्ता छटक कर दूसरी ओर निकल जाएगा, परन्तु गोली अपनी जड़ता (इनरिंशिया) के कारण शीशी में गिर पड़ेगी। इसमें कुछ अभ्यास की भी जरूरत हो सकती है।

2. जड़ता की सहायता से कील ठोकना

मेज पर एक पतलों तस्ता रखिए। इसका एक

बगल से नीचे आए। यद्यपि सिर के ऊपर बाल्टी औरी हो जाती है तो भी अपकेन्द्री बल के कारण पानी नहीं गिरेगा।

11. अपकेन्द्री बल की सहायता से खेल करना

तार का कोट-हैंगर लीजिए (या भोटे तार से समत्रिवाहु-त्रिभुजा को बना लीजिए, जिसके एक शीर्ष पर अध्याय-10, प्रयोग क-10, की तरह का हुक रहे और भुजा 35 या 40 सेंटीमीटर की हो)। हुक में तर्जनी अंगूली डाल कर कोट-हैंगर की खड़ा कर दीजिए परन्तु कोट-हैंगर का निचला तार (आधार) मेज पर टिका रहे। अब सावधानी से एक छोटे सिक्के को नीचे बाले सीधे तार पर समतल रख कर सन्तुलित करिए। सिक्का हुक के ठीक नीचे रहे। इसमें कुछ प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो आप तार के थोड़े-से भाग को पीट कर या रेत कर चपटा भी कर सकते हैं।

तार और सिक्के को अपनी अंगूली पर धीरे-धीरे ढोलन करने दीजिए। जब इसमें कुछ गति आ जाए तो थोड़े-से अभ्यास के बाद आप हैंगर को पूरी गोलाई में नचा सकते हैं और सिक्का अपकेन्द्री बल के कारण तार से चिपका रहेगा।

भाग मेज के बाहर निकला रहे। शेष भाग पर, जो मेज को स्पर्श कर रहा है, किसी को खड़ा कर दीजिए ताकि तस्ते के बढ़े भाग पर कील ठोकने से तस्ता उल्टे नहीं। बढ़े हुए भाग के किनारे के निकट एक कील ठोकने की चेष्टा करिए। फिर किसी से कहिए कि वह एक भारी हथौड़े या पत्थर को पटरे के नीचे सटा कर पकड़े रहे। आप देखेंगे कि भार-जड़ता के कारण कील ठोकना अब सुगम हो गया है।

3. जड़ता की सहायता से सेब (या आलू) के बोटुकड़े करना

एक लम्बा और तेज़ चाकू, जैसे मांस (या पाद रोटी) काटने का चाकू, लीजिए। सेब में चाकू को केवल इतना धंसा दीजिए कि सेब चाकू में फँसा

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

रहे। चाकू का सिरा सेब के आगे इतना बड़ा रहे कि बिना सेब को हुए ही चाकू पर आधात किया जा सके। अब एक हाथ में चाकू की मूठ को अच्छी तरह पकड़े रखिए और चाकू के अगले सिरे पर छड़ी से जोर से आधात करिए। चाकू सेब की जड़ता के कारण उसको चीरता हुआ सेब की दूसरी ओर निकल जाएगा।

4. रूमाल और गिलास की सहायता से जड़ता का अध्ययन करना


रूमाल को एक चिकनी मेज पर फैला दीजिए। एक कोने पर गिलास (चिकनी पेंदी वाला) को पानी से भर कर रख दीजिए (या रूमाल की किनारी अंगर दोहरी-तेहरी न की गई हो तो अच्छा रहेगा)। सामने के कोने को पकड़ कर रूमाल को जोर से झटका देकर निकाल लीजिए। रूमाल बाहर निकल आएगा और गिलास अपने स्थान पर स्थिर रहेगा तथा पानी भी नहीं गिरेगा।

5. पुस्तकों की गड्ढी की सहायता से जड़ता का अध्ययन करना

पुस्तकों को एक के ऊपर एक रख कर एक गड्ढी बना लीजिए। नीचे वाली एक पुस्तक को पकड़िए और उसे तेज झटके से बाहर खींच लीजिए। गड्ढी को बिना गिराए ही क्या आप इस पुस्तक को बाहर निकाल सकते हैं?

6. जड़ता की सहायता से छड़ी को तोड़ना

एक छोटी छड़ी लीजिए, जो 18 या 20 सेंटीमीटर लम्बी हो। यदि कोई छड़ी न मिले तो साधारण पेंसिल ही ले लीजिए। अब एक समाचारपत्र को मोड़ कर मेज के किनारे के पास रखिए। छड़ी को समाचारपत्र के नीचे मेज पर



इस प्रकार रखिए कि आधी छड़ी बाहर की ओर निकली रहे। इस बढ़े हुए भाग को किसी दूसरी छड़ी से जोर से मारिए। जड़ता के कारण मेज पर रखी हुई छड़ी के दो टुकड़े हो जाएंगे।

7. फावड़े की सहायता से जड़ता का प्रदर्शन

फावड़े को सूखी मिट्टी से पूरा भर कर उठा लीजिए। फावड़ा चला कर मिट्टी को दूर फेंकिए। आप देखेंगे कि जब फावड़ा रुकता है तो जड़ता के कारण मिट्टी दूर चली जाती है।

8. साइकिल और जड़ता

साइकिल को तेजी से चलाइए और तब एक-एक कस कर ब्रेक लगा दीजिए। देखिए कि आपके शरीर में आगे चलते रहने की प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति आपको हैंडल की ओर ढकेल देना चाहती है। यह आपके शरीर की जड़ता का परिणाम है।

9. मोटरकार और जड़ता

ऊपर के प्रयोग-8 में बतलाए गए प्रभाव को आप मोटरकार का प्रयोग करके उस समय भी देख सकते हैं जब कार को एकाएक रोका जाए। आपको सामने की वस्तु का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो आप गही पर से फिसल कर आगे गिर सकते हैं। आपका शरीर गाड़ी के साथ आगे चलता रहता है और गाड़ी रोकने पर भी उसमें आगे ही चलते रहने की प्रवृत्ति रहती है।


जब आप किसी रुकी गाड़ी में बैठे रहते हैं और उसे झटके से चला दिया जाता है तो आप देखेंगे कि जड़ता के कारण आप पीछे ढुकने लगते हैं। आपका शरीर गतिरहित है और जब गाड़ी चल पड़ती है तब भी उसमें गतिरहित रह जाने की प्रवृत्ति रहती है।

10. पत्थर और जड़ता

इस प्रयोग के लिए लगभग 1 किलोग्राम के एक पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। इस पत्थर में एक मजबूत रस्सी को लपेट कर बांधिए। अब इस रस्सी में पत्थर के दूसरी ओर किसी

हल्की डोरी के टुकड़े को बांधिए। प्रत्येक टुकड़े की लम्बाई लगभग आधा मीटर हो। यह हल्की डोर के बीच इतनी ही मजबूत हो कि पत्थर को लटकाने पर उसके भार को सम्भाल ले, अर्थात् भार को थोड़ा बढ़ाने पर डोर टूट जाए। अब पत्थर को मेज से थोड़ी ऊंचाई पर सावधानी से लटका दीजिए। मेज पर कोई पटरा रख दें, ताकि पत्थर के गिरने से मेज में गड्ढा न पड़ जाए। नीचे वाली रस्सी के सिरे को कस कर पकड़िए और जोर से एक लटका दीजिए। यदि आप सफल होंगे तो नीचे वाली डोर टूट जाएगी और पत्थर लटका रह जाएगा। यह पत्थर की जड़ता का परिणाम है। अब नीचे वाली रस्सी के बचे हुए भाग को पकड़िए और उसे धीरे-धीरे अधिकाधिक बल से लीचिए। इस बार ऊपर की डोर टूटती है और पत्थर मेज पर गिर जाता है, क्योंकि लटका देने की बजाय निरन्तर बल लगाने से पत्थर चलने लगता है (पतले धारे और भारी आलू या छोटे पत्थर से भी यह प्रयोग किया

जा सकता है)।



11. कड़े उबले अण्डे की पहचान

एक ताजा अण्डा और एक दूसरा ऐसा अण्डा लीजिए जिसे उबाल कर कड़ा कर दिया गया हो। प्रत्येक को बड़ी तश्तरी (या थाली) में नचाइए। देखिए कि उबला अण्डा देर तक नाचता रहता है। ताजे अण्डे के भीतरी द्रव पदार्थ की जड़ता उसे जलदी ही स्थिर कर देती है।

ड. बल और गति

1. हल्की वस्तु अधिक तेज़ चलती हैं


खड़िया से मेज पर आवे मीटर का चिह्न लगाइए। इसे बराबर-बराबर सेंटीमीटरों में विभाजित करिए। अब रबड़ का एक बड़ा-सा छल्ला और लकड़ी की दो कमानीदार चुटकियां (जिन्हें गीले कपड़ों को लटकाने के लिए काम में लाया जाता है) लीजिए। (रबड़ का छल्ला न मिले तो साइकिल की 50 सेंटीमीटर लम्बी वाल्व-नली से काम चल जाएगा। किलप न मिले तो लकड़ी के टुकड़ों से काम चल जाएगा परन्तु उनको रबड़ में बांधना पड़ेगा)। रबड़ के छल्ले के प्रत्येक सिरे पर एक किलप लगाइए। अब प्रत्येक किलप को एक हाथ में पकड़िए परन्तु वे मेज पर ही रहें। उनको मेज की किसी अंकित रेखा पर रखिए। रबड़ के छल्ले को खींच कर किलपों के बीच की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर कर दीजिए और इस दूरी का मध्य-बिन्दु वह अंकित रेखा हो। एक ही क्षण में दोनों किलपों को छोड़ दीजिए। देखिए कि वे मध्य-बिन्दु

पर मिलते हैं।

इसके बाद रबड़ के छल्ले के एक और दो चुटकियां लगाइए और दूसरी ओर केवल एक। छल्ले को लगभग 24 सेंटीमीटर तक खींच कर तान दीजिए और तब चुटकियों (किलपों) को छोड़िए। इस बार वे कहाँ मिलती हैं?

इस प्रयोग को दोहराइए, परन्तु प्रत्येक और दो चुटकियां लगाइए। वे कहाँ मिलती हैं?

प्रयोग को फिर करिए, परन्तु एक और तीन चुटकियां रहें और दूसरी ओर दो। अब वे कहाँ मिलती हैं?



2. बल और गति सम्बन्धी प्रयोग


एक कमानीदार चुटकी लीजिए और उसकी लम्बी भुजाओं को दबा कर और उन पर दो-एक फेरे धागा बांध कर चुटकी के मुँह को खोल दीजिए। इस चुटकी को किसी लम्बी मेज के बीच में रखिए। दो पेंसिलें लीजिए, जो लगभग एक ही लम्बाई और एक ही भार की हों। एक को चुटकी की बंधी भुजाओं से सटा कर रखिए और दूसरी को दूसरी भुजा से। धागे को सावधानी से जला दीजिए और पेंसिलों को देखिए। धागे के जलते ही भुजाएं मुक्त होती हैं और पेंसिलों को विपरीत दिशा में फेंक देती हैं।

प्रयोग को दोहराइए परन्तु अब की बार दो बड़ी पेंसिलें लीजिए, जो एक ही नाप और एक ही भार की हों। आप क्या देखते हैं? पहले वाले परिणाम से तुलना करिए।

प्रयोग को दोहराइए, परन्तु एक और बड़ी, तथा भारी पेंसिल रहे और दूसरी और छोटी, हल्की पेंसिल रहे। आप क्या देखते हैं?

यदि आप धातु तथा कांच की गोलियां ला सकें तो प्रयोग को दोहराइए और धातु तथा कांच की गोलियों को विभिन्न संख्याओं में दोनों ओर रख कर जांच करिए।

क्या आप इस प्रयोग से कोई परिणाम निकाल सकते हैं?



3. ढकेलने वाले बलों में क्रिया और प्रतिक्रिया

बल हमेशा दोतरफा होता है। यदि आप दीवार को ढकेलने के लिए बल लगाएंगे तो दीवार भी उतने ही बल से आपको पीछे हटाएगी।

दो ऐसी कमानी तुला लीजिए जिनके तौल-पात्र सपाठ हों। इन तुलाओं को ऐसी स्थिति में रखिए कि उनके तौल-पात्र एक दूसरे से सटे रहें और उनके अंकानीक (डायल) ऊपर की तरफ रहें। एक और स्वयं दबाइए और दूसरी और स दबान के लिए किसी छात्र से कहिए। आप देखेंगे कि जब दोनों एक साथ दबाते हैं तो प्रत्येक तुला वही तोल बताती है।

4. खींचने वाले बलों में क्रिया और प्रतिक्रिया

दो कमानी तुलाएं लीजिए। अब किसी छोटी-सी डोर के प्रत्येक सिरे पर एक फन्दा बनाइए और दोनों फन्दों में एक-एक कमानी तुला को फैसा दीजिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे इन तुलाओं को विपरीत दिशाओं में खींचें। प्रत्येक तुला को पढ़िए और पाठ्यांकों की तुलना करिए।

5. रोलर-स्केट के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया

चिकने फर्श पर एक रोलर-स्केट रखिए। रोलर-स्केट पर एक पैर से खड़े हो जाइए और दूसरे पैर को एक कदम आगे बढ़ाइए। देखिए कि रोलर-स्केट पीछे की ओर विपरीत दिशा में चला जाता है। (इस प्रयोग में गिरने का डर रहता है, सम्भालने के लिए कोई मित्र बगल में खड़ा रहे तो अच्छा है)।

6. नाव में क्रिया और प्रतिक्रिया

किसी बिना बंधी नाव पर से भूमि पर उतरिए और देखिए कि नाव उल्टी दिशा में जाती है।

7. क्रिया और प्रतिक्रिया से ही जट-चालन (जट प्रोपल्यान) सम्भव होता है

एक गुब्बार को फूंक कर फलाइए और उसकी गरदन को चुटकी स दबा कर रखिए। गुब्बारे को छोड़ दीजिए और उसकी गति देखिए। गुब्बारे स निकली हवा की भार (जट) बाहरी हवा को दबाती है और उसी से गुब्बार चलता है। जट विमान का यही सिद्धान्त है।

ध्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

इस अध्याय में ध्वनि से सम्बन्धित भौतिक सिद्धान्त और सरल प्रयोग दिए गए हैं। बालकों के दैनिक जीवन के अनुभवों से इनका अन्यतम सम्बन्ध है और वे इन्हें रोचक भी पाएंगे।

क. ध्वनि का उत्पन्न होना और उसका पारेषण

1. विविध ध्वनियाँ

यदि सम्भव हो तो प्रयोग करते समय जो-जो ध्वनियाँ उत्पन्न हों, उनका नाम-करण करते रहने का भी अभ्यास करिए, उदाहरणार्थ शाली की ज्ञानक्षत्राहट; घाले के टूटने की तड़क; भार गिरने का धमाका; घंटे का घन-घना; बरतनों का खड़खड़ाना और ठनठनाना; आग में लकड़ी का चिटकना; आग की धांधांय; घड़ी का टिकटिक करना; ढोल की ढमक (या ढमाढ़म); पैर तले पथरों का चुरमुराना; जूते का चरमराना; पानी की छपछपक; बन्दूक का धड़ाका; नगाड़े की धमक; दरवाजे का भड़ाक से बन्द होना; बूंदों का पड़पड़ाना; पैरों की आहट; मनुष्य का खखारना; पत्तियों का भरमराना; बादल का गरजना, गड़-गड़ाना और छहरना; सांप का फुकारना; बिजली का कड़कना; मक्की का भनभनाना; घंटी का टुनटुनाना; घोड़े का हिनहिनाना; सिंह का दहाड़ना; गधे का रेंकना; भेड़ का मिमियाना; मुर्गे की बांग; गाय का रंभाना; चिड़ियों का चहचहाना; हवाई जहाज का सर-सराना या सनसनाना; रोगी का कराहना; सीटी का सिसियाना इत्यादि।

इन बोलियों की नकल करने में बच्चों को मज़ा आएगा। उन्हें कोष में इन शब्दों का सही-सही अर्थ खोजने में सहायता दीजिए।

2. कम्पनशील पिण्ड ध्वनि उत्पन्न करते हैं

एक पटरी (रूलर) लीजिए और उसके एक सिरे के पास एक छेद करिए। छेद में एक मज़बूत डोर बांध कर और डोर के दूसरे सिरे को पकड़ कर पटरी को गोलाई में नचाइए। नचाने का वेग बढ़ाइए। कौन-सी ध्वनि उत्पन्न होती है? इस प्रयोग को दोहराइए परन्तु विभिन्न नाप की पटरियों और डोरों का उपयोग करिए। सुगमता के लिए डोर के दूसरे सिरे पर भी फन्दा बना लीजिए और उसमें एक गोल छड़ी डाल कर पटरियों को नचाइए।

3. 'आह' की ध्वनि करिए। 'आ' का उच्चारण देर तक करते रहिए और अपनी श्वास-नलिका (गले) पर अंगूली रखिए। कम्पन किस कारण उत्पन्न होता है? इसी प्रकार बोलते, गाते और सीटी बजाते समय भी गले में कम्पन का अनुभव करिए।

4. पटरी को भेज पर इस प्रकार रखिए कि इसका लगभग तीन-चौथाई भाग भेज के किनारे से बाहर निकला रहे। पटरी के दूसरे सिरे को एक हाथ से दबाए रहिए। पहले सिरे को जरा-सा दबा कर अचानक छोड़ दीजिए। तब पटरी ऊपर-नीचे कम्पन करने लगेगी। ध्यान दीजिए कि कैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है। फिर पटरी को इस प्रकार रखिए कि केवल आधा भाग भेज के किनारे से बाहर निकला रहे। प्रयोग को दोहराइए। ध्यान दीजिए कि अब कैसी

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

ध्वनि निकलती है। क्या यह ध्वनि पिछली ध्वनि से भिन्न है? प्रयोग को दोहराइए, परन्तु मेज़ के बाहर पट्टी की लम्बाई में परिवर्तन करते रहिए।

इन प्रयोगों से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि ध्वनि कम्पनों से उत्पन्न होती है। कम्पनशील पिण्ड वायु में कम्पन उत्पन्न करते हैं और ये कान में प्रवेश करते हैं। तब हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है।

5. 'कम्पनशील वस्तु' का अर्थ

कोई छोटी भारी वस्तु लीजिए, जैसे सीसे या लोहे का टुकड़ा या स्याही की शीशी। लगभग एक मीटर लम्बी डोर के एक सिरे पर इस वस्तु को बांध दीजिए। डोर का दूसरा सिरा दरवाजे की चौखट में बांध कर वस्तु को लटका दीजिए। इस प्रकार एक लोलक (पेंडलम) बन जाएगा। वस्तु को दोलन करने दीजिए। एक मिनट में यह कितनी बार दोलन करती है; डोर को छोटा करते जाइए और प्रत्येक बार देखिए कि दोलन-संख्या क्या है? आप देखेंगे कि डोर जितनी ही छोटी होगी, वस्तु उतनी ही अधिक शीघ्रता से दोलन करेगी।

बच्चों के झूले के दोलन को भी देखिए।

लंगर वाली एक घड़ी और एक मेट्रोनोम या संगीतज्ञों का समय-सूचक यन्त्र लाइए। इन यन्त्रों से कम्पन-वेग का अध्ययन करिए। कल्पना करिए कि कोई वस्तु अधिकाधिक वेग से दोलन कर रही है। जब कम्पन प्रति सैकंड 16 बार से अधिक होने लगेगा तो चारों ओर की वायु में भी दोलन या कम्पन उत्पन्न होगा और एक बहुत मन्द स्वर सुनाई देने लगेगा। अधिक तीव्र कम्पनों के कारण स्वर तीव्रतर होकर सुनाई पड़ेंगे। 20,000 कम्पन प्रति सैकंड तक ऐसा ही होता है। इससे अधिक कम्पन वाले स्वर को मनुष्य नहीं सुन पाता।

अध्याय-11, प्रयोग ख 3—5 भी देखिए।

6. बच्चों के खेलने की एक गाड़ी लीजिए, जिसमें साइरन ध्वनि निकलती हो (वह ध्वनि जो

छिद्रयुक्त चक्र द्वारा वायु निकलने से उत्पन्न होती है)। इसे दौड़ने दीजिए। गाड़ी जितनी ही तेज़ दौड़ती है, स्वर उतना ही तीव्र हो जाता है।

7. खाली शीशी के मुंह में हवा की धार फूंकिए (जिससे सीटी के समान ध्वनि निकले)। विविध नाप की शीशियों और बोतलों पर यह प्रयोग करिए।

8. अब ऊपर के प्रयोग में मानवी होठों के बदले (जो कि इस काम में कम्पन करते हैं) ऐसे ज्वालक (बर्नर) के सिर का उपयोग करिए जिसमें लौ तिली के पंख के समान होती है। ऐसिटिलीन बत्तियों में गैस के निकलने के लिए ऐसा सिर लगा रहता है। ज्वालक के सिर को मुंह में लगा कर उसमें हवा फूंकिए। वायु बड़े वेग से निकलेगी और छोटी ज्वाला की तरह फैल जाएगी। इस वायु-धारा में शीशी, बोतल, आदि का मुंह रखने पर जो अनुनादी (रेजोनेंस) ध्वनियां उत्पन्न होंगी, उनका कारण है बोतलों, शीशियों या नलिकाओं में वायु-स्तरों का कम्पन होना। ज्वालक के सिर को ऐसी स्थिति में लाइए कि वायु-धारा से सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न हो। अधिक बड़ी बोतल से अथवा गते की बड़ी नलिका से मन्दतर स्वर सुनाई पड़ेगा। छोटी शीशियों से तीव्रतर स्वर सुनाई पड़ेंगे। बहुत छोटी चाबी के सिरे में बने छेद से जो स्वर सुनाई देगा, वह सुन सकने योग्य स्वरों में सबसे अधिक तीव्र होगा।

9. अनुकर्मी बोतलें

एक छात्र से कहिए कि वह एक बोतल के मुंह को अपने कान के पास इस प्रकार रखे कि उसका मुंह बन्द न होने पाए। अब ठीक उसी नाप और आकार की दूसरी बोतल के मुंह में इस प्रकार फूंकिए कि उससे एक ज़ोरदार साफ स्वर निकले। प्रत्येक बार जब आप ऐसा करेंगे, दूसरी बोतल में अनुनादी कम्पन आरम्भ हो जाएगा। उसमें उसी प्रकार का परन्तु धीमा स्वर उत्पन्न होगा, और उसे छात्र स्पष्टतया सुन सकेंगे।

ध्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

10. एक स्वरित्र (दूरनिग फोर्क) लीजिए और कनस्टर, बेला (वायलिन) (या सितार या सारंगी) या लकड़ी की किसी भी पेटी को ध्वनि-पेटिका (साउण्ड बाक्स) की तरह प्रयुक्त करिए। स्वरित्र को लकड़ी की इंजिक्टर पर ठोक कर उसमें कम्पन उत्पन्न करिए। तब उसकी जड़ (हैंडल) को ध्वनि-पेटिका पर दबाइए। पेटिका से गूंजती हुई उच्च ध्वनि सुनाई पड़ेगी। खाने का कांटा लेकर प्रयोग को दोहराइए।

11. वायु ध्वनि का बहन करती है

एक व्यक्ति को सीटी बजाने को कहिए। कमरे में उपस्थित सभी व्यक्ति ध्वनि को स्पष्ट-तया सुन सकेंगे। अब पहले व्यक्ति को दूसरे कमरे में भेज दीजिए। वह फिर सीटी बजाएगा तो ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ेगी (कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बन्द कर ली जाएं)।

12. ध्वनि निर्वात में होकर नहीं आ-जा सकती

एक बैसा ही साधारण निर्वात पम्प लाइए जैसा अध्याय-7 के प्रयोग झ-2 और झ-3 में बताया गया है (साइकिल या कार के हाथ-पम्प को खोलिए, पिस्टन निकालिए, उस पेच को खोल डालिए जिससे चमड़े के बाशर करे रहते हैं, बाशरों को उलटी दिशा में लगा दीजिए, पिस्टन पर बाशर इसी उलटी दिशा में चढ़ा दीजिए, पेच कस दीजिए और पिस्टन को पम्प सिलिण्डर में डाल दीजिए)। संग्राही (रिसीवर) बनाने के लिए फल-पात्र (फ्लूट-जार) की तरह का कांच का एक बड़ा बरतन लीजिए, जिस पर पेचदार छक्कन लगा हुआ हो। छक्कन में बर्मी से छेद करिए और इस छेद में टंके से धानु की छोटी नलिका झलवा लीजिए। सन्धि वायु-अभेद्य रहे। नलिका के निचले सिरे में एक टायर बाल्व को उलटा डाल कर झलवा लीजिए।

निर्वात सम्बन्धी प्रयोगों के लिए जब पूर्वोक्त सरल यन्त्र मिल जाएं तो संग्राही के भीतर दो छोटी घंटियां बांध दीजिए। प्रयोग के आरम्भ में, संग्राही से हवा निकालने के पहले उसे

हिलाइए, आपको घंटियां बजाती हुई सुनाई पड़ेंगी। अब छक्कन को कस कर बैठा दीजिए और पम्प से हवा बाहर निकाल दीजिए। संग्राही को फिर हिलाइए। आपको घंटियों की ध्वनि अब पहले-जैसी स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है?

इस प्रयोग को दोहराइए, परन्तु संग्राही में कछ कागज जला कर निर्वात की स्थिति उत्पन्न करिए।

13. उद्यान सोचने का किरमिच का बना हुआ लम्बा नल (हौज) लीजिए, जो दोनों ओर से खुला रहे। किसी व्यक्ति से बात करने और उसकी बात सुनने के लिए इसे टेलीफोन-तार की तरह इस्तेमाल करिए। नल के भीतर की हवा ध्वनि-वाहक होती है। जहाजों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात करने के लिए इस सिद्धान्त का उपयोग अब भी किया जाता है।

14. ठोस पदार्थ भी ध्वनि का बहन करते हैं


टीन के दो पुराने डिब्बे लीजिए, जिनके छक्कन सफाई से काट कर निकाल दिए गए हैं। प्रत्येक डिब्बे की पेंदी के बीचोंबीच एक छोटा छेद करिए। अब कई मीटर लम्बा, पतला सूती धागा लीजिए और उसके सिरों को इन छेदों में डालिए। धागे के सिरों पर एक-एक दियासलाई बांधिए ताकि धागा बिंच कर बाहर न निकल जाए। अब इन डिब्बों को टेलीफोन की तरह इस्तेमाल करिए। धागा तना रहे। किसी छात्र से बात करिए और उसकी बात सुनिए। ध्वनि धागे और डिब्बों के भीतर की हवा द्वारा चलती है। डिब्बे की पेंदी तनुपट (पद्धे) का काम करती है।

यह प्रयोग दियासलाई की दो खाली डिब्बियों से भी किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक के एक सिरे को उस पतले पारदर्शी कागज से तान कर मढ़ देना चाहिए, जिसमें सिगरेट के पैकेट लपेटे जाते हैं। इन्हीं कागजों में छेद करके धागा लगाना चाहिए।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

15. चम्मच से मन्दिर की धंटी की आवाज पेंदा करना

एक मीटर लम्बी सूती डोर लीजिए। दोनों सिरों को एकत्र करके बीच में एक चम्मच को सन्तुलित करिए। अब प्रत्येक सिरे को अपनी अंगुलियों से पकड़िए (एक सिरे को एक हाथ की अंगुलियों से और दूसरे को दूसरे हाथ की अंगुलियों से)। इन सिरों को अपने कानों से लगाइए और कुछ झुक कर खड़े हो जाइए ताकि डोर और चम्मच स्वतन्त्रता से लटके रहें। अब किसी से कहिए कि वह आपके चम्मच पर धीरे से कील अथवा दूसरा चम्मच भारे। आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी मानो मन्दिर की धंटी बज रही हो। यहां भी ध्वनि डोर से होती हुई आपके कानों तक पहुंच जाती है।



16. पानी के नसों द्वारा तार-संकेत भेजना

अपने छात्रों की सहायता से एक संकेत-सूची बनाइए। तारधरों में जिस प्रकार चाबी को खटखटा कर तार भेजे जाते हैं, उसी प्रकार आप भी नल (पाइप) को खटखटा कर सन्देश भेज सकते हैं। नल एक कमरे से दूसरे कमरे तक गया हो, चाहे वह एक ही तल्ले पर हो या विभिन्न तल्लों तक। एक कमरे में नल को लोहे के टुकड़े से ठोकने पर ध्वनि दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। तब सन्देशों की अदला-बदली करिए। इस बार पानी के नल से होकर ध्वनि जाती-आती है।

17. अपने दांत द्वारा सुनिए

स्वरित्र (ट्यूनिंग फोर्क) अथवा खाने के काटे को ठोक कर उसमें कम्पन उत्पन्न करिए। जब तक ध्वनि सुनाई पड़ती रहे तब तक रुके रहिए। ज्यों ही ध्वनि का सुनाई पड़ना बन्द हो, त्यों ही उसकी मूठ (हैंडल) को अपने दांतों के बीच दबाइए। आपको अब भी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। प्रयोग को दोहराइए परन्तु अब की बार मूठ को अपने कान के पीछे बाली हड्डी पर रखिए।

18. द्रव भी ध्वनि का बहन करते हैं

अपने सिर को पानी में इतना डुबाइए कि आपके कान पानी में डूब जाएं (यह काम तैरने के कुण्ड में, समुद्र, नदी या नहाने के टब में हो सकता है)। अब कोई व्यक्ति आपसे कुछ दूर पानी में एक धंटी डाल कर उसे बजाए और आपके कान अब भी पानी में ही रहें। आप पानी द्वाय आई ध्वनि को स्पष्ट सुन सकेंगे। यह सच है कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि चौगुने वेग से चलती है।

19. गैस-भरा गुब्बारा ध्वनि-लैन्स को तरह काम करता है

रबड़ के एक गुब्बारे में हवा फूंक कर उसे साधारण आकार तक फुला लीजिए। गुब्बारे को हाथ में पकड़े रहिए। फुलाने से गुब्बारे में शंशतः कार्बन डाइ-आक्साइड भर गई है। गुब्बारे को अपने कान और किसी घड़ी के बीच रखिए। आपको घड़ी के टिकटिकाने की ध्वनि उस समय की अपेक्षा अधिक स्पष्ट सुनाई देगी। कारण यह है कि भारी कार्बन डाइ-आक्साइड में, जो कि वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है, ध्वनि-तरंगें अधिक मन्द वेग से चलती हैं। ध्वनि-तरंगों के लिए गुब्बारा अभिसारी (कनवर्जिंग) लैन्स की तरह काम करता है। हाइड्रोजन गैस से भरे हुए गुब्बारे को लेकर प्रयोग को दोहराइए।

ख. ध्वनि और संगीत

1. कम्पनशील पेटी

टीन के पुराने डिब्बे की पेंदी में एक छेद कर दीजिए। किसी मजबूत डोर अथवा मछली मारने वाली डोर का एक सिरा भीतर डाल कर डोर को (डिब्बे के भीतर) पेंसिल से कस कर बांध दीजिए। डोर पर रेजिन रगड़िए। डिब्बे को एक हाथ से पकड़िए और दो अंगुलियों से पकड़ कर डोर को तानिए। अब अपनी अंगुलियों को डोर पर चलाइए। डिब्बे से ध्वनि निकलेगी। अपनी अंगुलियों को विविध वेगों से तारे पर चला कर प्रयोग को दोहराइए। ध्वनि के विविध तारत्वों (पिचेज) पर ध्यान दीजिए। क्या आप डिब्बे से संगीत-ध्वनियां निकाल सकते हैं? विविध नाप के टीन के डिब्बों और लेमन-चूस की पेटिकाएं लेकर प्रयोग को दोहराइए। क्या लकड़ी की पेटिकाओं से भी वैसी ही ध्वनियां निकलती हैं?


2. रबड़ के छल्लों का सितार

केक बनाने के सांचे, सिगार का डिब्बा, फोटोग्राफ डेवलप करने की तशरी या हाथ धोने के बरतन या किसी भी चौकोर तशरी पर कई रबड़ के छल्ले तान कर लगा दीजिए। तनाव को घटा-बढ़ा कर उनको इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि उसमें विभिन्न स्वर निकलें। अब उन पर इच्छानुसार तान बजाइए। यह उपकरण हाप्सीकार्ड नामक बाजे की तरह काम देगा। कम्पनशील तार और एक ध्वनि-पेटिका इस यन्त्र का सिद्धान्त है। उसी डिब्बे या तशरी पर रबड़ के विविध नापों के छल्ले लगा कर प्रयोग को दोहराइए।

3. एकतारा

1. मीटर लम्बा इस्पात का तार (जैसा सितार में लगता है), एक कील, कपड़ा लटकाने वाली सीन चुटकियां, पतली पर्ती लकड़ी अथवा किसी अन्य पदार्थ की बनी ध्वनि-पेटिका (नाप लगभग $60 \times 15 \times 3$ सेंटीमीटर) और तार को तानने के लिए एक भारी वस्तु एकत्रित करिए। चित्र में दिखाई गई रीत से इन सबको

संयोजित करिए। क्या आप अपने बनाए इस एकतारे से संगीत उत्पन्न कर सकते हैं? अधिक तार लेकर इस प्रयोग को दोहराइए।



4. पिनों की संगीत-पेटिका

ऊपर के प्रयोग की ध्वनि-पेटिका पर एक पंक्ति में कई छोटी-बड़ी पिनों खोंसिए। पिनों को लेटर-ओपनर (या चाकू) से टुनटुना कर इस संगीत-पेटिका से कोई धून निकालिए। बड़ी पिनों से मन्द स्वर निकलेंगे और छोटी पिनों से तीव्र स्वर।

इस प्रयोग को एक ऐसी कंधी की सहायता से भी करिए जिसमें विभिन्न लम्बाइयों के दांत बने हों।

5. शरबत पीने की नलिकाओं का वाद्यवृन्द

पांच वादकों के लिए शरबत पीने वाली दस नलिकाएं लाइए। एक कंची की भी आवश्यकता होगी। एक नलिका के एक सिरे को दबा कर चपटा कर दीजिए और चपटे किए गए भाग के दोनों कोनों को काट दीजिए। अब यह चपटा सिरा शहनाई की जीभ की तरह काम करेगा। इसे मुंह में डाल कर फूंकिए। और उसमें इस प्रकार जीभ लगाइए कि ध्वनि खूब स्पष्ट निकले।

अब एक वाद्यवृन्द बनाइए। इसके लिए शेष नलिकाओं को भी बजाने की व्यवस्था करिए। नलिकाओं के दूसरे सिरों को थोड़ा-थोड़ा करके इतना काट डालिए कि उनमें संगीत के अन्य स्वर निकलने लगें और इस प्रकार पूरा सरगम तैयार कर दीजिए। प्रत्येक खिलाड़ी

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

दो स्वरों के लिए उत्तरदायी रहता है और वह प्रत्येक हाथ में एक नलिका लेता है। आरम्भ करने के लिए अपने राष्ट्रीय गान को बजाने की चेष्टा करिए।

इसका सिद्धान्त यह है कि नलिका के भीतर की हवा कम्पनशील जीभ के कारण कम्पन करने लगती है।

नलिकाओं से बाजा बजाने के बदले ताड़ के पत्ते से छोटी-बड़ी पिपहरियां बना कर भी यह प्रयोग बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है।

6. बोतल और कांच-नलिका का ट्राम्बो०न बाजा

कांच अथवा धातु की नलिका लीजिए, जिसका व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर और लम्बाई 20 सेंटीमीटर हो। एक बोतल भी लीजिए और उसे पानी से लगभग पूर्णतया भर दीजिए। बोतल को एक हाथ में पकड़िए और नलिका को दूसरे हाथ में। नलिका का एक सिरा पानी में डूबा रहे। अब नलिका के दूसरे सिरे में फूंक मार कर उसे बजाइए। फिर नलिका को फूंक कर बजाते हुए ही बोतल को ऊपर-नीचे चलाइए। नलिका में वायु-स्तम्भ की लम्बाई को जब आप बदलेंगे तो आपको विविध स्वर सुनाई देंगे।

7. जल-तरंग

बोतलों और शीशियों का एक जल-तरंग इस प्रकार तैयार करिए, जिसमें प्रत्येक में इतना ऊंचा वायु-स्तम्भ रहे कि उससे सरगम का एक स्वर निकल जाए। आठ बोतलें एक ही तरह की लीजिए। पहली खाली रहे। शेष बोतलों में उचित ऊंचाई तक पानी ढालिए, जिसमें पटरी या छोटी छड़ी से ठोंके जाने पर उससे सरगम के सभी स्वर निकल सकें। यह प्रयोग लम्बे गिलासों द्वारा भी किया जा सकता है। बोतल या गिलास के भीतर का वायु-स्तम्भ बोतलों के कम्पन होने के कारण स्वयं कम्पन करने लगता है।

यदि आपके पास चीनी मिट्टी के कई बरतन हैं या कई नापों की घंटियां हैं तो उनसे


भी मह खेल किया जा सकता है। इनमें से उनको चुन लीजिए जिनसे सरगम के स्वर निकलते हैं। इन्हें एक पक्कित में रखिए। प्रत्येक हाथ में लकड़ी या खाने का कांटा लीजिए और सावधानी से ठोंक कर धुन निकालिए। (भारत के जल-तरंग में चीनी मिट्टी के छोटें-बड़े प्यालों में न्यूनाधिक जल भर कर स्वर मिलाया जाता है)।

8. भोजन का समय बताने के लिए सुरीली घंटियां

इस्पात का नल (पाइप) प्राप्त करिए, जिसका व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर हो और लम्बाई लगभग 3.5 मीटर। इसको काट कर चार टुकड़े करिए, जिनकी लम्बाइयां क्रमानुसार 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर हों। प्रत्येक नल के सिरे के दोनों ओर बर्मी से छेद करिए और उन्हें लटका दीजिए। वे स्वतन्त्रता से लटकें। कड़े रखड़ के हथीँड़ से प्रत्येक को पारी-पारी से ठोंकिए और अपनी कक्षा के लिए एक प्रकार का नाम संगीत या संकेत-संगीत तैयार करिए (अर्थात् प्रत्येक छात्र एक अलग कम में नलों को बजाए)।

9. सिगार बक्स की बायलिन या सारंगी

एक सिगार बक्स या उसी प्रकार की दूसरी पेटिका, संगीत का सामान बेचने वालों से बायलिन के तार, लकड़ी के कुछ टुकड़े, एक टुकड़ा रेजिन और कुछ काटर-पिन लाइए। इन सब अवयवों को इस प्रकार संयोजित। करिए कि चित्र में दिखाया गया सिगार बक्स



ध्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

वायलिन बन जाए। कमानी (गज़, बो) किसी पेड़ की शाखा और लगभग 70 सेंटीमीटर लम्बे घोड़े की पूँछ के बाल से बनाई जा सकती है।

10. बांसुरी

बांसुरी के लिए बांस का एक पूरा टुकड़ा लीजिए। बांस सीधा (पतले दल का) हो, उसका व्यास लगभग 1.5 सेंटीमीटर और लम्बाई लगभग 30 सेंटीमीटर हो। बांस के दोनों मुँह खुले हों और सारी लम्बाई खोखली हो। इसे हल्की आंच पर इतना सुखाइए कि इसका छिलका पीला या हल्का भूरा हो जाए। जब यह ठण्डा हो जाए तो चित्र में दिखाए गए स्थानों में इस पर मुँह और छेदों की पक्कित बनाइए, जैसा बांस की बांसुरी, टीन की बांसुरी में होता है, परन्तु उसकी ध्वनि अधिक भधुर होती है। कम्पायमान वायु-स्तम्भ की लम्बाई मुख के पास बने छिद्र से लेकर प्रथम खुले हुए छेद तक नापी जाती है।



11. काठतरंग और मरिम्बा

इन्हें बनाने के लिए कड़ी लकड़ी, बांस या लोहे की पत्तियों और एक पटरे की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार की 8, 12, या 16 पत्तियां चाहिए। उनकी लम्बाइयां इतनी हों कि ठोंकने पर सरगम के सब स्वर निकलें। काठतरंग के समतल पटरे पर जड़ने के लिए प्रत्येक पत्ती में प्रत्येक सिरे के किनारे पर लगभग 2 मिली-मीटर व्यास का छेद करिए। पटरे पर नमदे-

या ऊनी कपड़े की धज्जियां रखिए और प्रत्येक छेद में छोटी कील डाल कर पटरे पर ठोंक दीजिए, जिससे पत्ती अपने स्थान पर पड़ी रहे परन्तु कसी न रहे। (कड़े) रबड़ के हथौड़े से ठोंकने पर पत्तियों में कम्पन होगा।

मरिम्बा के लिए चित्र में दिखाई गई रीति से लकड़ी के टुकड़े गाढ़े जाते हैं। इनसे आधार बनता है, जो ध्वनि-पेटिका की तरह काम देता है। प्रत्येक पत्ती के प्रत्येक सिरे पर दो-दो छेद करिए। इन सब छेदों में से एक मजबूत डोर पहना दीजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है और इसे पेटिका के ऊपर तान दीजिए।



कुछ और सरल वाय-यन्त्र भी बनाए जा सकते हैं, उदाहरणार्थ विविध नगाड़, ढोलक, मृदंग, तबले, तार के संगीत यन्त्र, आदि। स्वयं उन्हें बनाने की युक्ति करिए।


ग. ध्वनि को रेकार्डों में भरना और उसका पुनरुत्पादन

1. कान कैसे काम करता है

वायु में होने वाले कम्पन श्रवण-मार्ग (आड़ि-टरी पैसेज) द्वारा कान के भीतर प्रवेश करते हैं। श्रवण-मार्ग का अर्थ है कान के मूल के पास की कर्ण-पटह झिल्ली (इयर-ड्रम मेम्ब्रेन)।

वे कर्ण-पटह को चलायमान करते हैं, जिससे कर्ण-पटह की तीन छोटी हड्डियों का समूह चलायमान होता है। इस तरह वे कान की उस गुहा में पहुँचते हैं, जिसे भीतरी कान कहा जाता है।

कान का एक भाग घोंघे के कबच (शेल) के रूप का होता है। यहां वह अंग रहता है जो ध्वनि-संरंगों को प्रहण करता है और श्रवण-तन्त्रिका द्वारा मस्तिष्क से सम्बद्ध रहता है। भीतरी कान का एक अन्य अवयव, जिसमें तीन छोटे अर्धवृत्ताकार नाल होते हैं और जो सन्तुलन बनाए रखता है, सुनने में कोई भाग नहीं लेता।




ध्वनि के कम्पन घोंघे के कबच के रूप की कार्किलया तक साधारणतः कर्ण-पटह और पूर्वों-कृत छोटी हड्डियों द्वारा पहुंचते हैं (इससे एक तन्त्रिका-सन्देश उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क तक पहुंचता है), परन्तु कम्पन खोपड़ी की हड्डियों द्वारा भी पहुंच सकता है। कार्किलया तक कम्पन चाहे किसी भी मार्ग से पहुंचे, हमें ध्वनि सुनाई पड़ेगी ही।

जब कोई ध्वनि हमारे दोनों कानों तक पहुंचती है तो हम जान लेते हैं कि ध्वनि किस दिशा से आती है। यदि वह ठीक सामने से आती है तो वह दोनों कानों में ठीक एक समय पहुंचती है और उसका बल भी बराबर रहता है। परन्तु यदि ध्वनि का उद्गम एक ही ओर हो तो क्योंकि हमारा एक कान दूसरे कान से कुछ अधिक दूरी पर पड़ता है,

इसलिए ध्वनि वहां कम बल-सहित तथा तनिक देर में पहुंचती है।


2. बोल कैसे उत्पन्न होता है

बोलने में मुँह, दांत, जीभ, गला और फेफड़े—सभी काम करते हैं। ध्वनि शिल्ली (मेम्ब्रेन) की दो पतली चादरों द्वारा उत्पन्न होती है जिन्हें स्वर-रज्जु (वोकल कार्ड्स) कहते हैं। स्वर-रज्जु ध्वनि-कक्ष के अनुप्रस्थ (एक्रास) तने रहते हैं। ध्वनि-कक्ष को कण्ठ या स्वर-यन्त्र (लैरिक्स) कहते हैं। स्वर-यन्त्र श्वसन-नली (विण्ड-पाइप) का ऊपरी भाग है और यह बहुत पीछे जीभ की जड़ पर स्थित है। जब आप कोई वस्तु निगलते हैं तब यहां कार्टिलेज का एक कूटद्वार, जिसे स्वर-कण्ठच्छद कहते हैं, अपने आप उत्तर कर स्वर-यन्त्र को बन्द कर देता है। इसलिए कोई भी आहार श्वास नली में नहीं जाने पाता। जब स्वर-रज्जु गले की कुछ मांस-पेशियों के संकुचन के कारण तने रहते हैं तो उनके बीच एक संकरा दीर्घ छिद्र (स्लिट) बन जाता है। जब इस छिद्र से हवा बलूचक बाहर निकाली जाती है तब उन्हें कम्पायमान होना पड़ता है। इससे श्वास नली, फेफड़े, मुँह और नासिका-गुहाओं की वायु में भी कम्पन उत्पन्न हो जाता है।




ध्वनि-तरंगों के जलने की रीतियां

एक सैकंड में जितने भी पूर्ण कम्पन हों, वही उस कम्पन की आवृत्ति (फ्रीक्वेन्सी) है। जिस रीति से विविध ध्वनि-आवृत्तियां संयुक्त होती हैं, वह जल की तरंगों के संयुक्त होने की रीति के समान है। समुद्र की तरंगें सबसे अधिक लम्बी होती हैं अर्थात् उनकी आवृत्ति कम होती है। मान लीजिए इन तरंगों पर कोई छोटी मोटर बोट चलती है। यह बोट अपनी निजी तरंगें भेजती है, जिनकी आवृत्ति सागर की तरंगों से अधिक होती है। फिर, यदि हवा वह रही है तो वह मोटर बोट वाली तरंगों के तल पर नहीं ऊर्मियां (रिप्ल्स) भेजती हैं। साधारणतः ऊर्मियों की आवृत्ति अन्य दोनों से भी अधिक होती है। अब इन तीनों के संयोग से चित्र में दिखाई गई रीति की आकृति बनती है।



इसी प्रकार, विविध वाद्य-यन्त्रों से विविध आकृतियां निकलती हैं और उनकी ध्वनि-तरंगें संयुक्त होकर ध्वनि-तरंगों की विविध आकृतियों को निर्माण करती हैं।




4. स्वरित्र की तरंग-आकृति

लाल को पिछला कर उसकी दो बूँदें टपका कर किसी स्वरित्र (ट्यूर्निंग फोर्क) की एक

ध्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

भुजा में महीन तार का एक टुकड़ा चिपका दीजिए। स्वरित्र की भूठ को किसी स्टैंड में मजबूती से कस दिया जाता है और उसे मेज से जरा-जरा ऊपर रखा जाता है। कांच की छोटी पट्टी पर तेल के दिए या मोमबत्ती से कालिख चढ़ाइए। अब इस पट्टी को स्वरित्र की उस भुजा के नीचे रखिए जिसमें तार चिपकाया गया है। तार को इतना मोड़ देना चाहिए कि वह कांच की पट्टी को छू दे। अंगुली से स्वरित्र में कम्पन आरम्भ करिए और मेज पर कांच की पट्टी को इतने बेग से खीचिए कि उस पर तरंग रेखांकित हो जाए।

इस प्रयोग को दोहराइए, परन्तु कांच की पट्टी को हर बार विविध बेगों से खीचिए और विभिन्न स्वरित्रों का उपयोग करिए।




विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

तरंग की रेखा आधार-रेखा से जितनी ही ऊँची होगी ध्वनि उतनी ही जोरदार होगी।

5. ग्रामोफोन-रेकार्ड ध्वनि को पुनरुत्पादित करता है


एक ग्रामोफोन रेकार्ड तथा एक प्रवर्धक लैन्स लाइए। प्रवर्धक लैन्स द्वारा देखने पर रेकार्ड में बहुत-सी तरंगित रेखाएं देखाई देंगी। यदि हो सके तो अलग-अलग गति से चलने वाले रेकार्डों की तरंगित रेखाओं की तुलना करिए।

अब रेकार्ड को मशीन पर रख दीजिए और उसे साधारण बेग से घूमने दीजिए। अपने नख की कोर को रेकार्ड की किसी रेखा में डालिए और सावधानी से सुनिए। क्या आप अपने नख से निकले संगीत को सुन सकते हैं? क्या आपको अपने नख में कम्पन का अनुभव हो रहा है? स्पष्ट है कि जब आपका नख रेकार्ड की गहरी रेखाओं में फँसा है तो उसे विवश होकर कम्पायमान होना पड़ता है और इस प्रकार वह अभिलिखित ध्वनियों का उत्पादन करता है (नख यदि बढ़ा रहे और काट कर नुकीला कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा)।




6. सरल पुनरुत्पादक

दियासलाई की खाली डिबिया या कार्ड (कड़े कागज) के कोनों में ग्रामोफोन की सूई घुसा दीजिए। अब पिछले प्रयोग को दोहराइए, परन्तु नख के बदले सूई का उपयोग करिए। क्या ध्वनि-घोष बढ़ जाता है?



7. एक दूसरा सरल पुनरुत्पादक

अधिक बलशाली घरेलू पुनरुत्पादक बनाने के लिए शंकवाकार चोंगे का उपयोग करके आप पुराने फोनोग्राफों का-सा नमूना बना सकते हैं। पिछले प्रयोग के कार्ड या दियासलाई के बदले लगभग 40×40 सेंटीमीटर के वर्गाकार भारी कड़े कागज से बने चोंगे का उपयोग करिए। कागज को शंकु के आकार कर दीजिए और उसके संकरे सिरे को मोड़ दीजिए। फिर कागज की सब परतों में चित्र में दिखाई गई रीति से एक सूई घुसा दीजिए। चोंगे को इस प्रकार पकड़िए कि जब रेकार्ड घूमे तो सूई रेकार्ड के खांचे में हल्के-से टिकी रहे। अब कमरे में वर्तमान हर एक व्यक्ति को आपके सरल पुनरुत्पादक का संगीत सुनाई पड़ेगा।




8. सब के लिए ग्रामोफोन

आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी: दो गोल लकड़ियाँ, लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी और 30 सेंटीमीटर व्यास की; पेंदे के लिए एक लगभग $80 \times 40 \times 2.5$ सेंटीमीटर की लकड़ी; फलालैन का एक टुकड़ा, जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर हो—इसी पर रेकार्ड रखा जाएगा; पतले अभ्रक का एक टुकड़ा लगभग 10×10 सेंटीमीटर का (कभी-कभी गैस बत्तियों

ध्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

की चिमनियां भी अभ्रक से बनी होती हैं, उनका अभ्रक काम दे सकता है); इयूको सीमेंट की एक नलिका; ग्रामोफोन की सूइयां, पिन, ध्वनि-उत्पादक की चौखट बनाने के लिए धातु का एक बाजू (फ्लेज) और सूई पकड़ने वाला पुर्जा। यह बन जाने के बाद आपका फोनो-ग्राफ पहले चित्र के समान लगेगा। पहले दो गोल लकड़ियों को पेंदे पर आरोपित करिए (जैसा कि दिखाया गया है) और चालक पहिए तथा रेकार्ड रखने वाले पहिए को सूत की उचित लम्बाई वाली डोर से सम्बद्ध कर दीजिए। रेकार्ड वाले पहिए पर फलालैन या नमदे की गहरी सरेस से चिपका दीजिए। इसी पर रेकार्ड रखा जाएगा।




यन्त्र का प्रमुख भाग, अर्थात् ध्वनि-उत्पादक तथा चोंगा, दो रीतियों में से किसी से भी बनाया जा सकता है। इनमें कागज के दूध के डिब्बे वाली रीत अधिक सरल है

(परन्तु भारत में ऐसे डिब्बे प्रायः नहीं मिलते)। चित्र के आधार पर काम करिए।

(क) धातु के फ्लेज (पट भाग) पर, जिस पर साधारणतः टोपी (टक्कन) टिकाई जाती है, रवड़ का एक छल्ला सफाई से सीमेंट लगा कर चिपका दीजिए।

(ख) अभ्रक की चादर का एक गोल टुकड़ा इतना बड़ा काटिए कि वह दूध के डिब्बे के मुंह में ठीक बैठे।



(ग) अभ्रक के केन्द्र पर बर्मी से एक छोटा-सा छेद करिए। एक बहुत बड़ी पिन (आलपिन) लेकर उसे सिर के पास मोड़ दीजिए। मोड़ा हुआ भाग शेष लम्बाई से लगभग एक समकोण बनाए। इस पिन को अभ्रक के छेद में डाल दीजिए और तब धातु वाले फ्लेज में किए गए एक छेद में पिन की नोक डाल कर नोक को बाहर निकलने दीजिए।

(घ) तनुपट (अभ्रक) को इयूको अथवा शीघ्र सूखने वाले किसी सीमेंट से अपने स्थान पर चिपका दीजिए।

(इ) सूई पकड़ने वाला पुर्जा बनाने के लिए किसी कम व्यास वाली पीतल की छड़ में से 6 मिलीमीटर का एक टुकड़ा काट लीजिए। इसकी पूरी लम्बाई में एक छेद कर दीजिए और पिन के मिरे से फालतू लम्बाई को काट कर उस पर इसे चढ़ा दीजिए और टांके से जोड़ दीजिए। अब


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

(लोहे का) एक छोटा पेच (सेट स्कू) लीजिए (जैसा ज्यामितीय ड्राइंग वेन में लगा रहता है) और पूर्वोत्तर पीतल के पुर्जे की एक बगल में छेद कर लीजिए, जो व्यास में इस पेच से जरा छोटा रहे। तब पेच को छेद में बलपूर्वक घुमा दीजिए, जिससे पीतल में भी चूड़ी बन जाए।

(च) ऊपर (ड) में बताए गए पुर्जे के बदले आप बिजली की बत्ती के किसी पुराने होल्डर में से पीतल का वह पुर्जा ले सकते हैं जिसमें बिजली का तार डाल कर कसा जाता है।

(छ) चोंगा बनाने के लिए मोमी कागज वाली आइसक्रीम खाने की प्याली लीजिए और उसकी पेंदी निकाल कर फेंक दीजिए अथवा कागज का बना हुआ दूध का डिब्बा लें और उसे ऊपर बताए गए धातु के फलेंज के छेद (मुंह) में कस दीजिए।

(ज) इस पूरे एकक को वाहक बाहू (कैरियर आर्म) पर चिपकाऊ पट्टी से बांध दीजिए। शेष काम आपके चातुर्य पर निर्भर है।



ध्वनि-उत्पादक बनाने की दूसरी रीत ऊपर के चित्र में दिखाई गई है। इससे ऐसा यन्त्र बनेगा जो साधारण फोनोग्राफों से अधिक मिलता-जुलता रहेगा (भारत में यह अधिक सुगमता से बन सकता है)।

9. फोनोग्राफ से ध्वनि-अभिलेखन

ध्वनि-अभिलेखन (रेकॉर्डिंग) ध्वनि-पुनरुत्पादन की ठीक उल्टी किया है। हम सीख चुके हैं कि हमारी आवाज अथवा किसी भी

अन्तर्धनि के द्वारा किसी भी वस्तु को कम्पाय-मान किया जा सकता है और उससे कालिक लगी हुई चलती कांच-पट्टी पर तरंगित रेखाएं भी बनाई जा सकती हैं।

अपने मुंह के सामने एक कड़ा कागज (कार्ड) लाइए और उस पर आवाज डालिए। अपनी अंगुलियों के छोर से कागज के कम्पन का अनुभव करिए।

आइसक्रीम वाली (मोमी कागज की) प्याली अथवा कागज के बने हुए दूध के डिब्बे की पेंदी निकाल डालिए और उसके मुंह के संकरे सिरे पर पतले कागज या पतले रबड़ का पर्दा तान कर बांध दीजिए। इसमें कोई गाना गाइए और कम्पनों का अनुभव करिए।


पिछले प्रयोग में बनाए गए ध्वनि-पुनरुत्पादक को निकाल लीजिए और उसके छेद (मुंह) में कुछ बोलिए। उसे छूकर देखने से आपको पता लगेगा कि बोलने पर सूई की नोक कम्पन करती है।



अब ध्वनि-पुनरुत्पादक को अपनी पुरानी जगह पर लगा दीजिए, और धूम-धूम कर रेकार्ड की जगह उसी नाप के कालिक लगे कांच-पट्ट को लगा दीजिए। चोंगे में कुछ बोलिए और अपने बोलते समय ही किसी से धूमचक्र को चलावा दीजिए। सूई में कम्पन होगा और आपकी आवाज को अंकित करने के लिए वे तरंगित


ध्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

रेखाएं सीधेगी। कांच के पट्ट को जगह कड़े मोम की गोल चादर भी लगाई जा सकती है।



बोलता यन्त्र सबसे पहले टामस ए० एडिसन ने बनाया था। यह यन्त्र अभिलेखक (रेकार्डर)

भी था और पुनरुत्पादक भी। वह पहले आवाज को अभिनिश्चित करता था और फिर उसे बजा देता था। यदि आप कोई वैज्ञानिक वस्तु-संग्रहालय (सायंस म्यूज़ियम) देखने जा सकें तो वहां पुराने ढंग के डिवटाफोन को देखिए। नए यन्त्रों की अपेक्षा पुराने यन्त्रों में उनके पुर्जे अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।




उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. उष्मा का प्रसारी प्रभाव


1. यह दिखाता कि गरम करने पर ठोस वस्तुएं फैलती हैं

लगभग 2 मीटर लम्बी तांबे की एक मजबूत नलिका लीजिए (लोहे की नलिका से भी काम चल सकता है)। उसे मेज पर रखिए और उसके एक सिरे को सन्धर (क्लैम्प) लगा कर स्थिर कर दीजिए (भारी बोझ से भी काम चल जाएगा)। दूसरे सिरे के नीचे बुनाई बाली (लोहे की) सलाई को मोड़ कर अथवा साइकिल की तीली का एक टुकड़ा रख दीजिए ताकि वह रोलर का काम करे। रोलर के मुड़े हुए सिरे में बालसा नामक लकड़ी की एक पतली खपची (अथवा पुआल की एक सींक) को लाख से जोड़ दीजिए, जो लगभग 1 मीटर लम्बी हो। रोलर पर पड़ी नलिका में जब भी कोई गति होगी, तो इस खपची के द्वारा उसका पता चल जाएगा। नलिका के स्थिर सिरे की ओर से नलिका में एक ही गति से हवा फूंकते रहिए, गरम सांस के कारण तांबे की नलिका जितनी बढ़ेगी उसका भी पता इस व्यवस्था से चल जाएगा (भारत में 'यह जाड़े के दिनों में ही सम्भव है और इसके लिए तांबे की नलिका आवश्यक है क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा अधिक फैलता है')। अब नलिका के भीतर वाष्प प्रवाहित करेंगे तो सूचक पूरा या अधिक चक्कर लगा डालेगा, जिसकी मात्रा इस पर निर्भर है कि रोलर का व्यास कितना है। प्रयोग को फिर से दोहराइए, परन्तु रोलर और सूचक को नलिका के खुले सिरे के अधिक समीप रखिए। पहले के परिणाम से तुलना करिए।



2. वस्त्र और डाट बाला प्रयोग

लकड़ी में कसने वाला एक कड़ा पेच और एक पेचयुक्त बड़ी आंख (छल्ला) लीजिए। पेच का सिरा इतना बड़ा हो कि वह आंख में ठोक घुस कर पार हो जाए परन्तु जरा भी ढीला न रहे। प्रत्येक को एक छड़ी के सिरे में कस दीजिए, परन्तु धातु का कम-से-कम 2.5 सेंटीमीटर भाग छड़ी के बाहर निकला रहे। थोड़ी देर तक पेच के सिरे को किसी ज्वाला में गरम करिए और तब उसे पूर्वोक्त आंख के भीतर डालने की चेष्टा करिए। फिर पेच को गरम किए रहिए और साथ ही आंख को भी ज्वाला में गरम करिए। अब फिर आंख के भीतर पेच का सिरा डालने की चेष्टा करिए। पेच के सिरे को ज्वाला में रखिए और पेचयुक्त आंख को ठण्डे पानी में ठण्डा कर लीजिए। फिर एक को दूसरे में डालने की चेष्टा करिए। इसके बाद




उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पेच के सिरे को भी ठण्डा कर लीजिए और फिर बेटा करिए।

3. दण्ड और मापी

इस परम्परागत उपकरण का दण्ड बनाने के लिए गड़ी कील (कट नेल—ऐसी कील न मिले तो किसी भी लम्बी कील का उपयोग करिए, परन्तु नोक घिस कर निकाल दी जाए, दोनों ओर के तल समतल हों और कील की लम्बाई पर लम्ब हों) और मापी बनाने के लिए टीन के एक टुकड़े का उपयोग करिए। नापने वाला खुला मुँह बनाने के लिए टीन को कैची से काटा जा सकता है। टीन को लम्बाई की दिशा में बीच से मोड़ दीजिए। इससे टीन अधिक मजबूत हो जाएगा और उसे मेज पर इस प्रकार खड़ा किया जा सकेगा कि मापी का मुँह ऊपर रहे। हथा बनाने के लिए दण्ड (कील) पर तार का एक टुकड़ा लपेट लीजिए, जो हैडल का काम करे।




4. उष्मीय सर्पक (क्रीपर)

यह प्रतिकृति यह दिखाती है कि उष्मा के कारण सीसे आदि की बनी हुई छतें किस प्रकार सरकने लगती हैं (विदेश में लोग लकड़ी की छत पर सीसे की चादर बिछा देते हैं ताकि लकड़ी न सड़े और पानी भीतर न टपके)। बुनने की एक सलाई के दोनों सिरों पर काग (कार्क) चढ़ा दीजिए। प्रत्येक काग में दो पिनें खोंस दीजिए, जिससे उपकरण की चार टांगें हो जाएं। ये पिनें तिरछी न लगाई जाएं ताकि सलाई के बढ़ने पर सामने वाली ओड़ी सुगमता से आगे लिसक सके और सलाई के छोटे होने

पर स्वयं भूमि में धंस कर निश्चल हो जाए और पीछे वाले पैरों को आगे बसीट ले।


लोहा आदि के दो फलों पर पीतल का पुल रखने पर भी वह ठीक इसी प्रकार काम करेगा और ब्लेडों को तिरछा रखने पर वह ऊपर भी बढ़ता जाएगा।



5. द्विधात्विक पट्टी

लोहे और पीतल की बराबर नाप की दो पट्टियों को एक के ऊपर एक रख कर लवगित कर दीजिए। इस पट्टी को गरम करने पर वह एक ओर कम और दूसरी ओर अधिक फैलने के कारण मुड़ जाएगी। छेद कील से करिए और छोटी कीलों को लवंग (रिवेट) की तरह इस्तेमाल करिए।

पट्टियों को परस्पर बांधने की दूसरी रीति यह है कि प्रत्येक पट्टी की बगल में बराबर दूरियों पर बड़े हुए भाग छोड़ दिए जाएं और उनको दूसरी पट्टी के ऊपर मोड़ दिया जाए ताकि वे एक-दूसरे में फंस जाएं।




6. प्रसरण-दर को नापने के लिए एक युक्ति

इस प्रयोग के लिए पृष्ठ 44 पर बताए गए लीविंग संधनक को भाप-जैकेट की तरह काम में लाइए। लकड़ी की एक पट्टी से उत्तोलक का काम करके परीक्षण-दण्ड के प्रसरण को बढ़ा कर देखा जा सकता है। बांस या गोल (या चौकोर) लकड़ी का एक टकड़ा लीजिए। इसके सिरे पर एक रेलर ब्लेड खोंस कर एक सन्तोषजनक कीलक (पिवट) बनाया जा

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ


सकता है। चित्र में (X) पर प्रतिभार (काउण्टर वेट) रखा गया है, जो उत्तोलक को परीक्षण-दण्ड पर दबाए रहता है।

बाहरी नलिका में पहले ठण्डा पानी और तब वाष्प प्रवाहित करनी चाहिए। फिर दण्ड के प्रसरण की नाप उत्तोलक की नापों तथा मुक्त सिरे की गति को देख कर की जाती है।



7. इबों का प्रसरण

दो-तीन शीशियों में काग और नलिकाएं लगाइए। उनमें विभिन्न द्रव भरिए और उन्हें गरम पानी के घरतन में लगभग ढुबा दीजिए। नलिकाओं में पानी जितना अधिक चढ़ जाता है, उतना ही उसका प्रसरण हुआ है। यदि नलिकाओं का व्यास ज्ञात हो और बोतलों की धारिता भी, तो आभासी प्रसरण-गुणांक भी निकाले जा सकते हैं।




8. गैसों का प्रसरण

शीशियों की सहायता से वायु तथा अन्य गैसों का भी प्रसरण दिलाया जा सकता है। शीशी में वायु कुछ रहने दीजिए। नलिका को उसके

भीतर इतनी दूर तक डालिए कि उसका मुंह पानी के नीचे हो जाए (यदि जाड़े का दिन हो तो)। शीशी पर हाथ रखने से हाथ की गरमी के कारण वायु फैलती है और द्रव को नलिका में ऊपर ले जाती है।

एक सरल प्रकार का वायु-तापमापी नलिका को नीचे (दाहिनी ओर) दिखाई गई रीत से व्यवस्थित करने पर बनाया जा सकता है। इस अध्याय के प्रयोग ख-2 को भी देखिए।

इस बोतल को गरम करने से वायु बाहर निकलती है। ठण्डा होने पर भीतर की दाब कम हो जाती है और इसलिए द्रव ऊपर चढ़ता है।



9. गैसों का प्रसरण—साबुन का बुलबुला

शीशी के मुंह पर साबुन का एक बुलबुला बनाइए (शीशी के मुंह को साबुन के घोल में ढुबा कर निकाल लीजिए)। यदि शीशी पर (जाड़े के दिन में) गरम हाथ रखा जाए तो साबुन का बुलबुला बड़ा हो जाएगा।

10. गैसों का प्रसरण दिलाने की एक अन्य रीत

विजली के पुराने बल्ब से बने पलास्क के मुंह पर रवड़ का गुब्बारा खींच कर लगा दीजिए। बल्ब को धीरे-से मोमबत्ती या स्पिरिट लैम्प की ज्वाला पर गरम करिए।

पृष्ठ 126 के प्रयोग ख-2 को भी देखिए।

11. गुब्बारे की सहायता से प्रसरण सम्बन्धी एक प्रयोग करना

गुब्बारे अथवा फूटबाल में अंशतः हवा भरिए।

उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

फिर उसे धीमी आंच पर गरम करिए अथवा कुछ समय तक धूप में रख छोड़िए, और परिणाम देखिए।


12. आग वाला गुब्बारा

पतले कागज का एक बड़ा थैला लेकर, जिसके भीतर कपड़ा बेचने वाले बहुधा कपड़ा रख कर देते हैं, आग वाला सरल गुब्बारा बनाइए।

लोहे या इस्पात के बहुत महीन तार का एक वृत्त बनाइए और उसमें व्यास के आर-पार एक रोक-दण्ड भी लगाइए। थैले का मुँह खोल कर उसके मुँह में पूर्वोक्त वृत्त को गोंद लगे कागज की पट्टी से (तीन-चार जगह) जोड़ दीजिए। रोक-दण्ड के बीचोंबीच थोड़ी रुई या संपंज बांध दीजिए और उसे मेथिलेटेड स्पिरिट से तर कर दीजिए। स्पिरिट में आग लगा दीजिए और थैली की पेंडी को उठाए रख कर तार को पकड़े रहिए। कागज के थैले में आग लगने का डर रहता है, इसलिए इस प्रयोग को कमरे के बाहर करना ही अच्छा है।

कागज के थैले का यह गुब्बारा ज्यादा देर तक नहीं उड़ता। इससे अच्छा गुब्बारा निम्न-लिखित रीति से बनाया जा सकता है:—

एक मेज पर चीनी कागज (अर्थात् पतंग बनाने का पतला कागज) के 6 ताव एक के ऊपर एक करके रखिए। उन्हें काट कर चित्र में



ख. ताप

1. क्या श्रापकी ताप-बोधक शक्ति विश्वसनीय है

तीन बरतनों में पानी भरिए। एक में इतना गरम पानी हो कि आप उसमें हाथ डाल सकें। दूसरे में बर्फ के समान ठण्डा पानी हो। तीसरे में गुनगुना पानी हो। दोनों हाथों को गुनगुने पानी में डाल दीजिए और आधे मिनट तक उसी में पड़ा रहने दीजिए। क्या दोनों हाथों को पानी का ताप एक ही जैसा जान पड़ता है? क्या वह गरम मालूम होता है या ठण्डा अथवा अन्यथा ही (न गरम न ठण्डा) जान पड़ता है?

अब एक मिनट तक वाएं हाथ को गरम पानी में रखिए और दाहिने हाथ को बर्फ के समान ठण्डे पानी में। फिर शीघ्रता से दोनों हाथों को पोंछ कर तुरन्त गुनगुने पानी में डाल दीजिए। दाहिने हाथ को क्या अनुभव होता है? बाएं हाथ को क्या अनुभव होता है? क्या उनको बैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा उन्हें पहली बार गुनगुने पानी में डालने पर हुआ था? श्रापकी ताप-बोधक शक्ति कैसी है?


2. बायु तापमापी बनाना

विजली के पुराने बल्ब से बने प्लास्क (या

विज्ञान-शिक्षण के लिए प्रूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पतली दीवार वाली बोतल या परीक्षण-नलिका) में एक छेद की रबड़ की डाट लगा दीजिए और उसके छेद में 60 सेंटीमीटर लम्बी कांच-नलिका लगाइए। डाट बल्ब में पूर्णतया वायु-अभेद्य होकर बैठे। जोड़ को पक्का करने के लिए उस पर जलती मोमबत्ती से मोम टपकाया जा सकता है। चित्र में दिखाई गई रीत से तापमापी के लिए लकड़ी का आधार तैयार करिए। नलिका के पीछे कागज की पट्टी चिपका दीजिए। इसी पर पैमाना बनाया जाएगा। अब किसी छोटी बोतल या शीशी में ठण्डा पानी भरिए और नलिका के नीचे वाले सिरे को उसमें डाल दीजिए। पानी को स्थाही से रंगीन कर दीजिए। तापमापी के बल्ब को धीरें-से गरम करिए ताकि कुछ हवा निकल जाए। केवल इतनी ही हवा निकालिए कि जब बल्ब ठण्डा होकर कमरे के ताप पर आ जाए तो रंगीन पानी नलिका में आधी दूर तक चढ़ जाए।

पैमाना बनाने के लिए तापमापी को कमरे में कई घंटे तक पड़ा रहने दीजिए। बल्ब के पास एक दूसरा साधारण तापमापी भी रखा रहे। पानी के स्तर पर कागज पर एक रेखा खींचिए और इस बिन्दु पर बगल वाले तापमापी के पाठ्यांक को लिख दीजिए। फिर अपने तापमापी को किसी गरम स्थान में ले जाइए और वहां उसे एक घंटे तक पड़ा



रहने दीजिए। बल्ब के पास ही दूसरा तापमापी रहे। पानी के स्तर और ताप को लिख लीजिए। फिर ठण्डी जगह ले जाइए और एक बार फिर पानी के स्तर और ताप को लिख लीजिए। इन चिह्नों के बीच के स्थान को बराबर-बराबर भागों में बांटिए और उन पर उचित ताप के अंक लिखिए।

3. तापमापी कैसे काम करता है


बिजली के पुराने बल्ब से बने फ्लास्क को स्थाही पड़े रंगीन पानी से भरिए। फ्लास्क में एक छेद वाली डाट लगाइए और उसमें 30 सेंटीमीटर लम्बी एक कांच-नलिका लगाइए। नलिका को फ्लास्क के भीतर इतनी दूर तक डालिए कि पानी नलिका में 5 या 6 सेंटीमीटर तक चढ़ जाए। फ्लास्क को त्रिपाद पर रखिए और उसके नीचे स्पिरिट लैम्प को जला कर रख दीजिए। पानी के स्तर को देखते रहिए। पानी कांच की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से बढ़ता है और नलिका में चढ़ जाता है। कक्षा के सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले कुछ छात्र शायद इस बात पर गौर करेंगे कि गरम करने पर प्रारम्भ में पानी का स्तर पहले नीचे गिरता है और फिर ऊपर उठने लगता है। इसका कारण यह है कि पानी के गरम होने के पहले कांच का बल्ब गरम होकर फैल जाता है।

4. स्पिरिट तापमापी बनाना

एक ऐसा सरल अल्कोहल तापमापी बनाने के लिए, जो ताप के घटने-बढ़ने को सही-सही बताए, 20-30 सेंटीमीटर लम्बी नलिका लीजिए, जिसका बाहरी व्यास 5 मिलीमीटर हो और भीतरी छेद का व्यास 1 मिलीमीटर हो। पहले नलिका के एक सिरे पर लगभग 1.5 सेंटीमीटर बाहरी व्यास के एक बल्ब को ज्ञाल दिया जाता है। तब इसमें रबड़-नलिका और थिसल कीप की सहायता से रंगीन किया गया औद्योगिक अल्कोहल (या मेथिलेटेड स्पिरिट) भरा जाता है या चित्र में दिखाई गई रीत से, अर्थात् बल्ब को गरम करके नलिका का मुंह अल्कोहल में डुबा दिया जाता है; बल्ब के ठण्डा होने पर

उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

अल्कोहल भीतर चला जाता है (किया को कुछ बार दोहराना पड़ता है)। बल्व को पूर्णतया भर जाना चाहिए और उसमें हवा के बुलबुले नहीं रहने देने चाहिए। तब तापमापी को 60° सेंटीग्रेड गरम पानी में रख दिया जाता है। यह ताप अल्कोहल के खौलने के ताप से थोड़ा कम होता है। इतना गरम करने पर जितना भी अल्कोहल बाहर निकले, उसे निकल जाने दीजिए। तब खुले सिरे को (पिघला कर) बन्द कर दिया जाता है। फिर पानी को विविध तापों तक गरम करके तापमापी की जांच की जाती है और मापनी को अंकित कर दिया जाता है।



5. तापमापी की जांच करना

तापमापियों की मापनियों को दो निश्चित बिन्दुओं पर अंकित किया जाता है—भाप के ताप पर और पिघलती वर्फ के ताप पर। एक तापमापी लीजिए और उसे फ्लास्क में उबलते हुए पानी से जरा ऊपर भाप में रखिए। कई मिनट तक उसे वहां पड़ा रहने दें और देखें कि ताप 100° सेंटीग्रेड या 212° फार्नैट के कितना निकट है।

टिप्पणी : यदि आप बहुत ऊंचाई पर रहते हैं तो भाप का ताप 100° सेंटीग्रेड अथवा 212° फार्नैट से काफी कम होगा, जिसका कारण

ग. उष्मा का स्थानान्तरण

1. धातु के दण्ड में स्थानान्तरण


कम-से-कम 30 सेंटीमीटर लम्बी ताँबे, पीतल या अल्मीनियम की छड़ लीजिए। इस दण्ड में

है दाढ़ में कमी होना। तापमापी केवल समुद्रतल पर ही या उस स्थान पर ठीक उत्तरता है जहां वायुदाब-मापी का पाठ्यांक पारे का 760 मिलीमीटर हो।

तापमापी को भाप से हटा लीजिए, कुछ क्षण उसे ठण्डा होने दीजिए और तब उसे पिघलती वर्फ से भरे बरतन में रख दीजिए। देखिए कि ताप 0° सेंटीग्रेड अथवा 32° फार्नैट के कितना निकट है।

6. उष्मा और ताप—कैलारी की कल्पना

टीन के डिब्बे में नाप कर कुछ पानी रखिए। उसमें एक तापमापी रख दीजिए। डिब्बे को बूँसन ज्वालक अथवा सोमबत्ती की ज्वाला पर रखिए। पानी को बराबर चलाते रहिए और देखिए कि कितने समय में ताप बढ़ कर 10° सेंटीग्रेड हो जाता है। अब कभी कम और कभी अधिक, परन्तु नभी ही मात्रा में पानी लेकर प्रयोग को दोहराइए। बेलनाकार डिब्बे की सहायता से पानी का नाप (आयतन) ज्ञात करिए और 1 घन सेंटीमीटर पानी को 1 ग्राम के बराबर मानिए। शोषित कैलारियों की संख्या अवश्य ही द्रव्यमान \times ताप में परिवर्तन के बराबर होगी।




तीन-तीन सेंटीमीटर की दूरी पर मोस से छोटी या साधारण कीलें चिपका दीजिए। इस दण्ड को मेज के ऊपर क्षैतिज स्थिति में स्थिर कर दीजिए

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्कों का आकर ग्रन्थ

और एक सिरे को स्पिरिट लैम्प, अथवा अन्य ज्वाला से गरम करिए। इस बात का प्रमाण देखिए कि संबहन (कण्डकगन) से उष्मा दण्ड के अनुदिश चलती है।

2. धातुएं उष्मा का संबहन विभिन्न दरों से करती हैं

कई धातुओं की 15 सेंटीमीटर लम्बी छड़ी लीजिए। इन छड़ों का व्याम लगभग बराबर होना चाहिए। टीन के डिब्बे से एक त्रिपाद बनाइए और इसकी बगलों में छेद करिए। इन छेदों में पूर्ववत् धातु की छड़ों को कस कर लगा दीजिए। ये छड़े एक-दूसरे को त्रिपाद के केन्द्र में लूएं। प्रत्येक छड़ के बाहरी सिरे पर मोम से कोई छोटी या बड़ी कील त्रिपका दीजिए। त्रिपाद के नीचे बीचोंबीच एक स्पिरिट लैम्प इस प्रकार ठीक केन्द्र में रखिए कि उसकी ज्वाला प्रत्येक छड़ तक समान रूप में जाए। अब देखिए कि छड़ों के दूसरे किनारों से कीलें किस क्रम से गिरती हैं।




3. धातुएं उष्मा की संवाहक होती हैं

इस विषय पर अधिकांश प्रयोग भ्रामक होते हैं क्योंकि उनमें विशिष्ट उष्मा (सेसिफिक हीट) तथा संबहन दोनों का प्रभाव पड़ता है। मोमबत्ती की ज्वाला पर कागज का एक टुकड़ा रखिए। यदि कागज ज्वाला के निकट लाया जाएगा तो वह झुलस जाएगा। अब कागज पर एक सिक्का रख कर इस प्रयोग को दोहराइए। धातु उष्मा को दूर ले जाएगी और इसके कारण कागज के झुलसने पर उस पर सिक्के की आकृति बन जाएगी।

4. धातु और लकड़ी की संवाहकता

अगर किसी धातु की नलिका के भीतर

लकड़ी की छड़ बिल्कुल ठीक बैठा दी गई हो तो उसका भी वही प्रभाव होता है, अर्थात् अगर छड़ को किसी ज्वाला पर रखा जाए तो वह शीघ्र जलेगी नहीं। इस प्रयोग को करने के लिए एक ऐसी निवाली कलम से भी काम लिया जा सकता है जिसके एक सिरे पर धातु की छोटी-सी नलिका लगी हो। एक सिगरेट, धातु के सिक्के और रूमाल से भी यह प्रयोग किया जा सकता है। रूमाल को सिक्के पर (एक बार) लपेट दीजिए और रूमाल को अंगुलियों और अंगुठे के बीच इस प्रकार पकड़िए कि सिक्के पर लिपटा कपड़ा खिच जाए। सिगरेट के लाल मुलगते हुए सिरे को सिक्के के ऊपर तने रूमाल पर दबाइए, रूमाल नहीं जलेगा।



5. धातु की जाली द्वारा संबहन

धातु की जाली के एक टुकड़े को स्पिरिट लैम्प या गैस की ज्वाला पर रखिए। आप देखेंगे कि ज्वाला जाली को पार करके ऊपर नहीं आती क्योंकि जाली के तार ज्वाला की उष्मा को संवाहित करके उसे दूर पहुंचा देते हैं। यदि आपकी कक्षा में गैस है तो त्रिपाद के नीचे एक ज्वालक रखिए, टोंटी खोल कर गैस आने दीजिए और गैस को जाली के ऊपर जला दीजिए। आप देखेंगे कि गैस जाली के ऊपर ही जलती है क्योंकि जाली उष्मा को दूर तक संवाहित कर देती है और नीचे गैस का ताप इतना नहीं


उत्पाद के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

बढ़ने पाता कि उसमें आग लग सके। इस प्रकार के प्रेक्षणों से ही सर हृष्टे डेवी को खनिकों का निरापद दीप बनाने की प्रेरणा मिली थी, जिसे कोयले की खानों में गैस विस्फोट नहीं होने पाता।

6. डेवी दीप की प्रतिकृति

तार की जाली की सहायता से मंवहन सम्बन्धी प्रचलित प्रयोगों को करने के बाद एक कामचलाऊ डेवी दीप बनाया जा सकता है। एक छोटी सोमबत्ती को तार की जाली के पिजरे में बन्द करिए। उस पर रबड़ की नलिका से गैस की धार छोड़िए। गैस में आग नहीं लगेगी।

पेंदी लकड़ी की इष्टिका या प्लास्टिसीन (या सनी हुई मिट्टी) से बनाइए।



7. पानी उष्मा का अनुसर संवाहक है

परीक्षण-नलिका की पेंदी में कुछ बर्फ रखिए और फिर उसके ऊपर तार का एक टुकड़ा इस प्रकार डाल दीजिए कि बर्फ ऊपर न उठ सके। परीक्षण-नलिका में पानी डालिए और तब नलिका के माथे के पास के पानी को इतना गरम करिए कि पानी खौलने लगे। आप देखेंगे कि बर्फ बहुत कम गली है, जिससे पता चलता है कि पानी ने श्रद्धिक उष्मा को संवाहित नहीं किया है।

8. द्वारों में उष्मा संन्यन (कन्वेक्शन) द्वारा स्थानान्तरित होती है

कांच का एक बड़ा-सा ऐसा बरतन लीजिए जिसे गरम किया जा सके। काफी बनाने के कांच वाले यन्त्र का निचला भाग इस काम के लिए उपयुक्त रहेगा (या किसी फ्लास्क या पुराने

बड़े आधार के बिजली के बल्ब से बनी फ्लास्क का उपयोग करिए)। बरतन को पानी से भर दीजिए। उसमें थोड़ा-सा बारीक कुतरा हुआ सोल्वा या लकड़ी का बुरादा डाल दीजिए और उसे पेंदी पर बैठने दीजिए। अब बरतन के नीचे स्पिरिट लैम्प रख कर गरम करना आरम्भ करिए। कागज के टुकड़ों के विचरण भागों को देखिए। कागज के टुकड़े उन धाराओं का अनुसरण करते हैं जो संन्यन के कारण पानी में उत्पन्न होती है।

9. पानी में संन्यन-धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं?


किसी बड़े बरतन में ठण्डा पानी भर कर उसे एक ही तुला पर ठीक-ठीक तोलिए। फिर उस बरतन में ठीक उतना ही, परन्तु खूब गरम पानी भर कर बरतन को तोलिए। आप देखेंगे कि गरम पानी की तौल कम होती है। बराबर आयतन रहने पर ठण्डा पानी गरम पानी की अपेक्षा भारी होता है। इसलिए जब पानी को गरम किया जाता है तो संन्यन-धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि आसपास का ठण्डा पानी गरम पानी के हल्केपन के कारण उसको ऊपर उठा देता है।

10. पानी में संन्यन-धाराएं दिलाने की एक दूसरी रीति

स्याही या लैई की शीशी में काग लगाइए और उसमें चित्र में दिलाई गई रीति से दो नलिकाएं लगाइए। एक नलिका के सिरे पर चंचु (जेट) बनी रहे, जैसा कि दवा टपकाने वाली नलिका में होती है। इस नलिका का दूसरा सिरा काग के नीचे जरा-सा ही निकला रहे और ऊपर वाला भाग काग के ऊपर लगभग दो इंच निकला रहे। दूसरी नलिका का ऊपरी सिरा काग के ही स्तर में रहे और दूसरा सिरा लगभग शीशी की पेंदी तक पहुंच जाए। इस शीशी को खूब गरम पानी से भरिए जिसे, स्याही से गहरा रंगीन कर दिया गया हो।

अब कांच के एक बड़े बरतन को, जैसे बैठरी वाले बरतन, या बड़े अमृतबान को खूब ठण्डे


पानी से भर दीजिए। स्याही की शीशी को धो-पोंछ कर शीशी से बड़े बरतन की पेंदी पर रख दीजिए। देखिए क्या होता है? ऐसा क्यों होता है?



11. गरम पानी के तापन-तन्त्र (हीटिंग सिस्टम) की प्रतिकृति बनाना।

बिजली के बड़े बल्ब से एक फ्लास्क बनाइए। चौड़े मुँह की एक बोतल और एक कीप लीजिए। बोतल में एक काग कस कर लगाइए और उसमें तीन कांच-नलिकाएं लगा कर उन्हें चित्र में दिखाई गई रीति से व्यवस्थित करिए (यह बोतल विकिरक, रेडिएटर, को निरूपित करती है)।

फ्लास्क में दो छेद वाले एक काग को कस कर लगाइए और उसमें दो कांच-नलिकाएं लगा दीजिए। इनमें से एक नलिका फ्लास्क की पेंदी तक पहुंचे और दूसरी काग से बाहर निकल-भर



ग्राए। कीप को दिखाए गए स्थान में लगाइए। यह प्रसरण-टंकी का काम देती है। उपकरण को पानी से भर दीजिए और गरम करिए। देखिए कि विकिरक (रेडिएटर) का कौन-सा भाग पहले गरम होता है। क्या आप समझ सकते हैं कि संन्यन-धाराओं के द्वारा पानी किस प्रकार घूमता रहता है?

12. वायु में संन्यन-धाराएं

टीन का एक वैसा ही बूत्ताकार (गोल) टुकड़ा लीजिए जैसा कि सिगरेट के डिब्बों के भीतर डिब्बे को मुहरबन्द करने के लिए लगा रहता है। विज्ञानों के अनुदिश काट कर टीन की गोलाई-भर में दांत बना दीजिए और बुनने की सलाई को झोड़ कर टीन को उस पर सन्तुलित करिए (टीन के खण्ड सब समान रूप से ऐंठ दिए जाएं)। इसे भौमबत्ती की ज्वाला के ऊपर (कुछ दूरी पर) रखिए तो टीन बेग से घूमेगा। अगर कागज का सर्पिल बना कर उसे भी बुनने की सलाई पर टिकाया जाए तो वह भी इसी प्रकार घूमेगा।


लोहे के एक टुकड़े को आग में तपा कर लाल करिए और ठोस मेथिलेटेड स्पिरिट (मेटा ईथन) के सम्पर्क में लाइए। वाष्प उठ कर तुरन्त ही फिर मणिभ (क्रिस्टल) हो जाता है (जम जाता है) और सारे कमरे में हिमपात का-सा मुन्दर दृश्य उपस्थित हो जाता है। ये मणिभ कमरे के भीतर पहले से ही उपस्थित झकोरों और संन्यन-धाराओं के कारण गतिशील हो जाते हैं, जिनसे उपस्थित वायु-धाराओं का पता मणिभों के द्वारा चलता है।

इन वायु-धाराओं को दिखाने की एक दूसरी रीत यह है कि गरम और ठण्डी हवा के वर्तनांकों की विभिन्नताओं का उपयोग किया जाए। किसी विद्युत उष्मक (हीटर) या बिजली के साधारण बल्ब से उत्पन्न होने वाली संन्यन-धाराओं को हम कार में इस्तेमाल होने वाले 12 बोल्ट के परावर्तक-रहित बल्ब से प्रदर्शित कर सकते

उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

हैं। इस बल्ब की सहायता से संन्यन-धाराओं की ध्रुवा को प्रदर्शित किया जा सकता है।

पृष्ठ 127 के प्रयोग ख-6 को भी देखिए।




13. संन्यन-धाराओं के कारण वात के उत्पन्न होता है

देखिए पृष्ठ 127 का प्रयोग ख-6।

14. संन्यन-धाराएं और संवातन (बैटरी)

उस पेटी का उपयोग करिए जिसे आपने प्रयोग ख-6 में पृष्ठ 127 पर वातन के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया था। पेटी की दोनों बगलों में बर्म से चार छेद करिए—दो ऊपर और दो नीचे। अब छेदों में ठोस काग लगा दीजिए, माथे वाले उन छेदों में भी जहां पहले वाले प्रयोग में लैम्प की चिमनियां रखी गई थीं। सामने वाले दीवार के छेद खिड़कियों का काम देते हैं। इन्हें ऊपर या नीचे खोला जा सकता है। पेटी में चार मोमबत्तियां रखिए और उन्हें जला दीजिए। अब आप यह अध्ययन कर सकते हैं कि संवातन की सबसे अच्छी रीति या अनुकूल परिस्थितियां कौन-सी होती हैं। सब खिड़कियों को बन्द कर दीजिए और कुछ समय तक मोमबत्तियों को देखते रहिए। अब विविध प्रकार से खिड़कियों को खोल कर देखिए—एक खिड़की ऊपर और

नीचे खुली हुई, एक खिड़की ऊपर खुली हुई, दूसरी नीचे खुली हुई, दोनों ऊपर खुली हुई, केवल एक खिड़की नीचे खुली हुई, दोनों खिड़कियों नीचे खुली हुई, केवल एक खिड़की ऊपर खुली हुई। खिड़कियों को किस प्रकार खोलने से संवातन सबसे अच्छा किया जा सकता है?



15. विकिरण द्वारा उष्मा स्थानान्तरित होती है

विक्षिले प्रयोगों में आपने देखा है कि उष्मा ठोसों, पदार्थों, द्रवों और गैसों से, स्थानान्तरित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, उष्मा तरंग-गति के द्वारा और निर्वात के पार भी स्थानान्तरित हो सकती है। इसे विकिरण (रेडिएशन) कहते हैं। उष्मा विकिरण द्वारा लगभग तत्काल ही स्थानान्तरित हो जाती है। इस प्रयोग से विकिरण के बारे में कुछ रोचक बातों का पता चलेगा। आपने हाथ को बिजली की (बुझी हुई) बत्ती के नीचे रखिए। हथेली ऊपर रहे। बिजली चालू कर दीजिए। क्या आप बिजली को लगभग चालू करते ही उष्मा का अनुभव करते हैं? उष्मा आपके हाथ तक संवहन द्वारा तो पहुंची नहीं, क्योंकि हवा बहुत ही निकृष्ट चालक होती है। फिर, संन्यन से भी उष्मा आपके हाथ तक नहीं पहुंचती क्योंकि यह आपके हाथ से उष्मा को ऊपर ले जाएगा। वस्तुतः उष्मा बहुत छोटी तरंगों द्वारा आपके हाथों तक लाई गई है। विकिरण उष्मा को उत्पत्ति-स्थल से वहन करके प्रत्येक दिशा में ले जाता है।

16. विकोरण उष्मा-तरंगों को एक संग्रह (फोकस) पर लाया जा सकता है

किसी प्रवर्धक लैनस को धूप में रखिए और

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

चीनी (पतले) कागज की एक गोली बना कर उसके एक बिन्दु पर धूप का फोकस डालिए (कागज का रंग काला हो तो अच्छा होगा)। आप देखेंगे कि संगमित उष्मा-किरणों के कारण कागज जल उठता है।

17. विकीर्ण उष्मा-तरंगों को परावर्तित (रिफ्लेक्ट) किया जा सकता है

ऊपर के प्रयोग में प्रवर्धक लैन्स और चीनी कागज के बीच की दूरी नाप लीजिए। लैन्स से लगभग इसकी आधी दूरी पर एक तिरछा दर्पण रखिए। अपने हाथ से दर्पण के ऊपर इधर-उधर अनुभव करके देखिए कि उष्मा-तरंगें कहाँ एकत्रित हुई हैं। उस बिन्दु पर एक चीनी (पतला) कागज मरोड़ कर रखिए और देखिए कि उसमें आग लगती है या नहीं।

18. विभिन्न प्रकार के तलों का विकिरण पर प्रभाव पड़ता है

एक ही नाप के तीन डिब्बे लीजिए। एक को बाहर और भीतर सफेद रंग दीजिए और दूसरे को काला। तीसरे को चमकदार ही रहने दीजिए। तीनों में साधारण गरम पानी भर दीजिए। तीनों का ताप एक ही रहे। ताप को लिख लीजिए। प्रत्येक के मुँह के ऊपर गते का ढक्कन रख दीजिए, डिब्बों को बड़ी ट्रे पर रखिए और तब उन्हें किसी ठण्डी जगह में रख छोड़िए। पांच-पांच मिनट पर प्रत्येक डिब्बे के पानी का ताप लिखिए। ठण्डा होने की दर में क्या कोई अन्तर है? कौन-सा तल उष्मा का सबसे अच्छा विकिरक है? सबसे निकृष्ट कौन-सा है?

फिर तीनों डिब्बों में बहुत ठण्डा पानी भरिए, ताप लिखिए, प्रत्येक को ढक दीजिए और सबको किसी गरम स्थान या धूप में रख दीजिए। पानी के ताप को पांच-पांच मिनट पर नाप कर लिखिए। कौन-सा तल उष्मा का सबसे अच्छा शोषण करता है? कौन-सा तल सबसे कम शोषण करता है?


19. यह दिक्कामे की दूसरी रीति कि विभिन्न तल विकिरण पर प्रभाव डालते हैं

टीन के एक बेलनाकार डिब्बे की दीवार में एक-दूसरे के सम्मुख दो ऊर्धवांवर जिरी काटिए ताकि डिब्बे का तल दो भागों में बंट जाए। एक भाग के भीतरी तल को काला कर दीजिए और दूसरे को चमकीला ही रहने दीजिए। डिब्बे के भीतर एक जलती मोमबत्ती रख दीजिए। यह डिब्बे के ठीक बीच में रहे।

डिब्बे के दोनों भागों के बाहरी तलों के ताप का अन्तर अंगूलियों की सहायता से जाना जा सकता है।

यदि बाहर से दियासलाई की सींकों को मोम से चिपका दिया जाए तो वे सूचक का काम कर देंगी, काल तल की पीठ पर चिपकाई गई सलाई सबसे पहले गिरेगी।

इसके लिए एक दूसरा प्रयोग भी किया जा सकता है। (गरम की गई) तार की जाली की कुण्डली से उष्मा-विकिरक और चमकीला तथा काला किए गए तापमापी से विकिरण परिचायक बनाया जाए।



20. उष्मा की क्षति को कैसे कम किया जाए

(विदेश में, जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है, मकानों को गरम रखने के लिए कोयला जलाया जाता है। संवहन शादि द्वारा जितनी भी उष्मा बाहर निकल जाती है उसे उष्मा की क्षति कहते हैं।) टीन के एक ही नाप के चार बड़े डिब्बे लीजिए और एक ही नाप के चार छोटे डिब्बे भी। तीन छोटे डिब्बों में से प्रत्येक को एक बड़े डिब्बे में रखिए और छोटे डिब्बे

उज्ज्ञा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

के नीचे और चारों ओर विसंवाही सामग्री दूस दीजिए—एक में समाचारपत्र के कतरे, दूसरे में लकड़ी का बुरादा (सा डस्ट) और तीसरे में काग का चूरा (या कोई भी विसंवाही पदार्थ जो सुगमता से उपलब्ध हो सके, जैसे ऊन)। चौथे बड़े डिब्बे के भीतर छोटे डिब्बे को दो (या तीन) कागों पर रखिए। प्रत्येक डिब्बे का मुँह बन्द करने के लिए गते का ढक्कन बना लीजिए। प्रत्येक ढक्कन में तापमापी

के लिए एक छेद रहे। फिर प्रत्येक छोटे डिब्बे में लगभग खौलता हुआ पानी डालिए। प्रत्येक में पानी की गहराई एक ही रहे। प्रत्येक डिब्बे के पानी के ताप को लिखिए। प्रत्येक डिब्बे के पानी के ताप को पांच-पांच मिनट पर लिखिए और देखिए कि सबसे अच्छा विसंवाही पदार्थ कौन-सा है। जिस डिब्बे का पानी सबसे धीरे-धीरे ठण्डा होगा उसी का विसंवाही पदार्थ सर्वोत्तम है।

घ. पिघलना और उबलना

1. यह देखना कि द्रव कैसे खौलता है

पाइरेस कांच का बना हुआ एक काफी बड़ा बीकर अथवा धातु का कनस्टर (या बाल्टी या बट्टलोई) लीजिए। इसको ठण्डे पानी से लगभग पूरा भर दीजिए और आंच पर चढ़ा दीजिए। जब तक वह खौलने लगे उसे आंच पर रहने दीजिए। आप देखेंगे कि पहले पानी में धूली हुई हवा के बुलबुले ऊपर उठ कर ऊपरी तल तक आते हैं। जब पानी लगभग बवधनांक पर आ जाता है तब भाप के बुलबुले बनते हैं और तुरन्त ही नष्ट हो जाते हैं (इसी समय पानी सनसनाने लगता है)। पानी जब उबलने लगता है तब पेंदी पर भाप के बुलबुले बनते हैं और फूटने के पहले ऊपरी तल तक आ जाते हैं।

2. कागज में पानी उबालना

थोड़ा चिकना कागज लीजिए (जो पानी में गल न जाए) : चीजों को लपेटने का कागज हो या लिखने का—किसी से भी काम बल जाएगा। इससे 25 सेंटीमीटर वर्ग की एक कड़ाही बनाइए। इसके लिए कोनों को मोड़ कर उनमें पिन लगा दीजिए। इस कड़ाही को पानी से आधा भर दीजिए और ज्वालक (किसी भी ज्वाला) पर रख दीजिए। बिना कागज को जलाए भी आप पानी को उबाल सकते हैं। कागज ज्वाला की गरमी को संबहन द्वारा पानी तक पहुंचा देता है। स्वयं नहीं जलता क्योंकि इसके जलने का ताप पानी के बवधनांक (100° सेंटीग्रेड अथवा 212° फारू) से ऊंचा है।

3. ठण्डक से पानी खोलाना

फ्लास्ट में ठोस रबड़ की डाट कस कर लगाइए। डाट को हटा कर फ्लास्ट को आधी से कुछ अधिक दूर तक साधारण गरम पानी से भर दीजिए ज्वाला पर रख कर पानी को उबालिए। जब पानी उबलने लगे तो (फ्लास्ट को ज्वाला से उठा कर तुरन्त) उसमें डाट कस दीजिए और उसे बाल्टी या सिक के ऊपर आँधा रख दीजिए। फ्लास्ट पर ठण्डा पानी उँडेलिए। फ्लास्ट के भीतर का पानी फिर से उबलने लगता है। फ्लास्ट पर बर्फ का एक टुकड़ा रख दीजिए। ठण्डा करने से पानी के ऊपर की भाप संबन्धित हो जाती है और पानी के ऊपर दाब कम हो जाती है। जब दाब कम हो जाती है तो पानी कुछ कम ताप पर उबलता है। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पर रसोई पकने में इतना अधिक समय लगता है।

4. बाष्पन करते समय द्रव उज्ज्ञा को सोखते हैं

पृष्ठ 185-86 के प्रयोग ख-2 में बताए गए शायु-तापमापी की तरह एक तापमापी को प्रधास्थान लगाइए। तापमापी के बल्ब पर थोड़ा-सा मेथिलेटेड स्पिरिट डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? स्पिरिट का बाष्पन करने के लिए उज्ज्ञा कहां से आई। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्सिलोराइड की परीक्षा करिए तथा ईथर की परीक्षा करिए।

5. त्वरित बाष्पन द्वारा पानी जलाना

चाकू से काट कर किसी नरम लकड़ी में एक कम

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

गहरा गड़ा बनाइए। माइक्रो पम्प के रबड़ में कांच-नलिका की टॉटी लगा दीजिए। लकड़ी में बनाए गए गड्ढे में जरा-सा पानी डाल दीजिए और उस पानी में टीन का डिब्बा रख दीजिए। इस डिब्बे में थोड़ा ईथर डाल दीजिए और पम्प से इसमें वायु भरिए। वापिस होते समय ईथर पानी से उपमा का शोषण करता है और पानी के बर्फ हो जाने के कारण डिब्बा शीघ्र ही लकड़ी में चिपक जाता है।

6. उष्मा ठोस पदार्थों को द्रवों में किस प्रकार परिणत करती है

सीसा, टांका (सीसे और रांगे का मिश्रण), हिम (बर्फ), मुहर करने की लाख, मोमबत्ती का सोम, इत्यादि पदार्थों के नमूनों को अलग-अलग ऐसे बरतनों में रखिए जो गरम किए जा सकें। टीन के छोटे डिब्बे या उनके डक्कनों से काम लिया जा सकता है। इन सबसे प्रयोग करिए और देखिए कि इन सबको पिघलाने के लिए उष्मा की जितनी सापेक्षिक मात्रा आवश्यक है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी प्राप्त है।

7. बर्फ और नमक की सहायता से पानी जमाना

कुछ बर्फ को तोड़ कर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करिए और बड़े डिब्बे की पेंदी में उसकी एक तह बिछा दीजिए। इसको पिसे नमक से ढक दीजिए और तब फिर बर्फ और नमक की एक तह बनाइए। एक छोटे डिब्बे में पानी डाल कर और उसका मुह अच्छी तरह बन्द करके उसे बड़े डिब्बे में रख दीजिए। तब बड़े डिब्बे में बर्फ और नमक की तह जमाइए, यहां तक कि वह पूरा भर जाए (बड़े डिब्बे पर कम्बल लपेट देना अच्छा रहेगा)। छोटे डिब्बे के पानी के जमने में जितना समय लगता है उसे लिख लीजिए। इसकी तुलना उस समय से करिए जो बड़े बरतन में केवल बर्फ डाल कर उतने ही पानी को जमाने में लगता है।

8. जमते समय पानी फैलता है

धातु का एक छोटा डिब्बा लीजिए, जिसका

डक्कन पेचदार हो। डिब्बे को पानी से लबालब भरिए और तब डक्कन को इस प्रकार कम दीजिए कि भीतर हवा न रहे। इस डिब्बे को बर्फ और नमक के मिश्रण में दबा दीजिए और जब तक पानी जमे नहीं, उसे बैस ही रहने दीजिए। आपको कुछ रोचक परिणाम प्राप्त होंगे।

9. जब ठोस पदार्थ पिघलते हैं तो उष्मा का शोषण होता है

एक छोटे बरतन में बर्फ के छोटे टुकड़े रखिए और तापमापी से उसका ताप देखिए। इस बरतन को ज्वाला के ऊपर रखिए और जब तक सब बर्फ न गल जाए ताप को नापते रहिए। ताप कब बढ़ना आरम्भ करता है? कुछ समय तक ताप बढ़ा क्यों नहीं? उस समय की उष्मा की ऊर्जा का क्या हुआ?

10. दाब से बर्फ का पिघलना और किर से जमना

दाब से बर्फ का हिमांक (फ्रीजिंग प्वाइंट) नीचा या कम हो जाता है। यही कारण है कि बर्फ पर स्केट इतनी सुगमता से चलता है। बर्फ का एक घनाकार टुकड़ा या टूटी बर्फ प्रत्येक हाथ में लीजिए। नीचे कागज बिछा कर दोनों टुकड़ों को परस्पर दबाइए। क्या दाब की सहायता से आप बर्फ से पानी निचोड़ सकते हैं? बर्फ के दो घनाकार टुकड़ों को एक-दूसरे पर बलपूर्वक दबाइए और तब दबाना छोड़ दीजिए (या बर्फ के चूरे से लड्डू बांधने की चेष्टा करिए)। बर्फ के घनों को अलग करने की चेष्टा करिए। जब आप दबाना छोड़ते हैं तो पानी फिर से जम जाता है और इसलिए बर्फ के घन जम जाते हैं। प्रशीतक (रेफिजरेटर) में जब पानी जमाया जाता है तब बर्फ घनाकार टुकड़ों में निकलती है।

11. डिब्बे की सहायता से भाष की गुप्त उष्मा को नापना

डिब्बे में रखे 100 ग्राम पानी को कोई ज्वाना किस दर से उष्मा पहुंचाती है, इसका

उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पता निश्चित समयों पर पानी के ताप को ताप कर और उसका समय-ताप रेखांचित्र (ग्राफ) खीच कर लगाया जा सकता है।

जब पानी खौलने लगता है तो ताप आगे नहीं बढ़ता, परन्तु उष्मा पहुँचने की दर पहले जैसी ही रहती है। यदि जितना पानी उबलने के पहले चायप बन कर उड़ जाता है, उसकी गणना न की जाए तो 100 ग्राम पानी को पूर्णतया उबाल डालने के लिए (अर्थात् यहाँ तक कि डिब्बे का पेंडा खाली हो जाए) जितनी उष्मा आवश्यक है, उसका नाप उस समय द्वारा किया जा सकता है जो पानी को खौला कर उड़ा देने में लगता है।

12. खोखले ठोस की सहायता से गुप्त उष्मा की प्राप्ति

चाय की गुप्त उष्मा ज्ञात करने की एक दूसरी रीत यह है कि धातु के बने किसी भारी खोखले बरतन से काम लिया जाए। साधारण अनुमान के लिए चाय-पात्र (टी-पाट) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

जब चाय-पात्र में केतली से भाप प्रवाहित की जाती है तब उस बरतन में संघनित जल की भात्रा चाय के बरतन की उष्मा-समाई पर निर्भर होती है (जिस बरतन में चाय तैयार की जाती है उसे टी-पाट कहते हैं, यह साधारण चीनी मिट्टी का होता है। जिस बरतन में चाय बनाने के लिए पानी उबालते हैं उसे केतली—अंग्रेजी में केटल—कहते हैं। भारत में लोग बहुधा टी-पाट को ही केतली कहते हैं परन्तु यह प्रयोग ठीक नहीं)।

यदि मोटे दल के पीतल के बेलन, जैसा गाड़ियों की धुरी पर लगता है, से काम लेना हो तो उसमें एक डाट लगानी चाहिए और डाट में भाप के आवेजाने के लिए नलिकाएं। जब इस उपकरण में भाप प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय के बाद ही भाप बाहर निकल पाती है। इसका कारण यह है कि उतने समय तक भाप भीतर की ठण्डी धातु से संघनित होती रहती है। जब कुछ मिनटों तक

भाप निकल चुके तो यह निष्कर्ष निकलता जा सकता है कि धातु का ताप 100° सेंटीग्रेड हो गया है। तब भाप का आना बन्द कर देना चाहिए। भीतर जितना पानी संघनित हुआ है, उसको मापी से नाप लेना चाहिए और इस प्रकार उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेना चाहिए। धातु की विशिष्ट उष्मा, द्रव्यमान और प्रारम्भिक ताप जान कर गणना की जा सकती है कि भाप को संघनित करने में धातु ने कितनी उष्मा का शोषण किया।

13. हिम की गुप्त उष्मा

हिम की गुप्त उष्मा का एक स्थूल मान यह नाप कर ज्ञात किया जा सकता है कि जब बर्फ के कतरों में (या चूरे में) कोई तप्त ठोस पदार्थ गाढ़ दिया जाता है तब कितनी बर्फ पिघलती है।

ठोस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा ज्ञात कर लीजिए। उसे तोलिए और खौलते पानी में तागे से लटका कर उसका ताप 100° सेंटीग्रेड कर दीजिए। तब इस कीप में रखे बर्फ का चूरा चटपट डाल दीजिए और पिघल कर निकले हुए पानी को परीक्षण-नलिका अथवा मापनी में एकत्रित करिए।

गणना करिए कि 0° सेंटीग्रेड तक ठण्डा होने में धातु से कितनी उष्मा निकली होगी।

इस उपकरण से विविध पदार्थों की विशिष्ट उष्माओं की विभिन्नताएं दिखाई जा सकती हैं। प्रत्येक मामले में प्राप्त जल के आयतनों की सहायता से विशिष्ट उष्माओं की तुलना की जा सकती है।

14. चाय-पात्र द्वारा विशिष्ट उष्मा देखना

चाय-पात्र को तोल लीजिए। जब उसका ताप कमरे के ताप पर आ जाए तब उसमें खौलता हुआ पानी डालिए। पानी का ताप घट कर 96° सेंटीग्रेड पर स्थिर हो जाएगा। जब पानी कुछ ठण्डा हो जाए तो नाप लीजिए कि कितना गरम पानी डाला गया था। इसके लिए मापक बेलन (मैरिंग सिलिंडर) का


विज्ञान-शिक्षण के लिए मूनेस्को का आकर प्रन्थ

उपयोग करिए। इससे पानी का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। यह मान कर कि उसका आसपास की वस्तुओं में व्यय नहीं होता है, चाय-पात्र में रखी गई वस्तु की विशिष्ट उष्मा को नापा जा सकता है।

विशिष्ट उष्मा के अध्ययन के लिए यह प्रयोग प्रारम्भिक पाठ-मात्र है। चाय-पात्र बनाने में जिन-जिन विविध पदार्थों का उपयोग होता है, उनके गुणों की जांच भी इस प्रयोग द्वारा की जा सकती है।

15. विशिष्ट उष्माओं की तुलना

विविध धातुओं की विशिष्ट उष्माओं की तुलना के लिए हर एक धातु का एक बेलन बना लीजिए। सबके द्रव्यमान समान रहें। उनको खोलते पानी में डाल कर गरम करिए, तब उन्हें एक नत समतल पर रखिए जो लगभग ऊर्ध्वाधर रहे। यह समतल लकड़ी का बना रहना चाहिए और उसके ऊपर मधुमक्खी वाले मोम की जाली (सेलफार्म) बंधी होनी चाहिए, परन्तु जाली लकड़ी से काग द्वारा सटी रहनी चाहिए। (जाली, सेलफार्म, मधुमक्खी-पालन के लिए विदेशों में बिकती है परन्तु भारत में इसका मिलना कठिन है)। इसके बदले मोम की पतली चादर का उपयोग किया जा सकता है, जिसे गरम पानी पर पिघला मोम डाल कर और दोनों को ठण्डा करके बनाया जा सकता है। बेलन समतल पर फिसल कर मोम को पिघलाते




हुए नीचे आएंगे। धातु की विशिष्ट उष्मा जितनी अधिक होगी उनके मार्ग भी उतने ही अधिक लम्बे होंगे।

16. विशिष्ट उष्मा में अन्तर

धातु का एक टुकड़ा (जैसे 100 ग्राम लोहा) और एक डिब्बा लीजिए, जिसमें 100 ग्राम पानी हो। नीचे के चित्र के अनुसार दोनों को एक ही प्रकार के स्पिरिट लैम्पों के ऊपर लटका दीजिए (छोटे ज्वालक से भी काम चल सकता है)।

लोहे में एक छेद कर दें ताकि उसमें एक तापमापी का बल्ब ढीला रह कर जा सके। पानी के डिब्बे में भी एक तापमापी रखना होगा। इससे पानी चलाया भी जा सकेगा।

मान लीजिए कि स्पिरिट लैम्पों से एक ही दर से उष्मा पहुंच रही है। पूर्वोक्त वस्तुओं को गरम करने के लिए उन दोनों को बराबर समय तक ही इस्तेमाल किया जाता है। जब लोहे में रखा तापमापी 80° ताप बताए तभी दोनों लैम्पों को हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी ताप बढ़ता जाएगा और सम्भवतः 100° तक चला जाएगा। दोनों के तापों में आप जो आश्चर्यजनक अन्तर पाते हैं, उससे विशिष्ट तापों का अन्तर सुस्पष्ट हो जाता है।



17. विशिष्ट उष्मा—खोखले ठोस पदार्थ

खोखले ठोस पदार्थ, जैसे पीतल की बनी हुई धुरी की खोखली टोपी (ऐक्सल कैप) या पाइपों

उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

को जोड़ने के खोल (साकेट) अथवा लोटा या लुटिया, से भी चाय-पात्र वाले प्रयोग के सदृश उष्मा सम्बन्धी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन वस्तुओं पर ऊनी कपड़ा लपेट देने से उष्मा की क्षति को कम किया जा सकता है। कार्यविधि पहले के ही समान है। इनमें उबलता पानी थोड़ा जाता है। अन्तिम स्थिर ताप चाय-पात्र वाले ताप से बहुत कम होगा।

यदि पीतल की वस्तु तौल में 100 ग्राम हो तो अन्तिम ताप 60° सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है।


18. सरल गुप्त उष्मा कंलारीमापी

इस उपकरण में टेट्राक्लोरेथिलीन की वाष्प को, जिसकी गुप्त उष्मा बहुत कम होती है, एक ठोस पदार्थ पर, जैसे तांबे या अल्मीनियम पर, संघनित (कण्डेस) होने दिया जाता है। यह ठोस पदार्थ उपकरण के भीतर लटका रहता

है। जितना द्रव बनता है, उसे छोटी-सी अंशांकित (प्रैंजुएटेड) परीक्षण-नलिका में एकत्र किया जाता है। जब संघनन बन्द हो जाता है, अर्थात् जब धातु का ताप वाष्प के ताप के बराबर हो जाता है, तब एकत्र द्रव को नाप लिया जाता है।

बड़ी परीक्षण-नलिका लगभग 20 सेंटीमीटर लम्बी और 4

सेंटीमीटर व्यास की हो। अंशांकित नलिका ऐस्प्रिन या अन्य टिकियाँ रखने वाली नलिका होती है और उसे तार के पिंजड़े में रखा जाता है (ताकि उसे सुगमता से निकाला जा सके)। ठोस पदार्थ को पेंदी की ओर नुकीला बनाया जाता है ताकि द्रव सुगमता से टपक सके।




ड. उष्माचालित इंजिन

1. भाप की दाब

धातु का एक छोटा डिब्बा लीजिए, जिसका ढक्कन घर्षण से ही बैठे। पेचयुक्त ढक्कन वाला डिब्बे की पेंदी में थोड़ा पानी रख दीजिए। ढक्कन को कसा हुआ बैठा कर डिब्बे को ज्वाला पर रख दीजिए और दूर हट जाइए। थोड़ी देर में ही आप भाप का प्रसारण-बल देखेंग।


2. वाष्प इंजिन का कार्य-सिद्धान्त

सामने दिखाए गए चित्र की तरह एक चित्र श्यामपट्ट पर बनाइए। यह चित्र लगभग 60 सेंटीमीटर के बर्ग में हो। कड़े गते से दिखाई गई आकृति का पिस्टन और पाश्व-कपाट (साइड वाल्व) काट लीजिए। छात्रों से कहिए कि वे इन पुज़ों को चित्र पर यथास्थान रखें ताकि उन्हें जात हो जाए कि इंजिन चलते समय पिस्टन और पाश्व-कपाट की क्या स्थिति रहती है।



3. ऐतिहासिक बाष्प-खिलौना बनाना

मिस्र देश के प्राचीन नगर अलेकज़ेरिया के एक वैज्ञानिक, हीरो, ने एक बाष्पचालित खिलौना बनाया था, जिसका नाम बात-गोलक रखा था। नीचे यह बताया गया है कि इस खिलौने की प्रतिकृति कैसे बनाई जाए। टीन का एक ऐसा डिब्बे लीजिए जिसका ढक्कन धर्षण से कसा जाता हो और जिसमें एक बोतल या आधा लिटर पानी आ सके। डिब्बे की दीवार में आमने-सामने दो छेद कर दीजिए, जो इतने बड़े हों कि उनमें एक छेद वाली छोटी डाटें लगाई जा सकें। चित्र में दिखाई गई रीति से दो कांच-नलिकाओं को मोड़िए। इन नलिकाओं को तप्त करके खींच कर सिरों पर चंचु (जेट) बना दीजिए। इनको पूर्वोक्त डाटों में इस प्रकार डाल दीजिए कि चंचु बाहर रहें और उनकी दिशाएं एक-दूसरे से विपरीत हों। कागों में एक मजबूत डोर बांध दीजिए और डिब्बे को चेन अथवा धूम सकने वाली फिरकी पर लटका दीजिए। डिब्बे में लगभग 3 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी डाल दीजिए, ढक्कन कस कर लगा दीजिए और नीचे आंच लगा दीजिए।



4. बाष्प टरबाइन (चक्की) की प्रतिकृति बनाना

टरबाइन की प्रतिकृति टीन के डिब्बे के ऊपर पंखदार चक्की लगा कर बनाई जा सकती है। इस चक्की को बनाने के लिए टीन का एक

गोल टुकड़ा लीजिए और उसकी त्रिज्याओं में प्रिरियों काटिए और तब जो फल बनें उनको एक और मोड़ दीजिए।

बुनने की एक छोटी सलाई (या मोटी सूई) से धुरी बनाई जा सकती है और धुरी का आधार टीन की पट्टी से बनाया जा सकता है। पट्टी को U अक्षर के आकार में मोड़ दिया जाता है और उसे डिब्बे के माथे पर टांके से जाल दिया जाता है।

भाप की धारा के बाहर निकलने के लिए पंखों के नीचे एक छेद कर दिया जाता है।




5. कांच से टरबाइन की प्रतिकृति बनाना

इस प्रतिकृति को बनाने के लिए कांच फूंकने का बहुत अधिक अनुभव होना आवश्यक नहीं है। साधारण कांच-नलिका के एक सिरे को ज्वाला में तप्त करके बन्द कर दीजिए और वहां फूंक कर लगभग 1.5 सेंटीमीटर व्यास की गेंद बनाइए।

गेंद की पेंदी को नरम करके उसमें एक पेंसिल दबा दीजिए। इससे वहां एक गड्ढा बन जाएगा जो टरबाइन के निचले धारक (बेयरिंग) का काम करेगा। नलिका के ऊपरी भाग को 90 डिग्री पर मोड़ दीजिए, तब इसके सिरे को खींच कर चंचु (जेट) बना दीजिए और नलिका


उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग श्रीर सामग्री

(मिश्रण में कितनी गैस और कितनी हवा रही होगी ?)



7. इंजिन में पेट्रोल-वाष्प का विस्फोट कैसे कराया जाता ह

इस प्रयोग के लिए आपको धातु के एक लिटर के डिब्बे की आवश्यकता होगी, जिसमें ढक्कन घर्षण से बैठता हो। पेंदी के पास एक छेद करिए, जिसमें मोटरकार का साधारण स्फुर्लिंग प्लग कस कर लगाया जा सके। दूसरी तरफ बगल में पेंदी के पास कील से एक छोटा छेद करिए। एक प्रेरण-कुण्डली (इण्डक्शन कॉयल) की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे उच्च बोल्टता मिल सके। प्रेरण-कुण्डली के पूर्ववर्तियों (प्राइमरी) के सिरों को तीन या चार सेलों की सूखी बैटरी से सम्बद्ध करिए। परवर्ती के एक सिरे को स्फुर्लिंग प्लग के ऊपर लगाइए और दूसरे को डिब्बे के छोटे छेद में। डिब्बे में पेट्रोल की लगभग दस बूंदें डालिए। ढक्कन को कस कर बन्द करिए और प्रेरण-कुण्डली के पूर्ववर्ती वाले स्विच को बन्द करिए (अर्थात् बिजली चालू करिए)।



8. अग्रिम-खुत्पादक पिच्चकारी कैसे बनाई जाए

अग्नि-उत्पादक पिचकारी में जलाने वे लिए लोग साधारणतः ऐमैड का नाम लेते हैं,

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर्षणीय

जो एक प्रकार की फ़फूंदी को सुखा कर बनाया जाता है, परन्तु जब तक वह बहुत सूखा नहीं रहता वह जलता नहीं। यदि रूई को कार्बन डाइ-सल्फाइड से तर कर लिया जाए और उसमें नाम-मात्र को फास्फोरस भी डाल दिया जाए तो संपीडन करके तापों को बनाने पर वह सुगमता से जल उठेगी।

यदि कांच की पिचकारी ली जाए तो अधिक अच्छा होगा। कड़े कांच की दाहक नलिका का एक टुकड़ा लीजिए और उसमें एक अच्छा-सा पिस्टन लगाइए (साइकिल के पिस्टन से भी काम चलाया जा सकता है)। खुले सिरे में रूई भरिए और उसे काग से बन्द कर दीजिए। उपकरण को बैंच या मज़ पर रख कर पिस्टन को एकाएक नीचे लाइए और तब रूई के जल जाने के कारण नीली चमक दिखाई पड़ेगी।

लोहे की पाइप में एक क्षिरी काट कर उसे सुरक्षा आवरण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है परन्तु यह प्रयोग सामान्यतः खतरे वाला नहीं है।



चुंबकत्व के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

1. प्राकृतिक चुंबक

चुंबकीय लौह धातु संसार के कई भागों में पाई जाती है। यदि आप पास-पड़ोस से कोई धातु न ले सकें तो आप इसे किसी वैज्ञानिक सामग्री के विक्रेता से खोड़े दामों में ही खरीद सकते हैं। इस प्रकार की लौह धातु का एक टुकड़ा लाइए। यह प्राकृतिक चुंबक होता है। सफेद कागज पर थोड़ी-सी लौह रेतन (फाइलिंग) या इस्पात के धूए (बूल) की महीन कतरन बिछा दीजिए और देखिए कि धातु उसको किस प्रकार अपनी ओर खींचती है। लोहे की कुछ भारी वस्तुओं को भी उठाने की चेष्टा करिए, जैसे कागज पर लगाने वाले किलप या छोटी कीलें। धातु को दिक्षूचक यन्त्र के पास लाइए और परिणाम देखिए। क्या धातु का हर एक भाग दिक्षूचक पर एक ही तरह का प्रभाव डालता है?

2. कृत्रिम चुंबक बनाना

पुराने रेडियो के लाउडस्पीकरों, पुराने टेलीफोन के चोंगों और पुरानी मोटरकार के बेगमापियों की सहायता से चुंबकत्व के अध्ययन के लिए बलशाली और उपयोगी कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं। चुंबक बहुधा बाजार या किसी भी वैज्ञानिक सामग्री बेचने वाले से खरीदे जा सकते हैं। कृत्रिम चुंबक कई आकृतियों के बनते हैं, जैसे घोड़े की नाल के रूप में, U अक्षर की आकृति में या दण्ड-चुंबक के रूप में।

3. इस्पात की छड़ को चुंबक बनाना

इस्पात की बनी हुई बुनने की सलाई, भोटी सूई, लोहे की कील, दीवार वाली घड़ी की कमानी या छोटी घड़ी की कमानी के एक

टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए चुंबकीय लौह धातु के टुकड़े या अन्य चुंबक का उपयोग करिए। सलाई इत्यादि को कई बार चुंबकीय पदार्थ से सहला देने से ही यह काम बन जाता है। यदि आप ऐसा दण्ड-चुंबक बनाना चाहें जिसके सिरों पर विपरीत ध्रुव रहें तो किसी कृत्रिम चुंबक का उपयोग करिए। बिना चुंबकत्व वाले दण्ड के बीच से आरम्भ करिए और चुंबक के एक सिरे को दण्ड से छुआते हुए दण्ड के दूसरे सिरे तक ले जाइए। इस प्रकार कई बार सहलाने के बाद दण्ड को धुमा दीजिए और बीच से आरम्भ करके दूसरे सिरे तक सहलाइए परन्तु इस बार चुंबक के दूसरे ध्रुव का उपयोग करिए। अपने काम की जांच करने के लिए दण्ड से लोहे की रेतन उठाइए या उसे दिक्षूचक के पास ले जाइए।


4. दण्ड-चुंबक बनाना

कड़े इस्पात के कुछ चपटे टुकड़े लीजिए। पुरानी लोहा-आरी के फल या दीवार की घड़ी की कमानी का लम्बा टुकड़ा भी ले सकते हैं। 15 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटिए। फिर प्रयोग-3 में बताई गई रीति से प्रत्येक टुकड़े के विपरीत सिरों को किसी बलशाली चुंबक के विपरीत सिरों से सहलाइए। प्रत्येक दण्ड-चुंबक की जांच दिक्षूचक से करिए। दण्ड-चुंबक के दोनों सिरों का प्रभाव दिक्षूचक पर उल्टा पड़ना चाहिए। कड़े इस्पात का चुंबक बनाना बहुत कठिन होता है। इस्पात के टुकड़े को मेज पर रखना चाहिए और चुंबक सहलाते समय इस्पात पर चुंबक के सिरे से आघात करना चाहिए।

5. चुंबकत्व का अध्ययन के लिए घूर्णन बनाना

एक मोटा तार लीजिए। कोट-हैंगर का तार भी अच्छा सिद्ध होगा। इसे मोड़ कर चित्र में दिखाई गई आकृति का कर लीजिए। सिरों पर बने हुए हुकों के बीच की दूरी इतनी हो कि उस हुकदार कांटे में छोटा-से-छोटा दण्ड-चुंबक भी ठहर सके।

पालने को किसी सुविधाजनक ढुक अथवा अन्य आवार से डोर द्वारा लटका दीजिए। पालने में एक दण्ड-चुंबक रख दीजिए और अन्य चुंबकों को इसके पास लाइए।




6. चुंबक में चुंबकत्व का संकेन्द्रण

एक कागज पर खूब सारी लौह रेतन उँडेल दीजिए। इस रेतन में एक दण्ड-चुंबक को उलटिए-पलटिए। देखिए कि अविकांश रेतन दण्ड के सिरों के पास के बिन्दुओं में चिपकती है। चुंबक के वे (दो) स्थान, जहां चुंबकत्व संकेन्द्रित जान पड़ता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। अन्य आकृतियों के चुंबक लेकर, जैसे घोड़े की नाल का अथवा U की आकृति का चुंबक, इस प्रयोग को दोहराइए।

7. क्या चुंबक दूर से भी वस्तुओं को आकर्षित करते हैं

एक दण्ड-चुंबक को प्रयोग-6 में बताए गए हुकदार कांटे की तरह किसी कांटे में लटका दीजिए। लटके हुए चुंबक के पास एक दूसरा चुंबक लाइए और इस प्रयोग के आरम्भ में पूछ गए प्रश्न का उत्तर दूढ़िए।



8. क्या चुंबक के दोनों ध्रुव एक ही प्रकार के होते हैं

प्रयोग-7 की सामग्री का उपयोग करिए। लटकाए गए चुंबक के एक सिरे पर खड़िया से या कागज को चिपका कर चिह्न लगा दीजिए। अब किसी अन्य चुंबक के एक सिरे को लटके हुए चुंबक के चिह्न वाले सिरे के पास लाइए। फिर अपने हाथ के चुंबक को उलट कर उसके दूसरे सिरे को लटके हुए चुंबक के चिह्न वाले सिरे के पास लाइए। क्या दोनों का प्रभाव एक समान पड़ता है? प्रथम दशा में आप किया का वर्णन कैसे करेंगे? दूसरी दशा में कैसे?

9. चुंबकत्व-नियम

प्रयोग-7 की सामग्री का फिर उपयोग करिए। चुंबकों की जांच दिक्सूचक की सूई से करिए। प्रत्यक्ष चुंबक के उस सिरे पर चिह्न लगा दीजिए जो दिक्सूचक के उत्तरी सिरे को प्रतिक्रिष्ट (रिपेल) करता है और दिक्सूचक के दक्षिणी सिरे को आकर्षित करता है। जहां आपने चिह्न लगाया है उन सिरों को चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। विना चिह्न वाले सिरे दक्षिणी ध्रुव हैं। चुंबकों के दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक के दक्षिण दिशा बताने वाले सिरे को प्रतिक्रिष्ट और उत्तर दिशा बताने वाले सिरे को आकर्षित करते हैं।

अब चिह्न लगाए हुए चुंबकों में से एक को घूर्णन में लटका दीजिए। एक दूसरे चुंबक का उत्तरी सिरा लटकाए हुए चुंबक के उत्तरी सिरे के पास लाइए। आप आकर्षण देखते हैं या प्रतिकर्षण? इसके बाद दोनों चुंबकों के दक्षिणी सिरों को पास लाइए। आप क्या देखते हैं? अपने हाथ के चुंबक के उत्तरी सिरे को लटकाए हुए चुंबक के दक्षिणी सिरे के पास लाइए। आप क्या

चुंबक्त्व के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

देखते हैं ? फिर दक्षिणी सिरे को लटकाए हुए चुंबक के उत्तरी सिरे के पास लाइए। आप क्या देखते हैं ? सजातीय (लाइक) और विजातीय (अनलाइक) चुंबकीय ध्रुवों के बारे में आप क्या बता सकते हैं ? यही चुंबक्त्व का नियम है।

10. सरल दिक्सूचक बनाना

इस्पात की पट्टी या घड़ी की कमाना के टुकड़े को चुंबक पत्थर अथवा किसी दूसरे चुंबक से सहला कर चुंबक बनाइए। इससे दिक्सूचक की सूई बनाने के लिए इसे एक यथासम्भव घर्षण-रहित आधार चाहिए। ऐसा आधार कई युक्तियों से बनाया जा सकता है। कांच-नलिका के एक छोटे टुकड़े के, जिसकी लम्बाई 2 सेंटीमीटर हो, एक सिरे को ज्वाला में तप्त करके बन्द करिए। इस प्रकार बनी परीक्षण-नलिका को एक पिन पर आरोपित करिए। पिन को पहले ही किसी काग या लकड़ी के टुकड़े के आर-पार डाल दीजिए। इस्पात की पट्टी को मुहर करने की लाख से नलिका पर चिपका दीजिए और उसको इस प्रकार बिठाइए कि वह स्वतन्त्रता से और बिना झटका खाए घूम सके।


दिक्सूचक सूई को आरोपित करने की एक दूसरी रीत यह है कि कपड़ा-मढ़े पुराने बटन के भीतरी धातु वाले भाग का उपयोग किया जाए। इस भाग में दो उभरी पत्तियां निकली रहती हैं। बनाए हुए चुंबक को इन दोनों के बीच में डाल दीजिए और बगल वाली पत्तियों को मोड़ कर चुंबक को फंसा दीजिए। फिर बटन के गोलाकार भाग को कांच के टुकड़े पर अथवा किसी अन्य चिकने तल पर रख दीजिए।



11. चुंबकीय उत्तर निर्धारित करना

एक चपटा चौकोर काग लीजिए, जिसकी नाप

10 सेंटीमीटर \times 3 सेंटीमीटर हो। चीनी मिट्टी की तरश्तरी में रख कर काग को उस पानी पर तैरा दोजिए। लोहा आरी के फल अथवा इस्पात के किसी एक छोटे टुकड़े को चुंबकित करिए और उसे काग में इस प्रकार लगा दोजिए कि उसके दोनों दोनों ओर लम्बाई काग के अनुदिश रहे। जब वह ठीक लग जाए तो उसके दोनों ओर दो घड़ी पिनें लगा कर पिनों के ऊपरी सिरों के समानान्तर देखिए। (देख कर दिशा अंकित करिए)। पिनों की जड़ों को मिलाने वाली रेखा ही चुंबकीय यांत्रिकीय (मेरीडियन) है।




12. पृथ्वी का चुंबक्त्व विद्याने के लिए प्रतिकृति बनाना

इस प्रतिकृति में पृथ्वी को निरूपित करने के लिए एक गेंद या किसी गोल फल की आवश्यकता पड़ेगी। इसे लकड़ी के एक ऐसे सीखन्चे के सहारे टिकाइए जो दितिज से तिरछे कोण में हो। यह सीखचा पृथ्वी का घूर्णन निरूपित करता है।

'पृथ्वी' के भीतर एक बुनाने की सलाई को चुंबकित करके डाल दीजिए। यह सलाई पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष को निरूपित करती है।

चुंबकीय अक्ष ~




विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

बाण क्षेत्र की जांच के लिए एक छोटे दिक्षुद्धक का उपयोग करिए। इसे कुछ लोग फैशन के रूप में जेबी घड़ी के चेन में लटकाए रहत हैं।


13. नमनमापी (डिप सॉकिल) बनाना

एक काग में बुनने की एक सलाई इस प्रकार डालिए कि वह काग के सिरे के व्यास के समानान्तर हो जाए। इसे U आकृति की पीतल की पट्टी पर क्षैतिज स्थिति में सन्तुलित करिए। इस काम में धुरी के लिए पिनों से काम लीजिए। अब सलाई और काग को छड़ी की धारों पर से (अर्थात् U आकृति के पीतल पर से) उठा लीजिए और काग जरा भी हटाए बिना सलाई को चुंबकित करिए। जब सलाई को फिर अपने आधारों पर रखा जाएगा तब एक सिरा पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र से नीचे खिच जाएगा। नमन-कोण को चांदे से नापा जा सकता है।



चुंबक के लिए आधार-स्थान बनाने की एक दूसरी रीत यह है कि साइकिल की वाल्व-नली का उपयोग किया जाए। इसमें एक पिन पार कर दी जाए और इसी पिन से आधार धुरी का काम लिया जाए। धुरी के धारों के लिए दो पोस्टकार्डों से काम लिया जा सकता है। इनके बीच में काग रख कर छाइंग पिन से उनको अपने-अपने स्थानों में टिका रखना चाहिए। तब नमन-स्थिति को पेंसिल से अंकित कर नापा जा सकता है।


यदि धातु के विद्युत संयोजक (कनेक्टर्स) मिल सकें तो उसमें ग्रामोफोन की सूईयों को ढांके से जुड़वा कर अधिक स्थायी युक्ति बनाई जा सकती है।



14. प्रवर्षान के लिए नमनमापी

गते से एक बलय काटिए, जिसका बाहरी व्यास 50 सेंटीमीटर हो। एक व्यास के आर-पार दो पटरियां जड़िए। ये नमन-सूई के लिए आधार का काम करेंगी। कार्ड (कड़े कागज) से नमन-सूई की रूपरेखा बना कर उसकी प्रतिकृति काटिए और उसे पटरियों में कटे खांचों पर रख दीजिए।

इस प्रकार की प्रतिकृति की सहायता से नमन-सूई की विविध त्रुटियों का भी विवेचन किया जा सकता है।



15. दिक्षुद्धक की सहायता से परीक्षण करना

बहुत-सी वस्तुएं, जो लोहे या इस्पात की बनी रहती हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व से चुंबकित हो जाती हैं। बाड़ बनाने वाले लोहे के खम्मों, लोहे के पुलों आदि के दिक्षुद्धक से जांच करना काफी रोचक होता है। इन सबके दोनों सिरों की जांच करके यह देखिए कि उनमें चुंबकीय ध्रुव हैं या नहीं। लोहे की एक छड़ को भूमि में ठोकिए और देखिए कि वह चुंबकित हो गई है या नहीं। इसकी जांच छड़ के ऊपरी सिरे पर और भूमि के पास करिए। पाठशाला के आसपास और घर की वस्तुओं की जांच दिक्षुद्धक से करिए।

चुंबकत्व के अव्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

16. कौन-से पदार्थ चुंबकीय होते हैं ?

कागज, मोम, पीतल, जस्ता, लोहा, इस्पात, निकल (धातु), कांच, काग, रबड़, अल्मीनियम, तांबा, सोना, चांदी, लकड़ी, रांगा, इत्यादि की बनी हुई विविध छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करिए। उनको एक बक्स में रखिए और यह देखने के लिए कि चुंबक किन्हें आकर्षित करता है और किन्हें नहीं, प्रत्येक की जांच चुंबक से करिए।

17. छड़ को ठोंक कर चुंबकित करना

लोहे की एक छड़ लीजिए, जो एक मीटर लम्बी हो। पर्दा टांगने वाली लोहे की छड़ भी ले सकते हैं। दिक्सूचक से प्रत्येक सिरे की जांच करके देखिए कि वह चुंबकित तो नहीं है। छड़ को उत्तर-दक्षिण दिशा में और कुछ झुकी हुई स्थिति में पकड़िए। इस स्थिति में छड़ पर कई बार तीव्र चोट लगाइए और फिर दिक्सूचक से जांच करिए। छड़ को पूर्व-पश्चिम दिशा में पकड़ कर और उसके ऊपरी सिरे पर कई बार हथौड़े से चोट करके उसे बहुधा चुंबक-रहित किया जा सकता है।

18. बल-रेखाएं

पर्टी लकड़ी (प्लाईवुड) का एक टुकड़ा लीजिए, जिसमें एक परत की गहराई तक दो खांचे कटे रहें। चुंबकों और पदार्थों की बल-रेखाओं की आकृति का परीक्षण करते समय इसमें चुंबक आदि को रखा जा सकता है। इन 'लोहे' की रेतन के 'नक्शों' को स्थायी भी किया जा सकता है। इसके लिए चुंबकों पर रखे गए कागज को पहले पिघली मोमबत्ती के पिघले हुए मोम में डुबा कर ठण्डा कर लेना चाहिए। इस कागज को, जिसका परीक्षण किया जाना हो, इस चुंबक या चुंबकों के ऊपर रखिए। 30 सेंटीमीटर



की ऊंचाई से उस पर लोहे की रेतन छिड़किए और कागज पर हल्के-हल्के आघात करिए। जो आकृति बने उसे बुन्सन ज्वालक की साधारण ज्वाला में गरम करके स्थायी करिए।

19. चुंबकीय बल-रेखा का चित्रण

रेखाएं आदि खींचने के लिए लोग अक्सर मोमी कागज वाली ही रीति अपनाते हैं, परन्तु इसके स्थान पर काली रेखाओं वाले कागज का भी, जो आजकल आम चलता है, उपयोग किया जा सकता है। आजकल आर्कीटेक्ट पुराने नील-छाप कागज के बदले उसी कागज का इस्तेमाल करते हैं। इस कागज का इस्तेमाल दिन के प्रकाश में भी किया जा सकता है।

चुंबक को कागज पर ठीक स्थिति में रखिए और लोहे की रेतन छिड़क कर अभीष्ट आकृति बनने दीजिए।

कागज को लौह रेतन सहित ही धूप अथवा दिन के चटक प्रकाश में 8 मिनट तक या छोटे चाप-दीप (आई लैम्प) के प्रकाश में 2 मिनट तक रखिए। लौह रेतन को झाड़ दीजिए और रुई को परिस्फुटक (डेवेलपर) से तर करके उससे कागज को पोत दीजिए। इस प्रकार की बनी छापें घनात्मक होती हैं (अर्थात् जहां धूप लगी थी वहां कागज सफेद हो जाता है, जहां धूप नहीं लगी थी वहां कागज काला हो जाता है)। इस अभिलेख को चिरस्थायी करने के लिए कागज पर वार्निश भी की जा सकती है।

20. चुंबकीय बल-रेखाएं किन-किन पदार्थों

से होकर पार जा सकती हैं?


निम्नलिखित में से अधिक पदार्थों की चादरों के छोटे टुकड़े लाइए। लकड़ी, कांच, तांबा, पीतल, जस्ता, गत्ता, प्लास्टिक, लोहा, अल्मीनियम, इत्यादि। इन चादरों पर एक और थोड़ी लौह रेतन रखिए और चादर के नीचे की ओर एक बलशाली चुंबक को इधर-उधर चलाइए। लौह रेतन को देखने से आप

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रत्यय

बता सकते हैं कि चुंबकीय बल-रेखाएं किन-किन पदार्थों को पार कर सकती हैं।

21. चुंबकीय प्रेरणा (इण्डक्शन) की कार्यविधि


दिक्सूचक से किसी बलशाली चुंबक की जांच करिए और उसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को अंकित करिए। मेज पर एक दिक्सूचक रखिए और उसके पास लोहे के 15 सेंटीमीटर के कांटे (या नरम लोहे की छड़ि) के नुकीले सिरे को लाइए। इसके बाद परीक्षित चुंबक के उत्तर ध्रुव को कांटे के ऊपरी सिरे के पास लाइए, परन्तु दोनों को आपस में छूने मत दीजिए। कांटे के उस किनारे पर, जो दिक्सूचक के पास है, उत्तरी ध्रुव को प्रेरित होता है या दक्षिणी? कांटे के ऊपरी सिरे का ध्रुवत्व आपके अनुमान में किस प्रकार का होगा? जांच करिए। किर कांटे को पुरानी ही स्थिति में पकड़ कर अबकी बार परीक्षित चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कांटे के ऊपरी सिरे के पास लाइए। दिक्सूचक के पास वाले सिरे में उत्तरी ध्रुव प्रेरित होता है या दक्षिणी? कांटे के ऊपरी सिरे में कौन-सा ध्रुव है?



22. चुंबक को तोड़ने पर क्या होता है?

प्रयोग 3 में बताई गई रीति से दीवार घड़ी की कमानी या लोहा-आरी के फल से लगभग 25 सेंटीमीटर लम्बा एक टुकड़ा लीजिए और उसे चुंबकित करिए। दिक्सूचक से जांच करके यह निश्चित करिए कि उसके इस सिरे पर उत्तरी ध्रुव है और दूसरे पर दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों पर खड़िया से उ० और द० लिख दीजिए। दिक्सूचक से जांच करके पता लगाइए।

कि क्या इस चुंबक के प्रध्यविन्दु पर भी कोई ध्रुव है? एक गहुआ (प्लायर्स) लेकर इस लम्बे चुंबक को बीच से तोड़ कर उसके दो टुकड़े कर दीजिए। प्रत्येक लगभग 12.5 सेंटीमीटर का होगा। इन दोनों चुंबकों के प्रत्यक्ष सिरे के चुंबकत्व की जांच करिए। आप क्या देखते हैं? प्रत्येक टुकड़े के सिरों पर जांच के अनुसार उ० या द० लिखिए। अब इन दोनों चुंबकों को तोड़ कर चार टुकड़े कर दीजिए। प्रत्येक सिरे की जांच करिए और उन पर उ० या द० लिखिए। जहाँ तक सम्भव हो सके चुंबकों को तोड़ते रहिए। जिस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए यह प्रयोग किया गया था उसके समाधान को लिख कर दिखाइए।



23. लोहे की रेतन से चुंबक बनाना

किसी परीक्षण-नलिका को या दांत के बुश को रखने की कांच-नलिका को लोहे की रेतन से लगभग दो-तिहाई भर दीजिए और नलिका के मुंह को रुई की डाट अथवा काग से बन्द कर दीजिए। ध्यान रहे कि नलिका हिलने न पाए। अब किसी बलशाली चुंबक के ध्रुवों से नलिका को सहलाइए। लौह रेतन की नलिका को दिक्सूचक के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि नलिका ठोस चुंबक की तरह ही कार्य करती है। नलिका को अच्छी तरह हिलाइए और तब फिर दिक्सूचक के पास लाइए। इस बार यह दिक्सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऐसे प्रयोगों से ही वैज्ञानिकों ने यह घारणा बनाई है कि चुंबक का चुंबकत्व द्रव्य के बहुत छोटे कणों से, सम्भवतः अणुओं या परमाणुओं से, सम्बद्ध है।


चुंबकत्व के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

24. प्लास्टी चुंबक बनाना

कुछ पुराने रेजर ब्लेडों को चुंबकित करिए। ब्लेड को सावधानी से पकड़िए और अपने शरीर को बचाए रहिए। ब्लेडों पर तेल, वैसिलिन या चर्बी हल्के-से लगाइए। चीनी मिट्टी की बड़ी तश्तरी (सूप प्लेट) में पानी भरिए और उस पर रेजर ब्लेडों को तैराइए। अब इन तैरते हुए चुंबकों के नीचे एक बलशाली चुंबक लाइए।

25. प्लास्टी चुंबकों से सम्बन्धित कुछ प्रयोग

सात या आठ सूइयों को इस प्रकार चुंबकित करिए कि उनकी नोंकों में एक ही प्रकार का ध्रुव बन जाए और आंखें (छेद) विपरीत ध्रुव। इन सूइयों को छोटे चपटे कागों में घुसा कर पार कर दीजिए। इन कागों का व्यास लगभग 13 मिलीमीटर रहे और सूई का लगभग 1 सेंटीमीटर भाग काग के ऊपर रहे। खाना रखने की एक थाली (सीरियल डिश) या सूप की प्लेट (या पीतल की परात या गहरी थाली) लीजिए, जिसकी दीवारें ढालू हों। इसे पानी से लगभग पूरा भर दीजिए। चुंबकों को तैरा दीजिए। सबकी नोंकें नीचे रहें। अब किसी बलशाली चुंबक के एक ध्रुव को तरती हुई सूइयों के ऊपर लाइए। चुंबक के दूसरे सिरे से यही प्रयोग करिए। इस प्रकार के उत्तराते हुए चुंबकों को तश्तरी में विविध ढंगों से रखा जा सकता है। प्रयोग के लिए नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं।



26. चुंबक का कम्पनकारी


एक आकृति के चुंबक को उसके पाईव के बल लेटा दीजिए और चुंबक के निम्न बाहु पर एक सूई या रेजर ब्लेड को इस तरह खड़ा कर दीजिए कि वह चुंबक के दूसरे बाहु तक न पहुंचे। यह खड़ा ही रहेगा। दूसरे सिरे को वैसिल से ठोकिए और देखिए कि यह कितनी अच्छी तरह कम्पन करता है।

27. सूई को हवा में तैराना

एक सूई में धागा डालिए। चुंबक को मेज पर रख दीजिए और उसके एक ध्रुव पर सूई को बार-बार फिराइए। इस ध्रुव पर सूई को इतने समय तक रहने दीजिए कि वह पूर्णतया चुंबकित हो जाए। अब सावधानी से सूई को इस ध्रुव से छुड़ाइए। धागा पकड़ कर सूई को उठाइए और इसे दूसरे ध्रुव के ऊपर ले जाइए। सावधानी से काम करने पर इस दूसरे ध्रुव के ऊपर सूई हवा में तैरने लगेगी। ऐसा क्यों होता है?

28. कार्ड दिक्षुचक बनाना

कांच की चौड़े मुँह वाली एक बोतल लीजिए। कार्ड या कड़े कागज के एक लम्बे टुकड़े को लम्बाई की ओर से बीच से मोड़ दीजिए। यह इतना लम्बा न रहे कि इसे बोतल के भीतर घुमने में कठिनाई हो। अब इस कार्ड से कुछ बड़ी इस्पात की बनी हुई एक सूई लीजिए और उसे चुंबकित करिए (देखिए प्रयोग-3)। इस सूई को कार्ड में फंसा दीजिए और धागे से इस प्रकार लटका दीजिए कि कार्ड और सूई सन्तुलित रहें। ठीक सन्तुलन के लिए सूई जरा बाहर



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

या भीतर खींची जा सकती है। धागे के दूसरे सिरे को सलाई या किसी और लकड़ी में बांध दीजिए और उस सलाई को बोतल के मुँह पर रख दीजिए।


29. चुंबक से मछली-बेघ करना

कई डेसीमीटर लम्बी एक डोर लीजिए और इसमें एक बलशाली चुंबक बांध दीजिए। इस धागे को किसी छड़ी या बांसी (बांस) में बांध दीजिए। एक पर्दे के पीछे मेज पर लोहे की बनी विविध वस्तुएं फैला कर रखिए। कील, काटे, पेच, बोल्ट, ढिबरी, पिन, इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु के लिए अंक नियत कर दीजिए, उदाहरणार्थे बड़ी कील के लिए 5, पेच के लिए 4, बोल्ट के लिए 3, इत्यादि। हर एक खिलाड़ी बारी-बारी से पर्दे के उस पार चुंबक फेंक कर मछली को पकड़े और जिस वस्तु को उसका चुंबक उठाए, उसके अनुसार उसे अंक दिए जाएं।

30. अमतकारी चुंबकीय लट्ठू


लकड़ी की बनी हुई धागे की खाली रील से एक लट्ठू बनाइए। पहले रील को काट कर दो कर दीजिए। आधे भाग को लेकर उसकी लकड़ी इस प्रकार छील दीजिए कि वह शंकु (कोन) के आकार की हो जाए। तब उसके छेद में लोहे (या हो सके तो इस्पात) की छड़ कस दीजिए। यह छड़ इतनी बड़ी रहे कि शंकु के पार जाने पर सिरे की ओर उसका लगभग 1 सेंटीमीटर भाग बाहर निकला रहे। नीचे वाले सिरे को, जो शंकु की नोक की ओर निकला रहता है, सान मशीन पर इतना विसिए कि उसकी नोक बहुत तेज और सर्वत्र बराबर गोल हो जाए। लट्ठू तैयार है। तर्कु को चुंबकित करिए और फिर लकड़ी के शंकु में लगा दीजिए (या साधारण लकड़ी की साधारण फिरकी में चुंबकित गूंज लगा दीजिए)। नरम तार से S आकृति का बड़ा वक्क बनाइए और उसे चिकने तल पर रखिए। यदि आप पूर्वोक्त लट्ठू (या फिरकी) को नचा कर ऐसे वक्क तार के

एक सिरे पर रख देंगे तो वह तार का सहारा लेकर दूसरे सिरे तक चला जाएगा!



31. चुंबकीय नाव


किसी नरम लकड़ी से एक नाव गढ़ लीजिए। यदि चाहें तो आप इस पर मस्तूल और पाल भी लगा सकते हैं (नाव के भीतरी भाग को खोखला कर लीजिए या इसकी पेंदी में लम्बाई की ओर एक छोटा-सा छेद कर लीजिए)। अब एक लोहे की कील (या छाते की तीली के टुकड़े) को चुंबकित करके उसे इस छेद में अथवा नाव के भीतर ही रख दीजिए। समुद्र के लिए प्लास्टिक या अल्मीनियम (या पीतल या कांसे) की थाली का उपयोग करिए। बालू या लकड़ी से आप समुद्रन्तट बना सकते हैं। थाली के नीचे चुंबक चला कर आप अपनी नाव को नियन्त्रित कर सकते हैं।



32. भुगाही चुंबकत्वमापी

तांबे के तार के एक टुकड़े को एक काग के भीतर डाल कर पार कर दीजिए। यह काग परीक्षण-नलिका में कसा जाएगा और चुंबक लटकाने के लिए ऊपरी आधार का काम करेगा। तांबे के पतले तार से चुंबक के लिए बाहक (कैरियर) बनाइए और नीचे वाले सिरे में टांके से एक छोटी-सी पंसी (वेन) जोड़ दीजिए।

चुंबक-वाहक में किसी हल्के-से दर्पण का एक टुकड़ा जोड़ दीजिए, जिससे यह किरणावली को परावर्तित करे। परीक्षण-नलिका में लगभग 3 सेंटीमीटर की गहराई तक तेल भर दीजिए। लटकाए हुए चुंबक और वाहक को नलिका में नीचे उतार दीजिए और ऊपरी आधार को इस प्रकार समर्जित करिए कि पूर्वोक्त अवमन्दन-पंक्ती तेल में लगभग पूर्णतया डूब जाए।




3.3. कम्पन चुंबकत्वमापी

ग्राजकल छोटे, बलशाली कोबाल्ट अथवा टिकोनल के चुंबक आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें किसी नलिका में रेशम से लटका देने पर उत्तम कम्पन चुंबकत्वमापी (वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर) बनाए जा सकते हैं। इनमें 'अवमन्दन' नहीं होता क्योंकि झूलने वाले कांटे का 'कम्पन काल' उस स्थान के चुंबकीय क्षेत्र का मापदण्ड होता है जहाँ उसे रखा जाए।

चौड़े मुँह वाला कोई वरतन बड़ो प्रतिकृति बनाने के लिए लीजिए। इस पर लकड़ी का ढक्कन होता चाहिए। पीतल का विद्युत-संयोजक (कनेक्टर) ऊपरी आधार के लिए उपयुक्त क्रिलप का काम देता है। जब उपकरण से काम न लेना हो तो चुंबक को उतार कर पेंदी से लगा दिया जा सकता है। ऐसी सावधानी बरतने से लटकाए गए भाग की आयु बढ़ जाती है।

(टिप्पणी:—अवमन्दन का अर्थ है दोलन-विस्तार को कम करना।)



3.4. विद्युत चुंबकन कुण्डली

किसी साधारण कांच-नलिका पर तांबे के तार को बहुत पास-पास लपेटिए। इस नलिका की सहायता से बुनाई की सलाइयों (या छाते की तीली के टुकड़ों) को चुंबकित किया जा सकता है (तार के फेरे एक-दूसरे को न छूए, या तार विसंवाहित (इंसुलेटेड) हो, जैसा कि बिजली के पंखों के भीतर लगा तार होता है)। टार्च की बैटरी से आवश्यक विद्युत-धारा ली जा सकती है परन्तु उसे आवश्यकता से अधिक समय तक सम्बद्ध नहीं किए रहना चाहिए।



3.5. बिजली की वितरण-प्रणाली के लिए चुंबकीयन कुण्डली

220 वोल्ट की बिजली के लिए इस परिनालिका (चुंबकारी कुण्डली, सालेनायड) में लगभग 50 सेंटीमीटर लम्बी एक नलिका होती है, जिस पर 22 नम्बर के तांबे के विसंवाहित (इंसुलेटेड) तार की बारह परतें लपेटी हुई रहती हैं। यदि धारा में अवरोध (रेजिस्ट्रेस) डाल दिया जाए, तो इससे कम फेरों की आवश्यकता पड़ेगी, या इसके बदले

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ


कुण्डली की बाहरी परतें अवरोधी तार (रेजिस्ट्रेशन वायर) से लपेटी जा सकती हैं।

प्रबोचक परिनालिका में देर तक बिजली जाने देने से वह बहुत गरम हो जाएगी परन्तु यदि परिपथ (सरकिट) में एक खटखटाने वाली कुंजी (टैपिंग की—जैसी तारघरों में खटखटाने के लिए प्रयुक्त होती है) डाल दी जाए तो कुण्डली का इस्तेमाल रुक-रुक कर भी किया जा सकता है।

प्रत्यावर्ती धारा (ए० सी०) का उपयोग करके इस कुण्डली से अचुंबकीकरण का काम लिया जा सकता है। कुण्डली से वस्तु को धीरे-धीरे खींच कर बाहर निकालिए और जब तक वस्तु

इस कुण्डली के प्रभाव के बाहर न निकल जाए तब तक उसे कुण्डली के श्रृंखल के ही अनुदिश रखिए।

इस कुण्डली को प्र० धा० (ए० सी०) से चुंबकीकरण के लिए भी काम में लाया जा सकता है। वस्तु को कुण्डली के भीतर रख दीजिए और खटखटाने वाली कुंजी को एक क्षण के लिए दबा दीजिए।




विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. स्थिर विद्युत्

(ये सभी प्रयोग अच्छी तरह तभी हो पाते हैं जब वायु शुष्क रहे।)

1. दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ कर विद्युत् प्राप्ति की जा सकती है

काग को रेत कर काग के चूरे की ढेरी लगा लीजिए। एक महीन कागज के टुकड़े-टुकड़े कर लें। प्लास्टिक की कंधी, प्लास्टिक की बैंसिल (या पटरी) प्लास्टिक का फाउण्टेनपेन, एक टुकड़ा मोम, रबड़ का गुब्बारा, कांच अथवा चीज़ी मिट्टी की तश्तरी, और धातु को छोड़ कर कोई भी अन्य वस्तु, जो आपको मिल सके, इकट्ठी कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को अपने बालों पर या फर के टुकड़े पर तेज़ी से रगड़िए (बाल सूखे रहें) और तब काग के कणों के पास लाइए। फिर रगड़िए और पतले कागज की कतरनों के पास लाइए। देखिए क्या होता है। ऊपर के प्रयोग को दोहराइए परन्तु अब की बार सब वस्तुओं को रेशमी कपड़े से रगड़िए। फिर फलालैन का उपयोग करके प्रयोग को दोहराइए।



2. स्थिर विद्युत् सर्वत्र होती है


गुब्बारे को फूंक कर फुला लें। फिर उसे अपने सिर पर रगड़िए और तब उसे पतले

कागज के टुकड़े या काग के चूरे के पास ले जाइए। अब कंधी और प्लास्टिक की बनी पटरी लेकर प्रयोग को दोहराइए। फाउण्टेनपेन को अपने ऊनी कपड़े पर रगड़िए और स्थिर आवेश (चार्ज) देखने के लिए उसकी परीक्षा कीजिए। समाचारपत्र की दो पट्टियों को साथ पकड़िए। दोनों ही लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लम्बी हों। अपने खाली हाथ के अंगूठे और तर्जनी को इन कागजों पर लम्बाई की दिशा में फेरिए (अर्थात् कागजों को बार-बार एक दिशा में रगड़िए)। क्या होता है? कुछ और भी प्रयोग करें और सिद्ध करें कि स्थिर विद्युत् सर्वत्र होती है।




3. स्थिर विद्युत् से प्रकाश

प्रतिदीप्त प्रकाश (फ्लुओरेसेंट लाइट) वाली एक नलिका (दृश्य) लें। अन्धेरे में इसे ऊर्णाजिन (किसी जानवर की खाल, जिसमें सब बाल लगे हों) या फलालैन (फलेनेल या विशुद्ध ऊन के कबल) के टुकड़े से तेज़ी से रगड़िए। आप क्या देखते हैं?



4. स्थिर विद्युत् के कारण नाचती हुई आकृतियाँ

अल्मीनियम (या पीतल या कांसे) की थाली लीजिए, जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर गहरी हो। इसे डकने के लिए कांच की एक चादर भी लीजिए। पतंग के महीन कागज से छोटी गुड़ियों जैसी कुछ आकृतियाँ काट लीजिए, जैसी चित्र में दिखाई गई हैं। मुकेबाज आदि की आकृतियों को भी बना सकते हैं। आकृतियाँ थाली की गहराई से नाम-मात्र छोटी रहें। आकृतियों को थाली की पेंदी में रखिए और थाली को कांच से ढक दीजिए। कांच के ऊपरी तल को ऊर्णाजिन (फर) के एक टुकड़े से अथवा नरम चमड़े से रगड़िए और नाच देखिए।




5. कागज की उछल-कूद

दो पुस्तकों पर कांच की चादर रखिए और उसके नीचे कागज के टुकड़े रखिए। कांच को रेशम या फलालैन (ऊनी वस्त्र) से रगड़िए।


तब कागज के टुकड़े मज़ेदार ढंग से कूदने लगते हैं।

आवेशयुक्त कांच के कारण कागज के टुकड़ों में भी आवेश आ जाता है और यही उनके आकृषित होने का कारण है। आवेश की समाप्ति के बाद वे गिर पड़ते हैं। कागज के टुकड़ों को मेंढकों की आकृतियाँ भी दी जा सकती हैं।



6. स्थिर विद्युत् वायुयान


हल्के अल्मीनियम पत्र को काट कर एक छोटा-सा हवाई जहाज बनाइए। तब एबोनाइट अथवा प्लास्टिक की छड़ को आवेशित करके उसको जहाज के समीप लाइए। जहाज कूद कर छड़ के पास आ जाएगा और फिर उसी प्रकार का आवेश इसमें भी आएगा जैसा कि छड़ में है। तब वह कूद कर छड़ से दूर भाग जाएगा। इसे जब तक इच्छा हो तब तक हवा में रखा जा सकता है और उसके उड़ने की दिशा को प्रतिकर्षण द्वारा नियमित किया जा सकता है।



विद्युत के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

7. रगड़ने से चिनगारी का निकलना

कांच के चार गिलास लें और उन्हें उलट कर भूमि पर पास-पास रख दें। उन्हें धातु की किसी वस्तु, जैसे कि जल का नल, के पास होना चाहिए। अब एक आदमी को गिलासों पर खड़ा करिए। उसके (ऊनी) कपड़े को पूरे एक मिनट तक या तो ऊर्णाजिन (फर) के एक टुकड़े से या रबड़ (जैसे बाइसिकिल की भीतरी नलिका या गरम पानी वाली रबड़ की बोतल) को तह करके बनी गही से रगड़िए। तब वह व्यक्ति अपनी एक अंगुली को भूमि पर खड़े किसी व्यक्ति की अंगुली से मिलाए। प्रयोग को दोहराइए परन्तु इस बार वह अपनी अंगुली पानी के नल के पास ले जाए। परिणाम देखिए।




8. गुब्बारे का अपने स्थान पर टिका रहना

खिलौने के गुब्बारे को फूंक कर फूला लें और उसे ऊर्णाजिन (फर) के एक टुकड़े से रगड़िए। उसे दीवार से सटा कर रखिए। आप देखेंगे कि आप उसे जहाँ भी रख दें वह वहीं टिका रहता है। प्रयोग को दोहराइए, परन्तु अब उसे अपने बालों पर रगड़िए। फिर उसे अपने ऊनी कोट की आस्तीन पर रगड़ कर प्रयोग को दुहराइए।

9. समाचारपत्र दीवार पर टिका रहता है

समाचारपत्र के एक पन्ने को खोल कर दीवार पर दबा दीजिए, कहीं शिकन न रहे। समाचारपत्र को सर्वत्र कई बार पेंसिल से

रगड़ दीजिए (हाथ समाचारपत्र के केन्द्र से बाहर की ओर चले)। कागज के एक कोने को अपनी ओर खींचिए और छोड़ दीजिए। देखिए वह किस प्रकार फिर आकर्षित होकर दीवार पर चिपक जाता है। यदि वायु खूब सूखी रहे तो आप स्थिर आवेश के कारण चटचटाने की ध्वनि भी सुन सकेंगे।




10. स्थिर आवेश दो प्रकार के होते हैं

लकड़ी की पेंदी के बीचोबीच एक लम्बी कील ठोक कर एक धूमचक्कर बनाइए। कील की नोक को रेत कर पैनी कर दीजिए। अब एक बड़े और चपटे काग में छेद करके उसमें छोटी परीक्षण-नलिका की पेंदी को फंसा दीजिए। इस परीक्षण-नलिका को कील के ऊपर और ऊपर रख दीजिए। काग के ऊपरी तल में पिन खोंस दे ताकि काग पर रखी हुई वस्तु ढुलक कर गिरने न पाए। फिर दो परीक्षण-नलिकाएं या कांच की छड़ें, असली रेशम का एक टुकड़ा (जैसे रेशमी झमाल या मोजा) प्लास्टिक की दो कंधियां और ऊर्णाजिन (फर) का एक टुकड़ा अथवा असली ऊनी कपड़ा जैसे देशी कंबल का टुकड़ा या फलालैन भी लें। कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ कर धूमचक्कर पर रख दीजिए। कांच की एक दूसरी छड़ को रेशम से रगड़िए और उसे धूमचक्कर पर रखी छड़ के पास लाइए। इस प्रयोग को तब तक दोहराते रहिए जब तक आप यह न समझ लें कि आप एक निश्चित परिणाम पर पहुंच गए हैं।


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

कांच की छड़ को फिर रेशम से रगड़िए और उसे धूमचक्कर पर रखिए। अब प्लास्टिक की एक कंधी को ऊर्णाजिन से रगड़िए और उसे धूमचक्कर पर रखी हुई कांच की छड़ के पास लाइए। जब तक सफलता न मिले प्रयोग को बराबर करते रहिए।

एक कंधी को ऊर्णाजिन से रगड़िए और उसे धूमचक्कर पर रखिए। दूसरी कंधी को फर से रगड़िए और उसे मंच पर रखी कंधी के पास लाइए। जब तक आपको विश्वास न हो जाए कि आपके प्रेक्षण ठीक हैं तब तक प्रयोग को दोहराते रहिए।




फिर एक कंधी को फर से रगड़िए और उसे धूमचक्कर पर रखिए। कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़िए और कंधी के पास ले जाइए। जब तक आपको अपने प्रेक्षणों की सफलता का निश्चय न हो जाए प्रयोग को दोहराते रहिए।



जब प्लास्टिक को ऊर्णाजिन से रगड़ा जाता है तब प्लास्टिक में विद्युत का ऋण आवेश आ जाता है और ऊर्णाजिन में धन आवेश। जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तब कांच

में धन आवेश आता है और रेशम में ऋण। आपके प्रयोग से पता चलेगा कि सजातीय विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिक्रिया करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित। विद्युत का यह एक आधारभूत नियम है।




11. स्थिर विद्युत के लिए मज्जा-गुटिका बाला सूचक बनाना

किसी पौधे के तने वा भीतरी गूदा या मज्जा (पिण्य) लोजिए। इस गूदे को खूब सुखा लोजिए और अच्छी तरह दबा कर उसकी इतनी छोटी-छोटी गोलियां बना लोजिए कि उनका व्यास लगभग 5 मिलीमीटर हो जाए। इन गोलियों को अल्मीनियम या सोने के तेल-रंग (पेट) से रंग दीजिए। प्रत्येक गोली में रेशम का तागा पिरो दीजिए। तागे की लम्बाई 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोली के लिए लकड़ी का आधार (स्टैंड) बना लें। विविध वस्तुओं को रेशम, ऊर्णाजिन अथवा कंबल से रगड़ कर मज्जा-गुटिका के पास लाइए और उसकी अभिक्रिया को देखिए। आप देखेंगे कि पहले वह आकर्षित होती है और छूने के बाद प्रतिक्रिया। इस प्रकार टंगी मज्जा-गुटिका विद्युत-दर्शी कहलाती है।

12. समाचारपत्र से विद्युत-दर्शी बनाना

समाचारपत्र से 60 सेंटीमीटर लम्बी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी एक पट्टी काट लें। इसे बीच से मोड़ दें और एक पटरी पर लटका दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे

मेज पर रख कर और पकड़ कर कई बार एक ही दिशा में ऊर्णाजिन या कंबल के टुकड़े से रगड़िए। पटरी की सहायता से इसे मेज के ऊपर उठाइए और देखिए कि कागज क्या करता है। कंधी अथवा प्लास्टिक की किसी अन्य वस्तु को ऊर्णाजिन अथवा कंबल से रगड़िए और कागज के फैले पत्तों के बीच लाइए। जब तक आपको निश्चित परिणाम प्राप्त न हो प्रयोग को दोहराते रहिए। अब एक शीशी को रेशम से रगड़िए और उसे कागज के फैले पत्तों के बीच लाइए। परिणाम को देखिए और जब तक आपको विश्वास न हो जाए कि वह ठीक है तब तक प्रयोग को दोहराते रहिए। यह प्रयोग क्या बताता है?



13. धातु-पत्र का विद्युत्-दर्शी बनाना

इस युक्ति से विद्युत् आवेश का पता लगाया जाता है। इसके लिए एक चौड़े मुह की बोतल, थोड़ा तार और हल्की पत्ती अथवा कागज की आवश्यकता पड़ेगी।

एक कागज को पिछले मोम में डुबो कर निकाल लें। इसमें विद्युत् आवेश का क्षरण (लीकेज) नहीं होना चाहिए। अब इसके भीतर (L) आकृति का पीतल या तांबे का एक तार घुसा कर पार कर दें और पतले

विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

(पतंग वाले) कागज या अल्मीनियम (या चांदी या सोने) की पत्ती (वर्क) के टुकड़े को नीचे के समतल भाग से लटका दें।

यदि इस तार के पास कोई आवेशयुक्त पिंड लाया जाएगा तो कागज के पत्ते छिप्तर जाएंगे क्योंकि उनको एक ही प्रकार का आवेश मिलेगा।

मोमी काग के बदले विसंवाही मोम (इंसु-लेटिंग वैक्स) अथवा पर्सेपेक्स नामक प्लास्टिक की डाटें अधिक सन्तोषकारी होती हैं क्योंकि वे अधिक अच्छा विसंवाहन करती हैं।




14. द्वाया विद्युत्-दर्शी बनाना

खड़िया के या सिगारों के बक्स से एक बहुत उपयोगी उपकरण बनाया जा सकता है। ढक्कन और पेंदी को निकाल डालना चाहिए और उनके बदले एक और एक साफ कांच तथा दूसरी और गफ (घना बुना) कपड़ा या कागज लगाना चाहिए। चित्र में कागज वाला पार्श्व दिखाई पड़ रहा है। कांच को अपने स्थान पर टिकाए रखने के लिए टीन की कोनियां लगाइए और कागज को सरेस से चिपका दें। बक्स के ऊपर वाले भाग में बर्मी से एक छेद कर दें। इस छेद में एबोनाइट या ऐंबर के मोमबत्तीनुमा विसंवाहक (इंसुलेटर) को कस कर लगा दें। इसके केन्द्र (अक्ष) में पीतल का एक मोटा तार कस कर लगाइए और तार के ऊपरी सिरे पर धातु का एक वृत्ताकार टुकड़ा जोड़ दें। यह टुकड़ा विद्युत्-दर्शी के टोप का काम करेगा। तार के दूसरे सिरे पर टीन के एक टुकड़े को टांके से जोड़ दें। इस

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रस्तु

टुकड़े के ऊपरी भाग में सोने या अल्मीनियम की पत्ती चिपका दें। परन्तु पत्ती टीन से छोटी रहे। अब कांच के पतले सूत्र को, जिसे ज्वाला में सुगमता से बनाया जा सकता है, पत्ती पर सरेस से चिपक दें। इस सूत्र के नीचे बाले सिरे पर एक छोटा-सा बहुत हल्का बाण चिपका दें। कांच बाली और सूचक की छाया को पद्धे पर डाल दे। साधारण प्रक्षेपी विद्युत-दर्शी की अपेक्षा इस उपकरण से यह लाभ है कि पत्ती उल्टी नहीं दिखाई पड़ती। पत्ती की गति और स्थिति को एक बड़ी कक्षा भी देख सकती है। बोल्टों को सूचित करने वाला एक पैमाना भी कागज पर बनाया जा सकता है।



15. छूने वाले गुब्बारे का खेल


खेल के गुब्बारे को फूँक कर फुला लें और उसमें लगभग 1 मीटर लम्बा ताग बांध दें। गुब्बारे पर स्याही से मुखाहृति भी बनाई जा सकती है। इसके लिए स्याही में नरम लकड़ी को डुबा कर काम करिए। अब तागे को पकड़े रहिए और किसी छात्र से कहिए कि वह गुब्बारे पर बने मुखड़े को उर्णाजिन (फर) या कंबल के किसी टुकड़े से रगड़े। गुब्बारे को छोड़ दें। आप देखेंगे कि यह आसपास की हर वस्तु को छूने लगता है।

16. गुब्बारे से और भी मनोरंजन

ऊपर के प्रयोग की तरह ही दो गुब्बारों को बांधिए। उनके मुखड़ों को उर्णाजिन से रगड़िए। तागों को एक साथ पकड़िए। देखिए कि वे किस तरह प्रतिकर्षण करते हैं। उनके बीच अपनी हथेली डाल दें और देखिए क्या होता है। एक गुब्बारे को अपने मुख के पास लाइए। तीन गुब्बारों का इस्तेमाल करके इस प्रयोग को दोहराइए।

17. स्थिर विद्युत की सहायता से घुड़दौड़ कराना

कागज को एक बार दोहरा करके उससे कई घोड़े इस प्रकार काटिए कि वे मेज पर खड़े हो सकें। कड़े प्लास्टिक की कंधी या फाउण्टेन-पेन को फर से रगड़िए और देखिए कि उनसे आप कागज के घोड़ों को मेज पर इधर-उधर खिंच सकते हैं या नहीं। अगर कई घोड़े हों तो उनसे घुड़दौड़ भी कराई जा सकती है।



18. स्थिर विद्युत से चिनगारियां उत्पन्न कराना


लगभग 24 सेंटीमीटर व्यास की अल्मीनियम की एक चादर लें। हल्की धाली भी ले सकते हैं। धातु को आंच पर इस प्रकार गरम करिए कि वह हर स्थान पर एक-सी गरम हो जाए। चादर के बीचोंबीच मुहर लगाने की लाज की छड़ या मोमबत्ती को गला कर टपकाइए ताकि वह चिपक कर मुठिया (हैंडल) बन जाए। यदि मुठिया को अधिक टिकाऊ बनाना

विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

हो तो आप थाली के केन्द्र में छेद करके उसमें पेच से लकड़ी या प्लास्टिक की मुठिया भी कस सकते हैं। अब कार के पहिए के भीतर की एक पुरानी ट्यूब को खोल कर मेज पर बिछा दीजिए। आधे मिनट तक उसके ऊपरी भाग को तेज़ी से ऊर्जाजिन या फलालैन (या देशी कंबल) के एक टुकड़े से रगड़िए। अब थाली को रबड़ पर रखिए और उसे अपनी अंगुलियों से रबड़ पर कस कर दबाइए। अंगुलियों को हटा लीजिए और हैंडल पकड़ कर थाली को उठाइए। अब अपनी अंगुली थाली के पास ले जाइए। एक चिनगारी निकलेगी। बिना रबड़ को फिर से रगड़े आप उससे कई बार आवेश प्राप्त कर सकते हैं।

उसके लिए केवल इतना करिए कि थाली को अपनी अंगुलियों से रबड़ पर दबाइए और हैंडल को पकड़ कर इसे ऊपर उठाइए।


यहाँ चिनगारी उत्पन्न करते



ख. सरल विद्युत् सेल और परिपथ

1. नलिका में पानी कैसे बहता है

एक डिब्बे से पानी दूसरे डिब्बे में प्रवाहित करने के लिए यह आवश्यक है कि मूल जल स्थान कुछ अधिक ऊचे स्तर पर रहे। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। आप इसे दो बड़े डिब्बों के उपयोग से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रत्येक की दीवार में पेंडी के पास इतना बड़ा छेद करिए कि उसमें एक छेद वाली डाट कसी जा सके। एक डिब्बे में रबड़ की लम्बी



नलिका जोड़ दीजिए। कमानीदार चुटकी लगा कर नलिका के अन्तिम सिरे को दबा रखिए। डिब्बे को मेज पर रखिए और उसे पानी से भर दीजिए। नलिका को दूसरे डिब्बे से सम्बद्ध करिए। चुटकी को हटा दीजिए। पानी बहने लगेगा। यह बहना कब बन्द होता है?

2. यह दिखाना कि संवाहक में विद्युत् कैसे बहती है


पिछले प्रयोग की तरह के दो डिब्बों का इस्तेमाल करिए। किसी तार के नंगे सिरे को एक डिब्बे में जोड़ दीजिए। दोनों डिब्बों को चीनी मिट्टी की ओर्धी रखी हुई प्लेटों पर रख दीजिए। तार के खुले सिरे के पास एक कमानीदार चुटकी लगा दीजिए। अब उस उपकरण का उपयोग करिए जिसे आपने इस अध्याय में पूर्वगामी खण्ड के प्रयोग-18 में चिनगारियां उत्पन्न करने के लिए बनाया था। तार के खुले सिरे पर हुक बना कर पहले उसे उसी डिब्बे में फंसा दीजिए। जिसमें उसका दूसरा सिरा जुड़ा है। अब रबड़ की गही में विद्युत् उत्पन्न करिए और थाली को उस डिब्बे से छुआ दीजिए जिसमें तार लगा है। इस किया को 20 बार दोहराइए ताकि डिब्बा अच्छी तरह आवेशित हो जाए।

मज्जा-गुटिका विद्युत्-दर्शी को (पूर्वगामी खण्ड के प्रयोग-11 में बनाया गया) इस प्रकार रखिए कि वह दूसरे डिब्बे को छूता रहे। अब त्रात के सिरे को पहले डिब्बे पर से उतार लीजिए। इस काम में चुटकी से हैंडल का काम लीजिए और इसे दूसरे डिब्बे में फंसा दीजिए। मज्जा-गुटिका को देखिए। यदि आपका प्रयोग सफल होगा तो

विद्युत् एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में प्रवाहित होती और इसका पता मज्जा-गुटिका द्वारा लग जाएगा।

3. यह विख्याने की दूसरी रीति कि विद्युत् कैसे बहती है


ऊपर के प्रयोग-2 वाले उस डिब्बे का उपयोग करिए जिसमें तार लगा हुआ था। इस बार तार के दूसरे सिरे को उस पत्र-विद्युत्-दर्शी में सम्बद्ध करिए जिसे आपने पूर्वगामी खण्ड के प्रयोग-3 में बनाया था। डिब्बे को चिनगारी देने वाले उपकरण अथवा ऊर्णजित (फर) से राड़ी गई प्लास्टिक की कंची की सहायता से आवेशित करिए। विद्युत्-दर्शी की पत्री को देखिए।




4. विद्युत्-धारा को दिखाने के लिए एक सरल यन्त्र बनाना

थोड़ा-सा घंटी वाला तार लीजिए, जिस पर सूत लपेटा गया हो (या पंखों के भीतर लगने वाला अनेमल किया हुआ तार लीजिए) और लगभग 8 सेंटीमीटर व्यास की बोतल के ऊपर सफाई से उसको 50-60 बार लपेटिए ताकि उसकी एक कुंडली (कावल) बन जाए। इस कुंडली को बोतल पर से खिसका कर उतार लीजिए और उसे तार के छोटे टुकड़ों से अथवा फीते से अच्छी तरह बांध लीजिए। इस कुंडली को लकड़ी की पेंदी को आरोपित करिए। दिक्षुचक रखने के लिए

काग का एक छोटा मंच (प्लेटफार्म) बनाया जा सकता है। कुंडली को बिठाने के लिए काग में एक खांचा काट देना चाहिए और तब मुहर की लाख को पिघला कर उससे काग और कुंडली को पेंदी के ऊपर चिपका देना चाहिए। दिक्षुचक को काग पर रखिए और पेंदी को घुमा कर सूई को कुंडली के समतल कर दीजिए। कुंडली में एक शुष्क सेल से (जिसे लोग कभी-कभी बैटरी भी कहते हैं) सम्बद्ध करिए और दिक्षुचक सूई को देखिए।



सिगार बक्स की लकड़ी से एक छोटा-सा चौखटा बनाइए, जिसमें एक दिक्षुचक ठीक-ठीक आ जाए (इधर-उधर स्थान न छूटा रहे)। इस चौखटे की सहायता से एक और अधिक सुग्राही यन्त्र बनाया जा सकता है। दिक्षुचक को इस चौखटे में रख दीजिए और तब चौखटे पर घंटी वाला तार (या अनेमल किए हुए तांबे का तार) के लगभग 20 फेरे लपेटिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।




विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

5. रासायनिक ऊर्जा से विद्युत् ऊर्जा की प्राप्ति
 दो सिक्के के लीजिए, जो भिन्न धातुओं के बने हों। उन्हें महीन रेगमाल (सैंड पेपर) या इस्पात के घूए (स्टील बूल) से अच्छी तरह माँजिए। अब कागज का एक तौलिया या सोल्टा (ब्लाटिंग पेपर) लीजिए और उसे मोड़ कर एक गही बनाइए, जो सिक्कों से थोड़ी बड़ी रहे। सोल्टा को नमक के पानी में भिगो लीजिए। एक सिक्के को गही के ऊपर और दूसरे को उसके नीचे रखिए। सिक्कों को अंगूठे और एक अंगुली के बीच पकड़े रहिए। अपनी मुग्राही कुँडली के सिरों को इन सिक्कों से सम्बद्ध करिए और दिक्षुचक को देखिए।

6. नीबू से विद्युत् की प्राप्ति

पुरानी शुष्क बैटरी के बाहरी खोल से जस्ते का एक टुकड़ा काटिए और अपने मुग्राही विद्युत्-मापी के एक तार को उसमें जोड़ दीजिए। दूसरे तार को एक तांबे के टुकड़े में जोड़ दोजिए। एक नीबू को मेज पर फेर कर नरम कर लीजिए ताकि तंतुओं का रस उसके भीतर ही निकल पडे। नीबू में जस्ते और तांबे के टुकड़ों को धंसा दीजिए। यह ध्यान रहे कि वे एक-दूसरे को छूने न पाएं। दिक्षुचक की सूई को देखिए।



7. सरल विद्युत् सेल बनाना

यदि शुष्क बैटरी उपलब्ध न हो तो भी अनेक प्रयोगों में एक सरल बोल्टीय विद्युत् सेल का उपयोग किया जा सकता है। किसी अमृतबान में तनु (डाइल्यूट) सल्फायरिक अम्ल रखिए और उसमें तांबे तथा जस्ते की एक प्लेट

डाल दोजिए। इन प्लेटों को समय-समय पर हिलाना पड़ता है, ताकि उन पर चिपके हुए गैस के बुलबुले दूर हो जाएं। यदि पोटासियम बाइक्रोमेट के कुछ रेशे अम्ल में डाल दिए जाएं तो भी यह काम हो जाएगा क्योंकि यह पदार्थ गैसों को रासायनिक रीत से दूर करता है।



8. एक दूसरा सरल विद्युत् सेल

बूट पालिश की डिब्बी या कांच के कम गहरे बरतन से आप कक्षा के प्रयोगों के लिए एक सरल डेनियल विद्युत् सेल बना सकते हैं। पहले बरतन में तूतिया (कापर सल्फेट) के स्फाटों की एक तह बिछा दीजिए, जो लगभग 1. 5 सेंटीमीटर गहरी हो और उसे तूतिया के गढ़े घोल से तर कर दीजिए। यह घोल पेंदी में 0. 5 सेंटीमीटर तक पड़ा रहे। अब तांबे के एक तार को चपटे सर्पिल का रूप दीजिए और उसे विसंवाही जस्ते के साथ इस तह के भीतर दबा दीजिए। तूतिया के ऊपर गीले पेरिस प्लास्टर (प्लास्टर आव पेरिस) की एक तह डाल दोजिए और उसे जम जाने दोजिए।

ऋण पट्ट के लिए जस्ते की चादर का एक टुकड़ा लीजिए और इसमें भी एक तार जोड़ दीजिए। (इसे प्लास्टर की तह पर रख कर) बरतन में इतना तनु सल्फायरिक अम्ल डाल दोजिए कि जस्ता डूब जाए (जस्ते का एक सिरा इतना मुड़ा रहे कि जस्ते और तार की सन्धि अम्ल के बाहर उठी रहे)। जिस समय विद्युत् सेल से काम न लिया जा रहा हो, तो इस थोड़े से अम्ल को फेंक देना चाहिए। (पेरिस प्लास्टर न मिले तो तांबे की छोटी थाली में तूतिया और थोड़ा पानी रख कर उसमें मिट्टी का


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

कसोरा या तश्तरी रखनी चाहिए, फिर इस कसोरे में अम्ल और जस्ता रखिए, थाली कटेगी नहीं, पीछे वह साधारण काम में भी आ सकती है।)

विद्युत-धारा पाने के लिए इससे बड़ा कामचलाऊ विद्युत् सेल एक अमृतबान और गते की नलिका से बनाया जा सकता है।

तूतिया और पेरिस प्लास्टर को पानी में मिला कर एक पतला-सा लेप बना लें और अमृतबान के केन्द्र में गते की नलिका रख कर पूर्वोक्त मिश्रण को गते और अमृतबान के बीच के स्थान में डाल दें और उसे जमने दें। इस मिश्रण में तांबे का एक पत्र भी मिला लेना चाहिए।

एक दूसरा मिश्रण बनाइए, जिसमें पेरिस प्लास्टर, जिक, सल्फेट और थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल रहे। जब पहला मिश्रण जम जाए तो इस नए मिश्रण को बीच वाली नलिका में डाल दें परन्तु जमने के पहले इसमें जस्ते की छड़ डाल दें। तांबे और जस्ते में तार जोड़ कर विद्युत् ली जा सकती है।



9. सरल संचायक या स्टोरेज बैटरी बनाना

जस्ते से मढ़े बिजली के दोहरे तार से जस्ते का पत्र उखाड़ लें। उसमें से $1.5 \text{ सेंटीमीटर} \times 3 \text{ सेंटीमीटर}$ के टुकड़े काट लें, परन्तु प्रत्येक की एक छोटी भुजा में थोड़ा-सा भाग (या 'कान') बड़ा रहे।

अब दियासलाई के बक्सों से पतली लकड़ी के टुकड़े काट लीजिए, जो $1.5 \text{ सेंटीमीटर} \times 3 \text{ सेंटी-$


मीटर

के रहें। उन्हें जस्ते के पत्रों के बीच रखा जाएगा और इसलिए उन्हें अन्तरक (स्पेसर) भी कहा जाता है।

पत्रों की एक गड्ढा बनाइए, जिनके कान क्रमशः एक दाहिने और एक बाईं और रखे जाएं और हर दो पत्रों के बीच एक अन्तरक रहे।

प्रत्येक और के कानों को एक-एक तार से आपस में सम्बद्ध करिए।

इस सेट को तनु (डाइल्यूट) सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबा दें (कान न डूबें), और इनमें विद्युत् प्रवाहित करिए ताकि पत्र 'तैयार' हो जाएं। चन्द मिनटों के बाद ही इस संचायक से टार्च की बत्ती जलाने भर की बिजली मिल जाएगी। इसमें बार-बार बिजली भरने (चार्ज करने) और इससे बिजली लेने (डिस्चार्ज करने) से पत्रों की अवस्था और भी अच्छी हो जाएगी।



10. अधिक काम करने वाला संचायक बनाना

पिछली विधि से तैयार किए गए पत्र या पट्ट (प्लेट) कक्षा में दिखाने के लिए ही हैं।

प्रति दिन के काम के लिए संचायक बनाने में इससे बड़े और मोटे पट्टों की आवश्यकता पड़ती है। इन पट्टों में छेद करके उनमें रासायनिक पदार्थ भरे जाते हैं।

जस्ते के पट्टों को लगभग 5 मिलीमीटर मोटा होना चाहिए। जस्ते से बनी गैस या पानी को पुरानी पाइप से भी काम चल सकता है (या फिर जस्ते को ढाल लीजिए)। चित्र में दिखाई गई नापों के अनुसार पट्ट बनाइए। उनमें

विद्युत के प्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री


बर्मी से छेद करिए। निम्न पदार्थों को सान कर पीठी बनाइए और उसे इन छेदों में भरिए।

धन पट्ट	ऋण पट्ट
1 भाग लिथार्ज	6 भाग लिथार्ज
4 भाग सिंडूर	1 भाग सल्फ्यूरिक
	अम्ल

1 भाग सल्फ्यूरिक

अम्ल

पहले जैसे, परन्तु बीच में छेद वाले, कुछ अन्तरकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी मोटाई 5 मिलीमीटर हो।



पट्टों को संघटित करने के लिए उन्हें और अन्तरकों को यथाक्रम रखिए और रबड़ के छल्ले से या डोर से बांध दीजिए। फिर दोनों ऋण पट्टों को एक में बांध दें (और धन पट्टों को अलग एक में) और सबको किसी अमृतबान में डाल दीजिए। अमृतबान में इतना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका आपेक्षिक गुरुत्व 1.5 हो, डाल दीजिए कि पट्ट डूब जाएं (परन्तु कान न डूबें)।

संचायक को पहले की तरह ही आवेशित (चार्ज) करिए। जब वह आवेशित हो जाएगा तो धन पट्ट का रंग रक्ताभ (लाली लिए चाकलेट की तरह) हो जाएगा और ऋण पट्ट का रंग हल्का सुरमई।

11. शुक्ख विद्युत सेल की संरचना

किसी पुराने शुक्ख विद्युत सेल से उसका ऊपरी खोल हटाइए, आरी से चीर कर विद्युत

सेल के टुकड़े कर डालिए और उसकी संरचना को देखिए। केन्द्र में कार्बन अर्थात् धन ध्रुव होता है। जस्ते का खोल ऋण ध्रुव होता है। इन दोनों के बीच में जो पदार्थ है, वह विद्युत सेल के पट्ट पर किया करने वाला रासायनिक पदार्थ है। पता लगाइए कि इस पदार्थ ने जस्ते को कितना खा डाला है। आप देखेंगे कि रासायनिक पदार्थों को जस्ते के डिब्बे में गरम पिच से बन्द कर दिया गया था।



12. शुक्ख विद्युत सेल के परिपथ से विद्युत प्राप्त करना

चंटी वाला तार लोजिए। टार्च के बल्ब की पेचनमुम जड़ पर तार के एक सिरे को इस प्रकार ऐंठ दीजिए कि बल्ब कस कर फंसा रहे। शेष तार को 8 अक्षर की आकृति में मोड़ दीजिए। बल्ब की जड़ वाली नोक को टार्च के विद्युत सेल की केन्द्रीय घुंडी पर बैठा दीजिए और तार के खुले सिरे को इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि तार कमानी की तरह झुक कर सेल की पेंडी को छू दे। यदि सब जोड़ ठीक कसे होंगे तो बल्ब जल जाएगा। इस प्रकार व्यवस्थित करने पर टार्च का कोई भी बल्ब अवश्य जल उठेगा परन्तु जो बल्ब एक ही विद्युत सेल से जलते हैं वे अधिक तेज़ रोशनी देंगे।


बल्ब को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि उसके बीच में धातु का एक महीन तार है, जो अपने स्थान में दो अपेक्षाकृत मोटे तारों द्वारा टिका हुआ है। प्रवर्धक लैन्स लेकर आप

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

उन्हें अधिक सुगमता से देख सकते हैं। धातु का महीन तार बोल्फाम का बना रहता है, जिसे पहले टंगस्टन कहा जाता था। जब बिजली बोल्फाम के तार में से होकर जाती है तो तार बहुत गरम हो जाता है और प्रकाश देने लगता है।


विद्युत् सेल को उलट दीजिए और उलटा सम्बन्ध जोड़िए। आप देखेंगे कि बत्ती अभी जलती है, विद्युत् भले ही उलटी दिशा में बह रही है।

एक चित्र खींचिए, जिसमें बल्ब से होकर सेल के दूसरे सिरे तक विद्युत्-धारा के मार्ग को दिखाइए। 'विद्युत् परिपथ' के अर्थ को भली-भांति समझ लीजिए।



13. टार्च कैसे जलती है

ऊपर के प्रयोग की तरह ही धंटी के तार को मोड़ कर उसे विद्युत् सेल में चिपकाने वाले फीते या रबड़ के छल्ले से बांध दीजिए। तार को इस प्रकार लगाइए कि बल्ब का सिरा सेल की केन्द्रीय धुंडी को छुए। तार के खुले सिरे को सेल की पेंदी पर दबा कर स्विच की तरह काम में लाइए।




14. विद्युत् सेलों को धेणी-योजित करना
चित्र में दिखाई गई रीति से तीन सेलों

को धेणी-योजित करिए। प्रत्येक सेल के पाश्व को बगल वाले सेल की केन्द्रीय धुंडी से (या एक की केन्द्रीय धुंडी को बगल वाले सेल के बाहरी भाग से) जोड़ना चाहिए। जब सेल इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं तो कुल बोल्टता या विद्युत् दाब उतनी ही होती है जितनी कि सब सेलों की बोल्टता का योग। इस प्रयोग में कुल बोल्टता 4.5 होगी क्योंकि प्रत्येक सेल की बोल्टता 1.5 है।

अब इन तीनों सेलों के समूह से निकले हुए तारों को एक ऐसी टार्च से सम्बद्ध करिए, जो तीन सेलों से जलती हो। एक तार को नियोजित करके बत्ती को केवल एक सेल से संयोजित करिए। चमक में कितना अन्तर आ गया है!

इसी बत्ती को दो धेणी-योजित सेलों से सम्बद्ध करिए और बत्ती की चमक को तूलना एक सेल तथा तीन सेलों से उत्पन्न चमक से करिए।



15. विद्युत् सेलों को समानान्तर संयोजित करना


तीन सेलों की केन्द्रीय धुंडियों को एक तार से संयोजित करिए और उनके पाश्वों को दूसरे तार से; इस प्रकार तीनों सेल समानान्तर में संयोजित हो जाएंगे। इन दोनों तारों को बल्ब होल्डर से संयोजित करिए और उसमें एक सेल से जलने वाली बत्ती लगाइए।

एक सेल को वियोजित करिए। आप देखेंगे कि बत्ती की चमक में कोई अन्तर नहीं पड़ता। दो सेलों को वियोजित कर दीजिए। इतने

विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पर भी चमक में कोई अन्तर नहीं पड़ता। जब ये समानान्तर में संयोजित किए जाते हैं तो कुल बोल्टता एक सेल की बोल्टता से अधिक नहीं होती।

'सेल' और 'बैटरी' के अन्तर को भली-भांति समझाइए। दो या अधिक संयोजित सेलों को बैटरी कहते हैं।



समानान्तर में संयोजित सेल

16. बल्बों को श्रेणी में संयोजित करना

तीन बल्बों को श्रेणी में संयोजित करिए और एक विद्युत् सेल की सहायता से उन्हें आपस में सम्बद्ध करिए। फिर उन्हीं तीनों बल्बों को दो श्रेणी-योजित सेलों से संयोजित करिए, तब तीन श्रेणी-योजित सेलों से। एक बल्ब को अलग निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि परिपथ के टूट जाने के कारण शेष दोनों बल्ब बुझ जाते हैं। विवाह आदि में सजावटी रोशनी के लिए लगाई गई छोटी विद्युत् बल्बों की माला से इसका क्या सम्बन्ध है? इस प्रकार की मालाओं में बत्तियां श्रेणी-योजित होती हैं। यदि एक बत्ती जल जाए (उसका तार जल जाए) तो परिपथ टूट जाता है और शेष सभी बत्तियां बुझ जाती हैं।



श्रेणी में संयोजित बल्ब

17. बल्बों को समानान्तर संयोजित करना

तीन बल्बों को समानान्तर में संयोजित करिए और उन्हें एक विद्युत् सेल से सम्बद्ध कर दीजिए। एक बल्ब को निकाल लीजिए। आप


देखेंगे कि शेष दो बल्ब जलते ही रहते हैं। एक दूसरी श्रेणी में एक और सेल जोड़ कर बल्बों की चमक को बढ़ाइए; एक बल्ब निकालिए, तब दो, और तब तीन।



समानान्तर में संयोजित बल्ब


18. स्विच से विद्युत् परिपथ का नियन्त्रण कैसे किया जाता है

एक विद्युत् सेल और एक बल्ब के परिपथ में एक छुरीनुमा स्विच (नाइफ स्विच) भी रख लीजिए। इस स्विच को चला कर बल्ब को जलाइए और बुझा दीजिए। बल्ब के स्थान पर घंटी या गुंजक (बजर) लगा कर स्विच को चलाइए। छुरीनुमा स्विच के बदले दबाने वाला पुश बटन स्विच लगाइए। कौन-सा स्विच किन-किन कामों के लिए उपयुक्त है और क्यों?



19. सरल स्विच बनाना

चित्र में दिखाई गई रीति से रबड़ के दो छल्लों से एक पेंसिल पर घंटी वाले तार का



रबड़ के छल्ले

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

एक सिरा बांध कर एक सरल स्विच बनाया जा सकता है। उपयुक्त संयोजन के लिए एक दूसरे तार को पहले तार के नीचे लिंगकामा जा सकता है।


20. एक दूसरा सरल स्विच

घंटी वाले तार के एक टुकड़े को रील (स्पूल) के भीतर से डाल कर दूसरी ओर निकालिए और उसे बांध दीजिए। दूसरे तार को रील के ऊपर बांध दीजिए (दूसरा चित्र देखिए)। तारों के खुले सिरों को इस प्रकार लगाइए कि स्विच मुगमता से खुल सके और बन्द हो जाए।




21. दो दाब-बटनों से दरवाज़ की घंटी बनाना

दो विद्युत सेल, दो दाब-बटन और एक घंटी लीजिए और यह दिखाइए कि दो विभिन्न स्थानों से, उदाहरणार्थ घर के अगवाड़े से और पिछवाड़े से, एक ही घंटी किस प्रकार बजाई जा सकती है। चित्र में दिखाई गई रीति से मेज पर परिपथ बनाइए। परिपथ का एक वैद्युत चित्र खींचिए और उसमें प्रामाणिक संकेतों का उपयोग करिए।



22. एक ही बत्ती को दो स्विचों से नियन्त्रित करना


दो दोहरी फेंक के छरीनुमा स्विच (डबल थो नाइफ स्विचिज) दो विद्युत सेल और एक लैम्प लीजिए और आंतों को यह दिखाइए कि सीढ़ी की रोशनी ऊपर और नीचे लगे स्विचों में से प्रत्येक से कैसे जलाई-बुझाई जा सकती है। चित्र में दिखाई गई रीति से परिपथ को मेज पर रखिए। प्रामाणिक संकेतों का उपयोग करके परिपथ का एक वैद्युत चित्र खींचिए।



23. सड़क की बत्ती-प्रणाली की नहीं प्रतिकृति

घंटी के विसंवाही तार के दो टुकड़े काटिए, प्रत्येक की लम्बाई लगभग 3 मीटर हो। प्रत्येक तार में से 6 स्थानों पर विसंवाही पदार्थ हटा दीजिए और छोटी बत्ती के होल्डरों को पूर्वोक्त तारों के विविध स्थानों में समानान्तर में लगा दोजिए। चित्र में दिखाई गई रीति से तारों को दो कुर्सियों के बीच खींच कर लगा दोजिए। एक सिरे पर ये तार एक-दूसरे से अलग रहें। दूसरे सिरे पर इन तारों को दो शुष्क विद्युत सेलों द्वारा संयोजित करिए। प्राहियों (होल्डरों) में छोटे बल्ब कस कर लगाइए।

शुष्क विद्युत मेल




विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

24. विद्युत् से हमें रोशनी और गरमी कैसे मिलती है

घंटी वाले तार के दो टुकड़ों के सिरों को एक चपटे काग के भीतर डाल कर पार कर दीजिए। इस काम के योग्य चपटा काग किसी लम्बे काग के एक सिरे को काट कर बनाया जा सकता है, या इसके बदले दो छेदों वाली रबड़ की डाट का उपयोग किया जा सकता है। अब चित्र लटकाने वाले लोहे के तार की ऐंठ खोल कर और उसमें से एक इकहरा सूत्र निकाल कर सूत्र का एक छोटा टुकड़ा काट लीजिए। कागज में से निकले तांबे के तार के सिरों पर इस छोटे लोहे के तार के सिरों को ऐंठ दीजिए और काग को किसी बोतल में लगा दीजिए। यही विद्युत् लैम्प की स्थूल प्रतिकृति का काम देगा।

विद्युत् लैम्प की इस प्रतिकृति को एक परिपथ में संयोजित करिए, जिसमें एक स्विच और एक या अधिक शुष्क विद्युत् सेल हों। स्विच को बन्द करिए और महीन तार (तंतु, फिलामेंट) के लाल होकर चमकने पर स्विच खोल दीजिए (यदि लोहे का तार आवश्यकता से मोटा होगा तो वह लाल नहीं हो पाएगा, तब अधिक विद्युत् सेलों को श्रेणी-योजित करना पड़ेगा)। सावधानी से लैम्प को कई बार जलाया जा सकता है, परन्तु अन्त में लोहे का तार बोतल के भीतर की हवा को आक्सीजन से युक्त हो जाता है और तब जल जाता है। बेचने के लिए बनाए गए बल्बों में हवा नहीं रहती और बोल्फाम के तार को इतने अधिक ताप तक तप्त किया जाता है कि वह अच्छा प्रकाश देकर चमकने लगता है। कांच का




बल्ब तंतु को तो बचाता ही है, उसके अतिरिक्त वह विद्युत् लैम्पों के उपयोग को निरापद भी बना देता है।

25. संगलक (प्यूज) विद्युत् परिपथों को रक्षा कैसे करते हैं

साधारण और जले हुए संगलकों की परीक्षा करिए। संगलक सुरक्षा की वे युक्तियां हैं जो विद्युत् परिपथ पर अधिक भार पड़ने पर, विद्युत् परिपथ को तोड़ देते हैं। जब किसी परिपथ में इनी अधिक धारा बहती है कि परिपथ के तारों या यन्त्रों के खराब होने का डर रहता है तो संगलक का तार पिघल जाता है।

चाकलेट, आदि मिठाइयों पर लपेटी हुई धातु की पत्ती लीजिए और उसमें से एक बहुत पतली कतरन काट लीजिए। अब एक काग के भीतर दो तार डालिए और उन तारों के काग से बाहर निकले हुए सिरों में इस कतरन को फंसा दीजिए। यह संगलक की ऐसी प्रतिकृति होगी जो सूखे सेलों के साथ अच्छा काम कर सकेगी। जब तक प्रतिकृति ठीक काम न करे, विभिन्न प्रकार की पतली और चौड़ी पत्तियों को लेकर प्रयोग को दोहराते रहिए।




सेलों की पत्ती की कतरन

26. लघु परिपथ (शाटं सरकिट) से संगलक (प्यूज) कैसे जल जाता है

कई सेलों और एक लैम्प के परिपथ में संगलक की पूर्वोक्त प्रतिकृति लगा दीजिए। लैम्प में लघु परिपथ बनाइए। यदि संगलक न पिघले तो पत्ती की और भी पतली कतरन लीजिए। विभिन्न प्रकार की पतली और चौड़ी पत्तियां लेकर प्रयोग करते जाइए। संगलक को ऐसा होना चाहिए कि उचित रीति से परिपथ के


संयोजित होने पर वह न गले, परन्तु परिपथ के 'लघु' होने ही वह गल जाए।



27. सरल संगलक-ग्राही (फ्याज होलडर) बनाना

संगलकों पर प्रयोग करते समय सिगरेटों तथा अन्य सामग्री को लपेटने वाली रांगे की पक्की बहुत काम देती है। इसकी कठरनें काटी जा सकती हैं और गोंद लगे कागज के फीते पर इनको चिपकाया जा सकता है ताकि वे चपटी बनी रहें। धातु की वह पक्की, जिसके पीछे कागज चिपकाया रहता है और जो युद्धकाल में राडार को छिपाने के काम में आती थी, इस प्रयोग के लिए बहुत उत्तम है। कैंची से विविध चौड़ाइयों की कठरनें काट कर विविध गलन-अर्हाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

कागज पकड़ने के बड़े क्लिपों (बुलडाग पेपर क्लिप्स) से इन संगलकों के सिरों को लकड़ी की पट्टी या पटरी (रूलर) पर तान कर रखा जा सकता है। तब यदि इच्छा हो तो इस युक्ति को परिपथ पट्ट (सरकिट बोर्ड) में भी लगाया जा सकता है। विभिन्न लम्बाइयों और चौड़ाइयों की टीन (रांगे) की पक्की से प्रयोग करके गलने वाली धारा का पता लगाना चाहिए।




28. ताप के घटने-बढ़ने के साथ-साथ विद्युत अवरोध किस प्रकार घटता-बढ़ता है

फूल बांधने के काम में आने वाला लोहे का एक बहुत पतला तार लीजिए, जो लगभग 7 मीटर लम्बा हो और उसकी कुंडली बना कर उसे टाँच की बैटरी और बल्ब के साथ श्रेणी-योजित कर दीजिए। कुंडली को जलती दियासलाई से गरम करिए। तब उसका अवरोध इतना बढ़ जाएगा कि धारा घट जाएगी और बत्ती बुझ जाएगी।

29. विद्युत से तांबे की कलई करना

कांच के किसी बरतन में पानी लेकर उसमें इतना तूतिया (कापर सल्फेट) छोलिए कि उसका रंग गाढ़ा नीला हो जाए। तूतिया लोहे का सामान और रंग-रोगन या दवाई की दुकानों से मिल सकता है। शुष्क सेल की बन (केन्द्रीय) घुंडी से आने वाले तार को तांबे के एक टुकड़े से संयोजित करिए और उसे पूर्वोक्त धोल में डाल दीजिए। शुष्क सेल से ऋण (बाहरी) ध्रुव से आए तार को लोहे की एक कील से सम्बद्ध करिए। इस कील को पहले साफ-सुधरा कर लीजिए, इसमें मुरच्चा या तेल आदि न लगा रहे। इस कील को धोल में इस प्रकार रखिए कि वह तांबे को छ पाए। थोड़े ही समय में लोहे पर तांबे की कलई चढ़ जाएगी। इसी प्रकार धातु की अन्य वस्तुओं को ऋण ध्रुव से सम्बद्ध करके और धोल में रख कर उन पर भी कलई की जा सकती है।



ग. चुंबक और वैद्युत ऊर्जा

1. सरल वैद्युत यन्त्र बनाने वाला उपकरण


विजली सम्बन्धी किसी भी काम में शुरू में जिन विभिन्न उपकरणों का प्रयोग होता है, उनमें विद्युत चुंबक, स्विच, इत्यादि इतनी अधिक बातें सर्वनिष्ठ होती हैं कि कुछ बहुधंधी उपकरणों को बना लेना, जो कि कई प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हों, लाभदायक होता है। 11-13 वर्ष के लड़कों के लिए निम्नलिखित उपकरण उपयोगी पाए गए हैं और आधारभूत भागों के बन जाने पर उनको संघटित (असेम्बल) करने में छारी को छोड़ कदाचित ही किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़े। जो-जो युक्तियां यहां सुझाई गई हैं, वे ऐसी नहीं हैं कि अनजान व्यक्ति भी उन्हें अनायास ही सिद्ध कर ले। परन्तु यदि लिखित नियमों के अक्षरशः पालन से वस्तुसिद्धि करके ही कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाए तो फिर विषय सम्बन्धी कठिनाइयों की जानकारी प्रायः होगी ही नहीं।

इस उपकरण में लकड़ी की एक छोटी पतली चैनल होती है, जो सब प्रयोगों में आधार (पैंडी) का काम करती है; वर्गाकार सिरों वाला एक वर्गाकार फ़ार्मर रहता है, जिससे कुंडली बनाने में, जो कि खांचे में काफी कस कर बैठती है, सहायता मिलती है; थोड़े से संयोगी पेच (टरमिनल्स) और टीन के टुकड़े इत्यादि भी रहते हैं। बस इतनी ही वस्तुओं की सहायता से मोर्स ध्वनित्र, गुंजक, घंटी-सूचक, विद्युत चुंबक, प्रतिकर्षण-मापी और आकर्षण-मापी बनाए जा सकते हैं।

कुंडली लकड़ी के दो वर्गाकार टुकड़ों से बनती है। उनके केन्द्रों में ढेव बनाए जाते हैं। दोनों टुकड़े गते की नलिका से सम्बद्ध रहते हैं, जिसे इन छेदों के भीतर सरेस से चिपका दिया जाता है।


पुराने लम्बे बोल्ट का सिर काट कर उसमें एक सुविधाजनक लोहे का कोड (कार) बनाया जा सकता है।

पतली (चैनल)



2. विद्युत धारा का चुंबकत्व प्रभाव

तांबे के तार के दो टुकड़े काटिए और उनके सिरों से विसंवाही पदार्थ हटा दीजिए। इन तारों को एक शुष्क विद्युत सेल से संयोजित करिए और नगे सिरों को चित्र में दिखाई गई रीति से अलग-अलग रखिए। किसी कागज पर लोहे की थोड़ी-सी रेतन रखिए और एक नगे सिरों को उसके बीच से ले जाइए। अब परिपथ में धारा को बहने दीजिए और तार को शीघ्रता



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

से उठाइए और रेतन को देखिए। परिपथ को जोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि रेतन गिर पड़ती है। सेल को अधिक देर तक संयोजित मत रखिए क्योंकि इस प्रकार संयोजित करने से उसकी विजली शीघ्र समाप्त हो जाएगी।


3. विद्युत्-धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने का एक और तरीका

ऊपर के प्रयोग को दोहराइए परन्तु लौह रेतन के बदले चुंबकीय दिक्षूचक का उपयोग करिए। देखिए कि (1) दिक्षूचक को तार के ऊपर रखने पर और (2) उसे तार के नीचे रखने पर सूई के विचलन में क्या अन्तर पड़ता है।

4. काबले से विद्युत् चुंबक बनाना


लौहे का एक ऐसा काबला लें, जो लगभग 5 सेंटीमीटर लम्बा हो और उस पर ढिबरी तथा दो वाशर भी हों। प्रत्येक सिरे पर वाशर रखिए और काबले पर ढिबरी चढ़ा दीजिए (कसने की आवश्यकता नहीं है)। काबले पर दोनों वाशरों के बीच में घंटी (अथवा पंखे में लगने वाला) विसंवाहित तार लपेट दीजिए, किन्तु कुंडली को लपेटना आरम्भ करते समय 30 सेंटीमीटर तार को बाहर ही निकला रख छोड़िए। जब वाशरों के बीच की जगह में तार के फेरों की कई तहें भर दी जाएं तब तार को काट दें, परन्तु इस बार भी लगभग 30 सेंटीमीटर तार बाहर निकला रहे। बाहर निकले हुए तारों को काबले के सिरों के पास भोड़ दीजिए और तब वहाँ चिपकाऊ फीता लपेट दीजिए ताकि तार खुलने न पाए। अब बाहर निकले हुए तारों के सिरों के पास से विसंवाही पदार्थ हटा दीजिए। दो विद्युत् सेलों को श्रेणी-

योजित करिए और अपने विद्युत् चुंबक को उनसे सम्बद्ध करिए। कुछ कील-कांटों को उठाइए। जब कील-कांटे चिपके ही रहें तब बैटरी से एक तार के संयोजन को तोड़ दीजिए। लौहे या इस्पात की बनी अन्य वस्तुओं को उठाइए। जब धारा चालू रहे तब अपने विद्युत् चुंबक के प्रत्येक सिरे के ध्रुव की जांच दिक्षूचक से करिए।




5. नाल छपी विद्युत् चुंबक बनाना

एक पतला काबला या लौहे की एक छड़ लीजिए, जिसका व्यास लगभग 5 मिलीमीटर और लम्बाई 30 सेंटीमीटर हो। इसे मोड़ कर U अक्षर की आकृति का कर दीजिए। इसकी प्रत्येक भुजा पर घंटी वाले तार (अथवा पंखे में लगने वाले तार) को कई बार लपेट कर कुंडली-सी बना दें, तथा वक्र भाग को बिना लपेटे ही छोड़ दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक भुजा के सिरे से आरम्भ करिए। संयोजन के लिए लगभग 30 सेंटीमीटर तार बाहर निकला रहे। इस भुजा पर लगभग तीन तहें लपेटिए। फिर तार को दूसरी भुजा के ऊपरी सिरे पर ले जाइए, ध्यान रहे कि इस भुजा पर तार ठीक उसी प्रकार लपेटा जाए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस भुजा पर भी तार की तीन तहें लपेटिए। जब यह काम समाप्त हो जाए तब तार पर फीता लपेट दीजिए ताकि तार खुलने न पाए। बाहर निकले हुए तारों के सिरों पर



से विसंबाही पदार्थ को हटा दीजिए और तारों को दो शुष्क सेलों से सम्बद्ध करिए और इस प्रकार बनाए गए विद्युत् चुंबक के ध्रुवों की जांच करिए। एक को उत्तर ध्रुव और दूसरे को दक्षिण ध्रुव होना चाहिए। यदि दोनों में एक ही प्रकार का ध्रुव है तो आपने दूसरी कुण्डली को गलत दिशा में लपेटा है। यह आवश्यक है कि इस पर से तार खोल कर उसे विपरीत दिशा में लपेटा जा।^५

इस चुंबक से विविध वस्तुओं को उठाने की चेष्टा करिए। इस चुंबक की सामर्थ्य की तुलना पहले वाले सीधे चुंबक के बल से करिए।



6. विद्युत् चुंबक की सामर्थ्य को बढ़ाना

लोहे के सीधे काबले पर घटी वाले तार के 100 फेरे लपेटिए। इस तार के सिरों को एक शुष्क सेल से सम्बद्ध करिए और गिनिए कि उससे कितनी छोटी कीलें उठाई जा सकती हैं। तीन बार परीक्षा करिए और जो औसत निकले उसे कीलों की संख्या मानिए, जिसे यह चुंबक एक सेल को सहायता से उठा सकता है। अब इस चुंबक में दो (श्रेणी-योजित) सेल लगाइए और प्रयोग को दोहराइए। कीलों की संख्या गिनिए। चुंबक के ऊपर लपेटे गए तारों में विद्युत् धारा को बढ़ा देने से चुंबक की सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?


अब इसी चुंबक पर उसी दिशा में तार के 100 फेरे और लपेटिए। एक सेल लगाइए और देखिए कि आप कितनी कीलें उठा सकते हैं। तीन बार दोहरा कर औसत निकालिए। इस संख्या की तुलना कीलों की उस संख्या से करिए जो एक सेल और 100 फेरे के तार द्वारा उठाई गई थीं। फेरों की संख्या बढ़ाने से सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा? विद्युत् चुंबक की सामर्थ्य को बढ़ाने के बारे में कुछ बताइए।

विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

7. किसी कुण्डली के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना

इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का उपयोग करिए।


एक पोस्ट कार्ड के बीच में वर्गाकार छेद काटिए, जिसमें कि कुण्डली डाली जा सके। कार्ड एक तश्तारी का काम करता है। उस पर लोहे की रेतन छिड़कर और रेतन की जो आकृति बनती है उसे देख कर कुण्डली के भीतर विभिन्न कोड (कोर) रखने के परिणाम का अध्ययन किया जा सकता है।



8. प्रतिकर्षण-चालित मापी बनाना

इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का उपयोग करिए। टीन का लगभग 4 सेंटी-मीटर \times 5 सेंटीमीटर नाप का एक टुकड़ा लीजिए, जिसके एक सिरे पर एक तार को टांके से जोड़ दिया गया हो। यह मापी के चल भाग का काम करेगा। तार के सिरे में एक बूंद टांका बैठाने से वह मीटर के गुरुत्व नियन्त्रक का काम देगा।


जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुण्डली चुंबकित हो जाती है। चल और अचल अंग दोनों एक ही प्रकार से चुंबकित होते हैं। इसी कारण प्रतिकर्षण होता है। अचल भाग नरम लोहे का एक तार होता है। रबड़ के छल्ले से इसे आपने स्थान पर टिका दिया जाता है। इस पन्ने से 0–5 एंपियर के पाठ्यांक मिलेंगे, परन्तु ठीक कितना पाठ्यांक मिलेगा, यह उस तार तथा उन धातुओं के चुंबकीय गुणों पर निर्भर रहेगा जिनका आप प्रयोग करेंगे।



9. आकर्षण-चालित मापी बनाना

इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का इस्तेमाल करिए। इस यन्त्र को बनाने के लिए लकड़ी वाली पनाली में कुंडली को पहले ही की तरह कस कर पनाली को करवट के बल रख दिया जाता है (अर्थात् पनाली का एक पार्श्व सबसे नीचे कर दिया जाता है)। पनाली के भीतर लोहे का क्रोड डाल दिया जाता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रोड टीन के एक टुकड़े को आकर्षित करता है, जिसकी आकृति कदू के बीज के समान होती है। इस टीन की धुरी एक पिन द्वारा बनाई जाती है, जिसे काठ की इष्टिका के सिरे में खोंस दिया जाता है। टीन की नोक पर रंगे का एक महीन तार जोड़ दिया जाता है। यह तार संकेतक का काम करता है। अंशांकन एक कार्ड पर किया जाता है। इस कार्ड को ड्राइंग पिनों से उचित स्थान पर स्थिर कर दिया जाता है।

ऊपर बताई गई वस्तुओं द्वारा जो-जो युक्तियां बनाई जा सकती हैं, उनमें से केवल कुछ का उल्लेख यहां किया गया है। 12 वर्ष का बालक



कई अन्य यन्त्रों को बनाने की रीत स्वयं ज्ञात कर लेगा। उदाहरणार्थ विद्युत् सिगनल, चूषण-दण्ड (संकिंच वार), योजिन (रिले), इत्यादि।


10. तारयन्त्र को चाबी और ध्वनित्र बनाना

इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का फिर उपयोग करिए।

जितना भी तांबे का तार आसपास हो, उसे लपेट कर एक कुंडली बनाइए और उसके सिरों को संयोगी पेचों (टर्मिनल्स) के नीचे कस दीजिए।

तैयार हो जाने पर जब कुंडली बन जाए, तो उसे किसी पनालीदार लकड़ी की पनाली में दबा कर फंसा देना चाहिए और उसके भीतर लोहे का क्रोड डाल देखा चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो थोड़ा कागज ठूस कर क्रोड को मजबूती से स्थिर कर देना चाहिए। टीन की एक पट्टी को, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लम्बी हो, पनाली के साथ की लकड़ी में आरी से एक चौर काट कर उसमें लगभग 10 सेंटीमीटर लम्बी टीन की एक पट्टी को दबा कर लगा दें और एक संयोगी पेच (टर्मिनल) कस कर उसे स्थिर कर दें। एक लकड़ी पनाली के साथ-साथ इस प्रकार कस दी जाती है कि उसके एक छेद में कसे संयोगी पेच को पूर्वोक्त टीन की पत्ती जरा-सा पीछे हटने पर टकरा सके और इस प्रकार वह ध्वनित्र का काम दे सके।

जब स्वच दबाया जाता है तो कुंडली चुंबक बन जाती है। इसलिए टीन की पट्टी खिच जाती




विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और मामग्री

है और किलक ध्वनि के साथ वह धातु के क्रोड पर आवात करती है। जब स्थिति के छोड़ने पर पट्टी कमानी की तरह पीछे छूटकती है तो यह सिरे वाली लकड़ी में लगे हुए संयोगी पेच से टकरा कर क्लैक की ध्वनि करती है।

11. विद्युत् गुंजक बनाना

इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का उपयोग करिए।

परिपथ में थोड़ा हेर-फेर कर देने से ध्वनित्र को गुंजक में बदला जा सकता है। स्मरण रहे कि स्पर्श-बिन्दु शीघ्र ही गन्दे हो जाते हैं और उन्हें छोड़नी से बार-बार खुरचने की आवश्यकता पड़ती है।



12. सिगार बक्स को सहायता से तारयन्त्र और चाबी बनाना


कुंडली के लिए 6.5 से 8 सेंटीमीटर तक लम्बे किसी बोल्ट पर अनेमल किए तांबे के पतले तार (मैग्नेट वायर) के 75 से लेकर 100 फेरे तक लपेटिए। काबले के पेच वाले भाग का इतना अंश खाली रखना चाहिए कि उसमें दो छिपरियां और बक्स के दो पार्श्व लगाए जा सकें, ताकि कुंडली को बक्स के भीतर कसा जा सके। धात्र (आर्मेचर) के लिए गोल सिरे वाला काबला सबसे अच्छा रहता है परन्तु इसकी लम्बाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर होना चाहिए। इसे पेचदार आंख (आइ) और दो छिपरियों से इस प्रकार आरोपित करिए कि उसका सिर कुंडली के नीचे तक पहुंच जाए। लकड़ी की एक इष्टिका पर मोटे कांच का एक टुकड़ा चिपका देने से वह निहाई का काम देती है। निहाई को बक्स में अच्छी तरह चिपका दीजिए।

दोनों को चिपकाने के लिए माहर करने की ताक्षणी को गरम करके लगाइए। परन्तु किसी सरेस से भी काम चल सकता है। निहाई की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि धात्र (आर्मेचर) के ऊपर 3 मिलीमीटर से कम स्थान न छूटे और यदि अधिक स्थान छूटे तो केवल नाम-मात्र को ही। अब कमानी बनानी शेष रह गई है। विद्युत्-धारा के टूटने पर जब कभी धात्र (आर्मेचर) चुंबक में ही चिपक जाता हो तो कमानी उसे बाहर खींच लेगी। इस काम के लिए रबड़ का छल्ला भी अच्छा है। इसे धात्र (आर्मेचर) पर पहना दें और एक चौड़े सिरे वाली कील द्वारा बक्स में कस दें। केवल इतना ही तनाव इसमें रहना चाहिए कि धात्र चुंबक में चिपकने न पाए।

अब चाबी भी बनाइए। लकड़ी का एक टुकड़ा लीजिए, जो लगभग 8×15.5 सेंटीमीटर का हो और लगभग 0.5 सेंटीमीटर मोटा हो। किसी डिब्बे से टीन की एक पट्टी काटिए, जो लगभग 2.5×13 सेंटीमीटर की हो। इसे रेगमाल या इस्पात के घूए से अच्छी तरह रगड़िए ताकि यदि इस पर वार्निश या मुरचा हो तो वह छूट जाए। इसके बदले दीवार वाली धड़ी की कमानी का एक टुकड़ा भी बहुत अच्छा काम देता है। छेद करने के लिए बड़ी कील का उपयोग करना चाहिए और उसे हथैड़े से जोर से ठोकना चाहिए। लुकड़ी के टुकड़े के एक सिरे के पास एक पेच कस कर लगा दीजिए और धात्र की पूर्वोक्त पट्टी को दूसरी ओर के पेच से कस कर लकड़ी पर जड़िए। इसे इस प्रकार जड़ना चाहिए कि जब पट्टी पहले बाले पेच तक दबाई जाए, तो वह दोनों पेचों के बीच के स्थान पर पुल की तरह चढ़ी जाए।

अपने तारयन्त्र ध्वनित्र दोनों सेलों और चाबी को दिए गए चित्र के अनुसार श्रेणी-योजित करिए। अब आप यन्त्र की जांच के लिए सन्देश भेज सकते हैं। यदि चाबी को बार-बार दबाने और छोड़ने पर ध्वनित्र से 'किलक-क्लैक' शब्द न निकले तो इसका अर्थ यह है कि या तो आपके उपकरण

की सन्धियां ढीली हैं या रबड़ के छल्ले को ढीला करने की आवश्यकता है।



13. गुंजक बनाने की एक दूसरी विधि

गुंजक मूलतया वैसा ही होता है जैसा कि तार-यन्त्र; अन्तर केवल इतना ही है कि परिपथ बन्द करने पर 'किलक' ध्वनि के बदले गुंजक से लगातार भनभनाने की ध्वनि निकलती रहती है। इसमें ऐसी व्यवस्था रहती है कि जब तक आप चाबी को दबाएँ रहेंगे तब तक अपने आप परिपथ प्रति सैकड़ कई बार टूटता और जुड़ता रहेगा। धात्र इतने बेग से कम्मायमान होता है कि उसमें से भनभनाने की ध्वनि निकलती है। जब तक चाबी दबी रहेगी तब तक यह ध्वनि निकलती रहेगी। तार की तरह सन्देश भेजने के लिए गुंजक भी अच्छा काम देता है। छोटी भवाहट से बिन्दु और लम्बी से डैश; इसकी ध्वनि रेडियो की सन्देश-पद्धति से मिलती-जुलती है। इसलिए यदि रेडियो से सन्देश भेजना सीखना हो तो तार-यन्त्र की अपेक्षा गुंजक अधिक उपयुक्त होगा।

पेंदी और उस पर लगाई जाने वाली वस्तुओं के लिए तीन टुकड़ों की आवश्यकता होगी, जिनकी लम्बाई-चौड़ाई निम्नलिखित है : 13×15.5 सेंटीमीटर, 5×5 सेंटीमीटर और

5×7.5 सेंटीमीटर। (सबकी मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर हो)। चुंबक को पकड़ रहने के लिए पेंदी की लकड़ी में बर्मी से एक छेद करिए, जो चुंबक के छेद से कुछ छोटा हो। यह छेद एक सिरे से लगभग 6.5 सेंटीमीटर इधर ही रहे। चुंबक बनाने के लिए लोहे का सामान बेचने वालों से 18 सेंटीमीटर लम्बा और 4 सेंटीमीटर व्यास का एक काबला खरीदिए। इस पर दो बांशर चढ़ा दीजिए। ये कुण्डली को अगल-बगल से पकड़ रहेंगे। एक फिरी भी चढ़ा दीजिए, पेच वाले सिरे की ओर पेच 1.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक ही निकला रहे। इस पर सफाई से घंटी वाले तार के 100 फेरे लपेटिए। दोनों सिरों पर लगभग 45 सेंटीमीटर तार कुण्डली से बाहर निकला रहे। या तो अन्तिम फेरे के बाद तार को बांध दीजिए या उस पर फीता लपेट दीजिए, ताकि तार खुले नहीं। अब कुण्डली को पेंदी पर जड़ दीजिए। इसके लिए काबले के पेचदार सिरे को लकड़ी के छेद में ऐंठ दीजिए।


कम्पनकारी (वाइब्रेटर) बनाने के लिए पतले लोहे की 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 10.5 सेंटीमीटर लम्बी पट्टी लीजिए और उसे समकोण पर इस प्रकार मोड़ दीजिए कि एक भुजा 7.5 सेंटी-मीटर लम्बी रहे। यह काम दीवार घड़ी की कमानी का एक टुकड़ा लेकर और उसे नरम करके भी किया जा सकता है। नरम करने के लिए इसे आग से-लाल करके धीरे-धीरे ठण्डा होने देना चाहिए। छोटी भुजा में दो छेद करिए और जोर से हथौड़ा मार कर बड़े कील की नोक को उसमें छुसा दीजिए। पूर्वोक्त तीन लकड़ियों में से सबसे छोटी वाली पर इस पट्टी को पेच से कसिए और इस लकड़ी को पेंदी पर कील से जड़ दीजिए। ध्यान रहे कि कम्पनकारी चुंबक से 3 मिलीमीटर से अधिक की ऊंचाई पर न रहे। यदि यह ऊंचाई ठीक न हो तो बाद में कम्पनकारी को पीछे मोड़ कर इसे ठीक किया जा सकता है।

स्पर्श-बिन्दु के लिए पीतल का एक छोटा-सा काबला लीजिए, जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर लम्बा

विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

और 6 मिलीमीटर व्यास का हो और उस पर दो दिवरियाँ चढ़ी हों। 5 सेंटीमीटर की कानी या इंग्लेरन (एंगल आयरन) भी चाहिए। कोनिया के एक छेद में पीतल वाले बोल्ट को कस दें। फिर कोनिया को 5×7.5 सेंटीमीटर वाली लकड़ी पर इस प्रकार आरोपित करिए कि जब लकड़ी को अपने स्थान पर कीलों से जड़ दिया जाए तो कोनिया की क्षैतिज भुजा कम्पनकारी से लगभग 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रहे।

अब अपने गुंजक को दो सेलों और अपनी बनाई एक चाबी से संयोजित करिए। इस बात का ध्यान रहे कि सब सन्धियाँ कसी रहें और जहां-जहां तार जोड़ा जाए वहां का विसंवाही पदार्थ अच्छी तरह हटा दिया जाए। चाबी को दबाए रखिए और पीतल के काबले को घुमा कर इतना नीचा करिए कि वह कम्पनकारी को स्पर्श करे। यदि वह कम्पन करना आरम्भ न करे तो रेग्माल या इस्पात के धूए से स्पर्श बिन्दु के नीचे के तल को अच्छी तरह चिपका




दें। जब कम्पन आरम्भ हो जाए, तो सलो-पेच को अधिक सूक्ष्मता से मर्मजित करके ध्वनि के स्वर को सुधारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनकारी को भोड़ कर कम्पनकारी और चुंबक के बीच के स्थान को लगभग दोहरे पोस्टकार्ड की भोटाई के बराबर कर देना चाहिए।


अब आप सकें भेजने का अभ्यास कर सकते हैं। यदि कई-एक गुंजक बनाए जाएं तो आप कमरे में कुछ दूरी पर रख कर उन्हें संयोजित कर सकते हैं या आप दो मकानों के बीच सन्देश भेज सकते हो।

14. द्विमार्गी तार प्रणाली को संयोजित करना

उपर के प्रयोग— 12 में बताए गए उपकरणों के समान दो तारयन्त्र ध्वनित्र और दो चाबियाँ लीजिए और फिर यहां दिए गए चित्रों का अनुसरण करके द्विमार्गी तार प्रणाली तैयार करिए।



जब एक चाबी से संकेत भेजा जा रहा हो, तो दूसरी चाबी को दबा कर बांध देना चाहिए ताकि उसके द्वारा धारा धारा बह सके।



15. विद्युत् घंटी बनाना

यदि आप चित्रों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी-सी बेकार वस्तुओं से एक ऐसी घंटी बनाना कितना सरल है, जिसे शुष्क विद्युत् सेलों की सहायता से सुन्दरता से बजाया जा सके।

आपको पटरे के तीन टुकड़ों की आवश्यकता होगी— एक तो पेंदी के लिए, जो लगभग 13×18 सेंटीमीटर का हो; एक चुंबक को अपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए और एक कम्पनकारी (वाइब्रेटर) के लिए, जो कि प्रत्येक लगभग 5×5 सेंटीमीटर नाप के हों। चुंबक बनाने के लिए 8 सेंटीमीटर लम्बे काबले पर चुंबक पर लपेटे जाने वाले सूत-मढ़े तार के या घंटी वाले तार के कम-से-कम 100 फेरे लपेटिए। तार इस तरह लपेटे कि चुंबक बन जाने पर तार के दोनों सिरे कई सेंटीमीटर तक कुंडली के बाहर निकले रहें। इस कुंडली में तार लपेटने से पहले काबले पर दो वाशर और एक डिबरी चढ़ा कर रील-सी बना लें। काबले के पेच वाले सिरे की ओर कम-से-कम 1.5 सेंटीमीटर भाग छूटा रहे। इस भाग को लकड़ी की इष्टिका में कस कर चुंबक को टिकाया जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पेंदी के लगभग मध्य में चुंबक को उचित नाप की कीलों से जड़ दीजिए।


कम्पनकारी (अर्थात् घंटी बजाने वाले पुर्जे) बनाने के लिए दीवार घड़ी की कमानी का 18 सेंटीमीटर लम्बा एक टुकड़ा लीजिए, जिसकी चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर से कम न हो। इसे नरम कर लें। आपके नगर का घड़ीसाज आपको कोई पुरानी कमानी दे देगा। उसका एक टुकड़ा लीजिए और नरम करने के लिए उसे तपा कर लाल करिए। गैस की ज्वाला में या गैस न हो तो रसोई बनाने की आग में ही, कमानी को तपाया जा सकता है। ध्यान रहे कि कमानी लाल हो जाए। तब उसे धीरे-धीरे ठण्डा करिए। ऐसा करने से उसका कमानीपन कुछ कम हो जाएगा और नरम हो जाने के कारण वह चुंबकत्व को धारण नहीं कर सकेगी। एक छेद इसके एक किनारे के बहुत पास करिए और दूसरे सिरे के पास दो छेद करिए, जिनके बीच की दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर हो। एक छेद वाले सिरे पर छेद में छोटे बोल्ट को दो डिबरियों की सहायता से कस कर लगा दीजिए। यह घंटी बजाने की मुंगरी (छोटी हथौड़ी) का काम देगा। दूसरे सिरे पर कमानी का लगभग

4 सेंटीमीटर लम्बा भाग समकोण पर मोड़ दीजिए और उसे लकड़ी की इष्टिका पर छोटे पेचों से कस दीजिए। फिर, इष्टिका को पेंदी पर कस दें। इसे ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि कम्पनकारी कमानी चुंबक से 6 मिलीमीटर पर रहे।

स्पर्श-बिन्दु के लिए आधार बनाने के लिए 2.5 सेंटीमीटर की कोनी या इंलेरन (एंगल आयरन) बहुत अच्छा काम देगी। एक छोटा काबला लीजिए, जिसकी लम्बाई लगभग 10 मिलीमीटर हो। उस पर चित्र में दिखाई गई रीति से दो डिबरियां चढ़ाइए। काबला पीतल का हो तो अच्छा है। इसे पेंदी पर पेचों से जड़िए। अब यह काबला एक सन्तोषजनक स्पर्श का काम करेगा। स्पर्श-बिन्दु मुंगरी वाले सिरे से लगभग 9 सेंटीमीटर हट कर हो। कसने के पहले कम्पनकारी कमानी को चुंबक से उल्टी और केवल इतना मोड़ देना चाहिए कि जब कमानी स्पर्श-बिन्दु से लग जाए तो वह उसे पर्याप्त बल से दबाती रहे। हाँ, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जब स्पर्श-बिन्दु को समंजित कर दिया जाए तो कमानी चुंबक के सिरे से लगभग 6 सेंटीमीटर दूर रहे, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है।


घंटी को आरोपित करने के पहले तारों को संयोजित कर लीजिए और आवश्यक सम्भंजन करिए ताकि मुंगरी सजीव कम्पन करने लगे। तब कम्पायमान मुंगरी को देख कर आप घंटी की ठीक स्थिति का निपरिण मुगमता से कर सकेंगे। तारों के जोड़ने की विधि स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। अब दो विद्युत् सेलों को संयोजित करिए और स्पर्श-बिन्दु को आगे या पीछे हटा कर उसको ठीक करिए। अगर समंजन ठीक हुआ तो घड़ी की कमानी जोर से कम्पन करने लगेगी। यह ध्यान रहे कि सब संधियां ठीक रहें और घड़ी की कमानी, जहां पर स्पर्श-बिन्दु को दबाए वहां उसे रेगमाल से रगड़ कर या खुरच कर पूरी तरह साफ कर दिया जाए। स्पर्श-काबले के सिरे को भी रेगमाल से रगड़ देना चाहिए। जब मुंगरी कम्पन कर रही हो तो यह पता लगाइए कि

घंटी को कहां पर और किस स्थिति में लगाना चाहिए और वहीं उसे पेंदी पर जड़ दें। कमानी को थोड़ा-बहुत मोड़ने अथवा स्पर्श पर दाव घटाने-बढ़ाने से या चुंबक तथा कम्पनकारी के बीच के स्थान में परिवर्तन करने या स्पर्श-विन्दुओं पर फिर से रेग्माल फेरने से शायद यन्त्र और भी अच्छा काम दे सके।



16. सरल टेलीफोन लाइन लगाना

तांबे की चादर के दो टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग 10 सेंटीमीटर वर्ग का हो। प्रत्येक में छेद करके लम्बा घंटी वाला तार जोड़ दें, परन्तु इसके पहले तारों के सिरों से विसंवाही पदार्थ हटा दें। अच्छा यह होगा कि तारों को तांबे की चादरों पर झाल दिया जाए। किसी पुराने शुष्क सेल से कार्बन की छड़ निकाल लीजिए। उसे तोड़ कर टुकड़े-टुकड़े कर डालिए, जो लम्बाई में लगभग 5 मिलीमीटर के हों। एक नाप के टुकड़ों को चुनिए। लगभग मुट्ठी भर टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर एक सिगार बक्स और एक अलार्म घड़ी लीजिए, अलार्म घड़ी को बक्स पर रखिए, घड़ी का मुँह ऊपर रहे। तांबे की एक पट्टी को अलार्म घड़ी पर रखिए। इस पट्टी के तार को दो श्रेणी-योजित शुष्क सेलों से संयोजित करिए। बैटरी के दूसरी और टेलीफोन के चोंगे को संयोजित करिए। इस चोंगे के दूसरे तांबे के टुकड़े से संयोजित करिए। अब कार्बन के टुकड़ों को तांबे के एक टुकड़े पर रखिए और दूसरे टुकड़े से उसे ढक दें। चोंगे में कान लगा कर सुनिए। आपको घड़ी की टिक-टिक सुनाई पड़ेगी। सम्भवतः आपको ऊपर वाले तांबे के टुकड़े को ज़रा-सा इधर-उधर खिसका कर उसे समंजित करना पड़ेगा।



17. सरल टेलीफोन प्रेषी बनाना

सिगार बक्स के ऊपरी तल में छुरी की नोक से दो खांचे काटिए, जो समानान्तर हों और एक-दूसरे से 4 सेंटीमीटर पर हों। प्रत्येक खांचे में एक रेजर ब्लेड कस कर बैठा दीजिए। ब्लेड अपने स्थान पर मज़बूती से फँसे रहें। यदि वे ढीले हों तो उन्हें मुहर वाली गरम लाख से सुस्थिर कर दें। इसके लिए ब्लेडों को गरम करिए तथा लाख पर रगड़िए और फिर तुरन्त, गरम दशा में ही, उनको खांचों में बैठा दीजिए। विद्युत-संयोजन के लिए प्रत्येक ब्लेड में एक तार लगा दें। अब पेंसिल के एक छोटे टुकड़े को दोनों ओर से छील कर नुकीला कर लें और उसे इन दोनों पड़ोसी ब्लेडों की धार पर रख दें। ध्यान रहे कि पेंसिल इतनी दूर तक छीली गई हो कि बीच का काला कार्बन, ब्लेडों को ही छूता रहे न कि लकड़ी को। आपका टेलीफोन तैयार हो गया।

कहीं से एक टेलीफोन का चोंगा प्राप्त करिए, जहां से वह आसानी से मिल सके। यदि आप टेलीफोन कम्पनी के किसी कर्मचारी को जानते हैं तो सम्भव है कि वह कोई पुराना चोंगा आपको दिला सके। चित्र में दिखाई गई रीति से शुष्क सेलों को संयोजित करिए।

सन्धियों की परीक्षा के लिए चोंगे को कान में लगाइए और पेंसिल को उठाइए-बैठाइए। उसे इधर-उधर खिसकाइए। तब फोन में वैसी ही खड़खड़ाहट सुनाई पड़नी चाहिए जैसी रेडियो में आकाशीय विद्युत के कारण सुनाई पड़ती है।


अपने फोन को बातचीत सुनने के योग्य बनाने के लिए यह विधि अपनाइए—बक्स पर एक अलार्म घड़ी रखिए; फोन में सुनते रहिए और पेंसिल की स्थिति को इस प्रकार समंजित करिए कि घड़ी

विज्ञान-शिक्षण के लिए मूनेस्को का आकर ग्रन्थ

के टिकटिकाने की ध्वनि साधारण से दुगुनी या तिगुनी तेज़ सुनाई पड़े। जब सुग्राही स्थिति मिल जाए तब घड़ी को हटा दीजिए और बक्स में सीधे और स्पष्टता से कुछ बोलने पर आपको सुनाई पड़ना चाहिए। हाँ, आपको अपने दूसरे कान को बन्द करना होगा या फिर तार ही इतना लम्बा होना चाहिए कि वह आपसे दूर रहे।



सिंगार बक्स से अपने कहे गए शब्दों को पुनः सुनना और उन्हें तार की सहायता से दूर भिजाना जादू से कुछ कम नहीं है। परन्तु यहाँ तो यह काम पूरा ही ही गया है। समझने की चेष्टा करिए कि यह कैसे हो पाता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि आपके स्वर की ध्वनि-तरंगें बक्स को कम्पायामान कर देती हैं। अपनी ग्रंगुलियों को बक्स पर रख कर कुछ बोलिए और बक्स में होने वाली कम्पनें का अनुभव करिए। बक्स की कम्पन के कारण पेसिल भी उसी तरह खड़खड़ाने या कम्पन करने लगती है। इसके फलस्वरूप विद्युत-धारा की एक छूपता में विकार उत्पन्न होता है और वह न्यूनाधिक होने लगती है। चोंगे के विद्युत-चुंबक में यही धारा जाती है। इसी से चोंगे का तनुपट (डायाफाम) भी खड़खड़ाने या कम्पन करने लगता है और उससे उसी प्रकार की ध्वनि-तरंगें निकलने लगती हैं, जिस प्रकार की तरंगें लाइन की दूसरी ओर बक्स पर पड़ती हैं। बक्स को रसाइंग और चोंगे में उसकी ध्वनि सुनिए। बक्स पर बालू के कण गिराइए और

फोन में उनके गिरने की ध्वनि सुनिए। मेज़ को ठोकिए और फोन में सुनिए कि क्या इन मरीक्षणों में दिए गए विवरण की पुष्टि होती है।



18. चुंबक और कुंडली की सहायता से विद्युत् उत्पन्न करना

इस प्रयोग के लिए आपके उस सुग्राही धारा-परिचायक की आवश्यकता पड़ेगी जिसे आपने खण्ड-ख के प्रयोग-४ में बनाया था। घंटी वाले तार को लगभग ५० फैटे देकर एक कुंडली बनाइए। सिरे वाले तारों को धारा-परिचायक से सम्बद्ध करिए। ये तार इतने लम्बे रहें कि परिचायक के दिक्सूचक पर कुंडली के पास के चुंबक का कोई प्रभाव न पड़े। कुंडली को स्थायी नाल-चुंबक के एक ध्रुव के ऊपर ले जाइए। दिक्सूचक को देखते रहिए। अब कुंडली को चुंबक-ध्रुव से अलग ले जाइए और दिक्सूचक को देखिए। कुंडली को दूसरे ध्रुव के पास ले जाहए और हटा लीजिए। अब कुंडली को स्थिर रख कर चुंबक की एक भुजा को शीघ्रतापूर्वक कुंडली के भीतर डाल दीजिए। कुंडली जब कभी चुंबकीय बल-रेखाओं को काटती है तब कुंडली में विद्युत्-धारा उत्पन्न हो जाती है।




19. हाथ के जनित्र की सहायता से विद्युत् उत्पन्न करना

इस प्रयोग के लिए पुराने ढंग की दीवार वाले टेलीफोन के एक मैग्नेटो की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह का टेलीफोन आज भी खेतों पर बने मकानों में काम आता है (यह अमरीका की बात है)। यदि आपका कोई मित्र टेलीफोन कम्पनी में काम करता हो तो बहुत सम्भव है कि वह आपको एक मैग्नेटो मुफ्त ही दिला सके, क्योंकि अब उनके बदले बहुधा आधुनिक प्रकार के टेलीफोन लगाने लगे हैं।

बक्स से मैग्नेटो को निकाल लें और इसे लगभग 15.5×30 सेंटीमीटर के पटरे के सिरे की ओर लगाएं। पटरे के दूसरे सिरे के पास एक साधारण बल्बग्राही को कस कर लगाइए। इस ग्राही के संयोगी पेंचों (टर्मिनल्स) को जनित्र (जेनरेटर, मैग्नेटो) से संयोजित करिए। होल्डर में 10 वाट, 100 वोल्ट का बल्ब लगाइए।

अब इस यन्त्र से काम लिया जा सकता है। हृत्ये को इस बैग से घुमाइए कि बल्ब जलने लगे। हृत्ये को धीरे-धीरे घुमाने पर बल्ब की रोशनी कम हो जाती है। तेज़ घुमाने पर रोशनी बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? अपनी आंखें बन्द कर लीजिए और जनित्र को अपने हाथ से चलाते जाइए। किसी से कहिए कि कभी वह बल्ब निकाल ले, कभी लगा दे। क्या आप इसके आधार पर कि हृत्ये को घुमाने में कितना बल लग रहा है, यह बता सकते हैं कि बल्ब कब लगा हुआ है और कब निकला हुआ है? जब लैम्प जलता रहता है तो



विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

हृत्ये को घुमाने में अधिक बल क्यों लगता है? साइकिल में लगाए जाने वाले डायनमो से भी यह प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु तब बल्ब के जलने या बुझने पर आवश्यक बल की मात्राओं का अन्तर प्रायः नहीं के बराबर होता है।


20. पिन और कार्क से मोटर बनाना

इस मोटर का भाव (आर्मेचर) विस्वाहित पतले तार द्वारा बनाया जाता है। काग में रेजर ब्लेड से खांचे काट कर तार को इसमें लपेटा जाता है। काग के प्रत्येक सिरे में एक-एक पिन खोंस कर उनसे धुरी का काम लिया जाता है। तार के दोनों सिरों को (नंगा करके, अर्थात् विसंवाही पदार्थ हटा कर) दो अन्य पिनों पर लपेट दिया जाता है। ये पिनें संयोगी पेंच (टर्मिनल) की तरह काम करती हैं और इन्हीं के द्वारा धारा कुंडली में प्रविष्ट होती है और निकलती है। पतले टीन या तांबे की पत्तियों की कतरनों से ब्रूश का काम लिया जाता है। इन्हें पेंदी पर ड्राइंग पिनों से जड़ दिया जाता है।

इन सब के ऊपर यथास्थान एक नाल-चुबक को रख देने से ढांचा (मॉडल) पूरा तैयार हो जाता है। इसे एक शुष्क सेल से चालू किया जा सकता है।


बहुत छोटा धाव (आर्मेचर) तो कारों के बिना ही बनाया जा सकता है, पिन भी एक ही लगती है। कुंडली बनाने के लिए तार को पहले पेसिल के चारों ओर लपेटा जाता है और फिर उसे पेसिल से निकाल कर उस पर एक तागा बांध दिया जाता है। पिन पर गोद लगा कागज चिपका कर पिन को एक बेलन-सा बना दिया जाता है और उसी पर कुंडली के सिरे तागे से बांध दिए जाते हैं। इस प्रकार दिक्षित्वर्तक (काम्युटेटर) बन जाता है।

टीन के छोटे टुकड़ों को मोड़ कर आधार बना दिया जाता है और पतले तार दिक्षित्वर्तक तक धारा लाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं।



21. आकर्षण-चालित मोटर बनाना

इस मोटर में नरम लोहे के धात्र (आर्मेचर) को एक विद्युत् चुंबक द्वारा आकर्षित किया जाता है। धात्र में एक धारा-वियोजक लगा देने से सतत (लगातार) गति प्राप्त होती है। धारा-वियोजक के कारण मोटर के विविध खण्ड बारी-बारी से आकर्षित होते हैं। इसमें लोहे की 7 सेंटीमीटर लम्बी कीलें लगाई जाती हैं, जिन्हें लोहे की चादर से ठप्पा मार कर काटा जाता है। (नरम लोहे की बनी अन्य प्रकार की कीलों से भी काम चल सकता है)। धात्र के लिए 6 कीलों की आवश्यकता पड़ेगी



और एक कील विद्युत् चुंबक के लिए चाहिए।

धात्र बनाने के लिए गत्ते से तीन वृत्त काटिए, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास का रहे। इनमें से एक में बराबर-बराबर दूरियों पर त्रिज्या की दिशा में 6 चीर करिए, जिनमें कील बैठ सकें और शेष वृत्तों को इस पर चिपका दीजिए—एक इस ओर, दूसरा दूसरी ओर। फिर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या से धात्र पर एक वृत्त खींचिए और उसकी परिधि पर 12 छेद बराबर-बराबर दूरियों पर करिए। इन छेदों में 18 नम्बर का नंगा (बिना विसंवाही पदार्थ वाला) तांबे का तार इस प्रकार डाल दीजिए जैसे सिलाइ की जाती है। इस प्रकार 6 स्पर्श (कार्टेक्ट्स) बन जाते हैं। इस तार के सिरों को धुरी से संयोजित कर देना चाहिए। इसके लिए तार के खुले सिरे को धुरी पर लपेट देना ही काफी होगा। धुरी के लिए बुनने की (धातु की) सलाई का उपयोग किया जाता है।

विद्युत् चुंबक बनाने के लिए गत्ते के दो वृत्तों के भीतर में एक कील डाल दें। इन वृत्तों के बदले पानी के नल के पुराने वाशरों से काम लिया जा सकता है। ये वृत्त या वाशर कुंडली की बगली का काम देते हैं। कील पर घंटी के विसंवाहित तार के दो फेरे लपेटिए। तैयार हो जाने पर इस विद्युत् चुंबक को एक पटरे में जड़ दीजिए। यह पटरा पेंदी का काम देगा।

साधारण डिब्बे के टीन से दो कतरने काट कर धात्र के लिए आधार बनाइए। धुरी के लिए और पटरे पर जड़ने के लिए नुकीली कील से छेद करिए।

पुर्जों को एकत्र करने की रीति को तथा अन्य व्यौरों को, जिनमें वह नंगा तार भी सम्मिलित हैं

विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

जो स्पृशं करने का काम करता है, चित्र में देखा जा सकता है।

यदि कम बोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा उपलब्ध हो, उदाहरणार्थं घंटी के लिए बने परिणामित्र (ट्रांसफार्मर) से, तो बिना धारा-वियोजक के भी काम चल जाएगा। तब प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत् चुंबक में सीधे जाने देना चाहिए। थोड़े से अन्यास के बाद धात्र को ठीक ऐसे बेग से नचाया जा सकता है कि वह धारा के प्रत्यावर्तन के साथ-साथ चले। यह बिजली से चलने वाली विद्युत् घड़ी की मोटर की क्रिया को स्पष्ट कर देती है।

22. एक अन्य सरल मोटर

इस सरल मॉडल से आपको वास्तविक सन्तोष मिलेगा। इसमें बैटरी की धारा से क्षेत्र-चुंबक (फील्ड मैग्नेट) भी उत्तेजित होता है और धात्र कुंडली भी।

20×25, 5 सेंटीमीटर की पेंदी के लिए एक पटरा तैयार करिए। पटरे के ठीक केन्द्र में एक छोटा-सा छेद करिए और उसमें नीचे से 15.5 सेंटीमीटर लम्बी कील ऊपर को निकालिए। दो अन्य 15 सेंटीमीटर की कीलें लोजिए और उन पर घंटी वाले विसंवाहित तार के 100 फेरे सफाई से लपेट दीजिए। प्रत्येक सिरा कुंडली से लगभग 30 सेंटीमीटर बाहर निकला रहे। इन कीलों को पेंदी में एक-दूसरे से 15.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ठोक दीजिए। केन्द्रीय कील से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटी कीलें, एक इधर और एक उधर, इस प्रकार ठोक दें कि इन कीलों को मिलाने वाली रेखा पटरे की लम्बाई से 45 का कोण बनाए। प्रत्येक कुंडली के एक सिरे पर से विसंवाही पदार्थ हटा कर इन छोटी कीलों पर लपेटिए (एक कुंडली के सिरे को एक पर, दूसरी के सिरे को दूसरे पर) और शेष को इस प्रकार मोड़ दें कि वह केन्द्रीय कील को कमानी की तरह छता रहे। ये भाग बुश की तरह काम करेंगे। ध्यान रहे कि क्षेत्र कुंडलियां उचित दिशा में लपेटी जाएं।

चित्र में लपेटने की दिशा आदि के ब्यौरे पूर्ण रूप से दिखाए गए हैं। अन्य किसी रीति से यन्हे काम नहीं कर सकेगा। कुंडलियों के दूसरे सिरों को पेंदी के कीलों में जड़े बेचों पर लपेट देना चाहिए।


अब आपके क्षेत्र चुंबक और बुश, जो मोटर के चार परमावश्यक भागों में से दो हैं, तैयार हैं। केवल धात्र कुंडली और दिक्परिवर्तक (काम्युटेटर) इन दोनों को ही बनाना शेष है। 4 सेंटीमीटर व्यास के एक काग के माथे के पास बर्पी से एक बड़ा छेद करिए और उसमें 13 सेंटीमीटर लम्बी एक कील डाल दीजिए। उसके प्रत्येक सिरे पर घंटी के विसंवाहित तार के 40 फेरे लपेटिए। ध्यान रहे कि लपेटने की दिशा वही रहे जो दिखाई गई है। खुले सिरों में लगे हुए विसंवाही पदार्थ को खुरच डालिए। अब काग के केन्द्र को गोल रुखानी से सफाई से काट कर निकाल डालिए। चाकू से इस गड्ढे को ठीक गोल कर दीजिए और इस गड्ढे में 10.5 या 13 सेंटीमीटर लम्बी परीक्षण-नलिका का बन्द सिरा कस दीजिए। बस, धात्र कुंडली तैयार हो गई।

अब दिक्परिवर्तक बनाइए। ताबे की चादर से दो आयताकार टुकड़े काटिए; लम्बाई लगभग 4 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई इतनी हो कि परीक्षण-नलिका पर चढ़ाने पर पूरी परिवर्ति लगभग ढक जाए, केवल 6 मिलीमीटर का स्थान बचा रहे। इन टुकड़ों को बेलनाकार आकृति दीजिए ताकि वे परीक्षण-नलिका पर लगभग कस कर बैठ सकें। प्रत्येक में एक छोटा छेद कर दें और धात्र पर लपेटे गए तार के खुरचे सिरों को इन छेदों में पहना कर ऐंठ द या ज्ञाल दें। तब इन दिक्परिवर्तक पत्रों को परीक्षण-नलिका पर उचित स्थान में रख कर चिपकाऊ फीते से सिरे पर और एकदम नीचे अच्छी तरह बांध दीजिए।

अब आपका धूर्णक (रोटर), जो धात्र और दिक्परिवर्तक से बनता है, पूरा हो गया। इसे ऊर्ध्वाधर धुरी के ऊपर ऊर्ध्वाधर रख दीजिए और

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

बुशों का दिक्परिवर्तन से स्पर्श करा दीजिए। अब यदि आपके फेरे और सम्बिधां दिखाई गई रीति के अनुरूप हैं तो उन्हें एक या दो विद्युत् सेलों से संयोजित करिए। तब धात्र को जरा-सा ढकेल देने पर वह सजीवता से नाचने लगेगा। यदि धात्र नहीं चलता तो बुशों की परीक्षा करिए कि वे दिक्परिवर्तक को हल्के-हल्के परन्तु निश्चित रूप से छू रहे हैं या नहीं। बुशों के कोण को बदल देने से भी कुछ सहायता मिल सकती है। इस बात की जांच करने के लिए छोटी कीलों पर से बुशों को खोल लीजिए और उन्हें अंगुलियों से दबा कर इस प्रकार पकड़िए कि वे दिक्परिवर्तक पत्रों को हल्के-हल्के छते रहें। दोनों तार बराबर परस्पर समानान्तर रहें। अब किसी सहायक से कहिए कि वह धात्र को अपने हाथ से घुमाता रहे और आप बुशों की दिशा बदलते रहिए। उस स्थिति को देखिए जहां धात्र सबसे अधिक वेग से नाचता है और बुशों को उसी स्थिति में स्थिर करिए। थोड़े धैर्य से सफलता अवश्य मिलेगी और यह रोकक और शिक्षाप्रद खिलौना बनाने में आपको जो परिश्रम करना पड़ा होगा उसका आपको पूर्ण सन्तोष होगा।



८. विद्युत् ऊर्जा से उष्मा और प्रकाश

१. विद्युत् ऊर्जा से उष्मा और प्रकाश कैसे पाए जाएं

इस अध्याय के खण्ड-५ का प्रयोग-२४ देखिए।

२. सरल धारा-नियन्त्रक बनाना

आगे आने वाले कुछ प्रयोगों में आपको विद्युत्-धारा की सामर्थ्य को घटाने की आवश्यकता पड़ेगी।

परिपथ के किसी बिन्दु पर धारा को किसी मंद संवाहक द्वारा प्रवाहित करके धारा की सामर्थ्य घटाई जा सकती है। इस मंद संवाहक को प्रतिरोध (रेजिस्टेन्स) या धारा-नियन्त्रक (रियोस्टेट) कहते हैं। कई तरह के धारा-नियन्त्रक बनाए जा सकते हैं। इनमें से जल धारा-नियन्त्रक से काम लेना आपके सिए अधिक सुगम होगा। पानी विद्युत् का मंद

संवाहक है। इसलिए विद्युत्-पथ के एक भाग का केवल जल होना धारा की सामर्थ्य को कम कर देगा। विशुद्ध जल द्वारा कुछ भी विद्युत् प्रवाहित नहीं हो पाती। पानी में नमक के कुछ कण डाल देने से पानी आपके काम के लायक हो जाएगा। फिर, नमकीन पानी में विद्युत् को जितना ही दूर चलना पड़ेगा, विद्युत् की सामर्थ्य उतनी ही अधिक घटेगी। इसलिए यदि आप ऐसा उपाय कर सकें कि आप इस दूरी को इच्छानुसार घटा-बढ़ा सकें, तो आप ग्रावश्यकतानुसार धारा को भी घटा-बढ़ा सकेंगे।

इस प्रकार के धारा-नियन्त्रक बनाने की एक सुविधाजनक रीति चित्र में दिखाई गई है। पायरेक्स कांच (अथवा साधारण कांच) या चीनी मिट्टी की थाली या गहरी तस्तरी लीजिए, जिसका व्यास 20 या 30 सेंटीमीटर हो,


विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

छड़ों का उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया भी गया है।

3. तार को विद्युत् से गरम करके लाल करना


इस प्रयोग द्वारा आपको यह अध्ययन करने का अवसर मिलेगा कि विद्युत् द्वारा विविध प्रकार के तार किस प्रकार गरम किए जाते हैं। लकड़ी का एक आधार बनाइए, जिसकी पेंदी 15×15 सेंटीमीटर की हो और जिसमें लगभग 20 सेंटी-मीटर ऊंची दो खड़ी पट्टियां हों। इन पट्टियों के माथे में एक पेच या कील अंशतः घुसा दीजिए। अब सर्पिलाकार तंतु (फिलामेंट) तैयार करने के लिए 30 से 24 तक का किसी भी नम्बर का लोहे का तार लीजिए, जो लगभग 1.5 मीटर लम्बा हो और पेंसिल पर उसकी तह लपेटिए। इसे खिसका कर पेंसिल से उतार लीजिए और पूर्वोक्त खड़ी पट्टियों में जड़े पेचों या कीलों के बीच इसे लींच कर बांध दीजिए। इसके लिए तार के सिरों को पेच या कील पर लपेट दीजिए। इसे एक जल धारा-नियन्त्रक और बल्बग्राही से संयोजित करिए, जैसा कि प्रयोग-2 में बताया गया है (परन्तु यह काम सावधानी से करिए)। ध्यान रहे कि साकेट के भीतर प्लग ढालने से पहले (अर्थात् बिजली चालू करने से पहले) धारा-नियन्त्रक यथासम्भव अधिक खुला रहे अर्थात् जल में डूबे विद्युदग्र दूर-दूर रहें। तब प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) धीरे-धीरे कम करिए और देखिए कि किस प्रकार तार अधिकाधिक गरम होता जाता है, यहां तक कि यह चटक लाल रंग का हो जाता है। अपने हाथ को तार के पास लाकर उसकी आंच को देखिए। कागज के टुकड़े या लकड़ी की सलाई से तार को छुइए। उसमें आग लग जाएगी। अब धारा को इतना बढ़ाइए कि तार जल या पिघल जाए।

निकोम तार का एक टुकड़ा लीजिए और उसे लोहे के तार के स्थान पर लगा दीजिए। निकोम तार वही है जो हीटरों में लगता है। क्या जलने के पहले अन्य तारों की अपेक्षा यह अधिक गरम किया जा सकता है?




(चेतावनी : धातु की धाली या बरतन का उपयोग मत करिए)।

डिब्बों के दो ढक्कन लीजिए, जो धातु के बने हों और जिनका व्यास लगभग 8 सेंटीमीटर हो। प्रत्येक के पार्श्व में एक छेद करिए और विसंवाहित तारों के साफ किए गए सिरों को उनमें जोड़ दीजिए। ये तार संयोजक का काम देंगे। इन ढक्कनों को एक-दूसरे से कुछ सेंटीमीटरों की दूरी पर रखिए और प्रत्येक में एक काफी भारी पत्थर रख दीजिए ताकि ढक्कन जहां रखे जाएं वहीं ढूबे रहें। अब पिसे हुए साधारण नमक को चाय के चम्मच में समतल भर लीजिए और उसे दो लिटर पानी में घोलिए। इस घोल को धाली या तश्तरी में इतना डालिए कि दोनों ढक्कन पूर्णतया ढूब जाएं। आपका जल धारा-नियन्त्रक तैयार है। आप इसे किसी भी परिष्य में डाल सकते हैं और केवल ढक्कनों के बीच की दूरी को बदल कर धारा की सामर्थ्य का इच्छानुसार नियन्त्रण कर सकते हैं। ढक्कनों को हटाने के लिए किसी विसंवाही पदार्थ का उपयोग करना चाहिए और पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। डिब्बे के ढक्कनों के बदले कार्बन की



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

क्या इस प्रयोग से आपको विद्युत् उष्मक (हीटर) की निर्माण-पद्धति के बारे में कोई संकेत मिलता है ?



4. विद्युत्-चाप उष्मक (आकं हीटर) बनाना

चमकीले-से-चमकीले जिस प्रकाश की हमें जानकारी है, वह 'विद्युत्-चाप' है। साथ ही यह मनुष्य को ज्ञात लगभग सबसे अधिक प्रचण्ड उष्मा का स्रोत भी है। कार्बन-दण्ड के सिरे पर सबसे अधिक चमकीला विन्डु 3760 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर पहुंच जाता है। खौलते पानी का ताप केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है।

अवश्य ही आप भी विद्युत्-चाप उष्मक या भट्टी बनाना चाहेंगे, विशेषकर जब इसे बनाने में केवल पौधे वाले एक छोटे गमले, टार्च के पुराने विद्युत् सेलों के दो कार्बन-दण्ड, धातु की दो नलिकाएं जो पर्दा लटकाने की छड़ि से काटी जा सकती हैं और लकड़ी के कुछ टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है।


एक साधारण 8 सेंटीमीटर व्यास का पौधों वाला गमला लीजिए, जिस पर चमक वाला मसाला न चढ़ा हो। पेंदी से 2.5 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई पर ही दो छेद आमने-सामने करिए। यदि

आपके पास बर्मी न हो तो तिकोनी रेती से अथवा धातु की किसी भी नुकीली वस्तु से, ये छेद किए जा सकते हैं। जब आर-पार छेद हो जाएं तब रेती से या अन्य किसी उपयुक्त वस्तु से छेदों को सर्वत्र एक व्यास का कर दीजिए। ये छेद इतने बड़े रहें कि उनमें कार्बन-दण्ड सुगमता से चले जाएं। अब पर्दा टांगने की खोलली छड़ि से दो टुकड़े काटिए, प्रत्येक की लम्बाई लगभग 15 सेंटीमीटर हो। यदि धातु काटने का और कोई अच्छा साधन न हो तो पर्दे की छड़ि को, जो बहुत पतली चादर की बनी होती है, चारों ओर तिकोनी रेती से रेत कर सुगमता से तोड़ा जा सकता है। धातु की इन नलिकाओं में कार्बन-दण्डों को कस कर घुसा दीजिए। अब भट्टी के बे सब अवयव तैयार हो गए हैं जो धातु से बनते हैं।

इन भागों को यथारथान पकड़ने के लिए एक कंकाल चाहिए। लगभग 15×15 सेंटीमीटर के पटरे से पेंदी बनाइए और अगल-बगल लकड़ी की दो ऊर्ध्वाधर पतली पटरियाँ जड़ दीजिए, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लम्बी हों। पेंदी पर आधी इंट या चपटा पथर रख दीजिए और उसके ऊपर पूर्वोक्त रीति से तैयार किए गए गमले को रखिए। काले ऐस्बेस्टस सीमेंट से यदि इंट को पेंदी पर चिपका दिया जाए और गमले को इंट पर, तो आपका उष्मक (हीटर) और भी सन्तोषप्रद हो जाएगा। यह सीमेंट लोहा या पाइप बेचने वालों की दुकान में मिलता है (काला ऐस्बेस्टस न मिले तो ऐस्बेस्टस की चादर लेकर उसे इंट के ऊपर तथा नीचे रखा जा सकता है)। चिपकाने की रीति यह है कि थोड़ा सीमेंट पेंदी में चुपड़ कर गमले को अपने स्थान पर दबा दिया जाए। यह पता लगाइए कि खड़ी लकड़ियों में किस ऊंचाई पर छेद किए जाएं ताकि जब उनमें और गमले के छेदों में छड़े डाली जाएं तो दोनों छड़े एक सीधे में रहें। छेद इतने बड़े रहें कि उनमें धातु वाली नलिकाएं सुगमता से आगे-पीछे खिसक सकें। इतना कर चुकने पर छेदों को छेदों में डाल दीजिए। तब आपकी भट्टी तैयार है।

विद्युत के अध्ययन के लिए व्ययोग और सामग्री

भट्टी को परिपथ में चित्र में दिखाई गई विधि से जल धारा-नियन्त्रक और प्लग से संयोजित करिए। प्रयोग घ-6, पृष्ठ 244 पर बताई गई विधि से चाप बनाइए। उनके सिरों पर विसंवाही फीता (या रबड़) लपेटे बिना या हाथ में (रबड़ का) दस्ताना पहने बिना छड़ों को छूना या पकड़ना नहीं चाहिए। भट्टी पर काम करते समय गहरे रंग का चश्मा पहन लेना अच्छा रहेगा।



5. विद्युत सेकनी (टोस्टर) बनाना

आपको इस बात का पता लगाना होगा कि 24 नम्बर के निक्रोम तार के 5 मीटर के टुकड़े को (तनिक भी कम नहीं) पाव रोटी के एक टुकड़े के बराबर स्थान में किस तरह सुधीते से लगाया जाए। निक्रोम तार घर में व्यवहृत किए जाने वाले सभी विद्युत यन्त्रों में लगा रहता है। एसा तार बिजली का सामान बेचने वालों की दुकान से मिल सकता है।

तार को सर्पिलाकार रूप में लपेटने का ढंग चित्र में दिखाया गया है। 24 नम्बर के तार से 5 मीटर नाप का एक टुकड़ा लोजिए और उसे 5 मिलीमीटर व्यास की किसी छड़ पर सफाई से लपेटिए। तार को इस प्रकार लपेटिए कि फैरे

एक-दूसरे को छूते रहें। कहीं अन्तर पड़ जाए तो तार खिसका कर उसे ठीक कर दीजिए। नियमित रूप से सर्वत्र इसी प्रकार से तार लपेटा जाए। परन्तु प्रत्येक सिरे पर लगभग 10 या 12 सेंटी-मीटर तार अवश्य छोड़ रखना चाहिए। अब छड़ पर से खिसका कर कुंडली को उतार लीजिए और इसे धीरे-से खींच कर इतना तानिए कि छोड़ने पर वह लगभग 75 सेंटीमीटर लम्बा सर्पिल बन जाए। अब सर्पिल के प्रत्येक सिरे पर लगभग 10 सेंटीमीटर लम्बा तांबे का तार कस कर ऐंठ दीजिए। यह तार निक्रोम तार में उस स्थान पर ऐंठ कर लगाया जाए जहां से वह सर्पिल होना आरम्भ करता है। तांबे के ये तार बिजली ले आने तथा ले जाने का काम करेंगे।


तंतु (निक्रोम तार) को लगाने के लिए इजिन के पुर्जे बेचने वाली किसी दुकान से 30 सेंटीमीटर का वर्गाकार ऐस्बेस्टस बोर्ड लीजिए। पेंडी के लिए इसमें से 15×20 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लीजिए। बगलों के लिए 2.5×15 सेंटीमीटर की चार पट्टियां भी काटिए। दिखाई गई रीति से इनको जोड़िए। जोड़ने के लिए बर्मी से छढ़ करके छोटे पेचों का उपयोग किया जा सकता है, या उन्हें भट्टी के सीमेंट से जोड़ा जा सकता है। भट्टी के लिए बनाया गया ऐस्बेस्टस वाला सीमेंट बहुत अच्छा होता है। यह लोहा या पाइप बेचने वालों से मिल सकता है (भारत में यह कदाचित् ही कहीं मिले)। अब किसी पटरे से एक टुकड़ा काटिए, जिसे पेंडी के नीचे जड़ा जा सके। ऐस्बेस्टस बोर्ड की त्रै पट्टियां रख कर, ताकि बीच में हवा के लिए स्थान छूट जाए, ऐस्बेस्टस वाले चौखट को पटरे पर जड़ दीजिए।

अब तंतु लगाइए। सामन वाले सिरे के पास बराबर दूरियों पर चार छेद करिए और पार वाले सिरे के पास तीन छढ़ बराबर दूरियों पर। इन छढ़ों में छोटे पेच कुछ दूर तक कस दीजिए। प्रत्येक पेच लगभग 2.5 सेंटीमीटर लम्बा हो। सामने के पाश्व में दो छेद कर दीजिए। इनमें से होकर

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

तांबे वाले तार जाएंगे। फिर, पेंदी के कोनों के पास दो पेच लगा दीजिए। इनमें तार बांधे जाएंगे। अब अपने तंतु (निक्रोम तार के सर्पिल) को चौखटे की पेंदी वाले पेचों पर लपेटिए और खंच कर तान दीजिए। प्रत्येक खण्ड में बराबर तार पड़ना चाहिए। प्रत्येक खण्ड को पेच की एक गरारी में इस प्रकार फंसा दीजिए कि सब तार पेंदी से लगभग 5 मिलीमीटर उठे रहें। तांबे के संयोगी पेचों (टमिनल्स) को उनके लिए बनाए गए छेदों द्वारा बाहर निकाल कर सिरों को उन पेचों पर लपेट दीजिए, जो उन्हें बांधने के लिए बनाए गए हैं। टोस्टर तैयार है, केवल अब एक जाली रखना शेष है जिस पर टोस्ट को रखा जाएगा। इसके लिए तार की एक ऐसी बर्गाकार जाली लीजिए जिसमें तार 1-1 सेटीमीटर की दूरी पर हों अथवा रसोईधर से कोई छोटी जाली ले लीजिए।

संयोजक तार के लिए शायद आपको बिजली की इस्त्री का टूटा हुआ तार मिल सके। तार के सिरों से विसंवाही पदार्थ हटा कर उन्हें बन्धन पेचों पर लपेट दीजिए। तार के दूसरे सिरे पर लगे प्लग को किसी साकेट में खोंस दीजिए या अनुकूलक द्वारा लैम्प होल्डर में लगा दीजिए और



244

टोस्ट सेंकना या रसोई पकाना या आहार गरम करना इच्छानुसार आरम्भ कर दीजिए।

6. आर्क लैम्प बनाना

विद्युदग्र बनाने के लिए टार्च की पुरानी बैटरीयों से कार्बन ले लीजिए। इन कार्बनों को नमकीन पानी वाले जल धारा-नियन्त्रक और दो तार वाली साधारण बिजली की डोर (फ्लेक्स) से संयोजित करिए। बिजली की इस्त्री का पुराना फ्लेक्स तार मिल जाए तो एक सिरे से विसंवाही पदार्थ हटाने से वह अच्छा काम देगा। धारा-नियन्त्रक की प्लेटों को एक-दूसरे से खूब दूर रख कर प्लग को साकेट में लगाइए।

अब लकड़ी की चुटकियों (कपड़े टांगने की किलपों) से कार्बनों को उठाइए, प्रत्येक हाथ में एक चुटकी पकड़िए अथवा सूखे भारी दस्ताने (या रबर के दस्ताने) पहन कर अंगुलियों से उठाइए। (चेतावनी : कार्बन-दण्डों को नंगी अंगुलियों से कभी मत उठाइए, जानते हैं क्यों?) कार्बनों की नोकों को हल्के-से एक-दूसरे से छुआ दीजिए और किसी से कहिए कि वह धारा-नियन्त्रक के निरोध को धीरे-धीरे कम करता जाए। धारा-नियन्त्रक की प्लेटों को कभी इतना समीप न लाया जाए कि वे एक-दूसरी को छू दें। क्यों?

कार्बनों को छुआने के बाद ही उनको जरा अलग कर दीजिए। जब तक धारा-नियन्त्रक का निरोध कम होता रहे तब तक इस क्रिया को बार-बार दोहराइए। प्रत्येक बार जब आप कार्बनों को अलग करेंगे तो सिरे चमकने लगेंगे और सकेद रोशनी की दमक दिखाई पड़ेगी। (चेतावनी : प्रयोग के इस अंश को करते समय गाढ़े रंग का चश्मा पहनना आवश्यक है)। जब इस प्रकार दमक निकलने लगे तब धारा-नियन्त्रक की प्लेटों को कुछ और समीप लाकर धारा को थोड़ा और भी बलवाती कर दीजिए। तब कार्बनों के बीच में लगभग 3 मिलीमीटर का खाली स्थान छोड़ कर उनको अपनी जगह पर पकड़े रहिए। आपको एक बहुत स्थिर और चमकीला प्रकाश

विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

दिखाई देगा । जब तक सफलता न मिले अभ्यास करते रहिए ।

अब आपने विद्युत् से बहुत प्रचण्ड प्रकाश उत्पन्न कर लिया है । क्या दोनों में से कोई कार्बन

जलता जा रहा है ? बिजली कार्बनों के बीच के स्थान को कैसे पार करती है ? क्या इस प्रकार लैम्प द्वारा धरों में प्रकाश किया जा सकता है ?

प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. प्रकाश सीधी रेखा में चलता है

1. पदचिह्न बनाना

थूल से ढकी कच्ची सड़क पर, या नदी अथवा समुद्र के किनारे बालू पर खड़े हों। अपनी दृष्टि किसी दूरस्थ वस्तु पर स्थिर रखिए और ठीक उसकी ओर बराबर चलते रहिए। अपने पदचिह्नों को देखिए। आपको पता चलेगा कि आप एक सीधी रेखा में चल रहे थे।

2. डोर का प्रयोग

एक डोर लीजिए, जो कम-से-कम 25 मीटर लम्बी हो। डोर के एक सिरे को किसी खम्भे या दृक्ष से बांध दीजिए। डोर को खींच कर तानिए और उसे अपनी आंख के पास रखिए। डोर की ही दिशा में देखिए, तो आपको वही वस्तु दिखाई पड़ेगी जिसमें डोर बंधी है। अब डोर की दिशा छोड़ किसी अन्य दिशा में देखिए, तो आपको वह वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। इससे पता चलता है कि प्रकाश ऐसी वस्तुओं से आंख तक सीधी रेखा में आता है।


3. काड़ों की सहायता से प्रयोग करना

गते के चार टुकड़े काटिए, प्रत्येक लगभग 10 सेंटीमीटर वर्ग का हो। उन्हें लकड़ी की छोटी इण्ठिकाओं पर कील से जड़ दीजिए ताकि उन्हें खड़ा रखा जा सके। प्रत्येक गते में ठीक एक ही स्थान पर एक छोटा छेद कर दें ताकि गतों को खड़ा करके एक सीधे में लगाया जाए तो आप चारों छेदों के पार सीधे-सीधे देख सकें। गते एक-दूसरे से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रहें। एक मोमबत्ती को इस प्रकार रखिए कि चारों छेदों द्वारा देखने पर वह दिखाई पड़े। अब एक गते को पंक्ति से थोड़ा एक ओर खींच दीजिए और छेदों द्वारा मोमबत्ती को देखने की चेष्टा करिए।

क्या आप उसे देख सकते हैं? क्यों? इससे क्या पता चलता है?

4. सूई-छिद्र कैमरा

एक डिब्बे की पेंदी में महीन छेद करके और प्रतिबिम्ब को पतंग वाले पतले कागज पर ग्रहण करके सरल सूई-छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। इस कैमरे की सहायता से किसी अन्धेरे कमरे में भोमबत्ती के प्रतिबिम्ब को देखिए। आप कैसा प्रतिबिम्ब देखते हैं? इससे यह किस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है?



5. प्रकाश की किरणों के अध्ययन के लिए धूम-पेटिका बनाना


लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 60 सेंटीमीटर लम्बी काठ की पेटी लीजिए या बनाइए। पेटी की ऊपरी ओर सामने की खिड़कियों में काँच लगाइए। पीठ को खुला ही छोड़ दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, परन्तु वहां एक काला कपड़ा लगा दीजिए, जो पर्दे की तरह लटका रहे। इस पर्दे को दो भाग करके लटकाइए ताकि वे पेटी के मध्य में लगभग 10 सेंटीमीटर तक एक-दूसरे पर चढ़े रहें। पेटी के भीतरी भाग को चमक-रहित काले रंग से रंग दीजिए। ऊपरी दीवार

प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

और पेंदी के हिसाब से बीच में, परन्तु कांच वाले भाग से केवल 8 या 10 सेंटीमीटर हट कर एक सिरे में, एक खिड़की काटिए, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लम्बी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी हो। यह प्रकाश-किरणों के भीतर जाने के लिए है। आप इस खिड़की को ऐसे गत्तों से ढक सकते हैं जिनमें विविध प्रकार के छेद हों। गत्तों को अंगुष्ठ कीलों से टिकाइए।

अब पहले प्रयोग वाले काले गत्तों का एक टुकड़ा काटिए, जिसमें तीन छेद बराबर दूरियों पर हों। इन छेदों का व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर हो। इसे खिड़की पर अंगुष्ठ कीलों से टिका दोजिए। पेटी में धुआं भर दोजिए। धुआं सुलगते चौथड़ों, धूप-बत्तियों या सिगरेटों से उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें तश्तरी में रख कर पेटी के भीतर एक कोने में रख देना चाहिए। अब खिड़की से लगभग


एक बीटर की दूरी पर एक टार्च रखिए। टार्च को इस प्रकार फोकस करिए कि उससे समानान्तर किरणें निकल कर खिड़की के छेदों में जाएं। पेटी के भीतर प्रकाश की किरणों को देखिए, जो कि धूएं के कारण दृष्टिगोचर हो जाती हैं। क्या यह प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है?



ख. प्रकाश का परावर्तन

1. धूम्र-पेटिका द्वारा नियमित परावर्तन


धूम्र-पेटिका में धुआं भरिए। पिछले प्रयोग की तरह तीन छेदों पर टार्च का प्रकाश फेंकिए। अब बक्स के भीतर एक समतल दर्पण रख दीजिए। और देखिए कि दर्पण से परावर्तित होने पर भी किरणें किस प्रकार सुस्पष्ट ही रहती हैं। जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार बिना बिखरे परावर्तित होती हैं, तो उन्हें 'यथानियम परावर्तित' कहा जाता है।




2. धूम्र-पेटिका द्वारा विसरणयुक्त परावर्तन

कांच की चादर पर स्वच्छ सेलोफेन (पारदर्शक प्लास्टिक) का एक टुकड़ा रखिए और उसे इस्पात के धूए से रगड़ कर खुरदरा कर दीजिए, यहां तक कि वह सब जगह समान रूप से चमक-रहित हो जाए। खुरदरे किए गए सेलोफेन को

पूर्वोक्त कांच पर सरेस या रबड़ के छल्लों से चिपका दोजिए। इसे धूम्र-पेटिका के भीतर रख कर टार्च की किरणावली में डालिए और परिणाम देखिए।



पिछले प्रयोग के यथानियम परावर्तन से इसकी तुलना करिए। जब प्रकाश किसी अनियमित तल से परावर्तित होकर बिखर जाता है, तो उसे विस्तृत या विसरणयुक्त परावर्तन कहते हैं। अपनी आंख को दर्पण से परावर्तित किरणावली की सीधे में रखिए। खुरदरे किए गए सेलोफेन परावर्ती का उपयोग करके प्रयोग को दोहराइए। परिणाम को देखिए और अन्तर का वर्णन करिए।



3. रबड़ की गेंद द्वारा परावर्तन


किसी तल (फर्श या दीवार) पर रबड़ की गेंद को सीधा और तिरछा मार कर देखिए कि उस परावर्ती तल से गेंद कैसे परावर्तित होती है। जिस कोण पर गेंद तल पर आधात करती है और जिस कोण पर वह परावर्तित होती है, उन दोनों को आंकने और उनकी तुलना करने की चेष्टा करिए।

4. दर्पण द्वारा परावर्तन

किसी दर्पण को फर्श पर ऐसी जगह रखिए जहाँ उस पर सूर्य की किरणावली पड़े और परावर्तित हो सके। दर्पण के उस स्थान पर, जहाँ किरणावली पड़ती है, एक सींक खड़ी करिए। आने वाली किरणों और सींक के बीच के कोण की तुलना परावर्तित किरणों और सींक के बीच के कोण से करिए।

5. परावर्तित प्रकाश-किरणावली बनाना


सफद गते पर एक कंधी रखिए और गते पर सूर्य-किरणावली पड़ने दीजिए। गते को इस



प्रकार तिरछा करिए कि कंधी के दांतों की परछाईयाँ कई सेंटीमीटर लम्बी हो जाएं। तब किरणों के मार्ग में एक दर्पण तिरछा रखिए। आप देखेंगे कि दर्पण पर पड़ने वाली रश्मियाँ एक ही कोण पर परावर्तित होती हैं। दर्पण को घुमाइए और देखिए कि परावर्तित किरणें भी किस प्रकार घूमती हैं।

6. परावर्तित प्रकाश के अध्ययन के लिए दिशादर्शी पीठिका बनाना

यद्यपि आजकल पिनो द्वारा प्रकाश का अध्ययन नहीं किया जाता है तो भी इस रीति से सही-सही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रयोग को करते समय नौसिखिए लोगों को इसलिए भ्रम हो जाता है कि पिन वस्तु के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और किरणों के मार्ग अंकित करने के लिए भी। यह भ्रम इस प्रकार दूर हो सकता है कि प्रथम प्रयोगों में दूरदर्शी पीठिकाओं का उपयोग किया जाए। टीन के 12×1.5 सेंटीमीटर के एक टुकड़े को मोड़ कर पीठिका (छोटा पीढ़ा) का रूप दे दीजिए। मुड़ने पर पीठिका के पाए टीन के किनारे बन जाते हैं। प्रत्येक पाए पर लोहे से चीर लगा देना चाहिए। वस्तु के लिए पिन का इस्तेमाल करिए और इसके प्रतिबिम्ब की दिशा को इन चीरों में से देखिए। तब ऐसिल से रेखाएं खींच कर प्रकाश-पथ का पता लगाइए।




7. परावर्तन के नियम

कागज पर एक विन्दुमय रेखा पटरी की सहायता से खींचिए। फिर इससे किसी भी कोण

प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री


पर एक रेखा खींचिए। जहां ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, वहां पर एक छोटे दर्पण को लड़ा करिए। दर्पण को घुमा कर ऐसी स्थिति में लाइए कि बिन्दुमय रेखा का प्रतिबिम्ब असली बिन्दुमय रेखा की ठीक सीधे में आ जाए। अब दर्पण में देखिए और दूसरी रेखा के प्रतिबिम्ब की सीधे में अपनी पटरी का एक किनारा रख दीजिए। इस रेखा को चेसिल से खींचिए और बिन्दुमय रेखा के दोनों ओर बने कोणों को चांदे से नापिए।

इस प्रयोग को कई बार दोहराइए। प्रत्येक बार कोण की नाप को बदल दीजिए। इससे यह परिणाम निकलना चाहिए कि प्रकाश सदा उसी कोण पर परावर्तित होता है, जिस (कोण) पर वह दर्पण पर पड़ता है।



8. किरण-पेटिका के लिए बेलनाकार लैन्स बनाना।

पर्सेव्स या ल्यूसाइट नामक पारदर्शी प्लास्टिक का एक टुकड़ा लीजिए, जो $5 \times 3 \times 6$ सेंटीमीटर का हो। इसके किनारों को रेती से रेत डालिए।



एक गोल (बेलनाकार) डिब्बा लीजिए। उसकी पार्श्व दीवारों के भीतर की ओर सरेस से एमरी कागज की एक तह चिपका दीजिए। इसी पर प्लास्टिक को रगड़ कर घिस लीजिए।


अन्त में धातु-पालिश और रूई से पालिश करिए।

9. प्रकाश-किरणावली के लिए किरण-पेटिका बनाना।

उपर बताए गए बेलनाकार लैन्सों का उपयोग किरण-पेटिका में भी किया जा सकता है। इस उपकरण में लकड़ी की दो पटरियां होती हैं। प्रत्येक का नाप 22×6 सेंटीमीटर होता है। इनको लम्बे काबले या छड़ (नम्बर 2 बी १) की सहायता से एक-दूसरे के समानान्तर रखा जाता है। इस बक्स में पेंदी नहीं होती और प्रयोग करते समय इसे ड्राइंग बोर्ड पर पिन से लगाए कागज पर रख दिया जाता है। प्रकाश मोटरकार के 12 वोल्ट 24 वाट वाले बल्ब से फेंका जाता है। लैम्प होल्डर में पीतल की एक नलिका जोड़ दी जाती है। इस नलिका को एक लकड़ी में कस दिया जाता है और वह लकड़ी पूर्वोक्त बक्स के ऊपरी भाग में (या माथे में बने खांचे में) खिसकती है। लैन्स के सामने का खांचा, पर्दा या (रंगीन) छानना (फिल्टर) लगाने के लिए होता है। शिरी बाले कार्ड से संकरी किरणें मिलती हैं और रंगसाज की धारी डालने वाली कंधी से किरणावली। स्लाइडर की स्थिति में फेर-बदल करके अभिसारी, समानान्तर अथवा अपसारी (कन्वर्जेंट, पैरेलल या डाइवर्जेंट) किरणावलियां प्राप्त की जा सकती हैं। समतल दर्पण की कतरने, कांच की इच्छिकाएं और त्रिपाश्व (प्रिज्म) का उपयोग करके किरण सम्बन्धी सभी साधारण प्रयोग किए जा सकते हैं। टीन के ब्रॉक्स से किरण-ब्रॉक (कास्टिक कर्व) भी दिखाया जा सकता है।


लैन्सों और वर्तन सम्बन्धी प्रयोगों में लैम्प को यथासम्भव नीचे ही दबा रखना चाहिए ताकि प्रकाश रुकावट के ऊपर से होकर न जा

सके। लैन्स के सामने आगर एक ऐसा कार्ड लगा दिया जाए, जो छिद्रयुक्त हो और जिसके आरपार (कास) तार लगे हों तो उपकरण प्रकाशपीठ (आप्टिकल बैच) सम्बन्धी प्रयोगों में प्रकाशलोत का भी काम दे सकता है।



10. किरण-पेटिका को सहायता से परावर्तन नियमों का ज्ञान

दर्पण की पट्टी को एक ऐसे कागज की सहायता से, जिसके एक ओर एक खांचा कटा हो, अथवा कागज दबाने की कमानीदार किलप से, ऊर्ध्वाधर खड़ा करिए। प्रकाश की किरणावलियों को कागज पर स्वस्तिक चिह्नों से अंकित करिए। इन चिह्नों को पेंसिल की रेखाओं से मिला कर आपाती तथा परावर्ती किरणें प्राप्त की जा सकती हैं और अभिलम्ब (नार्मल) को ज्यामितीय रीतियों से खांचा जा सकता है।



11. छड़ी और दर्पण


एक दर्पण को किसी पटरी के सिरे पर चुटकियों से जड़ कर लगा दीजिए। किसी दरवाजे की आड़ में खड़े हो जाइए और दर्पण को दरवाजे के बाहर निकाल लीजिए। बताइए कि परावर्तित

प्रकाश की सहायता से आप आड़ में पड़ने वाली वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं।



12. परिवर्णी (पेरिस्कोप) का मॉडल बनाना

पोस्ट-कार्ड की लम्बी भुजा पर दो-दो सेंटीमीटर की दूरी पर तीन समानान्तर चीर लगाइए। (ये चीर इतने गहरे न हों कि पोस्टकार्ड आरपार कट जाए)। चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर चौड़े टुकड़े काट कर निकाल दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और तब कार्ड को मोड़ कर आयताकार बक्स बना लीजिए। दिखाए गए स्थानों में काग-छेदक (कार्क-बोरर) द्वारा गोल छेद कर दीजिए। बक्स के भीतर इन छेदों के बिल्कुल सामने दर्पण के छोटे टुकड़े (45° पर) चिपका दीजिए। चिपकाने के लिए प्लास्टिसीन या गोंद लगे कागज का उपयोग करिए।




13. बहुलपवर्ण बनाना

दर्पण के दो टुकड़े लीजिए। प्रत्येक लगभग 10×3 सेंटीमीटर हो। गते का एक उतना ही बड़ा टुकड़ा भी लीजिए। तीनों को रबड़ के छल्ले या गोंद लगे कागज से बांध दीजिए। इस प्रकार


प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

जो त्रिभुजाकार त्रिपार्श्व बने, उसके भीतर अक्ष की दिशा में देखिए। इसके द्वारा आप जो भी वस्तु देखेंगे उसका एक नियमित रूप होगा। यदि पालिश किया कांच न मिले तो साधारण कांच की पीठ पर काला रंग लगा कर भी काफी हद तक सफलता पाई जा सकती है।



14. बोहरा परावर्तन


गते के थोटे बक्स के एक सिरे में लगभग एक सेंटीमीटर चौड़ी एक झिरी काटिए। ध्यान रहे कि यह छिद्र बक्स की पेंदी तक पहुंच जाए। बक्स को करवट के बल रख दीजिए। बक्स को इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि धूप की किरणावली बक्स की पेंदी पर पड़े। चित्र देखिए (शेष बातें चित्र से स्पष्ट हैं।)



15. उल्टी लिखावट


सादे कागज के नीचे एक कार्बन पेपर इस तरह रखिए कि उसकी कालिख लगी सतह ऊपर रहे। कागज पर कुछ लिखिए। कार्बन के दूसरी तरफ उल्टी लिखाई दिखाई पड़ेगी। इस उल्टी लिखावट को दर्पण के सामने रख कर पढ़िए।

दर्पण की ओर देखते हुए कागज पर कुछ लिखिए और पेंसिल की गतिविधि पर ध्यान दीजिए।




16. घड़ी का मुङ्ह और दर्पण

दो दर्पणों को इस प्रकार खड़ा करिए कि वे एक-दूसरे से समकोण बनाएं और उनके कोर एक-दूसरे को छूते रहे। इन कोरों को फीता चिपका कर जोड़ा जा सकता है। इन दर्पणों के सामने एक अलार्म घड़ी रखिए। इसके मुख की खड़ी मध्य रेखा दर्पणों के कोण के संगम पर रहे। प्रतिबिम्ब को ध्यान से देखिए और उसकी तुलना केवल एक दर्पण से बने प्रतिबिम्ब से करिए।




17. परावर्तन द्वारा रूपया बनाना

दो दर्पणों की कोरों पर फीता चिपका कर उन्हें चित्र में दिखाई गई रीति से खड़ा करिए। दर्पणों के बीच एक सिक्का रख दीजिए और देखिए कि कितने प्रतिबिम्ब बनते हैं। दर्पणों के बीच के कोण घटाने-बढ़ाने से प्रतिबिम्बों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है या नहीं। दर्पणों के बीच जलती हुई मोमबत्ती रख दीजिए और प्रतिबिम्बों को देखिए।



18. समानान्तर दर्पणों द्वारा परावर्तन

दो दर्पणों को सर के बल खड़ा करिए। उनके परावर्तक लैन्स एक-दूसरे के समानान्तर रहें। दर्पणों के बीच कोई सिक्का या जलती हुई मोमबत्ती रखिए। एक दर्पण की ओर देखिए कि उसमें कितने प्रतिबिम्ब बनते हैं। दूसरे दर्पण की ओर देखिए।



ग. प्रकाश का वर्तन और उसके उपयोग

1. छड़ी मुड़ी-सी लगती है

पानी से भरे कांच के किसी लम्बे बरतन में एक छड़ी इस प्रकार रखिए कि उसका एक भाग बाहर निकला रहे। देखिए कि छड़ी कहाँ पानी में धूसती है और कहाँ पर मुड़ी हुई जान पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें पानी से बाहर निकलती हैं तो वे वर्तित हो जाती हैं, अर्थात् मुड़ जाती हैं। पानी की अपेक्षा हवा में प्रकाश अधिक वेग से चलता है और इसलिए जब वह एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो कुछ मुड़ जाता है।


2. प्रकाश की किरणावली में वर्तन (रिफ्रेक्शन)

होना

एक गिलास पानी में धूध की दो-चार बूँदें

19. किरण-पेटिका से अवतल (कान्केब) दर्पण द्वारा परावर्तन

ऊपर के प्रयोग-9 के लिए बनाई गई किरण-पेटिका का उपयोग करिए। वृत्ताकार मोड़ी गई टीन की पट्टी अथवा चूड़ी के टुकड़े का संगमानन्तर, उस पर प्रकाश की समानान्तर किरणावली केंक कर, सीधे नापा जा सकता है।




20. उत्तल (कान्डेक्स) तल द्वारा परावर्तन

एक उत्तल दर्पण, उदाहरणार्थ मोटरकार के मटारांड पर लगाया जाने वाला दर्पण, लीजिए। इसको किरण-पेटिका में लगाइए और परावर्तित की गई प्रकाश-किरणों को देखिए। समतल दर्पण तथा अवतल द्वारा किए गए परावर्तन से इसकी तुलना करिए।



डाल दीजिए ताकि वह धुंधला हो जाए। काले कागज या गते में एक छोटा छेद करिए। गिलास को धूप में रखिए। गते को गिलास के सामने रखिए तो आपको छेद द्वारा किरणावली निकलती हुई दिखाई देगी। गते को ऐसी स्थिति में रखिए कि छेद जल के स्तर से धोड़ा-सा नीचे रहे और पानी में किरणावली की दिशा देखिए। अब गते को इतना ऊंचा उठा दीजिए कि किरणावली पानी के तल पर पड़े और तब किरणावली की दिशा देखिए। उपर्योग द्वारा यह पता लगाइए कि वह कोण, जिस पर किरणावली पानी पर पड़ती है, किस प्रकार पानी के भीतर किरणावली की दिशा पर प्रभाव डालता है।



3. वर्तन-बोतल बनाना

दवा की शीशी को बाहर से सर्वत्र काले रंग से रंग दीजिए। एक पार्श्व पर वृत्त खीच कर उसके भीतर के रंग को छुड़ा दीजिए। अब शीशी में इतना पानी भरिए कि उसका तल ठीक वृत्त-केन्द्र के स्तर तक पहुंचे। शीशी के ऊपरी भाग पर कहीं से रंग हटा दीजिए और उसमें टार्च का



प्रकाश भीतर फेंकिए। अगर पानी में दूध की एक बूंद डाल दी जाए तो किरणावली अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। अब आयतन कोण और वर्तन-कोण को चार्दे से नापिए।

4. धूम्र-पेटिका द्वारा वर्तन दिखाना

धूम्र-पेटिका की खिड़की पर (प्रयोग क-5) एक काला गत्ता जड़ दीजिए और उसमें 8 मिलीमीटर का एक ही वर्गाकार छेद कर दीजिए। पहले के प्रयोगों की तरह टार्च से धूम्र-पेटिका के भीतर किरणावली फेंकिए। एक बड़ी चौकोर बोतल को पानी से भरिए और उसमें दूध की दो-चार बूंदें या एक चुटकी भर मैदा या स्टार्च डाल कर पानी को धुंधला कर दीजिए।

प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

बोतल में काग लगा दीजिए। पेटिका को धुएं से भर दीजिए। बोतल को किरणावली से समकोण पर रखिए और पानी में किरणों की दिशा देखिए। फिर किरणावली के सापेक्ष बोतल को विविध कोणों पर तिरछा करिए और देखिए कि बोतल के भीतर प्रकाश की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है।



5. वर्तन की सहायता से प्रदृश्य सिक्के को देखना

मेज पर चाय की प्याली रखिए और उसकी पेंदी में एक सिक्का रखिए। इतनी दूर हट जाइए कि सिक्का प्याली की बारी की ओट में हो जाए। बही बहे होकर देखते रहिए और किसी से कहिए कि वह सावधानी से प्याले में कुछ पानी डाल दे। सिक्का अपने स्थान से हटने न पाए। आप क्या देखते हैं? इसका क्या कारण है?

6. प्रकाश की किरणों पर त्रिपार्श (प्रिज्म) का क्या प्रभाव पड़ता है

धूम्र-पेटिका को उसी तरह काम में लाइए जिस तरह ऊपर के प्रयोग-4 में लाया गया था। कांच का त्रिपार्श लेकर उस पर प्रकाश की एकल किरणावली डालिए और देखिए कि किरणों का वर्तन किस प्रकार होता है।

7. प्रकाश-रश्मियों पर लैन्सों का प्रभाव पड़ता है

इन प्रयोगों के लिए आप पुरानी ऐनकों के तथा पुराने प्रकाश-मन्त्रों के लैन्सों का उपयोग कर सकते हैं, या पढ़ने के कांच (रीडिंग ग्लास) के लैन्स या हस्त आवधक (हेड मैग्निफायर्स) भी मोल ले सकते हैं।

धूम्र-पेटिका की खिड़की पर एक काला गत्ता लगाइए और उसमें तीन छेद कर दीजिए। ये छेद बराबर दूरियों पर (एक सीधी रेखा में) रहें, परन्तु दोनों बाहरी छेदों के बीच की दूरी आपके लैन्स के व्यास से थोड़ी कम रहे। टार्च से प्रकाश उसी प्रकार फेंकिए जैसे कि पहले के प्रयोगों


विज्ञान-शिक्षण के लिए लूपेस्को का आकार ग्रन्थ

में किया गया था। पेटिका में धुआं भर दीजिए। लैन्स को तीनों किरणावलियों के मार्ग में इस प्रकार रख दीजिए कि मध्य किरणावली लैन्स के केन्द्र पर पड़े। प्रकाश से उल्टी और लैन्स के पार की किरणावलियों पर ध्यान दीजिए। उन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

इस प्रयोग को देहराइए परन्तु इस बार द्विक्षयतल (डबल कान्केव) लैन्स लीजिए। इस प्रयोग से आपको जो बातें मालूम हों, उनकी तुलना ऊपर के प्रयोग-6 के परिणामों से करिए। दोनों द्विक्षयतल लैन्सों को दो त्रिपाश्वर्मानिए, जिन्हें पेंदी से सटा कर रखा गया हो और द्विक्षयतल लैन्स को चोटी से सटा कर रखा गया त्रिपाश्वर्म समझिए।

8. लैन्स किस प्रकार वस्तु को बढ़ा कर दिखाते हैं


एक पेसिल (या अपनी अंगुली) को पानी के गिलास में डालिए और उसे बगल से देखिए। क्या वह बड़ी दिखाई पड़ती है? मछलियों के काँच वाले गोल मटके में मछलियों को ऊपर से और फिर बगल से देखिए। क्या मटके और पानी के भीतर से देखने पर मछली बड़ी दिखाई पड़ती है? गोल अमृतबानों में तेल में डूबे हुए आमों या शीरे में डूबे हुए अंवलों को देखिए। क्या वे बड़े दिखाई पड़ते हैं? काँच की स्वच्छ गोलियां भी लैन्स की तरह काम करती हैं।



9. लैन्स की आवर्धन-क्षमता को मापना

रेखांकित (रूलदार) कागज के ऊपर किसी हस्त आवर्धक लैन्स को फोकस करिए। लैन्स


द्वारा जो रेखाएं दिखाई दें, उनके बीच के एक स्थान की तुलना लैन्स के बाहर दिखाई पड़ने



वाले स्थानों से करिए। चित्र में दिखाया गया लैन्स तिगुना आवर्धन करता है।

10. उत्तल लैन्स किस प्रकार चित्र-प्रतिबिम्ब बनाता है

किसी कमरे की खिड़कियों में से एक को छोड़ कर शेष सबको बन्द कर दीजिए। किसी छात्र से कहिए कि वह लैन्स को खिड़की के पास पकड़े रहे, लैन्स के अभिलम्ब (नार्मल) की दिशा बाहर के दृश्य की ओर रहे। एक सफेद कागज को लैन्स के समानान्तर रखते हुए धीरे-धीरे लैन्स के समीप लाइए। एक ऐसी स्थिति आएगी जब कागज पर बाहरी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिम्ब बन जाएगा। प्रतिबिम्ब की क्या स्थिति है और क्यों?




11. लैन्सों के अध्ययन के लिए एक सरल उपकरण बनाना

प्रकाश-पीठ (आप्टिकल बैंच) बनाने के लिए केवल किसी मजबूत तल, दर्पणों और लैन्सों को पकड़ने की किसी युक्ति और दूरी नापने की किसी सुगम रीति की आवश्यकता है।

उपकरण की नींव बनाने के लिए मीटर के पैमानों को बैंच पर चपटी ओर से रख दीजिए।

प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

दर्पण आदि पकड़ने के लिए लकड़ी की इष्टिकाएं लीजिए और उनकी पेंदियों में पटरी के नाप के अनुसार खांचे काटिए। इष्टिका पर सरेस से काग अथवा नरम गत्ते की एक तह चिपका देने से पिन खोंसने में सुविधा रहती है; ये पिनें वस्तु अथवा खोज-पिनों (सर्च पिन्स) का काम देती हैं। एक किनारे टीन की कतरनों को पेच से कस देने पर इष्टिकाएं अच्छी लैन्स-ग्राही बन जाती हैं। इष्टिका के ऊपरी किनारे में एक खांचा बना देने से लैन्स को अपने स्थान में टिका रहने में सहायता मिलती है और टीन पर रबड़ नलिका से काट कर छोटा छल्ला छढ़ा देने से इष्टिका की पकड़ने की शक्ति बढ़ जाती है।




प्रकाश-स्रोत और पदों के लिए टार्च के बल्बों और काढ़ों से काम चलाया जा सकता है। उन्हें इष्टिकाओं पर लगा देना चाहिए। इस यन्त्र के कई-एक सेट बनाने चाहिए ताकि छात्र व्यक्तिगत रूप से लैन्स सम्बन्धी प्रयोग कर सकें। खांचा बनाने के लिए इष्टिकाओं में आरी से दो चीर लगाइए और तब रुखानी का प्रयोग करिए।

इस उपकरण की सहायता से व्यतिकरण (इंटरफ़ियरेंस) और विवर्तन (डिफ़ैक्शन) तथा अन्य विषयों पर भी अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं।

12. एक सरल सूक्ष्मदर्शी

कील पर एक बार ताँबे का तार लपेट कर फन्दा बनाइए। फन्दे को पानी में डुबा कर बाहर निकाल लीजिए और उसके भीतर से देखिए। आरम्भ में इसी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते थे। बहुधा ऐसा लैन्स चार या पांच गुना आवर्धन करता है।



13. जलबिन्दु सूक्ष्मदर्शी

कांच के एक टुकड़े पर सावधानी से एक जलबिन्दु गिराइए। अपनी आंख को बिन्दु के पास लाइए और उस जलबिन्दु तथा कांच में से पार किसी छोटी वस्तु को देखिए। यह एक सरल सूक्ष्मदर्शी का काम देता है।

14. सुयोगिक सूक्ष्मदर्शी का मॉडल बनाना

प्रयोग--11 में बनाए गए प्रकाश-पीठ पर एक छोटा फोकस वाला लैन्स रखिए। इस लैन्स के एक ओर खिड़की में लगने वाली जाली का एक टुकड़ा रखिए और उसके पीछे जलती हुई मोमबत्ती। लैन्स के दूसरी ओर उस बिन्दु पर एक सफेद गत्ता रखिए, जहां जाली का सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिम्ब बने। जाली लैन्स से ऐसी दूरी पर रहे कि वहां पर प्रतिबिम्ब जाली से बड़ा हो। अब गत्ते को हटा दीजिए और एक दूसरे दोहरे उत्तल लैन्स को 'गत्ते से कुछ अधिक दूरी पर रखिए।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ


दोनों लैन्सों द्वारा जाली को देखिए। जाली बड़ी दिखाई पड़ती है।

15. वर्तन दूरबिंध का मॉडल बनाना

किसी लम्बे फोकस वाले लैन्स को प्रकाश-पीठ के एक सिरे पर रखिए और उसे खिड़की के बाहर दूर से किसी दृश्य की दिशा में कर दीजिए। पिछले प्रयोग के अनुसार ही लैन्स के दूसरी ओर से एक सफेद गत्ते को लैन्स के पास धीरे-धीरे लाकर ऐसी स्थिति में रख दीजिए कि वहाँ दृश्य का स्पष्टतम प्रतिबिम्ब बने। अब गत्ते के पीछे एक छोटे फोकस वाला लैन्स इस स्थिति में रखिए कि गत्ते और लैन्स के बीच की दूरी लैन्स के फोकस से कुछ कम रहे। गत्ते को हटा दोजिए और दृश्य को दोनों लैन्सों द्वारा देखिए।

16. एकरेखिक प्रकाश-उद्गम बनाना

एक लम्बा बल्ब लीजिए, जैसा कि मोटरकारों के दिशासूचकों (ट्रैफिक इण्डिकेटर्स) में अथवा उनके भीतर प्रकाश देने के लिए बहुधा लगा रहता है। प्रकाश सम्बन्धी प्रयोगों में यह एक अच्छा प्रकाश-स्रोत सिद्ध होता है। लकड़ी के एक टुकड़े से सुविधाजनक होल्डर बनाया




जा सकता है। टीन की कतरनों को लकड़ी पर जड़ देने पर या पेच से कस देने पर वे बल्ब की टोपियों से वैद्युत सम्बन्ध स्थापित करने का काम दे सकती है।

17. लैन्स में वस्तु और प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध

लैन्स को लकड़ी की इष्टिका के सामने वाले सिरे पर प्लास्टिसीन (तेल में कुटी मिट्टी) से चिपकाइए। प्रतिबिम्ब वहाँ पड़ेगा जहाँ

किरणें मिलती हैं। एक और U और दूसरी V लिखिए और निम्न सूत्र की जांच करके देखिए:


$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$



18. लैन्स में प्रतिबिम्ब और वस्तु का सम्बन्ध (बिना प्रकाश-स्रोत के)

प्रकाश-स्रोत के स्थान पर 5 सेंटीमीटर के वर्गाकार दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। वस्तु के स्थान पर भी दर्पण के केन्द्रीय 1 सेंटीमीटर के वर्गाकार भाग को हटा कर उसका उपयोग किया जा सकता है। दर्पण का मुख प्रकाश की ओर होना चाहिए। लैन्स की दूसरी ओर एक गत्ता रख कर उस पर प्रतिबिम्ब लिया जा सकता है।

प्रतिबिम्ब की नाप तथा वस्तु की नाप के सम्बन्ध की भी जांच की जा सकती है।



19. क्रान्तिक कोण

सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होने वाली कांच की दो पट्टियां (स्लाइड्स) लीजिए। रंगे की पन्नी से एक चौखट काटिए और उसे दोनों पट्टियों के बीच रख कर और कनाढा या बोस्टिक सीमेंट से जोड़ कर एक वायु-कोण्ठ (एशर सेल) बना लीजिए।


20 सेंटीमीटर लम्बी लकड़ी की एक पटरी लेकर उसके बीच में एक लम्बा छेद बनाइए

प्रकाश के अवधारण के लिए प्रयोग और सामग्री

और उसमें पूर्वोक्त वायु-कोण को कस दीजिए। लकड़ी के दोनों सिरों में बुनने की एक-एक सलाई आर-पार डाल दीजिए। ये सलाइयाँ सूचक का काम करेंगी। इनसे लकड़ी की पटरी की स्थिति ज्ञात होगी।

जब लकड़ी की पटरी पानी के बीकर के ऊपर रखी जाएगी और वायु-कोण पानी में रहें तो सलाइयाँ उस कागज को प्राप्त: छती रहेंगी, जिस पर बीकर रखा रहेगा। यही कान्तिक कोण उपकरण है।

उपयोग में तीन पिनों से एक आधार-रेखा निश्चित की जाती है और बीकर का व्यास उसी पर रहता है। तब लकड़ी की पटरी को इतना घुमाया जाता है कि सम्पूर्ण परावर्तन हो जाए। उसके लिए दो स्थितियाँ हैं और प्रत्येक दशा में सलाइयों की नोकों के स्थान पर चिह्न लगा लेना चाहिए।




20. पानी का कान्तिक कोण नापना

इस प्रयोग के लिए एक वृत्ताकार मोमी गत्ते और एक लम्बी पिन की आवश्यकता पड़ेगी (जैसा गत्ता दूध की बोतलें बन्द करने के लिए प्रयुक्त होता है।)

गत्ते के केन्द्र में पिन को घुसा कर पार कर दीजिए और पिन का सिर नीचे की ओर करके गत्ते को पानी में तैरा दीजिए। ऊपर से देखते रहिए

और पिन को ऊपर-नीचे करते रहिए। एक ऐसी स्थिति आएगी जब पिन का सिर ठीक गत्ते की ओट में हो जाएगा और वह कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति में पिन के सिर से चली हुई किरण इस प्रकार बतित होती है कि वह पानी के तल को छती हुई जाती है और आंख तक नहीं पहुंच पाती।

कोण सीधा ही नापा जा सकता है या वह कस, क ग का मान निकाल कर और त्रिज्या सारणी के उपयोग से ज्ञात किया जा सकता है।




21. कान्तिक कोण समान्तर एक दूर्ध प्रयोग

एक छोटी बानी नलिका (स्पेसिभन ट्यूब) या गोल शीशी को कांच की आयताकार टंकी में रखिए और उसे टंकी के पाश्वां से देखिए। नलिका का केन्द्रीय भाग बेलनाकार अपसारी लैन्स की तरह काम करेगा, परन्तु उसके किनारे पालिश किए हुए (दर्पण की तरह) जान पड़ेंगे।

किरण चित्र से स्पष्ट है कि

$$\text{ज्या } c = \frac{d}{r}$$




विज्ञान-शिक्षण के लिए शूनेस्को का आकर ग्रन्थ

ये दोनों दूरियां दिशादर्शी पीठिकाओं द्वारा नापी जा सकती हैं। इसके लिए एक मापक पटरी को टंकी के पार्श्व के समानान्तर रखना चाहिए और पीठिकाओं के सिरों को पटरी से हटा कर रखना चाहिए।

22. कमरा के काम करता है


दो बक्स ऐसे लीजिए कि एक बक्स दूसरे के भीतर लगभग बैठ सके। प्रत्येक बक्स के एक सिरे को काट कर निकाल दीजिए। एक बक्स को दूसरे के भीतर डाल दीजिए, छोटे बक्स का कटा हुआ सिरा भीतर घुस जाए। अब छोटे बक्स का पिछला सिरा काट कर निकाल दीजिए और उसके ऊपर मोमी कागज मढ़ दीजिए। दूसरे बक्स के सामने सिरे में एक छेद करिए, जो लैन्स के नाप का हो और उसमें उत्तल (कान्वेक्स) लैन्स लगा दीजिए। अब भीतर डाले गए बक्स को बाहर-भीतर खिसका कर मोमी कागज पर लैन्स द्वारा बाहर के दृश्य के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करिए। साधारण कैमरे में मोमी कागज के स्थान पर प्रकाशग्राही फिल्म रहती है।



23. सूई-छिद्र कैमरे 'चित्र लेना


किसी लकड़ी के बक्स से, उदाहरणार्थ खड़िया के बक्स से, एक सूई-छिद्र कैमरा बनाइए (इस अध्याय का प्रयोग क-4 देखिए)। उसे भीतर से काला रंग दीजिए। एक सिरे में केन्द्र पर 1. सेंटीमीटर का छेद कर दीजिए। बक्स के भीतर की ओर छेद को धातु की पतली पन्नी से ढक दीजिए। सूई से पन्नी के केन्द्र में छेद कर दीजिए, ध्यान रहे कि छेद सफाई से काटा जाए। बक्स के जामने वाले सिरे में कुछ प्रदर्शी (गाइड) लगा दीजिए ताकि उनसे कट फिल्म के टुकड़े को खिसकाया जा सके। छेद में कस कर

काग लगा दीजिए ताकि सूई-छिद्र ढक जाए। अब किसी अन्धेरे कमरे में जाकर कुछ फोटो-फिल्मों को इस नाप का काटिए कि उन्हें प्रदर्शयों में खिसकाया जा सके। बक्स में ढक्कन लगा दीजिए और अपने कैमरे को बाहर ले आइए। कैमरे का मुँह उस दृश्य की ओर कीजिए जिसका आप चित्र खींचना चाहते हैं। काग को एक या दो सैकंड तक के लिए हटा दीजिए। और फिर लगा दीजिए। प्रयुक्त फिल्म को अन्धेरे कमरे में बाहर निकालिए और डेवलप करिए या काले कागज में लपेट कर किसी फोटो की दुकान पर डेवलप कराने ले जाइए। (अन्धेरा कमरा पूर्णतः अन्धेरा हो, कैमरे के भीतर अगर जरा भी प्रकाश जाने का डर हो तो फिल्म लगाने के बाद से उसे काले कपड़े में लपेटे रहिए, केवल सामने का थोड़ा-सा भाग खुला रहे।)



24. रंगीन चित्रों के लिए प्रक्षेपी (प्राजेस्टर) बनाना

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रंगीन चित्रों के लिए सरल सामग्री से एक प्रक्षेपी बनाया जा सकता है। जिस लैन्स का उपयोग करना हो, उसकी फोकस-दूरी से थोड़ा बड़ा बक्स काम में लाइए। अधिकांश लैन्सों के लिए बक्स को 30 और 60 सेंटीमीटर के बीच की लम्बाई का होना चाहिए। लैन्स पर आड़ करने के लिए मिठाई के छोटे बक्स को काम में लाइए ताकि लैन्स पर फालत् प्रकाश न पड़े। दो लैम्प होल्डरों को समानान्तर में संयोजित करिए और आड़ करने वाले बक्स के प्रत्येक ओर एक-एक को लगा दीजिए। बड़े बक्स के सिरे के अगले भाग को जोड़ने के लिए और पिछले हिस्से को काबले की तरह बन्द




करने के लिए गोंद लगे फीते का इस्तेमाल कीजिए।

बक्स के पिछले भाग में एक चित्र उलट कर रखिए। इसे आगे-चित्र चला कर फोकस करिए ताकि प्रक्षेपी के समने वाली दीवार पर स्पष्टतम प्रतिबिम्ब पड़े।

25. सरल दृश्य वाला कैमरा

सरल दृश्य वाला कैमरा इस प्रकार बनाया जा सकता है—हस्त लैन्स से गते पर किसी पहाड़ी या वृक्ष का प्रतिबिम्ब फोकस करिए। लैन्स और गते के बीच की दूरी को मापिए और किसी




बक्स को इस प्रकार काटिए कि उसकी ऊंचाई उस दूरी के बराबर हो। उसकी पेंदी के ठीक मध्य में लैन्स से जरा छोटा छेद करिए। गते के

किसी टुकड़े में पहले जैसा छेद करके लैन्स को उस पर चिपका दीजिए। बक्स के ऊपर के खुले भाग पर टिशू पेपर लगा दीजिए। यह दृश्य कैमरा अन्धेरे कमरे में लैन्स को खिड़की की ओर करके प्रयोग में लाया जा सकता है।

26. फोकस करने वाला दृश्य-कैमरा

फोकस करने वाला दृश्य-कैमरा भी बहुत कुछ उसी प्रकार बनाया जा सकता है जिस प्रकार प्रयोग-25 में बताया गया कैमरा बनाया गया था। फोकस करने के लिए पहले बक्स के भीतर एक दूसरा बक्स ढाला जाता है। द्रष्टव्य वस्तु जितनी ही अधिक चमकीली होगी और प्रतिबिम्ब ग्रहण करने वाले कागज पर जितना ही कम बाहरी प्रकाश पड़ेगा, फोटो उतनी ही अच्छी होगी।




घ. रंग सम्बन्धी प्रयोग

1. धूप का रंग क्या हैं?

जिस कमरे में धूप आती हो, उसे अन्धेरा करिए। खिड़की पर पड़े पर्दे में एक छोटा छेद कर दीजिए, जिससे एक पतली किरणावली आए। इस किरणावली में कांच का एक त्रिपाद्व (प्रिज्म)

पकड़े रहिए और सामने की दीवार या छत पर पड़ने वाले वर्ण-पट को देखिए। इसे वर्णक्रम (स्केक्ट्रम) कहते हैं। क्या आप सूर्य के इस प्रकार बने वर्णक्रम में पाए जाने वाले रंगों के नाम बता सकते हैं?

विज्ञान-विद्यालय के लिए यूनेस्को का आकर अन्वं



2. वर्णक्रम के रंगों को एक साथ जुडाना

किसी पढ़ने वाले कांच के लैन्स को, अर्थात् किसी प्रवर्धक लैन्स को त्रिपाश्वर्व और वर्णक्रम के बीच सफेद धूप से उतटी ओर, रंगीन वर्णक्रम में रखिए। दीवार पर पढ़ने वाला वर्णक्रम कैसा हो जाता है?


3. वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) बनाने की एक दूसरी विधि

पानी से भरी एक तश्तरी को धूप में रखिए। बारी की टेक लगा कर तश्तरी के भीतर एक लोटा आयताकार दर्पण तिरछा रखिए और उसको इस प्रकार समर्जित करिए कि दीवार पर रंगीन-पट या वर्णक्रम दिखाई पड़े।




4. किरण-पेटिका की सहायता से वर्णक्रम का अध्ययन

किरण-पेटिका की सहायता से कांच का त्रिपाश्वर्व समानान्तर किरणावली से एक दर्शनीय वर्णक्रम बनाएगी। रंगीन जिलैटिन या रंगीन पारदर्शक कागज, जिसमें कुछ वस्तुएं लपेट कर बैठी जाती हैं, की सहायता से भी रंग सम्बन्धी प्रयोग लिए जा सकते हैं।




5. रेखिक वर्णक्रम को देखना

एक सरल प्रकाश सम्बन्धी जिरी बनाने के लिए सूई से थोड़ा खरोंच कर किसी दर्पण की पीठ से दूर तक पालिश निकाल दीजिए, अथवा इसी रीति से फोटोग्राफी की किसी गाढ़ी नेगेटिव प्लेट से भसाला खरोंच दीजिए। रेखिक वर्णक्रम देखने के लिए जिरी के स्थान पर सूई का उपयोग किया जा सकता है। सूई को त्रिपाश्वर्व के आवर्ती कोर के समानान्तर रखना चाहिए और जिस प्रकार की परीक्षा करनी हो, उसी से उसे आलोकित करना चाहिए।



6. इन्द्रधनुष बनाना

धूप में किसी खिड़की की देहली पर पानी से भरा हुआ एक गिलास रख दीजिए। गिलास भीतर



प्रकाश के अध्ययन के लिए


की ओर देहली से थोड़ा बाहर निकला रहे, भूमि पर सफेद कागज रखिए। आप उस पर इन्द्रधनुष या वर्णक्रम के पट को देख सकेंगे।

7. इन्द्रधनुष बनाने की एक दूसरी विधि

बहुत सवेरे (सूर्योदय के बाद) अथवा सूर्यास्त के कुछ पहले, जब सूर्य चमक रहा हो, हौज से पानी को महीन बूंदों के रूप में उड़ाइए। पानी के पीछे वृक्षों की श्यामल पृष्ठभूमि रहे। सूर्य आप की पीठ की ओर रहे। तब आप एक बहुत सुन्दर इन्द्रधनुष देखेंगे।

8. पारदर्शी वस्तुओं का रंग

पिछले प्रयोगों की तरह धूम्र-पेटिका का उपयोग करिए। केवल एक किरणावली को पेटिका के भीतर आने दीजिए। किरणावली के मार्ग में स्वच्छ कांच या सेलोफेन रखिए। आप देखेंगे कि बक्स के सफेद पर्दे पर सफेद ही किरणावली पड़ रही है। अब सफेद किरणावली के मार्ग में लाल कांच या सेलोफेन रखिए। पर्दे पर पड़ने वाली किरणावली लाल हो जाएगी। लाल ने श्वेत प्रकाश के अन्य सब अवयवों को सोख लिया है। दूसरे रंगों की पारदर्शक पट्टियों से जैसे (कांच या सेलोफेन की पट्टियों से) प्रयोग करिए। आप देखेंगे कि इन वस्तुओं का रंग उस रंग के कारण उत्पन्न होता है, जिसे ये पार जाने देते हैं, अन्य रंगों को ये सोख लेते हैं।



9. अपारदर्शी वस्तुओं का रंग

अन्धेरे किए गए कमरे में दीवार पर या सफेद कागज पर एक अच्छा-सा वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) बनाइए। वर्णक्रम के नीले प्रकाश में लाल कपड़े का एक टुकड़ा रखिए। यह कौन-सा रंग जान पड़ता है? इसे हरे प्रकाश और फिर पीले प्रकाश में रखिए। रंग कैसा हो जाता है? इसे लाल प्रकाश में रखिए। अब रंग कैसा लगता है? हरे और पीले रंगों के कपड़ों से प्रयोग को दोहराइए। आप देखेंगे कि उसी रंग के प्रकाश को छोड़ कर अन्य प्रकाश में वे काले लगते हैं। इस प्रकार अपारदर्शक पदार्थों का रंग उस प्रकाश के कारण होता है जिसे वे परावर्तित करते हैं। वे वर्णक्रम के अन्य रंगों को सोख लेते हैं।

10. रंगीन पदार्थों (वर्णक्रमों) को मिलाना

नीली और पीली खड़िया का एक-एक टुकड़ा लौजिए। चूरा करके उनको मिलाइए। मिश्रण का रंग हरा दिखाई पड़ेगा। ये पदार्थ विशुद्ध एक रंग के नहीं हैं। आप देखेंगे कि वर्णक्रम में हरा रंग पीले और नीले के बीच आता है। खड़िया का पीला रंग वर्णक्रम के पीले और हरे को छोड़ अन्य सब रंगों को सोखता है। इसी प्रकार खड़िया का नीला रंग वर्णक्रम के नीले और हरे रंगों को सोखता है। फिर इसी प्रकार मिश्रण में पीला और नीला एक-दूसरे को सोख लेते हैं और हरा परावर्तित हो आंख तक पहुंचता है।

विद्यार्थियों के रंग के डिब्बों के रंगों को मिला कर प्रयोग करिए।

11. रंगीन प्रकाशों को मिलाना


(क) रंगीन प्रकाशों को मिलाने का काम गत्ते के बूत को जल-रंगों से रंग कर किया जा सकता है।

एक सुझाव यह है कि 10 सेंटीमीटर के बूत के एक और पीला (अण्डे के योके समान पीला) रंग कर दिया जाए और दूसरी ओर नीला। जब

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

इस वृत्त में तामे बांध दिए जाएंगे और तामों को अंगुलियों और अंगूठों के बीच बटा जाएगा तो वृत्त तेजी से नाचेगा और यदि रंग सावधानी से चुने गए होंगे तो वृत्त लगभग सफेद जान पड़ेगा ।

रंगों के अन्य मिश्रणों की जांच रंगीन लट्टुओं वाली पढ़ति से की जा सकती है । वृत्त के द्वैत्रियों (सेक्टर्स) को रंग दिया जाता है । मान लीजिए उन्हें पारी-पारी से लाल और हरा रंग दिया गया है । (अब) तामे पर नाचने से नाचता हुआ वृत्त आंखों को हरा और लाल प्रकाश परावर्तित करता है और उनके मिश्रण का परिणाम, इस दशा में पीला होता है ।




(ख) आरम्भिक प्रकाशिकी में किरण सम्बन्धी प्रयोगों को करने के लिए तीन डिब्बों का उपयोग किया जाता है । उनसे रंगीन प्रकाशों को मिलाने के लिए भी काम लिया जा सकता है । इसी प्रकार का अन्य कोई भी बक्स, जिसमें मोटरकार का एक बल्ब रखा हो, इस काम के लिए उपयुक्त होगा ।

बक्स के सामने लाल, हरा और नीला नाटकीय प्रकाश-छानना (फिल्टर) खिलाएँ और सफेद पर्दे पर प्रकाश के आयताकार खण्डों के प्रतिविम्ब डालिए ।

लाल और हरा मिल कर पीला हो जाता है ।
नीला और लाल बैंगनी हो जाता है ।

हरा और नीला मोरपंखी नीला हो जाता है ।

लाल, हरा और नीला सफेद हो जाता है ।



12. साबुन के पटल (फिल्म) में रंगों को देखना

साबुन का गाढ़ा-न्सा धोल बनाइए, जिससे साबुन के बुलबुले बनाए जा सकें । इस धोल को किसी चपटी तश्तरी में भर दीजिए और उसमें अण्डे वाला कप या चाय की प्याली डुबा कर निकाल लीजिए, जिससे प्याली के मुँह पर एक पटल (फिल्म) बन जाए । इसे तीव्र प्रकाश में रखिए और जो रंग दिखाई पड़े उन पर ध्यान दीजिए । पतले पटलों में बहुधा रंग होते हैं ।

13. तेल के पटल (फिल्म) में रंगों को देखना

किसी कम गहरी तश्तरी को पानी से भर दीजिए । पानी में इतनी स्थाही छोड़ दीजिए कि पानी बहुत गङ्गे रंग का हो जाए । तश्तरी को खिड़की में रख दीजिए, जहां उस पर आकाश का तीव्र प्रकाश पड़े, परन्तु वहां धूप न हो । पानी की ओर देखिए । पानी में आकाश का प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ेगा । जब आप इसी प्रकार देखते हुए ही तेल या पेट्रोल की एक बूंद पानी के तल पर तश्तरी की बारी के पास अपने निकटतम स्थान पर डाल देंगे, तो रंगों का आपको इन्द्रधनुष विल्कुल सामने वाली कोर पर दमकता हुआ

प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

दिखाई देगा। तेल पर फूंक मारने से आपको रंगों में परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा।

14. पंख से रंग

किसी पंख (चिड़िया आदि का पंख) के सिरे में से दूर किसी भोजनकी की ज्वाला को देखिए। आपको वास्तविक ज्वाला की अगल-बगल में दो या तीन ज्वालाएं और चार रंगीन भुजाओं का एक चपटा (X) दिखाई पड़ना चाहिए। यदि पंख बढ़िया होगा तो चारों भुजाओं में से प्रत्येक में आपको दो नीली और लाल चौड़ी धारियां दिखाई पड़ेंगी।

15. रंग कैसे बदलते हैं


किसी पत्रिका से एक रंगीन चित्र काटिए और उसे एक गते पर चिपका दीजिए। एक तश्तरी में तीन बड़े चम्मच भर कर नमक और कई चम्मच मेरिलेटेड स्परिट डालिए। दोनों को अच्छी तरह मिला कर जला दीजिए। उनसे एक बहुत चमकीला प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसमें से केवल पीली किरणें निकलेंगी। अब पूर्वोक्त चित्र को एक अन्धेरे कमरे में जाकर देखिए और ध्यान दें कि पीले को छोड़ अन्य सब रंग किस प्रकार बदल जाते हैं।

मानव-शरीर के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री


क. हड्डियां और मांस-पेशियां

१. बाजू का मॉडल बनाना।

लकड़ी के दो टुकड़े लीजिए, जो 5 से 8 मिली-मीटर तक मोटे और 5 सेंटीमीटर चौड़े तथा 30 सेंटीमीटर लम्बे हों। (पर्टी लकड़ी बहुत सन्तोषजनक काम दगी)। एक टुकड़े के ऊपरी सिरे में बर्मी से एक छेद करिए। दूसरे टुकड़े को गोल कर दीजिए और प्रत्येक सिरे के पास एक छेद कर दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।



इसके बाद लकड़ी के पहले टुकड़े में दो हुक और एक पेचयुक्त आंख को लगभग दिखाएं गए स्थानों में कस कर लगा दीजिए। इसी प्रकार दूसरी लकड़ी में भी एक हुक और तीन आंखें कस कर लगाइए। चित्र देख कर दोनों लकड़ियों को छोटे काबले और ढिबरी से आपस में जोड़ दीजिए।




बाइसिकल या कार की भीतरी रबड़-नलिका से रबड़ की लम्बी धजियां काटिए और उन्हें लकड़ियों के नीचे लगी आंखों में पहना कर हुकों में बांध दीजिए। ऊपर की ओर आंखों में मजबूत डोर पहना दीजिए और उसका एक सिरा हुक में बांध दीजिए। जब डोर खींची जाएगी तो आप बाजू की हड्डियों और पेशियों के काम करने का लगभग वास्तविक ढंग देख सकेंगे।

२. पैर का मॉडल बनाना।

पतली लकड़ी या गते से पैर और टांग के आकार के समान दो टुकड़े काट लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पुरानी भीतरी रबड़-नलिकाओं से रबड़ की धजियां काटिए और उन्हें दिखाई गई रीत से मॉडल में लगाइए।

३. सिर और गर्दन का मॉडल

चित्र से स्पष्ट है कि लकड़ी अथवा गते की सहायता से यह मॉडल किस प्रकार बनाया जा सकता है।



४. चलने वाली बालपिन

एक लम्बी छुटी (दिनर नाइफ) को कस कर पकड़िए। (फल की धार मेज़ के समानान्तर रहे)। छुटी पर जूड़े में खोंसी जाने वाली एक चिमटीनुमा बालपिन चढ़ा दीजिए, एक भुजा एक ओर रहे, दूसरी भुजा दूसरी ओर। छरों को

मेज से इतना ऊपर रखिए कि बालपिन को भुजाएं मेज को करीब-करीब छूती रहें और बालपिन तिरछी रहे। आप देखेंगे कि बालपिन

छुरी पर चलती है। (हाथ मेज को न छूता रहे)। बाजू की पेशियों की सूक्ष्म गतियों के कारण बालपिन में गति उत्पन्न होती है।

ख. हमारी इन्द्रियाँ

१. व्याणेन्द्रिय

सब छात्र स्थिर बैठे रहें और पूरी कक्षा में समान रूप से फैले रहें। तब एक कोने में कोई तीव्र गन्ध वाली वस्तु छोड़िए। इस काम के लिए कपड़े पर थोड़ा ईयर या अमोनिया गिराया जा सकता है।

छात्रों से कहिए कि उयों ही उनको गन्ध मिले, वे हाथ उठाएं। हवा में कमरे के आर-पार की गन्ध के प्रसार की गति को देखिए।

कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जब कि हमारी आण-शक्ति हमें विपत्ति से बचाती है।

२. पढ़ने के लिए आदर्श दूरी

छात्रों से कहिए कि वे कोई पुस्तक पढ़ें और पुस्तक को उस दूरी पर रखें, जो पढ़ने के लिए सबसे अधिक सुखद पड़े। सामान्य दूरी 34 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। यदि किसी छात्र को कम या अधिक दूरी सबसे अधिक सुखद लगती हो तो डृष्टि ठीक करने के लिए शायद उसे चश्मे की आवश्यकता हो सकती है।

३. उचित प्रकाश

कमरे को अन्वेरा करके जलते हुए 40 वाट के विद्युत् लैम्प को किसी खुली पुस्तक से ठीक 60 सेंटीमीटर ऊपर रखिए। आराम से पढ़ने के लिए इतना प्रकाश प्रायः काफी है। छात्रों को यह दिखाइए कि जब लैम्प को और दूर किया जाता है तो प्रकाश तीव्रता से घट जाता है। एक मीटर से कुछ कम दूरी पर उतना प्रकाश देने के लिए 100 वाट के बल्ब की आवश्यकता होगी, जितना 40 वाट का बल्ब 60 सेंटीमीटर पर देता है।

छात्रों को यह दिखाइए कि उन्हें किस स्थिति में बैठ कर पढ़ना चाहिए ताकि वे चकाचौंध

से बच सकें। इस बात की जांच करिए कि कक्षा के प्रत्येक स्थान में पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश है या नहीं। यदि नहीं है तो छात्रों को बताइए कि इस प्रकार की असन्तोषजनक परिस्थितियों को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है।

४. आंख का अनुकूलन


सफेद कागज के 10 या 12 ताव लेकर उनसे एक पोली नली बनाइए। तावों की नाप ऐसी हो कि प्रत्येक ताव नली के ऊपर दो बार घूम जाए। उस नली के ऊपर रबड़ का छल्ला चढ़ा दीजिए। नली को किसी पुस्तक के पृष्ठ पर खड़ा करिए और अपनी एक आंख को नली पर इस प्रकार दबा कर लगाइए कि नली की पेंदी या माथे से कुछ भी प्रकाश भीतर न घुस सके। आरम्भ में किसी शब्द को पढ़ना असम्भव होगा। यदि कोई शब्द तुरन्त पढ़ा जा सके तो नली पर कुछ ताव कागज और चढ़ा दीजिए।

दूसरी आंख को बन्द रखिए। नली के भीतर खुली आंख से मिनट, दो मिनट तक बिना प्रकाश को भीतर आने दिए देखते रहिए। कागज से होकर जो मंद प्रकाश आ रहा होगा उसमें छपाई धीरे-धीरे पढ़ी जा सकेगी।

ज्यों ही छपाई साफ-साफ पढ़ी जा सके, दर्पण में अपनी आंखें देखिए और आंखों के तारों (प्युपिल्स) की नापें देखिए। एक मिनट तक पुतलियों को देखते रहिए और ध्यान दीजिए कि जब कक्षा का तीव्र प्रकाश आंखों पर पड़ता है तो उनकी नापें किस प्रकार बदलती हैं। प्रत्येक छात्र को यह अवसर देना चाहिए कि वह इस प्रयोग को स्वयं करके देखे।

छात्रों को आंख के तारे की नाप घट-बढ़ सकने की शक्ति के कुछ लाभ बताइए, उदाहरणार्थ तारों का छोटा होना आंख की

अति प्रचण्ड प्रकाश से रक्खा करता है, उनका बढ़ना बहुत मद प्रकाश में देखने में सहायता पहुंचाता है, नयन तारों का प्रकाश के अनुकूल घटना-बढ़ना विपत्ति से बचने में सहायता होता है।



5. क्या आप अपनी अन्ध-चित्ती का पता लगा सकते हैं

जिस स्थान पर छिट-तन्त्रिका (आप्टिक नर्व) अक्षिगोलक (आइबाल) में मिलती है, वहाँ एक छोटी-सी अन्ध-चित्ती होती है, जिसका व्यास केवल कुछ ही मिलीमीटर होता है। इस अन्ध-चित्ती का पता आप एक बहुत ही सरल प्रयोग से पा सकते हैं। सफेद कागज पर एक काला बिन्दु बनाइए और उससे 5 सेंटीमीटर दाहिनी ओर हट कर एक काला स्वस्तिक। कागज को मेज पर रख कर अपनी बाई आंख बन्द कर लैजिए और अपनी दाहिनी आंख से काले बिन्दु की ओर बराबर धूरते रहिए। इस प्रकार धूरते हुए ही कागज को उठा लौजिए और उसे धीरे-धीरे अपनी आंख की ओर लाइए। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दाहिनी ओर वाला स्वस्तिक अदृश्य हो जाएगा। बाई आंख की अन्ध-चित्ती का पता पाने के लिए दाहिनी आंख को बन्द करिए और स्वस्तिक की ओर धूरते रहिए। जब कागज को आप आंख के कुछ पास लाएंगे तो काली चित्ती अदृश्य हो जाएगी।

6. दृष्टि-भ्रम

लोगों के दैनिक जीवन में कई अत्यन्त वैचित्र्यपूर्ण दृष्टि-भ्रम होते हैं। जब चन्द्रमा और सूर्य क्षितिज के निकट होते हैं, तो वे

उन्हें आकाश में होने की अपेक्षा, बहुत बड़े जान पड़ते हैं। जब वे पहाड़ी के पीछे से उदय होते देखे जाते हैं तब वे उस स्थिति की अपेक्षा बहुत अधिक शीघ्रता से चलते जान पड़ते हैं जब वे हमारे ऊपर होते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के व्यास को यन्त्र से नापने पर अथवा उदय या अस्त होते समय उनके बीचों को नापने पर हमारी प्रथम धारणाओं का समर्थन नहीं होता। क्षितिज के पास की नापों और दूरियों का हमारा अनुमान अवास्तविक होता है क्योंकि तुलना की प्रमाप के लिए तब हम अपेक्षाकृत निकट पार्थिव वस्तुओं को चुनते हैं।


अध्याय 6 में बनाए गए थियोडोलाइट या एस्ट्रोलेव और घटक की सहायता से सूर्य या चन्द्रमा के उदय या अस्त के अवसर पर उनके बीचों को नापिए। इसकी तुलना उनके उस समय के बीचों से करिए जब वे हमारे ऊपर थे।

हमारी दृष्टि प्रतिक्षण बदलती हुई इस दुनिया की स्थिर प्रतिक्षया मात्र नहीं है। जिस प्रकार हमें किसी यन्त्र से काम लेना सीखना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपनी आंखों का उपयोग भी सीखना पड़ता है। दूरी, दिशा और स्थिति के हमारे अनुमान केवल इस पर निर्भर नहीं करते कि हमारी आंख का मूर्ति-पटल या रेटिना (इस अध्याय के प्रयोग ग-1 को देखिए) हमें क्या बताता है, वरन् उन्हें देखने के लिए उनमें इन पेशियों की जटिल गतियां जो आंख के लैन्स को चलाती हैं, उन मांसपेशियों की गतियां जो अक्षिगोलक को अपने कोटर में सम्भालती हैं और साथ ही गरदन और अंगों को चलाने वाली पेशियों की गतियां और वे सब संकेत भी सम्मिलित हैं, जिन्हें ये सब पेशियां किसी काम को करते समय मस्तिष्क को भेजती हैं। हम अपनी शारीरिक गतियों में और अपनी आंखों की पेशियों की गतियों और रेटिना पर बने प्रकाश-चित्र में प्रतिदिन के जीवन के साधारण अनुभव से सम्बन्ध जोड़ना सीखते हैं।

हमारे प्रतिदिन के अनुभव का एक अश

यह भी है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। हम वस्तुओं को एक रेखा में रखना सीखते हैं। वह सूक्ष्म समंजन, जिसके कारण हम किसी देखी हुई वस्तु को पकड़ सकते हैं, या किसी छुई हुई वस्तु को देख सकते हैं, अनायास अस्त व्यस्त हो जाता है।

कुछ भ्रमोत्पादक चित्र नीचे दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि जिस वस्तु की आप जो नाप समझते हैं वह वास्तव में आपकी धारणा से भिन्न है।



संख्या 1, 2, 3, 4 : रेखा के और खंग को ध्यान से देखिए और उनकी लम्बाइयों की तुलना करिए।

संख्या 5 वाले स्तम्भों की ऊंचाइयां विभिन्न जान पड़ती हैं।

संख्या 6, 7 : क्षतिज रेखाओं को देखिए, क्या वे समानान्तर हैं?

संख्या 8 : घनों (क्यूब्स) को गिनिए और तब मात्रातानी से इन्हें फिर गिनिए।

संख्या 9 : सीढ़ी को कुछ समय तक ध्यान

से देखते रहिए, तब पुस्तक को धीरे-धीरे घुमा कर उलटा कर दीजिए।

संख्या 10 : भीतर का वर्ग कभी उभरा हुआ और कभी धंसा हुआ जान पड़ता है।

संख्या 11 : कभी आप यह समझेंगे कि आप घन के माथे को देख रहे हैं तो कभी उसकी पेंदी को।

संख्या 12 : ध्यान से चित्र को देखिए और क्षं तथा खंग की लम्बाई की तुलना करिए।


संख्या 13 : चित्र को सरसरी तौर पर देखिए,

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

हैं। वर्म के भीतर उन बिन्दुओं का पता लगाइए, जो इनमें से प्रत्येक का अनुभव करते हैं।

कुछ ऐसी स्थितियों के उदाहरण दीजिए, जिनमें पड़ने पर स्पर्श, उष्मा, शीत और पीड़ा का ज्ञान हमें हानि अथवा खतरे से बचने में सहायता दे सकता है।

8. ताप का अनुभव करने वालों इन्द्रिय की जांच
अध्याय-13, प्रयोग ख-1, पृष्ठ 185 देखिए।



ग. मानव-शरीर के कुछ अंग

1. आंख

1. आंख का विच्छेदन करना


आप किसी बकरी या भेड़ की आंख भी ले सकते हैं। सामने की पारदर्शक ज़िल्ली या कर्णिया को हटा दीजिए। तब पुतली (आइरिस) दिखाई पड़ेगी और उसके बाद मणिम लैन्स।

यह लैन्स आंख को दो भागों में बांट देता है। सामने के भाग में एक पतला द्रव होता है, जिसे नेत्र-रस (एकुअस ह्यूमर) कहते हैं और पिछले भाग में थल-थल करता हुआ एक गाढ़ा द्रव, जिसे काचामजल (विट्रियस ह्यूमर) कहते हैं।

अनकों संवेदी कोशिकाएं (सेंसिटिव सेल्स) रहती हैं। वे तन्त्रिकाएं (नर्व्ज), जो संवेदानाओं (सेंसेशंस) का ज्ञान कराती हैं, बाहरी इवेत पटल (स्क्लेरोटिक मॉन्डेन) के एक छेद से होकर बाहर निकलती हैं। इसलिए यह स्थान प्रकाश के प्रति सुग्राही (सेंसिटिव) नहीं होता और अन्ध-चित्ती (ब्लाइंड स्पाइट) कहलाता है।

2. किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब मूर्तिपटल (रेटिना)
पर किस प्रकार पड़ता है

सूई-छिद्र केमरा से सम्बन्धित प्रयोग क-4, पृष्ठ 246, अध्याय-16 देखिए।



लैन्स और काचामजल को हटाने पर मूर्तिपटल (रेटिना) को अर्थात् प्रकाशग्राही तल को देखा जा सकता है; लैन्स के सम्मुख वाले स्थान में, जिसे पीत चित्ती (येलो स्पाइट) कहते हैं,

3. आंख का लैन्स मूर्तिपटल (रेटिना) पर
किस प्रकार प्रतिबिम्ब बनाता है


उत्तल लैन्स से प्रतिबिम्ब बनने के विषय पर प्रयोग ग-10, पृष्ठ 254, अध्याय-16 देखिए।

2. हृदय

1. हृदय की धड़कन सुनने के लिए एक सरल उपकरण बनाना

एक स्टेथोस्कोप बनाइए और हृदय की धड़कन सुनने के लिए छात्रों को इसे इस्तेमाल करने दीजिए।

कांच की छोटी कीप, कांच की एक तिमुही नलिका (T ट्रूब या Y ट्रूब) और कुछ रबड़-नलिकाओं की सहायता से एक बहुत सन्तोष-जनक दिखाऊ स्टेथोस्कोप बनाया जा सकता है। कीप की टोटी पर 7 या 8 सेटीमीटर लम्बी रबड़-नलिका चढ़ा दीजिए। (किसी भी प्रकार की छोटी कीप से काम चल जाएगा, जैसे प्रयोगशाला की कांच की कीप या बच्चों की दूध वाली बोतलों को भरने वाली कीप)। इस छोटी रबड़-नलिका के दूसरे सिरे में तिमुही नलिका की मध्यस्थ नलिका डाल दीजिए और उस तिमुही नलिका की दोनों भुजाओं में अधिक लम्बी रबड़-नलिकाएं जोड़ दीजिए।



स्टेथोस्कोप को काम में लाने के लिए एक छात्र से कहिए कि वह कीप को अपने हाथ के ऊपर अच्छी तरह से दबाए रहे और दूसरा छात्र लम्बी रबड़-नलिकाओं के सिरों को अपने कान में लगा ले। हृदय की धनियां बड़ी स्पष्टता से सुनाई पड़ेंगी, यद्यपि छात्र उनका अर्थ न समझ सकेंगे। डाक्टर यह देखने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं कि हृदय की किया साधारण है या नहीं।

यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रयोग के बाद इस पर प्रश्न-वार्ता की जाए कि हृदय क्या काम करता है और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में उसका क्या महत्व है।

यहां पर हृदय को हानि पहुंचाने वाले जोखिम-पूर्ण कामों का भी विवेचन किया जा सकता है और उन रोगों का भी जिनसे कभी-कभी हृदय अस्वस्थ हो जाता है।

2. नाड़ी की गति देखना

छात्रों को नाड़ी की गति जानने की उचित रीति दिखाइए। दो अंगुलियां कलाई पर रखी जाती हैं तथा अंगूठा कलाई की दूसरी ओर। कलाई को धीरे-से दबाइए। 15 और 30 सेकंड तक गिन कर नाड़ी की गति (अर्थात् 1 मिनट में धड़कनों की संख्या) जानने का अभ्यास करिए।

3. नाड़ी पर व्यायाम का प्रभाव

कई छात्रों को अपनी नाड़ी की गति विश्राम अवस्था में और कड़े व्यायाम के बाद नापने दीजिए। परिणामों के सार को एक सारणी में लिख लें।

4. नाड़ी की धड़कन के द्वारा हृदय की धड़कन देखना

दियासलाई एक सिरे में चौड़े माथे की एक छोटी कील धंसाइजिए। अपना हाथ फैलावें, कलाई का भीतरी भाग ऊपर और बैतिज रहे। कलाई के उस स्थान पर, जहां आप नाड़ी का अनुभव कर सकते हैं, कील के माथे को रख कर दियासलाई को लट्ठी कर दीजिए। प्रत्येक बार हृदय की धड़कन होते पर दियासलाई का झुकना देखिए।


3. फेफड़े

1. फेफड़े किस प्रकार काम करते हैं

नीचे के चित्र में दिखाए गए उपकरण की सहायता से विद्यार्थियों को प्राचीर (डायाफाम) की किया दिखाइए। इसमें रबड़ के गुब्बारे फेफड़े के रूप में हैं, रबड़ नलिका, श्वसन-नलिका (विड पाइप) है और खुली पेंदी वाला कांच का बरतन अस्थिमय उर्मेखला (बोनी थोरिसिक गड्ढिल) निरूपित करता है। प्राचीर को नीचा करने से छाती की गुहा (कैविटी) की दाब कम हो जाती है और फेफड़ों में हवा चली जाती है। प्राचीर को उठाने से वायु का प्रवाह उलट जाता

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ-

है। सन्धर को बन्द रख कर प्राचीर हिलाने-डलाने की चेष्टा करिए।



2. अपने फेफड़े की धारिता को जानना छात्रों को यह जानना रोचक लगेगा कि उनके

फेफड़े कितनी वाम् विस्थापित कर सकते हैं। इसे बड़ी सरलता से नापा जा सकता है।

एक बड़ी बोतल को पानी से भरिए और उसमें दो छेद बाली डाट लगाइए। एक छेद में एक रबड़-निलिका लगा दीजिए। दूसरा छेद निकासी के लिए है। एक बरतन को दूसरे बड़े बरतन पर उलट दीजिए और किसी धात्र से कहिए कि रबड़-निलिका द्वारा एक बार पूरी सांस छोड़े। इसके बाद निकासी वाले छेद को अंगुली से बन्द कर दीजिए और पहले बरतन को बड़े बरतन से हटा लीजिए। किसी अंशांकित से मापिए कि पहले बरतन को किर पूरा भर देने में कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है। जितने पानी की आवश्यकता पड़े उतनी ही हवा सांस द्वारा बाहर निकाली गई थी।

अध्यापकों के लिए कुछ उपयोगी टिप्पणियां

1. कांच के बरतनों को साफ करना

एक लिटर पानी में 100 ग्राम सांद्र (कंसेट्रेट) सल्फूरिक अम्ल मिलाइए और उसमें 100 ग्राम पोटासियम डाइक्रोमेट। कांच के बरतन इस धोल में भिगोए जा सकते हैं। धोल का उपयोग बार-बार किया जा सकता है।


चेतावनी : यह धोल अत्यन्त क्षारक होता है अतः बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि यह धोल त्वचा या कपड़ों पर न जाए। जब सांद्र सल्फूरिक अम्ल को तनु (डाइलूट) करना हो तो चीनी मिट्टी या जबलपुरी मिट्टी के बरतन का उपयोग करिए। अम्ल को पानी में बहुत धीरे धीरे छोड़िए (न कि पानी को अम्ल में) क्योंकि इस किया में बहुत उम्मा निकलती है।

ज्ञात कारणों से पड़े धब्बों को छुड़ाने के लिए शिक्षक को अपने रसायन-ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। यदि गन्दे बरतन में पहले क्षार (अक्लली) अथवा क्षारीय प्रतिक्रिया बाला लवण रहा हो तो प्रत्यक्ष है कि पहले थोड़ा-सा तनु अम्ल लेकर देखना चाहिए कि वह साफ करता है या नहीं? यदि धब्बा या रंग पोटासियम परमेश्वरेट के कारण पड़ा हो तो सोडियम सलफाइट के धोल में थोड़ा तनु सल्फूरिक अम्ल डाल कर इस अम्लीकृत धोल से काम लेना चाहिए, इत्यादि।

क्षार कांच को धीरे-धीरे खा डालते हैं और वे बोतलें, जिनमें बहुत दिनों तक दाहक सोडा (कास्टिक सोडा) आदि रखा जाता है, पहले के समान दुबारा पारदर्शी नहीं हो सकेंगी।

2. पारे को साफ करना

जब किसी तल पर बहने पर पारा 'पूँछें'



छोड़ने लगे तो उसकी सफाई आदि करनी चाहिए। एक लम्बे-से बरतन में, तनु नाइट्रिक अम्ल भर कर पारे को उसमें ठप्पने दीजिए। यह नाइट्रिक अम्ल उस साधारण तनु नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा, जिसका उपयोग छात्र कक्षाओं में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, कुछ अधिक तनु होना चाहिए। यदि पारा अम्ल में बहुत पतली धार में गिरे तो और भी अच्छा होगा। कीप के अन्त में लगी केशिका नली (कैपिलरी ट्यूब) से जाने पर पारा पतली धारा के ही रूप में नीचे आता है। इसके बाद पारे को एक पक्की बोतल में डाल कर और पानी मिला कर खुब जोर से हिलाया जाता है ताकि पारा अम्ल से मुक्त हो जाए। अन्त में फिल्टर पेपर के बीचोंबीच एक सूई-छिद्र बनाइए और पारे को उसमें से निकलने दीजिए। इसके लिए फिल्टर पेपर को साधारण रीति से मोड़ कर कीप में रखा जाता है। कीप में पारे की जो अन्तिम बूँदें रह जाती हैं, उन्हें अलग उस अवसर के लिए रख छोड़ना चाहिए जब पारे की फिर से सफाई की जाएंगी। यदि विशेष रूप से सूखे


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पारे की आवश्यकता हो तो अन्तिम बार छानने के पहले उसे एंग्र ओवन में गरम कर लेना चाहिए ।

3. नीचे गिरे हुए पारे को इकट्ठा करना और पारे में से हवा के बुलबुलों को दूर करना

पारा भरते समय नलिका में से हवा के बुलबुले निकलने लगते हैं । उन्हें दूर करने के लिए नलिका के पूरा भर जाने के पहले, उसको अंगूली से बन्द करके उलट दिया जाता है । तब हवा का एक बड़ा बुलबुला ऊपर चढ़ता है । जब नलिका को फिर उलटा जाता है, तो बड़ा बुलबुला अपना मार्ग उलट देता है और छोटे बुलबुलों को अपने साथ लेकर ऊपर आकर निकल जाता है । तब नलिका को भरने के लिए थोड़ा ही पारा डालना शेष रहता है, जो डाल दिया जाता है ।

तश्तरी, मेज या फर्श पर गिरे पारे को एक छोटी धोवन-बोतल (वाश-बाटल) में चूस कर इकट्ठा किया जा सकता है ।



4. जीव-विज्ञान सम्बन्धी सामग्री एकत्र करना

यदि इन वस्तुओं की अच्छी दशा में न रखा जाए तो इनका कुछ मूल्य नहीं रहता, और विविध प्रकार की वस्तुओं को सम्भाल कर रखने के लिए विभिन्न रीतियों की आवश्यकता पड़ती है ।

फल और पौधे: सुखाए हुए नमूनों के संग्रह को शाक-संग्रह (हर्बेरियम) कहते हैं । शाक-संग्रह बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सामान्य सन्दर्भ के लिए ज्ञात पौधे सुगमता से उपलब्ध रहें और नए-नए एकत्रित नमूनों का नामकरण सुगम हो । विविध प्रकार के फूलों, पत्तियों, फलों और जड़ों के उदाहरण दिखाने के लिए शिक्षक के पास सदा पर्याप्त सामग्री रहनी चाहिए । कोई भी नमूना तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उस पौधे के सभी अंग उपस्थित न रहें ।

फल और फूल दोनों एक ही समय में बहुधा उपलब्ध नहीं होते, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक पौधे का पूर्ण नमूना एकत्र करने के लिए एक से अधिक बार प्रयत्न किया जाए ।

पौधों को समाचारपत्रों के कागजों के बीच में दबा कर सुखाया जा सकता है । इस काम के लिए विशेष कागज भी बिकता है परन्तु यदि नमूने के प्रत्येक और दो या तीन ताव समाचारपत्र रख दिए जाएं तो भी सन्तोषप्रद काम हो सकता है । एक ही साथ नमूने की कई तहें दबाई जा सकती हैं । प्रत्येक दो-चार तहों के बीच कड़ी नालीदार दफती रख देने से पौधा जल्दी सूखता है । दबाने के लिए कागजों सहित नमूनों को मेज पर रखना चाहिए, सबसे ऊपर पटरा रखना चाहिए और उस पर काफी बोझ । परन्तु यदि नमूनों को जालीदार चौखटों के बीच रखा जाए, और चौखटों को कमानी, पेच, या पट्टों से एक-दूसरे पर दबाया जाए, तो नमूने शीघ्र सूखने लगते हैं । आरम्भ में कुछ दिनों तक नमूनों को प्रतिदिन निकाल कर नए कागजों के बीच रखना चाहिए, परन्तु जब वे कुछ सूख जाते हैं तो इनने शीघ्र कागज बदलने की आवश्यकता नहीं रहती ।

यदि 100 मिलीलिटर मेथिलेटेड स्पिरिट में 0.5 ग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड को धोला जाए और इस धोल की नमूनों पर द्रूग से हल्के-हल्के लगा दिया जाए तो उनमें फक्कूदी लगने का डर कम रहता है । तब नमूनों को गोंद या मरेस

में (लगभग 25×45 सेंटीमीटर के नाप के) मजबूत ड्राइंग कागज पर, अथवा कार्ड पर, जो विशेष रूप से इसी काम के लिए बनता है, चिपका देना चाहिए। गोंद या सरेम बनाते समय उसमें थोड़ा मर्क्यूरिक ब्लोराइड डाल देना चाहिए, इससे नमूनों में कीड़े लगने की सम्भावना कम हो जाती है। चिपकाने की बजाय या चिपकाने के बाद भी, नमूनों को कार्ड पर सी देना चाहिए, अथवा चिपकाने वाले पारदर्शी फोटो से चिपका देना चाहिए।

प्रत्येक नमूने पर कम-से-कम निम्न व्यौरा अंकित कर देना चाहिए: (क) नमूने का नाम तथा उसकी जाति, (ख) उस व्यक्ति का या लोगों का नाम जिन्होंने नमूने की पहचान की हो, (ग) प्राप्ति स्थान और दिनांक, तथा (घ) पाने वाले का नाम।

सम्भव है फल तथा अन्य स्थूल सामग्री को, जिनका नमूने से सम्बन्ध हो, अलग नाम लिख कर रखना पड़े, परन्तु छोटे ब्रोजों को तो एक लिफाफे में रख कर आरोपण कार्ड पर टांका जा सकता है।


कीट: इन्हें मारने की सबसे अच्छी रीत यह है कि किसी चौड़े मुँह की बोतल में उपयुक्त विष रख कर उस बोतल का उपयोग किया जाए। मारक बोतल निम्नलिखित रीति से सुगमता से बनाई जा सकती है। थोड़े से पेरिस-प्लास्टर को 20 प्रतिशत पोटासियम सायनाइड के 20 प्रतिशत घोल में फेंट कर पतली लेईसी बना ली जाती है (पोटासियम और सोडियम सायनाइडों का बाजार मिश्रण भी सन्तोषजनक होता है) और उसे शीघ्रतापूर्वक बोतल की पेंदी में लगभग 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उंडेल दिया जाता है। वहां वह शीघ्र कड़ा हो जाएगा। सोस्ता का एक टुकड़ा काट कर उसे सायनाइड और पेरिस-प्लास्टर पर रख दीजिए। उस कागज में पहले से ही बहुत-से छेद कर दीजिए, बोतल पर पेचदार ढक्कन हो या कस कर बैठने वाली वायु-अभेद्य डाट हो। तब यह बोतल कई महीनों तक काम दे सकेगी।

चेतावनी: पोटासियम और सोडियम के सायनाइड धातक विष हैं और उनका प्रयोग बड़ी ही सावधानी में करना चाहिए।

मारक बोतल में डालने पर पकड़ा हुआ कीट पहले केवल अचेत हो जाता है। इसलिए उस बोतल में कुछ घंटों तक रख छोड़ना चाहिए। तब वह मर जाएगा। फिर उसे निकाल कर आरोपण-पट्ट पर रखना चाहिए। साधारण आरोपण-पट्ट पर अर्ध बेलनाकार खांचा बना रहता है। उसके बदले में निम्नलिखित ढंग में भी एक और पट्ट बनाया जा सकता है। चित्र में दिखाई गई रीति से एक भोंडे गते पर या सपीडित काग से बनाई गई चादर के एक टुकड़े पर उसी प्रकार के दो गते आदि जड़ दिए जाएं, परन्तु उनके बीच कुछ जगह छूटी रहे। आरोपण-पट्ट केवल इतना ही बड़ा रहे कि वह कीट को सन्तोषजनक रीति से पकड़े रहे। तब एक लम्बी पतली पिन को, जो इसी काम के लिए विकती है, कीट के वक्ष के बीच से पार कर दिया जाता है ताकि कीट खांचे में अपनी ठीक स्थिति में स्थिर हो जाए। उसके बाद एक पतली चिमटी लेकर कीट के पंख टांग और शृंग (एटेना) को सावधानी से फैला दिया जाता है और कागज की पतली-पतली पट्टियां लगा कर उन्हें स्थिर कर दिया जाता है। (ये पट्टियां पिनों से जोड़ी जाती हैं, परन्तु पिनें कीट को छूने न पाएं)। इस नमूने को अब पूरी तरह सुखाना चाहिए—बरसात के दिनों में यह सरल नहीं है; हां, यदि कीट सहित पटरे को शेषित्र (डेसिकेटर) में कई दिनों तक पड़ा रहने दिया जा सके तो वह सूख सकता है। जब वह सूख जाए तो कागज की पट्टियों को हटा दिया जाता है, क्योंकि अब कीट के विविध अंग अपने आप ही उचित स्थान में रहेंगे। सूखने से कीट चुरमुरा हो जाता है, इसलिए वक्ष वाली पिन को निकालने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इस पिन को पकड़ कर कीट को सुखाने वाले पटरे से उठा लिया जाता है। फिर कीट को आरोपण-कार्ड पर उचित स्थिति में इसी पिन से टिका दिया जाता है, आरोपण-कार्ड गते

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

या संपीडित काग को चादर है, जिसे पहले से काट कर टीन के चपटे डिब्बे अथवा किसी उपयुक्त बक्स के पेंदे में बैठा दिया जाता है। ढक्कन के बदले कांच का उपयुक्त आवरण लगाया जा सकता है।



गरम देशों में नमूनों को सुरक्षित रखना कुछ कठिन होता है। वहां एक प्रमुख समस्या यह होती है कि नमूनों को विविध प्रकार की चींटियों से कैसे बचाया जाए। चींटियों की कुछ नहीं जातियाँ आंतरंग (विसरा) खाने के लिए लालायित रहती हैं, चाहे वह सूखी मिले चाहे ताजी और वे सिर, वक्ष (थोरेक्स) और पंख को छोड़ सब कुछ खा जाने पर तुल जाती हैं। इसलिए नमूनों को या तो ऐसे डिब्बों में रखना चाहिए जिनमें ये चींटियाँ न घुस सकें, या डिब्बों को किसी ऐसे आधार पर रखना चाहिए जो चारों ओर से द्रव से पिरा हुआ हो। पानी का उपयोग करते पर उसमें बार-बार पानी डालने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पानी सूख जाता है। फिर पानी के ऊपर तेल या कोई कीटाणुनाशी भी डालना पड़ता है ताकि मच्छर न उत्पन्न हों। मोटरकार के भीतर से निकाला गया इंजिन का पुराना तेल पानी के बराबर ही अच्छा काम देता है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता भी कम ही रहती है। सम्भवतः सबसे अच्छा उपाय यह है कि नमूनों को किसी बेज पर रखा जाए और बेज की टांगें तेल या किसी कीटाणुनाशी के बरतनों में डूबी रहें। यदि द्रव के बीच में छोटे डिब्बे उलट कर रख दिए जाएं तो बेज की टांगें साफ और सूखी रहेंगी। चींटियाँ तथा अन्य हानिकारक कीड़े इस द्रव को पार नहीं कर सकते।

अन्य जीव-विज्ञानोप नमूने : स्थल-जलधरों, रेंगने वाले जानवरों (सांप आदि), पक्षियों और स्तनधारी जीवों को भारने के लिए क्लोरोफार्म से काम लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें किसी ऐसे बक्स में बन्द कर दिया जाता है, जिसमें क्लोरोफार्म से तर की गई रुई की गदी रखी गई हो। स्तनधारी 70 प्रतिशत ऐल्कोहल या 4 प्रतिशत फार्मेलिन में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। स्थल-जलधर, रेंगने वाले जानवर, घोंघे आदि (मोल्स्क) और क्रटेगिया (कड़े खोल वाले जानवर) आदि को सुरक्षित करने के लिए उन्हें ऐल्कोहल में रखना अधिक उचित होगा।

छोटे ककालों की सफाई करने और सींग वाले बड़े बीटलों (चपड़ों) से आंतरंग निकालने का काम गरम देशों में चींटियों पर छोड़ा जा सकता है। इसके लिए मरे जानवरों को सुविधा-जनक स्थान में छोड़ दिया जाता है। उनकी उपस्थिति का पता विविध प्रकार की चींटियों को शीघ्र लग जाता है। और थोड़े ही समय में पूर्णतया स्वच्छ नमूना पात्र बच रहता है। हड्डियों को पहले विरंजन चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) लगा कर और बाद में हाइड्रोजन पराक्साइड का उपयोग करके दांत साफ करने के पुराने ब्रश से रगड़ना चाहिए।

5. बानस्पतिक नमूने


यदि इनको तुरन्त ही दबाया न जा सके तो तब तक इन्हें ताजा रखने के लिए इन्हें टीन के किसी बन्द डिब्बे में रख कर प्रशीतक (रेफीजरेटर) में रख देना चाहिए। वहां वे मुगमता से एक सप्ताह तक कड़े और ताजा रहेंगे।

6. हाथ का लैन्स

कम शायु के छात्रों को लैन्स तथा देखी जाने वाली वस्तु को बिना हिलाए-डुलाए पकड़ रखने में कठिनाई पड़ती है और इसलिए वे प्रतिबिम्ब को फोकस में नहीं रख पाते। यदि एक हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी से वस्तु को पकड़ा जाए और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी


अध्यापकों के लिए कुछ उपयोगी टिप्पणियाँ

से लैन्स को पकड़ा जाए और विचली शंगुलियों के सिरे से दूसरे को दबाते रहें तो लैन्स और वस्तु को स्थिर रखना बहुत सरल हो जाता है।



7. हाइड्रोजन भरे गुब्बारे

खेलने के गुब्बारों को हाइड्रोजन से भरने के लिए साधारण थिसल-फनेल के बदले टोटी (टैप) वाली कीप से भी काम लिया जा सकता है। निकास-नलिका यथासम्भव बड़े व्यास की रहे। गुब्बारे के मुंह को कांच-नलिका के एकदम सिरे पर बांधना चाहिए ताकि ठीक समय पर बिना कांच-नलिका से उतारे ही गुब्बारे के मुंह को बांधा जा सके। वरतन में अम्ल उत्तरने दिया जाता है और तब टोटी बन्द कर दी जाती है। वरतन कोई मजबूत प्लास्क या बोतल हो।



8. उच्चवेशीय परिस्थितियाँ

प्रयोगशाला में गड़बड़ी के कई कारण होते हैं।

ये गड़बड़ियाँ विशेष कर गरम देशों में बरसात में होती हैं। वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, कागज चिपक जाते हैं, घन्नों में ज़ंग लग जाता है, नमूनों में फफूदी लग जाती है। लैन्सों पर ऐसी फफूदी लगती है जो उनको बेकाम कर देती है और लैन्सों के साफ और सही-सही बैठाए गए तलों को घिस-घिस कर पूर्णतया चौपट कर देती है। ऊपर से चीटियाँ, दीमक तथा अन्य कीट भी अपना विनाशकारी कार्य सदैव जारी रखते हैं।

जिन वस्तुओं को वायु-अभेद्य वरतनों में रखा जा सकता है, उन्हें वहीं रखना चाहिए। कांच के वरतन, उदाहरणार्थ अमृतबान अथवा नमूने रखने के वरतन इस काम के लिए सर्वोत्तम हैं बशर्तेकि उनके ढक्कनों की सन्धियों में अच्छी तरह से वसा (ग्रीज) लगा दी जाए। पेचदार ढक्कन बाले वरतन भी, जिनमें विलायती मिठाइयाँ आती हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। धातु के डिब्बों को, उदाहरणार्थ बिस्कुट के डिब्बों, केक के डिब्बों, इत्यादि को, डिब्बों और ढक्कन की सन्धि पर विसंवाही फोता (इन्सुलेटिंग टेप) चिपका कर, पर्याप्त वायु-अभेद्य बनाया जा सकता है।

माइक्रोस्कोप के लैन्सों को, जब उनसे काम न लिया जा रहा हो, शोषित्र (डेसिकेटर) में रखना चाहिए। सूझियों को बैसलिन मले हुए कपड़ों में खोंसना चाहिए। धातु के उपकरणों, जैसे पेच-मापनी (स्क्रू गेज), वनियर कैलिपर्स, स्वरित्र (ट्यूनिंग फोर्क), इत्यादि को वसा (ग्रीज) चुपड़ कर रखना चाहिए। भभका धाम (रिटार्ड स्टैंड) के पेंडे, छले और सन्धरों (क्लैपों) के पेंडों पर बार-बार तेल लगाना चाहिए। छुरी आदि पर बैसलिन चुपड़ कर उन्हें उनके खोलों या डिब्बों में रखना चाहिए। हथियारों के धातु बाले भारों को तेल लगे कपड़े से रगड़ना चाहिए।

‘लेई, गोंद और सरेस में कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ डाल देना चाहिए, जिससे वे सड़ें नहीं। गरम देशों के लिए इस प्रकार की एक विशेष लेई मिलती है। परन्तु यदि शिक्षक इसे स्वयं बनाना चाहें तो

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

बनाते समय इसमें सर्क्यूरिक बलोराइड का थोड़ा-सा धोल डाल कर कॉम चलाया जा सकता है। (सर्क्यूरिक बलोराइड न मिले तो कार्बोलिक ऐसिड का उपयोग किया जा सकता है; पाव भर लेई में 20 बूंद बिना पानी मिला कार्बोलिक ऐसिड काफी होगा)। 'इट इज इज़ टु रिड्यूस इमिडीटी' शीर्षक पुस्तिका भी पढ़लें; प्रकाशक है—दि कैल्सियम बलोराइड इस्टिट्यूट, 909 रिंग बिल्डिंग, वाशिंगटन, डी० सी०, य०० एस० ए०।

9. पोषक धोल (पौधों के लिए)

एक लिटर आसुत जल (डिस्टिल्ड वाटर) में निम्नलिखित लवणों को धोलिए; लवण बिल्कुल विशुद्ध होने चाहिए :—

- 0. 70 ग्राम पोटासियम नाइट्रोट
- 0. 25 ग्राम कैल्सियम सल्फेट (जलयोजित)
- 0. 25 ग्राम कैल्सियम हाइड्रोजेन कास्फेट (जलयोजित)
- 0. 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट (जलयोजित)
- 0. 08 ग्राम सोडियम बलोराइड
- 0. 005 ग्राम लौह (फेरिक) बलोराइड (जलयोजित)

इस धोल को बनाने पर इसमें निम्नलिखित धोलों को डालना चाहिए :—

1 मिलीलिटर बोरिक अम्ल का 0. 06 प्रतिशत धोल।

1 मिलीलिटर मैग्नीज बलोराइड का 0. 04 प्रतिशत धोल।

10. अभिरंजक

आम तौर पर अभिरंजकों का बना-बनाया धोल खरीदना ही श्रच्छा होता है परन्तु निम्नलिखित योग (नुस्ले) भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं :—

(क) ऐनोलीन सल्फेट : संतृप्त (सैचुरेटेड) धोल में कुछ बूंद तनु (डाइल्यूट) सल्फूरिक अम्ल छोड़ दिया जाता है।

(ख) बोरेक्स कार्माइन : 100 मिलीलिटर पानी में 4 ग्राम बोरेक्स धोला जाता है, फिर 3 ग्राम कार्माइन डाल कर धोल को तब तक गरम

किया जाता है जब तक कि कार्माइन घुस न जाए। तब 70 प्रतिशत एथिल ऐल्कोहल 100 मिलीलिटर डाल कर धोल को छान लिया जाता है।

11. समुद्र-जल

2 लिटर पानी में निम्नलिखित वस्तुओं को धोल कर समुद्र-जल के बदले इस धोल से भी सन्तोषजनक काम लिया जा सकता है :—

- 45. 0 ग्राम सोडियम बलोराइड
- 3. 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट
- 5. 0 ग्राम मैग्नीशियम बलोराइड
- 2. 0 ग्राम पोटासियम सल्फेट

12. संचायकों के लिए धोल

(क) जस्ते के संचायक : बैटरी की विविध अवस्थाओं में बैटरी में सल्फूरिक अम्ल का घनत्व निम्नलिखित होता है :

पूरा आवेशित (चार्ज) होने पर	1. 28
आधा आवेशित (चार्ज) होने पर	1. 21
निरावेशित होने पर	1. 15

ऊपर के अंक अनुमानित मात्र हैं। साधारणतः बैटरी निर्माताओं द्वारा बैटरी पर अंकित निदेशों का पालन करना चाहिए (1. 28 घनत्व के सल्फूरिक अम्ल को बनाने के लिए साधारण निदेश निम्नलिखित है :—

बीकर में दो-तिहाई आसुत (डिस्टिल्ड) जल भरिए। उसमें सांद्र (कंसेट्रेटेड) सल्फूरिक अम्ल धीरे-धीरे छोड़िए और मिश्रण को बराबर चलाते रहिए। जब मिश्रण लगभग खौलने लगे तो धोल को ठण्डा होने दीजिए। फिर पहले ही की तरह सावधानी के साथ और अम्ल छोड़िए। जब धोल फिर खौलने लगे तब उसे ठण्डा होने दीजिए। जब धोल का ताप कमरे के ताप के बराबर हो जाए तब घनत्व को अधिक अम्ल या अधिक जल छोड़ कर ठीक कर लिया जाता है। घनत्व को द्रव्यघनत्वमापी से नापा जाता है।

(ख) निकल-लौह संचायक (निके संचायक) इसमें जिस दाहक सोडा का प्रयोग किया जाता

है उसका ग्राहेक्षक घनत्व निम्नलिखित रहता है :

घोल को आवश्यक घनत्व के लगभग बराबर घनत्व का बनाने के लिए चार पाउंड (2 किलोग्राम) दाहक सोडे को 1 गैलन (5 लिटर) पानी में घोलिए। इसमें और पानी डाल कर इसे आवश्यकतानुसार तनु किया जा सकता है।

13. ध्रुव-सूचक कागज़

सोस्ते को सोडियम सल्फेट के घोल में फेनाल्फ-थलीन की कुछ बूदें डाल कर तनु कर लिया जाता है। इस्तेमाल के पहले कागज़ को भिगो लीजिए और तारों को एक-दूसरे से कुछ दूर रख कर कागज़ से छुआइए। कागज़ का जो भाग ऋण ध्रुव से छू जाएगा वह लाल हो जाएगा।

14. विद्युत-लेपन (एलेक्ट्रोप्लेटिंग) के लिए विविध घोल

(क) तांबा—300 मिलीलिटर पानी में लगभग 100 ग्राम तूतिया (कापर सल्फेट) के रवे घोले जाते हैं, तब उसमें 6 ग्राम पोटासियम बाइसल्फेट और 5 ग्राम पोटासियम सायनाइड डाला जाता है। फिर पानी मिला कर घोल को 450 मिलीलिटर के बराबर कर दिया जाता है। (बनाते समय घोल को ठण्डा रखना चाहिए।)

(ख) चांदी—लगभग 500 मिलीलिटर पानी में लगभग 20 ग्राम सोडियम सायनाइड (विष) और 40 ग्राम मणिभ (क्रिस्टेलाइन) सोडियम कार्बोनेट घोले जाते हैं। फिर अलग से 250 मिलीलिटर पानी में लगभग 20 ग्राम सिल्वर नाइट्रोट घोला जाता है और दूसरे घोल को पहले में धीरे-धीरे छोड़ा जाता है और पानी मिला कर मिश्रण को 1 लिटर के बराबर कर दिया जाता है।

(घोलों में होकर कितनी विद्युत-धारा प्रवाहित की जाए, वह उस विद्युदग्र के क्षेत्रफल पर निर्भर है, जिस पर चांदी चढ़ाई जाएगी। 100 वर्ग सेंटीमीटर तल के लिए विद्युत-धारा को 2 अंपियर स अधिक नहीं होना चाहिए। यदि

विद्युदग्र छोटा हो तो धारा को उसी अनुपात में कम होना चाहिए। इस प्रकार चढ़ाई गई चांदी चमक-रहत होगी। उसमें वह चमक-दमक नहीं रहेगी, जिसकी लोग आशा करते हैं। चमक के लिए उसे किसी कड़े, चिकने अधातु-तल से, उदाहरणार्थ हड्डी की छुरी से, घोटना अर्थात् रगड़ना पड़ता है।)

15. कांच पर पालिश (कांच पर चमक ज्ञान रजत दर्पण चढ़ाने के लिए)

पहले 100 मिलीलिटर जल (आसुत जल) में 12.5 ग्राम सिल्वर नाइट्रोट घोला जाता है और 100 मिलीलिटर जल (आसुत जल) में 32.5 ग्राम सोडियम पोटासियम टार्टारेट अलग से घोला जाता है। दोनों घोलों को मिला कर 55° सेंटीग्रेड तक गरम किया जाता है और इसी ताप पर 5 मिनट तक रखा जाता है। तब मिश्रण ठण्डा किया जाता है तथा तलछट के ऊपर से साफ द्रव उंडेल लिया जाता है और उसमें (आसुत) जल मिला कर उसकी मात्रा 200 मिलीलिटर कर ली जाती है। इस घोल को हम घोल (क) कहेंगे। फिर 12 मिलीलिटर पानी में 1.5 ग्राम सिल्वर नाइट्रोट घोला जाता है। इसके बाद तनु अमोनियम हाइड्राक्साइड का घोल पूर्वोक्त घोल में धीरे-धीरे इतना डाला जाता है कि जो तलछट पहले बनती है, वह लगभग सारी-की-सारी घुल जाए। इसमें (आसुत) जल मिला कर घोल को 200 मिलीलिटर कर लिया जाता है। यह घोल (ख) है। तब घोल (क) और (ख) मिलाए जाते हैं (जिस तल पर पालिश करनी हो, उसे पहले बड़ी सावधानी से साफ कर लेना चाहिए ताकि कहीं भी चिकनाहट—तेल आदि—का नाम न रहे) फिर उसे पूर्वोक्त घोल में इस तरह औंधा लटका देना चाहिए कि कांच का तल घोल के तल के नाम-मात्र ही नीचे रहे। घोल को किसी साफ परीक्षण-नलिका अथवा छोटी फ्लास्क में रखा जा सकता है और इस प्रकार इन बरतनों के भीतर पालिश चढ़ाया जा सकता है। घोल को थोड़ा-सा गरम कर देने से पालिश शीघ्र चढ़ता है।

16. उष्माघाती कागज

जल में कोबाल्ट क्लोराइड धोल कर उसे जल में धोते गए अमोनियम क्लोराइड में मिला दिया जाता है (कोई विशेष अनुपात आवश्यक नहीं) । तब धोल में डतना पानी मिलाया जाता है कि उसका रंग फीका गुलाबी हो जाए । किल्टर वेपर (सौख्य) को इस धोल से तर करके सूखने दिया जाता है । सूखन पर वह लगभग वर्ण-रहित जान पड़ता है परन्तु गरम करने पर उसका रंग चटक हरा हो जाएगा ।

17. साधारण कामों के लिए विविध सीमेंट

आजकल बाजार में कई प्रकार के विशिष्ट सीमेंट (चिपकाने वाले पदार्थ) बिकते हैं । जहां ये न मिलें, वहां निम्नलिखित सीमेंटों को प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से बनाया जा सकता है :—

अम्ल-निपेक्ष सीमेंट

- 1 भाग रबड़ सोल्यूशन
- 2 भाग अलसी (तीसी) का तेल
- 3 भाग पिसी सफेद मिट्टी (पाइप-क्ले) (या ह्वाइटिंग, जो पुटीन बनाने के लिए बिकती है) ।

जल-कुण्ड के लिए सीमेंट

(क) पिसे गन्धक, अमोनियम क्लोराइड और लोहे की रेतन (बुरादा, फाइलिंग) को बराबर-बराबर अनुपात में मिलाइए । तब उसमें उबाला हुआ अलसी (तीसी) का तेल डाल कर अच्छी तरह मिलाइए । फिर सफेदा (ह्वाइट लेड) डाल कर गाढ़ा लेप बना लीजिए । जहां लगाना हो वहां इस जमने के पहले ही लगाना चाहिए ।

(ख) सोने की पत्री चिपकाने वाले द्रव (गोल्ड साइज़) में इतना सिन्दूर मिलाइए कि उससे लेई-सा गाढ़ा चिकना मिश्रण बन जाए और जहां लगाना हो तुरन्त लगाइए । कुछ दिनों तक कड़ा होने दीजिए और काम में लाने से पहले कुण्ड धो लीजिए ।

सेलुलायड सीमेंट

सेलुलायड की कतरनों को ऐसिटोन या ऐमिल ऐसिटेट में धोलिए । यह सीमेंट छोटे संचायकों को बनाने में उपयोगी सिद्ध होता है ।

लोहे के लिए सीमेंट

90 भाग महीन लौह रेतन

1 भाग गन्धक के फूल (महीन गन्धक, फ्लावर्स आव सल्फर)

1 भाग नौसादर (अमोनियम क्लोराइड)

ठीक उपयोग के पहले इनमें पानी मिला कर लेप बना लेना चाहिए ।

मोम

बेटरटन कम्पाउंड

1 भाग आचेजल पिच

1 भाग रेजिन

इनको एक साथ पिघलाइए और इनमें 3 भाग क्रेप रबड़ के महीन टुकड़े काट कर मिलाइए ।

फेराडे ीमेंट

5 भाग रेजिन

1 भाग मधुमक्खी का मोम

1 भाग रामरज (लीली मिट्टी, येतो ओकर)

टीन के बरतन में रेजिन और मोम को एकसाथ पिघलाइए और उसमें रामरज को फेटिए ।

बुड़ की मिश्र धातु (जो 70° सेंटीग्रेड पर पिघलती है)

2 भाग सीसा

4 भाग रांगा

8 भाग बिस्मथ

2 भाग कैडमियम

डास्ट की मिश्र धातु (जो 70° सेंटीग्रेड पर पिघलती है)

5 भाग सीसा

3 भाग रांगा

8 भाग बिस्मथ

18. जलाई

जलाई टांके के द्वारा की जाती है। टांका एक मिश्रधातु है, जिसमें 66 प्रतिशत रांगा और 34 प्रतिशत सीसा (धातु) रहता है और टांका यान्त्रिक तथा बिजली से सम्बन्धित कार्यों में दो धातुओं की संत्थि (जोड़) बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। साधारणतः यह पेंसिल या छड़ी के रूप में विकला है। जहां इसे लगाना हो, वहां इसे पिघला कर तांबे की नुकीली इष्टिका से, जिसे कहिया कहते हैं, लगाया जाता है। कहिया बिजली से भी गरम की जा सकती है (और साधारण कामों के लिए 75 वाट की कहिया ठीक रहेगी) या इसे बन्सन ज्वाला (या स्पिरिट लैम्प या अंगीठी) में भी गरम किया जा सकता है।

इसे गरम करन के लिए चाहे किसी भी साधन का उपयोग किया जाए परन्तु पहले कहिया के तल को खुरच कर अथवा प्रदावक (फ्लक्स) में डुबा कर साफ कर लेना चाहिए अन्यथा टांका इसको पकड़ेगा नहीं। जब कहिया में ठीक ताप आ जाएगा तो टांके की छड़ी से थोड़ा-सा टांका कहिया के मुंह पर लगाने से वह मुंह के चारों ओर फैल जाएगा। ज्ञाने के पहले की इस आरम्भिक क्रिया को 'टांका चढ़ाना' (टिनिंग) कहते हैं। जहां पर जोड़ लगाना हो, उन तलों को भी साफ कर लेना चाहिए। उन पर भी टांका चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तलों को गरम करना पड़ता है। तलों पर गरम कहिया रखी जाती है और जब टांका पिघलने लगे तब उसे कहिया की धार से रगड़ कर अभीष्ट स्थान में फैलाया जाता है।

जब दोनों तलों पर टांका फैला दिया जाए तब उनको एक-साथ करके और उचित स्थान में पकड़ कर कहिया से गरम करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों तलों पर लगा टांका पिघल कर एक में मिल जाता है और ठण्डा होने पर जोड़ मजबूत बन जाता है। बड़े तलों को गरम करने में अधिक आंच की आवश्यकता पड़ती

है, जो स्वाभाविक भी है, और उन्हें अभीष्ट ताप तक गरम करने के लिए विशिष्ट ज्वाला की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

जलाई में सफलता पाने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं : सफाई, प्रदावक और उपमा।

प्रदावक

सबसे अधिक उपयोगी प्रदावक (फ्लक्स) रोजिन है। तांबा, पीतल और टीन (रांगे की कलई किया लोहा) के लिए तो यह विशेष उपयोगी है परन्तु लोहे और इस्पात के लिए यह उतना सन्तोषजनक नहीं है।

'मरा हुआ' जिक क्लोरोराइड या 'मारी हुई स्पिरिट' का इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है, परन्तु यह संक्षारक होता है (अर्थात् धातु को खा डालता है) और बिजली के काम के लिए इसका प्रयोग न करना ही अच्छा है। जरले के टुकड़ों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल कर इसे सुगमता से बनाया जा सकता है। जब अम्ल की सब क्रिया समाप्त हो जाए तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो तरल को छान कर उसे चौड़ मुंह के बरतन में रख सकते हैं।

विशेष कामों के लिए बाजार में कई प्रकार के प्रदावक मिलते हैं। साधारण कामों के लिए 'फ्लक्साइट' सम्मिलित सर्वोत्तम है।

आजकल ज्ञाने का लेप (पेस्ट) भी मिलने लगा है। यह टांका और प्रदावक का मिश्रण होता है। इसे बुझ से लगाया जाता है और केवल कहिया की आंच से ही इस द्वारा सन्तोषजनक जोड़ लगाया जा सकता है।

सीसे को सीसे से जोड़ने के लिए अथवा पीतल को सीसे से जोड़ने के लिए कड़ी चर्बी, पीतल, तांबा, टीन, जस्ता के लिए रोजिन, 'मारी हुई स्पिरिट' (अर्थात् जिक क्लोरोराइड) और लोहे तथा चांदी के लिए 'मारी हुई स्पिरिट' उपयोगी है। ज्ञाने के बाद 'मारी हुई स्पिरिट' को पानी से धोकर दूर कर देना चाहिए, रोजिन या फ्लक्साइट को मेथिलेटेड स्पिरिट से धोना चाहिए।

19. श्यामपट्टु के लिए रंग

निम्नलिखित रंग को लगाने से श्यामपट्टु सन्तोषजनक काम देता है :—

100 ग्राम चपड़ा (लाल)

1,000 मिलिलिटर मेथिलेटेड स्पिरिट

100 ग्राम महीन पिसा प्युमिस पथर (सम्भवतः
कपड़े से छानी गई सुर्खी—पिसी
ईंट—से काम चल जाएगा)

100 ग्राम कालिख (कोरा काजल, लैम्प
ब्लैक) ।

चपड़े के घुलने में कुछ समय लगता है। इसलिए पहले स्पिरिट और चपड़े को मिलाना चाहिए। कुछ स्पिरिट कालिख में मिलाने के लिए रख लेनी चाहिए। इस मिश्रण को महीन कपड़े से छान कर चपड़े के घोल में डालना चाहिए। इस्तेमाल करने के पहले मिश्रण को खूब हिला-मिला लेना चाहिए।

20. चमक-रहित काला रंग

'प्रकाश'-उपकरणों के भीतर रंगाई करने के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। आप जो प्रकाश नहीं चाहते यह उसको परावर्तित नहीं होने देता। किरणें भी कम बिखरती हैं और प्रतिबिम्ब अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कालिख को सोने की पश्ची चिपकाने वाले द्रव (गोल्ड साइज़) में मिलाया जाता है और उसमें इतना तारपीन (टरपेंटाइन) मिलाया जाता है कि मिश्रण इतना पतला हो जाए कि उससे रंगाई की जा सके। (मेथिलेटेड) स्पिरिट में घोले गए चपड़े के 5 प्रतिशत घोल में कालिख मिला कर भी काम चलाया जा सकता है।

21. फ्लुओरेसिन घोल

(यह उपयोगी है, क्योंकि फ्लुओरेसिन के तनु—फीके—घोल में प्रकाश-रश्मि के चलने का मार्ग बहुत स्पष्टता से दिखाई पड़ता है)। 1 ग्राम फ्लुओरेसिन को 100 मिलीलिटर मेथिलेटेड स्पिरिट में घोला जाता है।

22. कांच काटना

(क) कांच की आदर : पहले कांच रखने के लिए कोई मजबूत सपाट तल तैयार करिए। एक मेज पर कंबल या नमदा (या समाचारपत्रों की कई तहें) बिछा कर उससे काम चलाया जा सकता है।

एक पैमाना लौजिए। हीरे की कलम या कांच की कर्तनी (ग्लास कटर) को मजबूती से पकड़ कर उस रेखा पर दौड़ाइए जहाँ पर आप कांच को काटना चाहते हों। कांच को उलट दौजिए और हीरे की कलम (या कर्तनी) के काठ वाले सिरे हल्के हाथ से रेखा के आसपास ठोकते जाइए। यदि इससे कांच काट की रेखा पर अलग न हो जाए तो कांच को फिर उलट लीजिए और खरोंच के दोनों ओर एक-एक हाथ से पकड़ कर खरोंच को कब्जा (हिंज) मान कर कांच को बेघड़क मोड़ दौजिए।

(ख) कांच की नलिका : नलिका को काटने की सबसे अच्छी विधि यह है कि उसे कांच काटने की छुरी (ग्लास नाइफ़) से काटा जाए। और अब 'अविनाशी' छुरियाँ मिलती हैं। कुछ लोग रेती का भी उपयोग करते हैं परन्तु चीर लगाने के बदले यह कांच में गोल-सा खांचा बना देती है।

जिस स्थान पर आप काटना चाहते हैं, उसको खरोंचिए और इस खरोंच के दोनों ओर कांच को अंगूठे और अंगुलियों के बीच पकड़िए।

फिर नलिका को खींच कर दो टुकड़े कर दीजिए, इस किया में नलिका को ज़रा-सा मोड़ना भी पड़ेगा।

नलिका से बहुत छोटा टुकड़ा काट कर अलग करने के लिए, खरोंच लगाने के बाद नलिका को एक हाथ से पकड़िए, और खरोंच को किसी कड़े धारदार पदार्थ, उदाहरणार्थ गैस टैप (या तिकोनी रेती की कोर) पर रखिए, तभी किसी कड़ी वस्तु से छोटे सिरे को झटके के साथ ठोकिए।

अध्यापकों के लिए कुछ उपयोगी टिप्पणियां

मोटी नलिका को सफाई से काटने के लिए चारों ओर खरोंच कर लेनी चाहिए। फिर एक कांच की छड़ की नोक को इतना गरम करके, कि वह लगभग पिघलने लगे, खरोंच के एक ओर रखने से दोनों दिशाओं में चटक पड़ जाएगी। यदि दोनों ओर की चटकने की रेखाएं एक-दूसरे से ठीक नहीं मिलतीं तो नलिका को दो टुकड़ों में विभक्त करने के लिए इसके बिना चटके भाग को कब्जा (हिंज) मान कर नलिका को मोड़ना चाहिए।

(ग) बोतल की पेंदों को काट कर अलग करना : जितनी ऊंचाई पर काटना चाहें, वहां बोतल के चारों ओर खरोंच लगा दीजिए। इस खरोंच के दोनों ओर भींगे सोस्ले की घजियां लपेट दीजिए।

गैस की पतली ज्वाला खरोंच के किसी बिन्दु पर पड़ने दीजिए। जब कांच इस बिन्दु पर चटकना आरम्भ करे तो बोतल को धुमाते जाइए।

कटी खुरदुरी सतह को रेती से चिकना करिए या उसे किसी चपटे कांच-पट्ट (ग्लास प्लेट) पर, जिस पर कार्बोरेंडम पाउडर का लेप चुपड़ा गया हो, रगड़ कर चिकना करिए।

(ये बोतलें विद्युत् विशेषण सम्बन्धी प्रयोगों में और परिच्छादक बेल-जार 'के रूप' में उपयोगी होती हैं। परिच्छादक की संचिको वायु-अभेद्य बनाने के लिए नरम रबड़ के छल्ले (रिंग) का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) यदि प्र० धा० (ए० सी०) या दि० धा० (डी० सी०) बिजली उपलब्ध है तो प्रयोग (क) और (ग) के लिए खरोंच पर जर्मन सिल्वर अथवा निकोम के तार का बलय रखा जा सकता है। बिजली चालू करने पर तार गरम होकर लाल हो जाएगा और कांच को खरोंच के अनुदिश चटका देगा। बिजली के पुराने बलबों को काटने के लिए भी यह रीति उपयोगी है।

23. आग बुझाने के साधन (अग्निनाशक)

आग बुझाने के साधनों को किसी निश्चित

स्थान में इस प्रकार रखना चाहिए कि उनका प्रयोग तुरन्त किया जा सके। शिक्षक और छात्रों को जानना चाहिए कि उनका उपयोग ठीक ढंग से और शीघ्रतापूर्वक किस प्रकार किया जा सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा किट

प्रत्येक प्रयोगशाला में या उसकी बगल के कक्ष में, और हो सके तो अलग अलमारी में, प्राथमिक चिकित्सा किट (फस्ट एड किट) रखा रहना चाहिए। इसे अच्छी दिशा में रखना चाहिए, और शिक्षक को जानना चाहिए कि उसका कैसे उपयोग किया जाए।

24. नील-धोल (ब्लू ग्रिट)

पहला धोल :—पोटासियम फेरीसायनाइड 10 ग्राम, पानी 50 मिलीलिटर।

दूसरा धोल :—फेरिक अमोनियम साइट्रेट 10 ग्राम, पानी 50 मिलीलिटर।

इन धोलों को अलग-अलग बनाया जाता है और अन्धेरे कमरे या मंद प्रकाश में रखा जाता है। इस्तेमाल के लिए दोनों धोलों के बराबर-बराबर भागों को एक में मिलाइए और कांच अथवा तामचीनी की कम गहरी तश्तरी में रखिए। कागज को प्रकाशग्राही बनाने के लिए धोल को कागज पर नरम, चौड़े बुश से (अथवा कांच की पट्टी के एक सिरे पर किसी साफ पुराने कपड़े की आठ-दस तहें बांध कर बनाए गए बुश से) पोतिए, या इसके बदले कागज को धोल पर कुछ सैकंद के लिए तैरा दीजिए। प्रकाशग्राही बना देने के बाद कागज को अन्धेरे कमरे में सूखने देना चाहिए।

किसी अपारदर्शी वस्तु को, जैसे पारदर्शक अथवा अर्धपारदर्शक (ट्रैसिंग) कागज पर काली स्थाही से बना आलेख, अथवा जो कुछ भी छापना हो, उसको प्रकाशग्राही कागज पर रख कर चौखटे में कस दिया जाता है। तब उसे धूप में कुछ मिनटों तक (या तीव्र कृत्रिम प्रकाश में कई मिनटों तक) रखा जाता है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

फिर कागज को बहते पानी में अच्छी तरह धो डाला जाता है।

25. कपड़े का रंगलेप

पांच भाग मेथिलेटेड स्प्रिट में 1 भाग कपड़ा धोलिए।

26. साधारण मिश्रधातुओं को बनाना

कम ताप पर पिघलने वाली मिश्रधातुएं : साधारणतः इनको बुन्सन ज्वालक (या अंगीटी) की आंच की सहायता से बनाया जा सकता है। पहले बिस्मथ और रागे को एकसाथ लगाया जाता है और तब दूसरे अवयव डाले जाते हैं। अनावश्यक आक्सीकरण से बचने के लिए ताप को आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। नीचे बताए गए भाग तौल के अनुसार हैं :—

मिश्रधातु	सीसा	रंगा	बिस्मथ	कैड्मियम
बुड़ की धातु	4	2	7	1
टांका	1	1	0	0
विद्युत् संगलक				
की धातु	8.5	2.5	1.3	0

अधिक ताप पर पिघलने वाली मिश्रधातुएं

इनको बनाने के लिए भट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तांबे को गलाना चाहिए और तब अन्य सामग्री डालनी चाहिए।

मिश्रधातु	तांबा	रंगा	जस्ता
कांसा	80	5	15
पीतल, धातवर्ध्य (मैलिएबुल)	58	0	42
पीतल ढलवां	72	4	24

27. कपड़ों की रंगाई

(क) सीधी रंगाई : सूती कपड़ों को रंगने के लिए उनकी माड़ी दूर करनी चाहिए। इसके लिए पहले उसे 5 मिनट तक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के धोल में उबालिए। यह धोल 10 भाग पानी में एक भाग सांद्र (कंसेट्रेटेड) हाइड्रोक्लोरिक

अम्ल डालने से बनता है। निम्न नुस्खे से सन्तोष-जनक रंग बनाया जा सकता है :—

कांगो रेड	0.5 ग्राम
सोडियम बाइकार्बोनेट	2.0 ग्राम
सोडियम सल्फेट	1.0 ग्राम
जल (आसुत)	200.0 मिलीलिटर

कपड़े को इसमें 4 या 5 मिनट तक उबालना चाहिए और तब ठण्डे पानी से हल्के-से धोकर सुखा देना चाहिए।

कांगो रेड के बदले मेथिलीन ब्लू या प्रिम्युलिन ब्राउन का उपयोग किया जा सकता है। पहले रंग और लवणों को मिला लेना चाहिए और तब बराबर चलाते हुए उनको धीरे-धीरे पानी में डालना चाहिए। सफेद रेशम, रेयान या ऊन को भी इसी प्रकार रंगा जा सकता है।

(ख) रंगस्थापक (मार्डेट) का उपयोग करना :

अमोनियम सल्फेट के तनु धोल में सफेद सूती वस्त्र को 10 मिनट तक उबाल कर रंगस्थापक का उपयोग दिखाइए। कुछ मिनटों तक उसे तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद उसे हल्के-से धो डालिए। सफेद रेशम पर रंगस्थापक चढ़ाने के लिए उसे 5 मिनट तक टैनिक अम्ल के धोल में उबालिए। इसके बाद उसे कुछ मिनटों तक वमन टार्टार के धोल में डाल देना चाहिए। रंगस्थापक के परिणाम का अध्ययन कुछ मिनटों तक ऐलिज़िरीन के धोल में रंगस्थापित तथा अरंगस्थापित सूता और रेशमी वस्त्रों को उबाल कर और फिर हल्के-से धोकर तथा सुखा कर किया जा सकता है।

(ग) बेसिक रंजक : मैलाकाइट ग्रीन का उपयोग करके छात्रों को दिखाइए कि बेसिक रंजकों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रंगस्थापित तथा अरंगस्थापित सूती वस्त्र और रंगस्थापित तथा अरंगस्थापित रेशमी वस्त्र के नमूनों को मैलाकाइट ग्रीन (अथवा मैथिलीन ब्लू) के धोल में 5 मिनट तक उबालिए। उन्हें तब हल्के-से धोकर सुखा लीजिए। मैलाकाइट ग्रीन

घोल बनाने के लिए 1 ग्राम रंग को, 200 ग्राम पानी में घोलिए। 200 ग्राम पानी को एसेटिक अम्ल में अम्लीकृत कर दिया जाता है। फिर अम्लीकृत पानी में 40 ग्राम रंग वाला घोल डाला जाता है।

(घ) सूत्रज या विकसित रंजक : कपड़ों के रेशों के भीतर उन रंगों के बनाने के लिए जिन्हें सूत्रज (इनप्रेन) या विकसित (डेवेलप्ड) कहते हैं, तीन घोलों की आवश्यकता होती है। पहले में 0.1 ग्राम प्रिम्युलिन और 0.1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 मिलीलिटर पानी में घोला जाता है। माड़ी छुड़ाए (या बिना माड़ी के) सूती कपड़े को इस घोल में 1 मिनट तक उबालिए और तब उसे दूसरे घोल में डाल दीजिए। इस घोल को बनाने के लिए 100 मिली-लिटर पानी में 0.5 ग्राम सोडियम नाइट्रोइट और तीन मिलीलिटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना चाहिए। कपड़े को इसमें 15 मिनट तक पड़ा रहने दिया जाता है और तब उसे विकासक घोल में डाल दिया जाता है। विकासक घोल 100 मिलीलिटर पानी में 0.05 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 0.05 ग्राम फीनोल घोलने से बनता है। (फीनोल के बदले ऐल्फा नैथ्रोल या रिसोर्सिनल का उपयोग किया जा सकता है)। इस घोल को थोड़ा गरम रखना चाहिए और इसमें कपड़े को 20 मिनट तक पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद कपड़े को हल्के से घोकर सुखा लिया जाता है। कपड़ों को विविध प्रकार से रंग कर उनके परिणामों का अध्ययन करके यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि कौन-सी विधि उत्तम है।

28. वियासलाई बनाना

लकड़ी की छोटी सलाइयां बनाइए अथवा वियासलाइयों (तीलियों) के सिर काट कर फेंक दीजिए और बची हुई तीलियों से काम लीजिए। इन तीलियों के सिरों को पिघले पैराफिन मोम (मोमबत्ती के मोम) में डुबा कर निकाल लीजिए। 2 ग्राम पिसे पोटासियम क्लोरेट में 1

ग्राम एंटीमनी ट्राइ-सल्काइड मिलाइए। मिश्रण को पीसना या घिसना नहीं चाहिए। दोनों चूर्णों को अंगुलियों से मिलाना चाहिए। पतला गोंद डाल कर लेप बनाइए। सलाइयों के पैराफिन लगे सिरों को इस मिश्रण में डुबाया जाता है और कड़ा होने के लिए उन्हें तीलियों का एक सिर नीचा रख कर 1 दिन के लिए लटका दिया जाता है। सलाइयों को घिसने के लिए लाल फास्फोरस और महीन सफेद बालू के बराबर आयतनों में गोंद डाल कर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इसे गते या लकड़ी के तल पर फैला दिया जाता है और सुखाया जाता है। इस तल पर रगड़ने से सलाइयां जल उठती हैं।

इस प्रकार बनी दियासलाइयों की तुलना बाजार में बिकने वाली दियासलाइयों और गर-सेफ्टी दियासलाइयों से करनी चाहिए।

29. रासायनिक 'फूल-उद्घान'

रासायनिक 'फूल-उद्घान' रसाकर्षण-किया (आस्मोटिक ऐक्शन) से उत्पन्न होते हैं। जल-कांच (बाटर-ग्लास या सोडियम सिलिकेट) का ऐसा घोल बनाइए जिसका घनत्व 1.1 हो। एक बीकर में इस घोल की 400 मिलीलिटर मात्रा ली जाती है और तब उसमें तांबे, लोहे, निकल और अल्मीनियम के सल्फेटों, तांबे और लोहे के फ्लोराइडों और तांबे, लोहे, कोबाल्ट, निकल और कैल्सियम के नाइट्रोटों के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। इन टुकड़ों से 'फूल' बहुत शीघ्र उत्पन्न होते हैं। इन घातुओं के सिलिकेटों के जिल्लीदार थैले बन जाते हैं, जिनके भीतर सांद्रता बहुत होती है और इसी कारण ये थैले शीघ्र बढ़ते भी हैं।


30. चुम्बक बनाने में परिनियम (सालेनायड) का उपयोग

गते या प्लास्टिक की एक नलिका पर (जिसकी लम्बाई 13.5 सेंटीमीटर हो और व्यास 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक हो) सं० 20 या सं० 22

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

वाले विसंवाही पदार्थयुक्त तांबे के तार के 400 या 500 फेरे लपेटिए। लपेटने से पहले नलिका के प्रत्येक सिरे के लिए लकड़ी का एक आधार बना लिया जाता है। इन आधारों में नलिका की नाप के छेद रहते हैं। आधारों को नलिका पर सरेस से चिपका दिया जाता है और तार को नलिका में आधारों के बीच लपेटा जाता है। पेंदी के नीचे पेच कस कर इन आधारों को पेंदी पर कसा जाता है। कुण्डली के दोनों सिरे पेंदी पर कसे टर्मिनल्स से सम्बद्ध कर दिए जाते हैं। यदि दिष्ट धारा (डी० सी०) की बिजली हो तो जितनी भी धारा कुण्डली सहन कर सके उसमें जाने दी जा सकती है। यह कई अंगियर हो सकती है, सम्भव है कुण्डली के साथ-साथ कोई प्रतिरोधी (रेजिस्ट्रेस) भी लगाना पड़े। जब कुण्डली में बिजली चालू की जाए तो उस छड़ के सिरे को, जिसे चुंबकित किया जा रहा है, कुछेक बार ठोक देना चाहिए। दिक्षुचक और दण्ड-चुंबकों को फिर से चुंबकित किया जा सकता है।

इस परिनलिका का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा (ए० सी०) परिपथ में भी किया जा सकता है परन्तु परिपथ में एक टैप चाबी डाल देनी चाहिए और विद्युत-धारा को इस चाबी की सहायता से केवल क्षण भर के लिए चालू करना चाहिए। यदि उस दण्ड में, जिसे चुंबकित किया जा रहा है, उचित ध्रुव नहीं उत्पन्न होते तो क्रिया को दोहराना चाहिए। यद्यपि इस रीति से पूर्ण चुंबकत्व नहीं उत्पन्न होता तो भी इसे एक पर्याप्त सीमा तक उत्पन्न किया जा सकता है। दो-चार बार परीक्षण करके देखना चाहिए।



परिशिष्ट—क
तौल और माप

रस्तिक माप				
12 इंच	=	1 फुट	12 दर्जन	= 1 ग्रोस
3 फुट	=	1 गज	12 ग्रोस	= 1 बड़ा ग्रोस (ब्रेट ग्रोस)*
5.5 गज	=	1 राड	24 ताव कागज	= 1 दस्ता
16.5 फुट	=	1 राड	20 दस्ता अथवा	
320 राड	=	1 मील	480 ताव	= 1 रीम**
1,760 गज	=	1 मील	ऐवार्डुपायज्ज तौल (माल की तौल)	
5,280 फुट	=	1 मील	7,000 प्रेन	= 1 पाउंड
6 फुट	=	1 फँदम	16 औंस	= 1 पाउंड
वर्ग माप			100 पाउंड	= 1 अमरीकी हंड्रेडवेट*
144 वर्ग इंच	=	1 वर्ग फुट	2,000 पाउंड	= 1 अमरीकी टन*
9 वर्ग फुट	=	1 वर्ग गज	2,240 पाउंड	= 1 ग्रोस टन†
30 $\frac{1}{4}$ वर्ग गज	=	1 वर्ग राड	द्राय तौल (सोना, चांदी, मणि आदि के लिए)	
160 वर्ग राड	=	1 एकड़	24 प्रेन	= 1 पेनीवेट
640 एकड़	=	1 वर्ग मील	20 पेनीवेट	= 1 औंस
1 वर्ग मील	=	1 सेक्षान*	12 औंस	= 1 पाउंड
36 वर्ग मील	=	1 टाउनशिप*	437 $\frac{1}{2}$ प्रेन	= 1 औंस } ऐवार्डुपायज्ज
घन माप			7,000 प्रेन	= 1 पाउंड }
1,728 घन इंच	=	1 घन फुट	480 प्रेन	
27 घन फुट	=	1 घन गज	5,760 प्रेन	= 1 पाउंड } द्राय
लकड़ी की माप			दबावानां की तौल	
16 घन फुट	=	1 कार्ड फुट	20 प्रेन	= 1 स्कूपल
128 घन फुट } 8 कार्ड फुट } =	1 कार्ड		3 स्कूपल	= 1 ड्राम
गिनते की सारणी			8 ड्राम	= 1 औंस
12 एकक	=	1 दर्जन	12 औंस } 5,760 प्रेन } = 1 पाउंड	

*भारत में इसका प्रचार नहीं है।

**अब साधारणतः 1 रीम में 500 ताव रहते हैं।

भारत और द्विंदलैंड में इसे टन कहते हैं, न कि प्रोस टन ।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

दबावानामों की द्रव-माप

60 मिनिम	= 1 द्रव ड्राम
8 द्रव ड्राम	= 1 द्रव और्स
16 द्रव और्स	= 1 पाइंट
8 पाइंट	= 1 गैलन
समय की माप	
60 सेकंड	= 1 मिनट
60 मिनट	= 1 घंटा
24 घंटा	= 1 दिन
7 दिन	= 1 सप्ताह
365 दिन	= 1 वर्ष
12 मास	= 1 वर्ष
10 वर्ष	= 1 दशाब्दी
10 दशाब्दी	= 1 शताब्दी

द्रव-माप (अमरीकी)

4 ग्ल	= 1 पाइंट
2 पाइंट	= 1 क्वार्ट
4 क्वार्ट	= 1 गैलन
231 घन इंच	= 1 गैलन
31 $\frac{1}{2}$ गैलन	= 1 वैरल
1 द्रव क्वार्ट	= 57.7 घन इंच

सूखी माप (अमरीकी)

2 पाइंट	= 1 क्वार्ट
8 क्वार्ट	= 1 पेक
4 पेक	= 1 बुशल (बु०)
32 क्वार्ट	= 1 बुशल
2,150.4 घन इंच	= 1 बुशल

द्रव और सूखी माप (ब्रिटिश)

2 पाइंट	= 1 क्वार्ट
4 क्वार्ट	= 1 गैलन
2 गैलन	= 1 पेक
4 पेक	= 1 बुशल (बु०)
8 बुशल	= 1 क्वार्टर
1 क्वार्टर	= 69.318 घन इंच
1 गैलन	= 277.274 घन इंच
घरेलू जल	
1 चाय की चम्मच	= 5 घन सेंटीमीटर
3 चाय की चम्मच	= 1 बड़ी चम्मच (टेबर स्पून)
16 बड़ी चम्मच	= 1 कप
2 कप	= 1 पाइंट

विविध

1 अमरीकी गैलन	= 8.33 पाउंड पानी की तौल
1 ब्रिटिश गैलन	= 10 पाउंड पानी की तौल
1 घन फुट	= 62.3 पाउंड पानी की तौल
1 ब्रिटिश बिलियन	= 1 मिलियन मिलियन
1 अमरीकी बिलियन	= 1 हजार मिलियन
1 ब्रिटिश ट्रिलियन	= 1 मिलियन बिलियन
1 अमरीकी ट्रिलियन	= 1 हजार बिलियन
1 अमरीकी ट्रिलियन	= 1 ब्रिटिश बिलियन

मेट्रिक प्रणाली

लम्बाई की नामें

10 मिलीमीटर	= 1 सेंटीमीटर (सें.मी.)
(मि.मी.)	
10 सेंटीमीटर	= 1 डेसीमीटर (डे.मी.)
10 डेसीमीटर	= 1 मीटर (मी.)
10 मीटर	= 1 डेकामीटर
10 डेकामीटर	= 1 हेक्टोमीटर
10 हेक्टोमीटर	= 1 किलोमीटर (कि.मी.)
10 किलोमीटर	= 1 मिलियोमीटर

ध्रुवफल की नामें

100 वर्ग मिलीमीटर	= 1 वर्ग सेंटीमीटर
100 वर्ग सेंटीमीटर	= 1 वर्ग डेसीमीटर
100 वर्ग डेसीमीटर	= 1 वर्ग मीटर
100 वर्ग मीटर	= 1 वर्ग डेकामीटर
100 वर्ग डेकामीटर	= 1 वर्ग हेक्टोमीटर
100 वर्ग हेक्टोमीटर	= 1 वर्ग किलोमीटर
आयतन की नामें	
1,000 घन मिलीमीटर	= 1 घन सेंटीमीटर

1,000 घन सेंटीमीटर	=	1 घन डेसीमीटर	सूचना:— 1 घन सेंटीमीटर = 1 मिलीलिटर
1,000 घन डेसीमीटर	=	1 घन मीटर	
धारिता की नामे			
10 मिलीलिटर (मि.ल.)	=	1 सेंटीलिटर (सं.लि.)	10 मिलीग्राम = 1 सेंटीग्राम
10 सेंटीलिटर	=	1 डेसीलिटर (डे.लि.)	10 डेसीग्राम = 1 डेसीग्राम
10 डेसीलिटर	=	1 लिटर (लि.)	10 लिटर = 1 ग्राम
10 लिटर	=	1 डेकालिटर	10 ग्राम = 1 डेकाग्राम
10 डेकालिटर	=	1 हेक्टोलिटर	10 डेकाग्राम = 1 हेक्टोग्राम
10 हेक्टोलिटर (कि.लि.)	=	1 किलोलिटर	10 हेक्टोग्राम = 1 किलोग्राम (कि.ग्रा.)
			1,000 किलोग्राम = 1 मेट्रिक टन

तुल्यांक मापे

1 इंच	=	2.54 सेंटीमीटर	1 सेंटीमीटर	=	0.3937 इंच
1 फुट	=	30.48 सेंटीमीटर	1 मीटर	=	39.37 इंच
1 क्वार्ट (अमरीकी, द्रव)	=	0.9464 लिटर	1 लिटर	=	1.051 क्वार्ट (अमरीकी, द्रव)
1 क्वार्ट (आमरीकी, सूखा)	=	1.101 लिटर	1 लिटर	=	0.9081 क्वार्ट (अमरीकी, सूखा)
1 क्वार्ट (ब्रिटिश)	=	1.1351 लिटर	1 लिटर	=	0.8809 क्वार्ट (ब्रिटिश)
1 पाउंड (एवा.)	=	0.4536 किलोग्राम	1 किलोग्राम	=	2.205 पाउंड

परिशिष्ट—ख

तारे और ग्रह

1. चमक कमानुसार तारों की सूची

तारा (क)	तारा मण्डल (ख)	उत्तर अथवा दक्षिण पहुंचने का समय		मध्याह्न में सूर्य की स्थिति से उत्तर या दक्षिण
		8 बजे शाम मास	10 बजे रात मास	
(घ)	(ड)			
लुधक (सिरियस)	श्वान (बिंग डाग)	फरवरी	जनवरी	10°द
ग्रगस्त्य (कैनोपस)	नौतल (शिप आगों)	फरवरी	जनवरी	40°द
प्रथम किन्नर (एल्फा-सेंटारी)	किन्नर (सेंटार)	जून	मई	80°द
अभिजित (बेगा)	बीणा (लायर)	अगस्त	जुलाई	30°उ
ब्रह्महृदय (कैपेल्ला)	रथी (चैरियटियर)	जनवरी	दिसम्बर	70°उ
स्वाति (आर्कट्यूरस)	भूतप (हड़-समैन)	जून	मई	0°
द्वितीय मृग या कालपुरुष (राइगेल)	मृग (ओरियन)	जनवरी	दिसम्बर	10°उ
प्रथम लघु श्वान (प्रोस्योन)	श्वानिका (लिटल डाग)	फरवरी	जनवरी	20° उ
वैतरणी अन्त (आखरनार)	वैतरणी (रिवर एरिडैनस)	दिसम्बर	नवम्बर	30° द
द्वितीय किन्नर (बीटा-सेंटारी)	किन्नर (सेंटार)	जून	मई	80° द
प्रथम गरुड़ (आल्ट्यैर)	गरुड़ (ईगल)	सितम्बर	अगस्त	10° उ
आद्री (बेटल्जूज़)	मृग (ओरियन)	फरवरी	जनवरी	20° उ
प्रथम स्वस्तिक (एल्फा-कूसिस)	स्वस्तिक (सदनं क्रास)	मई	अप्रैल	80° द
रोहिणी (ऐल्डबरन)	वृष (बुल)	जनवरी	दिसम्बर	40° उ

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(इ)
द्वितीय मिथुन (पोलक्स)	मिथुन (हेवनली ट्रिवन्स)	माच	फरवरी	30° उ
चित्रा (स्पाइका)	कल्या (बिंजिम)	मई	अप्रैल	30° द
ज्येष्ठा	बृद्धिक			
(एंटेरीज़)	(स्कार्पियन)	जुलाई	जून	50° द
प्रथम दक्षिणमीन	दक्षिण मीन			
(फार्मल् हाउट)	(सदर्न फ़िश)	अक्टूबर	सितम्बर	20° द
देनेब	हंस (स्वैन)	सितम्बर	अगस्त	40° उ
मधा				
(रेगुलस)	सिंह (लायन)	अप्रैल	मार्च	0°
द्वितीय स्वस्तिक				
(बीटा-कूसिस)	स्वस्तिक (सदन कास)	मई	अप्रैल	80° द
प्रथम मिथुन				
(कैस्टर)	मिथुन (हेवनली ट्रिवन्स)	मार्च	फरवरी	30° उ

सारणी 1 में निम्नलिखित सूचना है :

(क) सबसे अधिक चमकीले तारों के नाम, चमक के उत्तरते हुए क्रम में (पहले तारों के हिन्दी नाम हैं, कोष्ठकों में अंग्रेजी नाम हैं)।

(ख) उस तारामण्डल का नाम, जिसमें वह तारा है (राशियों के नाम काले अक्षरों में हैं (इस स्तम्भ में भी पहले हिन्दी नाम हैं, फिर कोष्ठकों में अंग्रेजी नाम वे नहीं हैं जिन्हें गणित ज्योतिषी ठीक भानते हैं, बल्कि उनके स्थान पर वहाँ के बोलचाल के नाम हैं)।

(ग) वह महीना, जिसमें तारा क्षितिज से अपनी महत्तम ऊंचाई पर, स्थानीय समय के अनुसार, लगभग 8 बजे शाम पहुंचता है।

(घ) वह महीना, जिसमें तारा क्षितिज से अपनी महत्तम ऊंचाई पर, स्थानीय समय के अनुसार लगभग 10 बजे रात शाम को पहुंचता है।

(इ) तारे की महत्तम ऊंचाई और स्तम्भ-न में बताए गए महीने में स्थानीय समय के अनुसार

मध्याह्न पर सूर्य की ऊंचाई का अन्तर। उदाहरणार्थ लहूहृदय को जनवरी में शाम को 8 बजे देखने के लिए द्रष्टा (दर्शक) को पहले उस स्थान पर देखना चाहिए, जहाँ उस दिन स्थानीय समय के अनुसार मध्याह्न में सूर्य था और तब उसे अपनी दृष्टि लगभग 70° उत्तर की ओर घुमानी चाहिए।

टिप्पणियां :—प्रथम किन्नर और द्वितीय किन्नर दक्षिण स्वस्तिक के लिए 'निर्देशक' होते हैं। प्रथम किन्नर स्वस्तिक से दूर बाला तारा है। प्रथम किन्नर पृथ्वी से निकटतम चमकीला तारा है। वहाँ से पृथ्वी तक प्रकाश के प्राने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं।

उन चार तारों में से, जिनसे दक्षिण स्वस्तिक की रूपरेखा बनती है, प्रथम स्वस्तिक सबसे अधिक दक्षिण में है और द्वितीय स्वस्तिक सबसे अधिक पूर्व में है।

मिथुन राशि में कैस्टर पोलक्स के उत्तर में है।

2. प्रह—सूर्य से अधिकाधिक दूरी के चम में

प्रह	सूर्य से दूरी (करोड़ मीलों में)	व्यास (हजार मीलों में)	कक्षा में एक चक्कर लगाने का समय (वर्ष)
बुध (मरक्युरी)	3.6	3.2	0.24
शुक्र (वीनस)	6.7	7.85	0.62
पृथ्वी (अर्थ)	9.3	7.9	1.00
मंगल (मार्स)	14.2	4.25	1.88
बृहस्पति (ज्यूपिटर)	48.3	89	11.9
शनि (सैटन)	88.7	75	29.5
वारुणी (यूरेनस)	178.5	31	84
बरुण (नेपच्यून)	279.7	33	165
यम (प्लूटो)	367.5	4	248

सारणी-2 के स्तम्भों में ग्रहों के नाम, सूर्य से उनकी दूरी, उनके व्यास और कक्षा में एक चक्कर लगाने का समय दिया गया है।

वर्ष के विभिन्न समयों में तारों की सापेक्षिता के अनुसार ग्रहों की स्थितियां भी बदलती रहती हैं। प्रत्येक ग्रह की चमक भी बदलती रहती है (किसी समय आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है, इसका पता पंचांग—ऐल्मनक—से लगाना चाहिए।)*

टिप्पणियाँ :

बुध—अधिक-से-अधिक केवल सर्वोदय के

आध घंटे पहले या सूर्यास्त के आध घंटे बाद तक दिखाई पड़ता है।

शुक्र—सूर्यास्त के तीन घंटे से अधिक बाद या सूर्योदय के तीन घंटे से अधिक पहले नहीं दिखाई देता।

मंगल, बृहस्पति और शनि बहुधा आकाश में बहुत चमकीले और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

शेष ग्रहों में से केवल वारुणी ही कोरी आंख से देखा जा सकता है और यह एक भंड चमक वाला तारा मालूम पड़ता है।

*इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पंचांग, जो हिन्दी, अंग्रेजी तथा भारत की भाषाएँ सभी भाषाओं में प्रकाशित होता है—मूल्य 25 नए पेसे—उपयोगी होगा। —प्रनुवादक

3. अक्षांश और दिनांक, जब मध्याह्न में सूर्य सिर के ठीक क्षेत्र पर रहता है

अक्षांश	दिनांक		अक्षांश	दिनांक	
23. 5° उ जून	21 ¹	जून	21 ¹	23. 5° द दिसम्बर	22 ²
23° उ जुलाई	3		10	23° द जनवरी	2
22° उ	12		1	22° द	10
21° उ	19	मई	26	21° द	16
20° उ	24		21	20° द	21
19° उ	29		16	19° द	25
18° उ अगस्त	2		12	18° द	29
17° उ	6		8	17° द फरवरी	2
16° उ	9		5	16° द	5
15° उ	12		1	15° द	9
14° उ	16	अप्रैल	28	14° द	12
13° उ	19		25	13° द	15
12° उ	22		22	12° द	17
11° उ	25		19	11° द	20
10° उ	28		16	10° द	23
9° उ	31		13	9° द	26
8° उ सितम्बर	2		11	8° द	28
7° उ	5		8	7° द मार्च	3
6° उ	8		5	6° द	6
5° उ	10		3	5° द	8
4° उ	13	मार्च	31	4° द	11
3° उ	16		29	3° द	13
2° उ	18		26	2° द	16
1° उ	21 ⁴		23 ³	1° द	18
भूमध्य रेखा	21 ⁴		21 ³	भूमध्य रेखा	21 ³
					23 ⁴

¹ कर्क संक्रान्ति

² मकर संक्रान्ति

³ वसंत विषुव (महाविषुव)

⁴ शरद विषुव

परिशिष्ट—ग

तत्वों की सारणी

सं० तत्व का नाम	संकेत क्रमांक	परमाणु भार	परमाणु भार	
1 अक्टिनियम	Ac	89 227	28 यूरोपियम	Eu 63 152.0
2 अल्मीनियम	Al	13 26.98	29 फर्मियम	Fm 100 (254)*
3 अमेरिकियम	Am	95 243	30 फ्लुओरीन	F 9 19.000
4 एटिमनी	Sb	51 121.76	31 फैन्सियम	Fr 87 223
5 आर्गन	A	18 39.944	32 गैडोलिनियम	Gd 64 156.9
6 आसेनिक	As	33 74.91	33 गैलियम	Ga 31 69.72
7 एस्टैटिन	At	85 211	34 जर्मेनियम	Ge 32 72.60
8 बेरियम	Ba	56 137.36	35 स्वर्ण (गोल्ड)	Au 79 197.2
9 बक्सिलियम	Bk	97 245	36 हैफ्नियम	Hf 72 178.6
10 बेरिलियम	Be	4 9.013	37 हीलियम	He 2 4.003
11 बिस्मथ	Bi	83 209.00	38 होलमियम	Ho 67 164.94
12 बोरन	B	5 10.82	39 हाइड्रोजन	H 1 1.0080
13 ब्रोमीन	Br	35 79.916	40 इंडियम	In 49 114.76
14 कैडमियम	Cd	48 112.41	41 आयोडीन	I 53 126.92
15 कैलिसियम	Ca	20 40.08	42 इरिडियम	Ir 77 193.1
16 कैलिकोनियम	Cf	98 (246)*	43 लोहा (आयरन)	Fe 26 55.85
17 कार्बन	C	6 12.010	44 क्रिप्टन	Kr 36 83.80
18 सीरियम	Ce	58 140.13	45 लैन्थैनम	La 57 138.92
19 सीजियम	Cs	55 132.91	46 सीसा (लैंड)	Pb 82 207.21
20 क्लोरीन	Cl	17 35.457	47 लिथियम	Li 3 6.940
21 क्रोमियम	Cr	24 52.01	48 ल्यूटीसियम	Lu 71 174.99
22 कोबाल्ट	Co	27 58.94	49 मैग्नीशियम	Mg 12 24.32
23 तांबा (कापर)	Cu	29 63.54	50 मैग्नीज़ि	Mn 25 54.93
24 क्यूरियम	Cm	96 244	51 मैंडलेवियम	Mc 101 (256)*
25 डिस्प्रोतियम	Dy	66 162.46	52 पारा (मर्करी)	Hg 80 200.61
26 आइनस्टाइनियम	E	99 (253)*	53 मोलिब्डीनम	Mo 42 95.95
27 अर्बियम	Er	68 167.2		

*यूरेनियम तत्वों के परमाणु भार अभी निश्चित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में 'फिजिकल रिव्यू' तथा अन्य वैज्ञानिक प्रकाशन देखने चाहिए। कोष्ठकों के भीतर वाहुल्यता की द्रव्यमान संख्याएं (मास नंबर्स आव दि अबंडेसज) हैं।

परिशिष्ट—ग

सं०	तत्व का नाम	संकेत क्रमांक	परमाणु भार	सं०	तत्व का नाम	संकेत क्रमांक	परमाणु भार		
54	नियोडियम	Nd	60	144.27	78	स्कैंडियम	Sc	21	44.96
55	निग्रान	Ne	10	20.183	79	सिलीनियम	Se	34	78.96
56	नेप्चूनियम	Np	93	237.07	80	सिलिकन	Si	14	28.09
57	निकल	Ni	28	58.69	81	रजत (सिल्वर)	Ag	47	107.880
58	नियोबियम	Nb	41	92.91	82	सोडियम	Na	11	22.997
59	नाइट्रोजन	N	7	14.008	83	स्ट्रोनियम	Sr	38	87.63
60	आस्मयम	Os	76	190.2	84	गन्धक (सल्फर)	S	16	32.066
61	आक्सीजन	O	8	16.0000	85	टेलम	Ta	73	180.88
62	पैलेडियम	Pd	46	106.7	86	टैक्नीशियम	Tc	43	99
63	फास्फोरस	P	15	30.975	87	टेल्यूरियम	Te	52	127.61
64	प्लैटिनम	Pt	78	195.23	88	टार्बियम	Tb	65	159.2
65	प्लूटोनियम	Pu	94	239.08	89	थ्रैलियम	Tl	81	204.39
66	पोलोनियम	Po	84	210	90	थोरियम	Th	90	232.12
67	पोटासियम	K	19	39.100	91	थूलियम	Tm	69	169.4
68	प्रेजीओडिमियम	Pr	59	140.92	92	वंग (टिन)	Sn	50	118.70
69	प्रोमीथियम	Pm	61	145	93	टाइटेनियम	Ti	22	47.90
70	प्रोटोएंकिटिनियम	Pa	91	231	94	ठंगस्टन	W	74	183.92
71	रेडियम	Ra	88	226.05	95	यूरेनियम	U	92	238.07
72	रैडियन	Rn	86	222	96	वैनेडियम	V	23	50.95
73	रेनियम	Re	75	186.31	97	जीनान	Xe	54	131.3
74	रोडियम	Rh	45	102.91	98	इटर्बियम	Yb	70	173.04
75	रबोडियम	Rb	37	85.48	99	इट्रियम	Y	39	88.92
76	रथेनियम	Ru	44	101.7	100	यशदरन (ज़िक)	Zn	30	65.38
77	समेरियम	Sm	62	150.43	101	जर्कोनियम	Zr	40	91.22

परिशिष्ट—घ

शिलाएं और खनिज

खनिज ऐसे प्राकृतिक अजीवोत्पन्न (अकार्बनिक) पदार्थ का नाम है जिसकी रासायनिक संरचना लगभग स्थिर हो और जिसके भौतिक लक्षण भी बहुत कुछ निश्चित हों।

धातुक उस शिला या खनिज को कहते हैं जिसमें एक या अधिक धातुएँ हों और वे इतनी अधिक मात्रा में हों कि उनको निकालने से द्रव्य नाभ हो सके। लोहे और सीसे के कुछ धातुकों में 50 से 75 प्रतिशत तक धातु रहती है। दूसरी और प्रति टन एक आँस (आधी छटांक) सोना देने वाले खनिज को अच्छा स्वर्ण खनिज समझा जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि धातु प्राकृतिक प्रवस्था में मिले। अनेक मूल्यवान धातुक धातु के आक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं।

खनिजों की पहचान

खनिज अपने गुण-धर्मों अथवा लक्षणों से पहचाने जाते हैं। कुछ खनिज सुगमता से पहचाने जा सकते हैं, दूसरों में साधारणी से परीक्षा करने की और बहुधा रासायनिक विश्लेषण की भी शावश्यकता होती है। खनिजों के गुण-धर्म निम्नलिखित हैं:—

1. कुछ खनिजों के रंग बहुत निश्चित हैं, उदाहरणार्थे ऐज्युराइट गहरे नीले रंग का होता है। परन्तु कुछ अन्य खनिज, उदाहरणार्थ स्फटिक, कई रंगों में पाए जाते हैं।

2. खनिज का रेखांक (स्ट्रीक) उस चिह्न के रंग को कहते हैं जो बिना चमक की चीनी

मिट्टी की कसीटी पर कसने से (राड़ने से) बनता है। उदाहरणार्थ ग्रैफाइट का रेखांक काला होता है, हेमाटाइट का ललञ्जीह भूरा, मेलाकाइट का हल्का हरा।

3. कुछ खनिज इस प्रकार टूटते हैं कि टूटने का तल चिकना और समतल होता है। इसे विदलन (क्लीवेज) कहते हैं। उदाहरणार्थ गैलिना तीन समतलों में विदलित होता है। ये समतल परस्पर लम्ब होते हैं, फलतः गैलिना के कड़े टुकड़े को तोड़कर छोटे घन (क्यूब) बनाए जा सकते हैं।

4. खनिज की द्युति (लस्टर) का अर्थ है उसकी प्रकाश परावर्तित (रिफ्लेक्ट) करने की रीति। कई धातुकों में धातु की-सी द्युति होती है। हीरे की द्युति बड़ी चमकदार होती है और उसे हीरकीय (ऐडामेनटाइन) कहते हैं। किसीटाइल में, जो ऐस्बेर्टस का मुख्य प्राप्ति स्थल है, रेशम की-सी द्युति होती है, केओलीन में, जो एक प्रकार की कड़ी मिट्टी है, मंद द्युति होती है।

5. खनिजों की कठोरता 1 से 10 तक कुछ भी हो सकती है। टैल्क इतना नरम होता है कि नख से खुरचा जा सकता है, और इसकी कठोरता 1 है। सबसे अधिक कठोरता हीरे में है, जो ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। इसकी कठोरता 10 है। नख (नाखून) की कठोरता लगभग $2\frac{1}{2}$ है और चाकू के फल की कठोरता लगभग $5\frac{1}{2}$ होती है। खनिजों के किसी भी नमूने की कठोरता को खनिजों की निम्नलिखित मानक (स्टैंडर्ड) श्रेणी से तुलना

प्रत्यर का कोयला और पेट्रोलियम ऐसे पदार्थों से निकले हैं जो श्वासभ में जीवोत्पन्न थे, परन्तु समय ने उनको इस प्रकार बदल दिया है कि वे अब खनिज राज्य के सदस्य समझे जाते हैं। इन्हें प्रायः 'खनिज इंधन' कहा जाता है।

करके ज्ञात किया जा सकता है। कठोरता की जांच करने में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि एक खनिज दूसरे को खरोंचता है तो रगड़ कर मिटाने की चेष्टा करने पर, खरोंच मिटेगी नहीं। यदि वह मिटाया जा सकता है तो उसका अर्थ है कि नरम खनिज का चूर्ण बड़े खनिज पर चिपक गया है और खरोंच नहीं पड़े हैं।

1. टैल्क
2. जिप्सम
3. कैल्साइट
4. फ्लुओराइट
5. ऐपेटाइट
6. आर्थोक्लेज फेल्डस्पार
7. स्फटिक (क्वार्ट्ज)
8. टोपाज
9. कोरंडम
10. हीरा

6. आपेक्षिक गुरुत्व—वह संस्था है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक घन इंच (अथवा आयतन का कोई अन्य एक) एक घन इंच पानी से कितना गुना भारी है। यदि स्फेलराइट की, जो जस्ते का धातुक है, 1 घन इंच की तौल पानी के 1 घन इंच की तौल की 4 गुनी है, तब हम कहते हैं कि स्फेलराइट का आपेक्षिक गुरुत्व 4 है। अधिकांश खनिजों का आपेक्षिक गुरुत्व 2 और 4 के बीच रहता है। तरल पेट्रोलियम का आपेक्षिक गुरुत्व 1 से कम है क्योंकि वह पानी पर तैरता है। विशुद्ध सोने का आपेक्षिक गुरुत्व 19 है।

7. अम्ल में बूदबुदाना कुछ खनिजों का गुणधर्म होता है। यदि चूनापत्थर, संगमरमर या कैल्साइट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूद डाल दी जाए, तो एक रासायनिक क्रिया होगी जिससे गैस के बुलबुले निकलेंगे। इसी को बूदबुदाना (एफरवेसेन्स) कहते हैं। यह प्रयोग उन खनिजों की पहचान के लिए किया जा सकता है जिनमें इस गुण का रहना हम जानते हैं।

8. खनिजों के स्फाटीय रूपों में बड़ी विभिन्नता होती है। यही केवल 4 स्फाटीय रूपों का उल्लेख

किया जाएगा : धनाकार स्फाट, जिसके प्रतिनिधि गैलिना और हैलाइट (साधारण नमक) हैं; षडभुज (6 भुजा वाले) जैसे स्फटिक; अष्टफलक (आकाठाहेड़न), जैसे पाइराइट और हीरा; और समभुज फल (राम्बोहेड़ना) जैसे कैल्साइट।

शिलाओं के बांग

शिला दो या अधिक खनिजों के मेल से बनी रहती है—यद्यपि कुछ शिलाएं प्रायः पूर्णतया एक ही खनिज के भी बनी होती हैं। प्रेनाइट तीन खनिजों से बना है—स्फटिक या बिल्लौर, फेल्डस्पार और अभ्रक (माइका)। दूसरी ओर बलुआ पत्थर (सैडस्टोन) और क्वार्ट्जाइट प्रधानतः क्वार्ट्ज हो होते हैं, पत्थर और संगमरमर प्रधानतः कैल्साइट हैं। यह याद करना ज़रूरी है कि खनिजों को रासायनिक संरचना निर्दिष्ट होती है, परन्तु शिलाओं की नहीं।

शिलाओं को तीन बांगों में बांटा जाता है : आग्नेय (इनियम), अवसादी (सेडिमेंटरी) और कायान्तरित (मेटामॉर्फिक)।

जब पिघलो शिला ठण्डी होकर जमती है तो वह आग्नेय शिला बन जाती है। उदाहरणार्थ 1. प्रेनाइट, जो लाल या सुरमई (ग्रे) होता है और प्रधानतः स्फटिक, फेल्डस्पार और अभ्रक से बना रहता है; उसकी चित्तीदार आकृति का कारण है विभिन्न खनिज स्फाटों का दिखाई पड़ते रहना। 2. बेसल्ट, जो ज्वालामुखी पर्वतों से निकले पिघले पदार्थ (लावा) का साधारण रूप है और जो हरापन लिए काले रंग का होता है; इसमें कभी-कभी छोटे गड्ढे भी दिखाई पड़ते हैं, जो सम्भवतः भाप के कारण बने रहते हैं। 3. ओवसिडियन, जो ज्वालामुखीय कांच है, और काले, भूरे, हरे, इत्यादि रंगों का होता है। 4. व्यूमिस पत्थर, जो सफेद से लेकर सुरमई रंग तक का होता है, संरध (पोरस) होता है तथा पानी पर तैरता है। 5. स्कोरिया, जो काले, सुरमई, या श्यामल लाल रंग का होता है और पत्थर के कोयले की राख को तरबू दिखाई पड़ता है।

विज्ञ-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ

अवसादी शिला पानी में बैठी तलछट से बनती है। उदाहरणार्थ 1. चूने का पत्थर, सफेद से सुरमई तक, प्रमुखतः कैल्साइट से बना, बहुधा समुद्री प्राणियों के जीवाश्म उसमें मिलते हैं, अम्ल में बुदबुदाता है, लिमोनाइट (लौहआक्साइड) के कारण बहुधा पीले सहित भूरे रंग का रहता है। 2. बलुआ पत्थर, सुरमई अथवा लाल, मुख्यतः स्फटिक, इसमें बालू के कण दिखाई पड़ते हैं। 3. शेल, गोडे सुरमई रंग का, काला या लाल, साधारणतः पतली परतों में विभक्त किया जा सकता है, आई रहने पर मिट्टी की गंध आती है, तेल वाला शेल काला होता है। 4. बिटुमिनयुक्त कोयला : काला, कार्बन तथा कार्बन-यौगिकों से निभित, इसमें कड़े शेल आदि अपद्रव्य भी हो सकते हैं। 5. सम्पीडिताश्म, गोल पत्थर जो एक में जुड़ जाते हैं।

कायान्तरित शिलाएं वे हैं जिनकी काया दाढ़ और ताप के कारण बदल गई हैं। उदाहरणार्थ 1. नाइस : प्रधानतः कायान्तरित ग्रेनाइट, स्फटिक, फेल्ड्स्पार और अभ्रक, बहुधा परतों में मिलते हैं, अभ्रक सफेद जाति का हो सकता है, जिसे मस्कोवाइट कहते हैं या काली जाति का (बायोटाइट) 2. संगमरमर : कायान्तरित चूना-पत्थर, अनेक रंग, पालिश करने पर सुन्दर, अम्ल में बुदबुदाता है। 3. क्वार्ट्जाइट : कायान्तरित बलुआ पत्थर, बहुत ही कड़ा और ठोस, सुरमई अथवा लाल, बालू के कण, दृढ़ता से परस्पर चिपके हुए। 4. स्लेट : कायान्तरित शेल, साधारणतः काला, तोड़ने पर पतली परतें निकलती हैं, शेल से कड़ा। 5. एंथ्रासाइट : बिटुमिनी कोयले से कड़ा और कम गर्द (चूर) देने वाला, उत्तम ईंधन।

परिशिष्ट—इ

घनत्व-सारणी

(ग्राम प्रति घन सेटीमीटर में)		मरनीशियम	1.74
ऐल्कोहल 95%	0.807	संगमरमर	2.5-2.8
ग्रहीनियम	2.7	पारा	13.6
पीतल	8.4	दूध	1.03
कार्बन टेट्राक्लोराइड	1.6	निकल	8.9
ऐंथ्रासाइट कोल	1.4-1.8	पेराफिन	0.824-0.94
तांबा	8.93	प्लैटिनम्	21.5
पेट्रोल	0.75	समुद्र-जल	1.03
सीस कांच	3.0-3.6	चादी	10.5
किसीस कांच	2.4-2.7	रांगा	7.3
सोना	19.3	लकड़ी-आबनस	1.2
बर्फ	0.917	बांझ (ओकी)	0.7-0.9
लोहा	7.1-7.9	चीड़	0.4-0.6
सीसा	11.4	लिगनम वाइटी	1.33
		जस्ता	7.1
पत्थर, इंट, सीमेंट (फेण्ट के अनुसार)			
गोमद	2.615	ग्रेनाइट	2.560-2.720
एस्फाल्टम	1.390	बजरी	1.600-1.920
इंट (नरम)	1.600	जिप्सम	2.080-2.400
इंट (साधारण)	1.790	हार्नब्लैड	3.200-3.520
इंट (कड़ी)	2.000	बिना बुक्षा चूना	0.800-0.880
इंट (कसी)	2.160	चूना-पत्थर	2.720-3.200
इंट (अग्निसह)	2.250-2.400	मैग्नीशिया (कार्बोनेट)	2.400
चूने में इंट का काम	1.600	संगमरमर	2.560-2.880
सीमेंट में इंट का काम	1.790	पत्थर के ढोकों की दीवार	2.240-2.560
सीमेंट (रोजेनडेल)	0.960	पत्थर की दीवार	2.240-2.880
सीमेंट (पोर्टलैण्ड)	1.250	चूने का गारा	1.440-1.600
विकनी मिट्टी	1.920-2.400	पिच	1.150
कंक्रीट	1.920-2.240	पेरिस-प्लास्टर	1.180-1.280
हीरा	3.530	चीनी मिट्टी	2.380
मिट्टी (पोली)	1.150-1.280	स्फटिक	2.640
मिट्टी (कुटी)	1.440-1.760	बालू	1.440-1.760
एमरी	4.000	बलुआ पत्थर	2.240-2.400
किसीस कांच	2.520	स्लेट	2.720-2.880
सीस कांच	3.000-3.600	सिलखड़ी	2.650-2.800
कांच (हरा)	2.640	ट्रैप	2.720-3.400
		टाइल	1.760-1.920

परिशिष्ट—ब

उष्मा सम्बन्धी स्थिरांक

पदार्थ	विशिष्ट उष्मा	गलनांक (°सें)	वृथनांक (°सें)	रैखिक प्रसार गुणांक (प्रति °सें)
ठोस				
अल्मीनियम	0.22	658	2,200	0.000023
वीतल	0.092	900		0.0000189
तांबा	0.092	1,083	2,300	0.0000167
कांच (साधारण)	0.16	1,100		0.000085
बफ़	0.50	0		
लोहा	0.12	1,530	3,000	0.000012
क्षीसा	0.031	327	1,755	0.000029
पारा	0.033	-39	356.7	
रांगा	0.055	232	2,260	0.000023
जस्ता	0.093	419	907	0.000029
इव				
ऐल्कोहल (एथिल)	0.58	-130	87.3	
ग्लिसरीन	0.576	17	290	
मिट्टी का तेल	0.5-0.6			
पारा	0.033		357	
सल्फ्युरिक अम्ल	0.34	10.5	330	
जानी	1.00		100	
गैस				
हवा	0.24		-190	
ऐल्कोहल (एथिल)	0.41			
ग्रमोनिया गैस	0.52	-78	-33	
कार्बन डाइ-ग्राइसाइड	0.20	-56.6	-79	
हाइड्रोजन	3.38			
नाइट्रोजन	0.25			
ग्राइसीजन	0.22			
भाष	0.48			

विभिन्न तापमापियों का तुल्यांक

	परम	सेंटीग्रेड	फारेनहाइट	रोमर
परम शून्य	0° प	-273° से	-459° फा	-218° रो
फारेनहाइट शून्य	255° प	-18° से	0° फा	-14° रो
जल का हिमांक	273° प	0° से	23° फा	0° रो
जल का क्वथनांक	373° प	100° से	212° फा	80° रो

सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में परिवर्तन

से	फा	से	फा	से	फा	से	फा
0	32						
1	34	26	79	51	124	76	169
2	36	27	81	52	126	77	171
3	37	28	82	53	127	78	172
4	39	29	84	54	129	79	174
5	41	30	86	55	131	80	176
6	43	31	88	56	133	81	178
7	45	32	90	57	135	82	180
8	46	33	91	58	136	83	181
9	48	34	93	59	138	84	183
10	50	35	95	60	140	85	185
11	52	36	97	61	142	86	187
12	54	37	99	62	144	87	189
13	55	38	100	63	145	88	190
14	57	39	102	64	147	89	192
15	59	40	104	65	149	90	194
16	61	41	106	66	151	91	196
17	63	42	108	67	153	92	198
18	64	43	109	68	154	93	199
19	66	44	111	69	156	94	201
20	68	45	113	70	158	95	203
21	70	46	115	71	160	96	205
22	72	47	117	72	162	97	207
23	73	48	118	73	163	98	208
24	75	49	120	74	165	99	210
25	77	50	122	75	167	100	212

परिशिष्ट—छ

आपेक्षिक आद्रता (प्रतिशत)–फा

शुष्क तापमापी का ताप °फा	आद्रे तापमापी में कमी (°फा) अर्थात् आद्रे तथा शुष्क तापमापियों के पाठ्यांकों का अन्तर																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120	97	94	91	88	85	82	79	77	74	72	69	67	64	62	59	57	55	53	51	48
118	97	94	91	88	85	82	79	76	74	71	69	66	63	61	59	56	54	52	50	48
116	97	94	90	87	84	82	79	76	73	71	68	65	63	61	58	56	54	51	49	47
114	97	94	90	87	84	81	79	76	73	70	68	65	63	60	58	55	53	51	48	46
112	97	94	90	87	84	81	78	75	73	70	67	65	62	59	57	55	52	50	48	46
110	97	93	90	87	84	81	78	75	72	69	67	64	61	59	56	54	51	49	47	45
108	97	93	90	87	84	81	78	75	72	69	66	63	61	58	56	53	51	49	46	44
106	96	93	90	87	84	80	77	74	71	68	66	63	60	58	55	52	50	48	45	43
104	96	93	90	86	83	80	77	74	71	68	65	62	60	57	54	52	49	47	44	42
102	96	93	90	86	83	80	77	73	70	67	65	62	59	56	54	51	48	46	43	41
100	96	93	89	86	82	79	76	73	70	67	64	61	58	55	53	50	47	45	42	40
	99	98	96	95	94	93	91	90	89	87	86	85	83	82	80	79	76	72		
	98	96	93	89	86	82	79	76	72	69	66	63	60	57	54	52	49	46	44	41
	96	96	93	89	85	82	78	75	72	68	65	62	59	57	54	51	48	45	43	40
	94	96	93	89	85	81	78	75	71	68	65	62	59	56	53	50	47	44	42	39
	92	96	92	88	85	81	78	74	71	67	64	61	58	55	52	49	46	43	40	38
	90	96	92	88	84	81	77	74	70	67	63	60	57	54	51	48	45	42	39	36
	89	87	86	85	83	82	81	79	78	76	75	73	72	70	69	67	63	59		
	88	96	92	88	84	80	77	73	69	66	63	59	56	53	50	47	44	41	38	35
	86	96	92	88	84	80	76	72	69	65	62	58	55	52	49	45	42	39	36	33
	84	96	92	87	83	79	76	72	68	64	61	57	54	51	47	44	41	38	35	32
	82	96	91	87	83	79	75	71	67	64	60	56	53	49	46	43	40	36	33	30
	80	96	91	87	83	79	74	70	66	63	59	55	52	48	45	41	38	35	31	28
	79	77	76	74	73	72	70	68	67	65	63	62	60	58	56	54	50	44		
	78	95	91	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	47	43	40	36	33	30	26
	76	95	91	86	82	78	73	69	65	61	57	53	49	45	42	38	34	31	28	24
	74	95	90	86	81	77	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	33	29	26	22
	72	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	70	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	68	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	66	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	64	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	62	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	60	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	58	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	56	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	54	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	52	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	50	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	48	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	46	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	44	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	42	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	40	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	38	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	36	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	34	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	32	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	30	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	28	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	26	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	24	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	22	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	20	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	18	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	16	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	14	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	12	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	10	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	8	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	6	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	4	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	2	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20
	0	95	90	85	80	76	71	67	63	58	54	50	46	42	38	34	31	27	23	20

70	95	90	85	80	75	71	66	62	57	53	49	44	40	36	32	28	24	21	17	14
69	67	66	64	62	61	59	57	53	53	51	49	47	44	42	39		33		26	
68	95	90	84	79	75	70	65	60	56	51	47	43	38	34	30	26	22	18	15	11
66	95	89	84	79	74	69	64	59	54	50	45	41	36	32	28	23	20	16	12	8
64	94	89	83	78	73	68	63	58	53	48	43	39	34	30	25	21	17	13	9	5
62	94	88	83	77	72	66	61	56	51	46	41	37	32	27	23	18	14	10	5	
60	94	88	82	77	71	65	60	55	50	44	39	34	29	25	20	15	11	6	2	
	58	57	55	53	51	49	47	45	43	40	38	35	32	29	25	21				
58	94	88	82	76	70	64	59	53	48	42	37	31	26	22	17	12	7	2		
56	94	87	81	75	69	63	57	51	46	40	35	29	24	19	13	8	3			
54	93	87	80	74	68	61	55	49	43	38	32	26	21	15	10	5				
52	93	86	79	73	66	60	54	47	41	35	29	23	17	12	6					
50	93	86	79	72	65	59	52	45	38	32	26	20	14	8	2					
	48	46	44	42	40	37	34	32	29	26	22	18								
48	92	85	77	70	63	56	49	42	36	29	22	16	10	4						
46	92	84	77	69	62	54	47	40	33	26	19	12	6							
44	92	84	75	68	60	52	45	37	29	22	15	8								
42	91	83	74	66	58	50	42	34	26	18										
40	91	82	73	65	56	47	39	30												
	38	35	33	30	28	25														

टिप्पणी : इस सारणी में आवासांक काले अंकों में है।

आपेक्षिक आद्रता (प्रतिशत) — से

शुष्क ताप- मापी का ताप °से	आद्र तापमापी में कमी (°से)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
50	94	89	84	79	74	70	65	61	57	53	46	40	33	28	22	
45	94	88	83	78	73	68	63	59	55	51	42	35	28	22	16	
40	93	88	82	77	71	65	61	56	52	47	38	31	23	16	10	
35	93	87	80	75	68	62	57	52	47	42	33	24	16	8		
30	92	86	78	72	65	59	53	47	41	36	26	16	8			
25	91	84	76	69	61	54	47	41	35	29	17	6				
20	90	81	73	64	56	47	40	32	26	18	5					
15	89	79	68	59	49	39	30	21	12	4						
10	87	75	62	51	38	27	17	5								

परिशष्ट—ज

ग्रीक वर्णमाला

ऐल्फा (a)	A α	न्यू (n)	...	N ν
बीटा (b)	B β	एकत्ताई (x)	...	H ξ
गामा (g)	Γ γ	ओमिक्रन (o)	...	O ο
डेल्टा (d)	Δ δ or δ	पाई (p)	...	P π
एप्साइलन (e)	E ε	रो (r)	...	R ρ
जीटा (z)	Z ζ	सिगमा (s)	...	S σ or ζ
ईटा (h)	H η	टाउ (t)	...	T τ
थीटा (th)	Θ θ	आसाइलन (u)	...	Τ υ
आइओटा (i)	I ι	फाई (ph)	...	Φ φ or ι
कैपा (k)	K κ	काई (ch)	...	X χ
लैंडा (l)	Λ λ	साई (ps)	...	Ψ ψ
म्यू (m)	M μ	ओमेगा (o)	...	Ω ω

लघुगणक (लागरिदम)


	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१	२	३	४	५	६	७	८	९
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	4	8	13	12	21	26	30	34	38
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	4	8	12	15	19	23	27	31	35
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	3	7	11	14	18	21	25	28	32
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	3	7	10	13	16	20	23	26	30
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	3	6	9	12	15	18	21	24	28
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3	6	9	11	14	17	20	23	25
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	3	5	8	11	14	16	19	22	24
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	3	5	8	10	13	15	18	20	23
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2693	2718	2742	2765	2	5	7	9	12	14	16	19	21
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	2	4	7	9	17	13	16	18	20
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4743	4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11
35	5441	5453	5465	5476	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	1	2	3	4	5	7	8	9	10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	6902	6911	6920	6929	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8


इस सारणी के उस भाग के प्रकाशन-ग्रंथिकार मेसर्स मैक्सीलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के पास सुरक्षित है, जिसमें लघुगणक की 1,000 से 2,000 संख्याएं अंकित हैं। परन्तु कम्पनी ने शैक्षणिक प्रयोग के लिए इसके प्रान्तरिक वितरण की इजाजत दे रखी है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१	२	३	४	५	६	७	८	९
५१	७०७६	७०८४	७०९३	७१०१	७११०	७११८	७१२६	७१३४	७१४३	७१५२	१	२	३	३	४	५	६	७	८
५२	७१६०	७१६६	७१७७	७१८५	७१९३	७२०२	७२१०	७२१८	७२२६	७२३५	१	२	२	३	४	५	६	७	७
५३	७२४३	७२५१	७२५६	७२६७	७२७५	७२८४	७२९२	७३००	७३०८	७३१६	१	२	२	३	४	५	६	६	७
५४	७३२४	७३३२	७३४०	७३४८	७३५६	७३६४	७३७२	७३८०	७३८८	७३९६	१	२	२	३	४	५	६	६	७
५५	७४०४	७४१२	७४१८	७४२७	७४३५	७४४३	७४५१	७४५९	७४६६	७४७४	१	२	२	३	४	५	५	६	७
५६	७४८२	७४९०	७४९७	७५०५	७५१३	७५२०	७५२८	७५३६	७५४३	७५५१	१	२	२	३	४	५	६	६	७
५७	७५५९	७५६६	७५७४	७५८२	७५९७	७६०४	७६१२	७६१९	७६२७	७६३४	१	२	२	३	४	५	६	६	७
५८	७६३४	७६४२	७६४९	७६५७	७६६४	७६७२	७६७९	७६८६	७६९४	७७०१	१	१	२	३	४	५	६	६	७
५९	७७०९	७७१६	७७२३	७७३१	७७३८	७७४५	७७५२	७७६०	७७६७	७७७४	१	१	२	३	४	५	६	६	७
६०	७७८२	७७९०	७७९६	७८०३	७८१०	७८१८	७८२५	७८३२	७८३९	७८४६	१	१	२	३	४	५	६	६	६
६१	७८५३	७८६०	७८६८	७८७५	७८८२	७८९०	७९०६	७९०३	७९१०	७९१७	१	१	२	३	४	५	६	६	६
६२	७९२४	७९३१	७९३८	७९४५	७९५२	७९५९	७९६६	७९७३	७९८०	७९८७	१	१	२	३	३	४	५	६	६
६३	७९९३	८०००	८००७	८०१४	८०२१	८०२८	८०३५	८०४१	८०४८	८०५५	१	१	२	३	३	४	५	६	६
६४	८०६२	८०६९	८०७५	८०८२	८०९९	८१०२	८१०९	८११६	८१२२	८१२९	१	१	२	३	३	४	५	५	६
६५	८१२९	८१३६	८१४२	८१४९	८१५६	८१६२	८१६९	८१७६	८१८२	८१९०	१	१	२	३	३	४	५	५	६
६६	८१९५	८२०२	८२०९	८२१५	८२२२	८२२९	८२३५	८२४१	८२४८	८२५४	१	१	२	३	३	४	५	५	६
६७	८२६१	८२६७	८२७४	८२८०	८२८७	८२९३	८२९९	८३०६	८३१२	८३१९	१	१	२	३	३	४	५	५	६
६८	८३२५	८३३१	८३३८	८३४४	८३५१	८३५७	८३६३	८३७०	८३७६	८३८२	१	१	२	३	३	४	५	५	६
६९	८३६६	८३७५	८३८१	८३८७	८३९४	८३९१	८३९८	८४०२	८४१२	८४३९	१	१	२	२	३	४	५	५	६
७०	८४५१	८४५७	८४६३	८४७०	८४७६	८४८२	८४९०	८४९४	८५००	८५०६	१	१	२	२	३	४	५	५	६
७१	८५१३	८५१९	८५२५	८५३१	८५३७	८५४३	८५४९	८५५५	८५६१	८५६७	१	१	२	३	३	४	५	५	५
७२	८५७३	८५७९	८५८५	८५९१	८५९७	८६०३	८६०९	८६१५	८६२१	८६२७	१	१	२	२	३	४	५	५	५
७३	८६५३	८६६९	८६७५	८६८१	८६९३	८६९९	८७०७	८७६५	८७६१	८७६८	१	१	२	२	३	४	५	५	५
७४	८६९२	८७०८	८७०४	८७१०	८७१६	८७२२	८७२७	८७३३	८७३९	८७४५	१	१	२	२	३	४	५	५	५
७५	८७५१	८७५६	८७६२	८७६८	८७७४	८७७९	८७८५	८७९१	८७९७	८८०२	१	१	२	२	३	३	४	५	५
७६	८८०८	८८१४	८८२०	८८२५	८८३१	८८३७	८८४२	८८४८	८८५४	८८५९	१	१	२	३	३	४	५	५	५
७७	८८६५	८८७१	८८७६	८८८२	८८८७	८८९३	८९००	८९०४	८९१०	८९१५	१	१	२	३	३	४	५	५	५
७८	८९२१	८९२७	८९३२	८९३८	८९४३	८९४९	८९५४	८९६०	८९६५	८९७१	१	१	२	३	३	४	५	५	५
७९	८९७६	८९८२	८९८७	८९९३	८९९८	९००४	९००९	९०१३	९०२०	९०२५	१	१	२	३	३	४	५	५	५
८०	९०३१	९०३६	९०४२	९०४७	९०५३	९०५८	९०६३	९०६९	९०७४	९०७९	१	१	२	३	३	४	५	५	५
८१	९०६५	९०७०	९०७६	९०८१	९०८६	९०९३	९१०६	९११२	९११७	९१२२	९१२८	९१३३	१	१	२	३	३	४	५
८२	९१३८	९१४३	९१४९	९१५४	९१५९	९१६५	९१७०	९१७५	९१८०	९१८६	१	१	२	३	३	४	५	५	५
८३	९१९१	९१९६	९२०१	९२०६	९२१२	९२१७	९२२२	९२२७	९२३२	९२३८	१	१	२	३	३	४	५	५	५
८४	९२४३	९२४८	९२५३	९२५८	९२६३	९२६९	९२७४	९२७९	९२८४	९२९०	१	१	२	३	३	४	५	५	५
८५	९२९४	९२९९	९३०४	९३०९	९३१५	९३२०	९३२५	९३३०	९३३५	९३४०	१	१	२	३	३	४	५	५	५
८६	९३४५	९३५०	९३५५	९३६०	९३६५	९३७०	९३७५	९३८०	९३८५	९३९०	१	१	२	३	३	४	५	५	५
८७	९३९५	९४००	९४०५	९४१०	९४१५	९४२०	९४२५	९४३०	९४३५	९४४०	०	१	१	२	२	३	३	४	५
८८	९४४५	९४५०	९४५५	९४६०	९४६५	९४६९	९४७४	९४७९	९४८४	९४९०	०	१	१	२	२	३	३	४	५
८९	९४९४	९५०९	९५१४	९५२०	९५२६	९५३१	९५३८	९५४८	९५५३	९५५९	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९०	९५४२	९५४७	९५५२	९५५७	९५६२	९५६६	९५७१	९५७८	९५८१	९५९०	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९१	९५९०	९५९५	९६००	९६०५	९६०९	९६१४	९६१९	९६२४	९६२८	९६३३	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९२	९६४४	९६४३	९६४७	९६५२	९६५७	९६६१	९६६६	९६७१	९६७५	९६८०	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९३	९६४५	९६५०	९६५४	९६६९	९६७०	९६७८	९६८३	९६९१	९६९७	९७२२	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९४	९७३१	९७५६	९७५१	९७५४	९७५०	९७५४	९७५०	९७६३	९७६८	९७७३	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९५	९७७७	९७८२	९७८८	९७९१	९७९५	९८००	९८०३	९८०९	९८१४	९८१८	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९६	९८२३	९८२७	९८३२	९८३६	९८४१	९८४५	९८५०	९८५४	९८५९	९८६०	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९७	९८६६	९८७२	९८७७	९८८१	९८८६	९८९०	९८९४	९९००	९९०३	९९०९	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९८	९९१२	९९१७	९९२१	९९२८	९९३०	९९३४	९९३९	९९४३	९९४८	९९५२	०	१	१	२	२	३	३	४	५
९९	९९५६	९९६१	९९६५	९९६९	९९७४	९९७८	९९८३	९९९३	९९९७	९९९९	०	१	१	२	२	३	३	३	५

टिप्पणी :—ये सारणी ऐसे बनाई गई है कि लघुगणक के प्रयोग से प्राप्त चौथा ग्रांड अनुमान के एक इकाई नीचे या ऊपर से अधिक विन्दन नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर प्राप्त लघुगणक ०.५०१४ है तो सर्वोत्तम ४-इंक अनुमान ०.५०१३, ०.५०१४ या ०.५०१५ में से कोई एक होगा। इस प्रकार की विभिन्नताओं की एक समान सारणी के प्रयोग से इसमें बढ़ कर सही उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता।





इस पुस्तक के बारे में

विज्ञान को उत्तम गीति से बढ़ाने के लिए प्रेक्षण और प्रयोगों का सहारा लेना आवश्यक है। इनके बदले किसी अन्य बात से काम नहीं चल सकता। परन्तु प्रयोग करने और सूक्ष्म प्रेक्षण सीखने के लिए विज्ञान सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है और समाज के कई भागों में विशेषकर प्रारम्भिक और माध्यमिक शूलों में, ये प्राप्त नहीं होती। इस पुस्तक का उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार सरल और सस्ते विज्ञान-सामाजिक संस्कृति के विज्ञान-शिक्षकों ने ध्यान दान से और समझों द्वारा योगदान किया है।

इस पुस्तक में प्रायः सभी देशों में साधारणतः पाई जाने वाली सामग्री से असेहा लोट-मोटि उपकरण बनाने की विधि दीखाई गई है। इसमें विज्ञान के संकड़ों प्रकार के प्रयोग हैं, जिनमें से शिक्षक उन प्रयोगों को नुन सकता है, जो प्रेक्षण द्वारा वास्तवों को गफल जान देने में सबसे अधिक उपयुक्त हो। संशोधन, इसका उद्देश्य सभी स्थानों के शूलों में विज्ञान को अधिक-दर्शकीय प्रेक्षण और प्रयोग पर आधारित करके उसमें संधार करना है।

पुस्तक की प्रायोजनी विभिन्न उपयोगों को ध्यान में रख कर की गई है शिक्षक-प्रशिक्षण कोसं के लिए प्रयोग तुसितका के रूप में, विज्ञान-शिक्षकों या विज्ञान कलब-गतिविधियों के लिए आकर ग्रन्थ के रूप में, विज्ञान-शिक्षण में कम्युनिटी (वकँशाप) अध्ययन सम्मेलनों के लिए यात्रार तुसितका के रूप में, विज्ञान सम्बन्धी सरल उपकरणों का ऐसा समूह बनाने के लिए जो सभी दिवस जा सके, और सामान्यतः असेहा देशों में विज्ञान सामग्री और गतिविधियों के लिए एक आदेश डीचा प्रस्तुत करने के लिए।